



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19—अगस्त 25, 2006 (श्रावण 28, 1928)
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19—AUGUST 25, 2006 (SRAVANA 28, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इन्डिया मुंबई-400 005, दिनांक 19 जुलाई 2006 (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)			5.	005173	श्री खाकर भुपेन्द्र परमानंद भारत लिंडनेर C/2/19, इन्डसियल इस्टेट गोरबा-3, बडोदरा-0।	ए सी ए
सं. 3 डब्ल्यूसीए (8)/2/2004-2005--चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10(1) खण्ड (चार) तथा 10 (2) खण्ड (ब) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये गये प्रैक्टिस-प्रमाण पत्र व्यवसाय का व शुल्क जमा न कराने के कारण 1/10/2004 से निरस्त कर दिये गये हैं।			6.	006023	श्री फितकरीवाला बिस्वनाथ स्पेक्ट्रम टेक्सटाईल एजेन्सी, 350, न्यू क्लॉथ मार्केट, सारंगपुरा, अहमदाबाद-380 004।	एफ सी ए
क्रमांक	एस.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	7.	006343	श्री शेट बिपीनचंद्र ईश्वरलाल जीवन सुधा, 6वां माला, ब्लॉक नं. 34/बी, स्वामी विवेकानंद रोड, जुड़ू लेन, अंधेरी (वेस्ट), मुंबई-400 058।	ए सी ए
1.	002952	श्री लेले सदाशिव नरहर आर. के. खन्ना एण्ड एसोसिएट्स 402, रेजेंट चैम्बर्स, नरीमान पॉइंट, मुंबई-400 021।	8.	007426	श्री वसंतकुमार बी. महावीर ए-7, 165 देरामर लेन, घाटकोपर (ईस्ट), मुंबई-400 077।	एफ सी ए
2.	002979	श्री शाह महसुखलाल प्रेमचंद महसुख पी. शाह एण्ड कों, 96, कीका स्ट्रीट पहीला माला मुंबई-400 004।	9.	007535	श्री धानावाला अनिल कुमार कांतिलाल 204, ज्योती अपार्टमेंट्स, वीर सावरकर मार्ग, नौपाडा, थाने-400 602।	एफ सी ए
3.	003480	श्री पटेल रवजीभाई हरजीभाई 403, उर्वशी, 16 बेसंट स्टेशन, सांताक्रुझ (वेस्ट), मुंबई-400 054।	10.	009619	श्री कापडीया मानसिंह ब्रिजदास 102, वीनस अपार्टमेंट, 10 बाँ माला, कफ परेड, मुंबई-400 005।	ए सी ए
4.	004276	श्री मुनसिफ जाल रुस्तम सी-17, तुषार, 511, 15 बाँ रास्ता, खार, मुंबई-400 052।				

11	010253	श्री गणेश गुरुचोत्तम दास एफ सी ए ऑफिस नं 303, 297 / 299, डॉ. कावमजी होमोसजी स्ट्रीट, क्वोन रोड चर्च के पास, मरीन लाईन्स, मुंबई - 400 002.	23	024793	श्री थोमस जॉन एफ सी ए 503-ए, रैनगे, रंजेज विहार, चवई, मुंबई 400 072
12	010588	श्री पारंख चंद्रकांत गोविंद ए सी ए मातोश्री रेसीडेन्सी, बी-विंग, फ्लैट 102, पहोला माला, एफ पी नं. 65/टीपीएस-V (बी/एच प्रियोत्तामा को हा. सो.), प्रार्थना समाज रोड, विलेपार्ले (ईस्ट), मुंबई - 400 057	24	025281	श्री मथ्यामुर्ती एम एफ सी ए 402, जमुना अपार्टमेंट, रंगपर रोड, नारसिंग सोसा., मोरबी 363 642
13	011619	श्री मोठावाला रुस्सो कुंवरजी एफ सी ए 405, सायबील्ले अपार्टमेंट्स, फ्लॉट नं 65, वरली हिल रोड, मुंबई - 400 018.	25	027363	श्री अलेक्स के जेम्स एफ सी ए एलान्ट आकाउंट मैनेजर, एम आर एफ ली., पोस्ट बॉक्स नं 1, पोड, गोवा 403 401
14	011794	श्री लक्ष्मी रतन दागा एफ सी ए 1505, मेघदूत-अ, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स अंधेरी (वेस्ट), मुंबई - 400 053.	26	030163	श्री कंटरीया प्रविणकुमार हरीदास एफ सी ए 14, नीलकंठ आशिष, आर बी मेहता रोड, घाटकोपर इस्ट, मुंबई 400 077
15	012205	श्री शाह शशीकांत पो एफ सी ए शांती बिल्डिंग 217/11, हींगवाला लेंन, घाटकोपर, मुंबई - 400 077.	27	030315	श्री अग्रवाल उमानाथ रघुनाथ एफ सी ए ई-21 / 503, क्रोक व्हीयू, 5 फ्लोअर, योगी नगर, एकसर रोड, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400 091
16	014804	श्री बिजुर सतीश आनंद ए सी ए ई/5, सारस्वत हा. को-ऑप. सोसायटी, 29 लाबुरनम रोड, गामदेवी, मुंबई - 400 007	28	030437	श्री हरोहरन नारायणस्वामी ए सी ए फ्लैट नं. 402, ओरचिड, ओरचिड टुलिप को ऑ हा सोसा., नवघर रोड, मुलुंड इस्ट, मुंबई 400 081
17	015844	श्री रमेशचंद्र मनीलाल दरजी एफ सी ए ए-25, नवरंग टॉवर, सार्थक स्कूल के सामने, सोला रोड, अहमदाबाद - 380 061.	29	031035	श्री कोथनदरमन एस एफ सी ए 708, 16 वॉ मैन, 38 क्रॉस, जयानगर, 4, टी ब्लॉक, तलोजा 410 208
18	016882	श्री अशोक सोमेश्वर पुरोहित एफ सी ए ए-42, सेटेलाईट फ्लाझा, प्रेनचंद नगर रोड, वस्त्रपुर, अहमदाबाद - 380 015.	30	031098	श्री पटेल हेमंत रमनलाल एफ सी ए 6, 71 माला लेन्ड मार्क, एच डि एफ सी के सामने, मोठाकाली 6 रास्ता, नवरंगपुरा, अहमदाबाद 380 009
19	017329	श्री मदन कुमार जैन ए सी ए 1303, टॉवर नं 6, सोहम पार्क, हरीओम नगर मुलुंड (ईस्ट), मुंबई - 400 080.	31	031448	श्री रवीकिरण मधुकर अरबली ए सी ए 2ए-31, , ड्रग अम्पोईस को ऑ हा सोसा ली., जेकेग्राम, ठाणे 400 606
20	017783	श्री पटेल भागवतप्रसाद मणिकलाल एफ सी ए 204, श्रेयस कॉम्प्लेक्स, दिनेश हॉल के पीछे, इन्कम टेक्स, अहमदाबाद 380 009	32	032064	श्री शाह दशेश मुकेशचंद्र ए सी ए बी-3/7, सिंधीया ऐम्प्लोईस सोसा., , नटराज स्टुडियो के पीछे, जय एम बी रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400 069
21	017922	श्री कुलकर्णी सुहास शंकर ए सी ए सी-6, बालका को ऑ हा सोसा., स्वस्तिक पार्क, चेंबुर, मुंबई 400071	33	032165	श्री देसाई दिलीप रतीलाल एफ सी ए 804 सहजानंद शॉपींग सेंटर, जही बाग रोड, अहमदाबाद 380 004
22	023260	श्री श्रीनिवासन ए सी ए द्वारा - बी एस सांथानम, ए-2, अर्णा अपार्टमेंट्स, 75, एस बी रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 058	34	032616	श्री शाह विक्रम चंद्रकांत ए सी ए डि-27 / 203 योगी नगर, एकसर रोड, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400 091
			35	032903	श्री सरैया नैशद रसिकलाल ए सी ए 204 चंद्रराज सी एच एस, चिंचोली बंदर रोड, मालाड वेस्ट, मुंबई 400 064
			36	033076	श्री गुलाटी सतविंद्रपाल सिंह ए सी ए 87-सी गुलाटी निवास बाजार रोड, बांद्रा, मुंबई 400 050

37	033107	अमिता शाह ए सी ए 44 बरमोरे रोड, सेवेंकिंगम्, एसेक्स आयजी 3 9 एनबी, यु के 0	51	035797	श्री देसाई शाईख प्रदयोगभाई ए सी ए 18 / बी, कैलास पार्क डुप्लेक्स, बी / एच प्रमुख स्वामी हॉस्पिटल, ओल्ड पेदगा रोड, वडोदरा 390 020
38	033128	श्री चफालकर संजय वसंत ए सी ए श्रवण प्लॉट नं 45, राम धाग कॉलोनी, कोथरुड, पुणे 411 038	52	035857	श्री जैन श्रीपाल ए एफ सी ए सी-1/1 एन आर यो कालोनी पोस्ट मोहेने सिनेमा ठाणे 421 102
39	033145	श्री मोहन नारायणदास अहुजा ए सी ए 177 खेतवाडी बैंक रोड, 3 फ्लोअर ओपो तुलसी बी., मुंबई 400 004	53	036352	श्री श्रीधर वेमो ए सी ए सी-75 प्लेट न 503, वसंत विहार कॉम्प्लेक्स, माजोवडे पोखर न रोड 11, ठाणे 400 018
40	033260	श्री रायगांधी विलास भिकचंद एफ सी ए 550 / बी राना पेठ, लक्ष्मी रोड, पुणे 411 002	54	036444	श्री धुडगे रमेश सीताराम ए सी ए सी / ओ एम / एस बेइरसरोरफ ईरिया ली., 302 सारजान राजा, 100 डॉ अनीइ बैसंत रोड, वरली, मुंबई 400 018
41	033421	श्री दवे सुभाष माहीपतरम ए सी ए एफ/65 रामेश्वर फ्लैट बिहाईड फतेपुर गार्डन, फतेपुर पलडो, अहमदाबाद 380 007	55	036449	श्री भिडे संजय दिनकर एफ सी ए फ्लैट नं. 4, कांचन अपा., चैतन्यनगर, निरा प्रोफेसर कॉलोनी, अहमदनगर 414 001
42	033589	श्री शहा अजयकुमार चंपकलाल ए सी ए 6 / ए बिद्रा अपा., 24 / ए, बंसीधर सोसा., निरा जय अपा., माथापलाड, अहमदाबाद 308 007	56	036498	श्री चौधरी मिलींद चिंतामन ए सी ए ए-2 पाटील गार्डन, निरा तेजस सोसा, कोथरुड, पुणे 411 029
43	033598	श्री काम्प्रस ए सी ए डि 1 / 101 सारंग लोक पुरम, ठाणे वेस्ट, ठाणे 400 601	57	036512	श्री कपुर संजीव जवाहर एफ सी ए 505 जमुना महल, 73 प्रभात कॉलोनी, सांताक्रुझ इस्ट, मुंबई 400 055
44	033618	श्री आनंद वसंत देशपांडे एफ सी ए पंडित कमरिशियल कॉम्प्लेक्स, मोदी लेन 3, सीतादुलडि, नागपूर 440 012	58	036516	श्री दावडा सुनीलकुमार पोपटलाल ए सी ए पी ओ. बॉक्स 46283, नैरोबी केनया 0
45	033791	श्री कुलकैणी श्रीकांत गणेश एफ सी ए चेतन अपा., प्लेट नं 2 36 / 7, एरंडवाने, पुणे 411 038	59	036525	श्री गोपीकृष्ण धरनीधरका ए सी ए 601 विवेक अपा., अशोक चर्कवर्ती क्रॉस रोड, कांदिवली इस्ट, मुंबई 400 101
46	034079	श्री शाह इंद्रबदन सुंदरलाल ए सी ए 20 हेतकेश सोसा., नवजीवन, अहमदाबाद 380 014	60	036640	श्री श्रीनिवासन सुभ्रमण्यम एयर ए सी ए सी / ओ इमको इलेकॉन (इंडिया) ली., आनंद सोयुजीन्ना रोड, वल्लभ विद्या नगर 0
47	034877	श्री व्यंकटसुभ्रमण्यम सुरेश ए सी ए फ्लैट नं. 7 चारकोप जीवन मंगल सी एच एस, प्लॉट 233, आर डि पी 5, सेक्टर 3, पार्ट 2, चारकोप, कांदिवली वेस्ट, मुंबई 400 067	61	036722	श्री देसाई बिमल कौस्तुभ ए सी ए 21 परेल व्ही पी रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 058
48	034886	श्री कुमार आर ए सी ए 401 डिप्लेनएस टॉवर, ओपो टाउन हॉल कोर्ट नाका, ठाणे वेस्ट, ठाणे 400 601	62	037361	श्री पानवाला जीतेंद्रकुमार इश्वरलाल ए सी ए 11 / 2511 मत्तुछाया मछालीपीठ, सुरत 395 004
49	034980	श्री माहेश्वरी बालकृष्ण जवारीलाल एफ सी ए सी-508, उपवन टॉवर, उपर गोविंद नगर, मालाड (इस्ट), मुंबई 400 097	63	037645	श्री टि एन व्यंकटेश्वरन ए सी ए 353 / 11 18 श्रीनिवास, आर बी मेहता रोड, घाटकोपर इस्ट, मुंबई 400 077
50	035454	श्री जोशी प्रदीप दिनानाथ एफ सी ए ए 14 वडाला गुलमोहर सी एच ली., बिहाईड वडाला बस डेपो, वडाला, मुंबई 400 031	64	038035	श्री देसाई निखिल भालचंद्र एफ सी ए देसाई निखिल भालचंद्र स्वश्रया पालीराम रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 058

65	038086	श्री राजन अमृतलाल रवेल ए सी ए डि एफ-4 प्रनव अपा., श्रेयस तेकरा, आम्बेवाडी, अहमदाबाद 380 015	79	040314	श्री गंधे अनिल वसंत ए सी ए बि नं. 11 फ्लैट 15/16, विजय नगरी टॉवर, जीबी रोड वाघबील नाका, ठाणे 400 601
66	038398	श्री सेरराव लोरेन्स कजेतन जॉन ए सी ए डि / 4 पेरल हाउस, 205 डॉ आंबेडकर रोड, दोदर, मुंबई 400 014	80	040376	श्री गांधी राजेश नयलचंद ए सी ए जी-540 सागर पार्क, अमृत नगर, घाटकोपर वेस्ट, मुंबई 400 086
67	038520	श्री महादेवन मुरली ए सी ए एच / 003 श्रीमपोली निरजन को ऑ हा सोसा., निखलवाडी, सीमपोली, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400 092	81	040411	श्री भट पंकज हरीलाल ए सी ए 14 लक्ष्मीनारायण को ऑ हा सोसा ली., पॉवर हाऊस, एम जी रोड, घाटकोपर, मुंबई 400 077
68	038559	श्री हरीहरन गणेश जी ए सी ए फ्लैट नं. 14, अजंता कॉम्प्लेक्स, 501 / ए / 5 रुक्ता पेठ, पुणे 411 011	82	040667	श्री वधवा शामसुंदर वशुमल ए सी ए बंगलो नं 5 वैकुंठ सोसा., 8 रोड सौधी सोसा, चेंबुर, मुंबई 400 071
69	038616	श्री सुरेंद्र सोमनाथ गुप्ता ए सी ए फ्लैट नं. 14, सोलोमोन श्रीलय रंजन रोड, ऑफ कारतेर रोड, बांद्रा, मुंबई 400 050	83	040678	श्री जैन पुरनंदु ए सी ए सी-306, 3 फ्लोर क्रोस्टल ल्याझा, लॉक रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 058
70	038817	श्री जफर फाखुरुद्दीन सैमवाला ए सी ए सी/ओ ओबराय फ्लाइट सर्विस, सहार एअरपोर्ट रोड, सहार, अंधेरी इस्ट, मुंबई 400 099	84	040703	श्री पारेख मनिश दिनेशचंद्र ए सी ए सी-311 रमेश अपा., कस्तुर पार्क, सिपोली रोड, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400 092
71	038832	श्री पाटील अनिल भास्करराव ए सी ए 1 / 1 उन्नत नगर, पार्ट 2 एम जी आर, गोरेगाव वेस्ट, मुंबई 400 062	85	040806	श्री हेमंतकुमार श्रीकृष्णा देहदय ए सी ए सी-3 / 24 महिंद्र नगर, हाजी बापु रोड, माजाड इस्ट, मुंबई 400 097
72	038879	श्री सबनीस महेश प्रभाकर ए सी ए फायनांस एन्ड अॅडम, मैनेजर पाक बैंक (वि नॅशनल बैंक ऑफ रास अल खेमहपसक) पी ओ बॉक्स 5300, रास अल खेमह, यु ए इ 0	86	041114	दिप्ती हिमांशु मोदी ए सी ए वेलजी शीवाजी बि., हिंगवाला लेन, घाटकोपर इस्ट, मुंबई 400 077
73	039455	श्री सुप्रमण्यम पी वी ए सी ए 7 / 257 हरीनी राम नारायण, नारकर रोड, घाटकोपर इस्ट, मुंबई 400 077	87	041340	श्री बोरकर मनोज यशवंत ए सी ए 1 / 2 गोमंतक सोसा., महंत रोड, वोले पार्ल ईस्ट, मुंबई 400 097
74	039801	श्री लोढा नरेंद्र कुमार ए सी ए 1803, चालेंजर टॉवर-2, ठाकुर व्होलेज, कादिवली इस्ट, मुंबई 400 101	88	041546	श्री दलाल दिनेश प्रवीनचंद्र ए सी ए 25 / ए चाचानगर सोसा., अदमार मुठ रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 058
75	040099	श्री कृष्णमूर्ती सुंदरम ए सी ए युनिट 5 21, छाम्प स्ट्रीट, कोबुरग-विक 3000	89	041636	श्री शोशाद्री रामचंद्र ए सी ए ए / 4 जीवन कांचन, बीरा देसाई रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 058
76	040149	श्री पिल्लुतला गणेश ए सी ए 101 गायत्री एनक्लेव 90 फिट रोड, गोकुल नगर 1, ऑफ डब्ल्यू इ हायवे, कादिवली इस्ट, मुंबई 400 101	90	042010	श्री फिचादिया अश्वीन कांतीलाल ए सी ए 23 प्रल्हाद प्लाट राजकोट 360 001
77	040150	श्री इहतेशमहमद अब्दुलहबीब छजीवाला ए सी ए युनायटेड टॉवर फ्लैट 202, बिहाईड राम अॅड शाम थेटर प्लॉट एस रोड, जोगेश्वरी वेस्ट, मुंबई 400 102	91	042011	श्री वदक विजय नागेश ए सी ए विजय वेदक इन्ड क., 3 हेमन्त बैंक ऑफ बरोड़ा को, ऑ हा सोसा., बामन वडा, विलेपार्ले, मुंबई 400 099
78	040224	श्री अरोरा योगेंद्र कुमार ए सी ए 202 स्वाती अपा., न्यू डेव्हली नगर, एकसर व्होलेज, बोरोवली वेस्ट, मुंबई 400 103	92	042012	श्री कर्वे गिरीश केशव ए सी ए 11 सुवर्ण रेखा महंत रोड, विलेपार्ले, मुंबई 400 057
			93	042032	श्री गोरे सुबोध रमाकांत ए सी ए एस आर गोरे एन्ड क., 477/बी/1ए पार्वती सलाखा सोसा., शाहू कॉलेज रोड, पुणे 411 009

94	042159	वैशाली प्रसाद कोपरकर ए सी ए 503 स्नेहल अपा., जय प्रकाश नगर रोड, नं 3 गोरेगांव इस्ट, मुंबई 400 063	110	043801	श्री शेट्टे स्वाती संतोष ए सी ए फ्लैट नं. 8, सौरभ्य, फ्लाट नं 1279, एकनाथ हत्सकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400 025
95	042350	सदरुद्दीन अब्दुलकरीम खेतानी एफ सी ए 7 बागेश्री कल्याणीनगर, पुणे 411 006	111	043858	श्री सुभाष रामचंद्रन नायर ए सी ए बी-1-103 विठोबा कृपा को ऑ हा सोसा., मसोबा मैदान, कल्याण वेस्ट, जि. ठाणे, कल्याण 421 301
96	042441	श्री मेवावाला रीयाझअली सुलतानीया एफ सी ए सी / ओ एम / एस रोना गार्निटस् प्रा ली., प्लॉट नं 13, एल जी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, बिहाइंड गरिबशाह पीर, भावनगर, राजकोट रोड, सीहोर 364 240	112	043869	श्री सत्यनारायण महेश्वरी ए सी ए प्लेट नं 101, सपना सो एच एस, प्लॉट नं 4, आर डी पी 10 सेक्टर 6, चारकोप, कांदिवली वेस्ट, मुंबई 400 067
97	043009	श्री ऐयर एस एस कोदुवुर शिवशमाकृष्ण ए सी ए 8 वृंदावन, विश्वकर्मा नगर, नाहुर मुलुंड वेस्ट, मुंबई 400 080	113	043884	श्री कोठारी अक्षय जयंत एफ सी ए जय बजा विल्ला, एस व्ही पी रोड, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400 092
98	043022	श्री अक्षय पुरुषोत्तमदास शह ए सी ए बी-81, बुएना विस्ता, काशीराम हॉल, निअर आंबेवाडी, अहमदाबाद 380 015	114	043941	श्री गोखले प्रदीप श्रीपद ए सी ए सी-80, शटल आझाद स्ट्रीट, अपो एस व्ही रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 058
99	043116	श्री लीमये किशोर मधुकर ए सी ए प्लॉट नं ए 001, केशवधाम, पटेल पाडा, डहाणू रोड इस्ट, ठाणे 401 602	115	043942	श्री गोडबोले श्रीहरी शंकर ए सी ए 1-11, दत्ता रामनंद सोसा., हनुमान एक्स रोड नं 2, विलेपार्ले इस्ट, मुंबई 40 057
100	043224	श्री शह प्रनव रसीकलाल ए सी ए अमरतरु, बि. नं. 3 फ्लैट न 302, पटेल वाडी, ऑफ न्यु नगरदास रोड, अंधेरी इस्ट, मुंबई 400 069	116	044060	संगिता एस एफ सी ए जी-1 / 303 मल्हार, लोकपुरम को ऑ हा सोसा. ली., ग्लैंडीस् अलवरस् रोड, पोखरन-2, ठाणे वेस्ट, ठाणे 0
101	043289	श्री पंचोली चिपुलकुमार कांतिलाल ए सी ए 21 अचेस्वर सोसा., बालवाटीका मनीनगर, अहमदाबाद 380008	117	044153	श्री मेहना रोहीत प्रतापराय एफ सी ए 23 / 25 शरीफ देवजी स्ट्रीट, मसजिद बंदर 2 माळा, क्रिसेंट चेंबरस्, मुंबई 400 003
102	043321	श्री थाकेर दिनेश एफ सी ए 22 गौतम निवास, ओपो 7 बंगलो बस डेपो, जे पी रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 053	118	044223	श्री गांधी जयेश महेंद्र ए सी ए 42 / ए जवेरी बिल्डिंग, डॉ एस राधाकृष्णन रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400 069
103	043353	श्री आचरेकर सुजाता सोनु ए सी ए 11 गीतांजली, 16 बांद्रा रीक्लेमेशन, बैंद्रा वेस्ट, मुंबई 400 050	119	044253	श्री पल्लाथुसेरील कुरीयन चंदै ए सी ए 602, मानवस्थल 11, गोकुल धाम, गोरेगाव ईस्ट, मुंबई 400 063
104	043458	श्री रामस्वामी अनंतनारायण एफ सी ए 6 / 80 सरोज पेस्टम सागर रोड नं 1, चेम्बुर, मुंबई 400 089	120	044376	श्री दवराजन व्यंकट सुभ्रमण्यम ए सी ए 5 प्रमज्योती पेस्टम सागर, चेम्बुर, मुंबई 400 089
105	043489	प्रमिला एफ एम फर्नांडिस ए सी ए 740 सुपर पार्क केंसेट, मीसीसाउगा, ओन्टारीओ एल5बी 4इ2	121	044384	श्री सुंदर राम गोविंदराघवन एफ सी ए 9 / 97 आर के नगर, खार वेस्ट, मुंबई 400 052
106	043497	अनुराधा रामकृष्णन ए सी ए बी / 2 / 4 टाटा हाउसिंग सेंटर, लालुभाई पार्क रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 058	122	044459	श्री चिन्नाथंबी यदवर रवी ए सी ए बी / 403 प्रवाह अपा., ओपो प्रीम्स बी / एच एन आर आय टॉवर, बोडकदेव जजेस् बंगलो एरीया, साटेलार्ईट, अहमदाबाद 380 054
107	043704	श्री गोलेचा संजय मिलापचंद एफ सी ए 8 / 12 धिरेन्द्र विल्ला, एस व्ही रोड, दोलत नगर, बोरवली इस्ट, मुंबई 400 066	123	044578	श्री पारोख जतीनकुमार प्रबोधचंद्रा ए सी ए बी / 4 सोमनाथ डुफ्लेक्स, निअर गोजी जकात नाका, गांजी-सेवासी रोड, वडोदरा 390 021
108	043711	श्री चेचापी रमेश चंद्रा ए सी ए 305 बी, बी नं 3, सागर कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 2, जेसल पार्क, भाईंदर इस्ट, भाईंदर 401 105	124	044751	श्री राजेश रघुनाथ प्रभु ए सी ए 102 सबलोक अपा., रोड नं 13 अंन्ड 15 चा कॉर्नर, खार वेस्ट, मुंबई 400 052
109	043787	सुब्रता मोनिंद्रनाथा मैत्य एफ सी ए रेमंड लि., डेनिम डिक्कीजन सी-1, एम आय डि सी लोहरा, यवतमाल 445 001			

125	044884	श्री जैन जांबू कुमार ए सी ए फ्लैट नं. 19 / 501, संस्कृती अपो सेंट लोरेन्स हायस्कूल, ठाकूर कॉम्प्लेक्स, कादिवली इस्ट, मुंबई 400 101	140	046097	श्री जयमीन हर्षद छाया ए सी ए 33 अरलस् पाने, सदेर पार्क, सीपेहय बर्कशायर, स्लेऊथ — एस एल 15 डि जे
126	044946	श्री राकेश कुमार यदराम सिंधल ए सी ए 30 गुप्ता भुवन, अपो रेल्वे स्टेशन, मुलुड वेस्ट, मुंबई 400 080	141	046100	श्री महमद हनीफ साहेब ए सी ए अकाऊंट डिपार्टमेंट, एम आय एस सेक्शन, अबुधाबी इनक्लेस्टमेंट अथेरीटी पी ओ बॉक्स नं 3600, अबुधाबी — 0
127	045158	श्री तावडी जितेंद्र काशीनाथ ए सी ए 4 पूर्णा सोसा., स्टेशन रोड, नवसारी 396 445	142	046117	श्री अग्रवाल अक्षय राधाविनोद ए सी ए ए / 2 / 35 ग्रीन फील्डस् सी एच एस ली., महाकाली रोड, अंधेरी इस्ट, मुंबई 400 093
128	045178	श्री मनील कुमार जैन ए सी ए 25-बी, क्वीन्स लॉण्ड; फ्लैट नं. 206, शास्त्री नगर, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 069	143	046193	श्री अनोल पीटर ए सी ए शिपाई धनराज पार्क, केलेवाडी पट्टा, वाकड पुणे 411 027
129	045208	श्री अनुप मोहन जोहरी ए सी ए 28 / 166 एलोरा पार्क, रेसकोर्स, वडोदरा 390 007	144	046208	श्री मोदी डिकहोसी ए सी ए एम आय / 44, मेहेरबाजी कामा पार्क, कामा रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 058
130	045265	श्री शोकसी श्रेणीक अरवींद ए सी ए 44 सी गीता भवन 93 भुलाभाई देसाई रोड, मुंबई 400 036	145	046295	श्री मेहता केतन रसीकलाल ए सी ए सी-1 योगेश्वर अपार्टमेंट अपो., जजेस् बंगलो प्रेमचंद नगर, वस्जपूर, अहमदाबाद 380 015
131	045363	श्री बरोत राजेश जीभाई ए सी ए 2/2 बिनस्टोन रोड, माऊंट रासकोल ऑकलंड	146	046424	श्री सोहनी निखिल रामकृष्ण ए सी ए फ्लैट नं. 6 एस बी आय विश्वास को आ हा सोमा., नेक्स्ट व्ही आय पी होटेल व्ही एम गनेकर मार्ग, आझाद रोड, विलेपार्ले इस्ट, मुंबई 400 057
132	045442	श्री दिलीप लालचंद भाटीया ए सी ए फ्लैट नं. 105 / 106, बि. नं 16, इद्र दर्शन-1, न्यु लिंक रोड, लोखंडवाला, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 053	147	046492	अंजली सुधीर कोठारे ए सी ए माऊंट व्हीज, 2 माळा, 22 सेंट जॉन बाप्टिस्ट रोड, बांद्रा वेस्ट, मुंबई 400 050
133	045521	श्री ठक्कर विरेन कांतोलाल ए सी ए 34 शरणम् टिबन्स5, ओपो किर्ती सागर अपा., जोधपूर व्हीलेज, अहमदाबाद 380 015	148	046497	श्री पर्सी कश्यप बर्डे ए सी ए 630 जेमफीना सी एच एस. ए विंग, 4 माळा खोरेघाट रोड, दादर फारसी कॉलेजी, मुंबई 400 014
134	045539	मोहीनी नुरलोधर हेगडे ए सी ए 9 / 178, रोहीणी सायन इस्ट, मुंबई 400 022	149	046538	श्री रंधेर अनिलकुमार रामनिवास ए सी ए सी 208 आदर्श लोक, 17 मार्ग, सीधार्थ नगर गोरेगाव वेस्ट, मुंबई 400 062
135	045776	श्री श्रीवास्तव विवेक कुंजबिहारीलाल ए सी ए सी 509 हाईलेण्ड ब्रीजी बिल्डिंग, चारकोप, कादिवली वेस्ट, मुंबई 400 067	150	046545	श्री तोताडे अमरेंद्र शशीकांत ए सी ए सी-1, विद्यगीरी, सोनावाला रोड, गोरेगाव ईस्ट, मुंबई 400 063
136	045866	श्री अयर अशोक रामचंद्रन ए सी ए बी / 3 चाणक्यपुरी सोसा., सामा रोड, वडोदरा 390 008	151	046656	घाडगे शुभांगी रेवन ए सी ए बी नं 1, सी / 702, विनी गार्डन, नेक्स्ट टू भावदेवी क्रीडा मंडळ, बोरोवली वेस्ट, मुंबई 400 068
137	045895	श्री फर्नांडीस कोनराड डेवीड ए सी ए लिटल फ्लावर 7 फ्लैट नं. 6, 28 रोड बांद्रा, मुंबई 400 050	152	046830	श्री कौटिन्हो जीमी एडविन ए सी ए 205 कॉमर्स सेंटर, मापुसा, बरडेझ, गोवा 403 507
138	046065	श्री बिपीनचंद्र शिवनारायण कावरा ए सी ए 26 काकड कॉर्नर, होटेल सन-एन-शोल कोन्दीवीटा लेन, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 059	153	046925	श्री मनिक कमल प्रकाश ए सी ए ओटीएस एलेक्टोर कंपनी इंडिया ली., एस आर मनेजर को ऑ टैस्केस्, 9 लफोअर मेजनुस टॉवर, मिन्ड स्पेस, लिंक रोड, मालाड वेस्ट, मुंबई 400 064
139	046094	जागृती जयमीन छाया ए सी ए 33 अरलस पेन सदेर पार्क, सीपेहय बर्कशायर, स्लेऊथ — एस एल 15 डि जे			

154	046985	श्री बिंदये सिद्धार्थ चंद्रकांत ए सी ए 23 / 379 आदर्श नगर, प्रभादेवो, मुंबई 400 025	168	049021	श्री. कोरगावकर धमेश शरद ए सी ए 801 म्हात्रे पॅलेस, लिंक रोड, आय सी कॉलनी, अहेद ऑफ सिल्व्हर कोनी रेस्टॉरेंट, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400 103
155	046998	श्री सीमारीया सरजु प्रवीण ए सी ए श्री सुभाष ककोडकर, 10-ए लडा हाउस, पेपर मिल लेन, व्ही पी रोड, मुंबई 400 004	169	049215	श्री. मालु संजय हनुमान ए सी ए एम- 2/3 हिरामनी रतन, बंगर नगर, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई 400 090
156	047141	मिस खक्खर ईला दिनकर ए सी ए सी 42 / जीवेनी फ्लैट नं. 801, वसंत विहार पोखरन 2, ठाणे 400 606	170	049244	श्री. मेथन मैथ्यू ए सी ए 3 निम्बारकर हा सोसा., मजबार हिल रोड., मुलुंड कॉलनी, मुंबई 400 082
157	047462	श्री मञ्जुमदार केतन सुसेन ए सी ए ए-2 / 14 सिडिया सोसा., ओपो श्री एम व्ही रोड, अंधेरी इस्ट, मुंबई 400 069	171	049379	श्री. दवे बिरेन प्रविनचंद्र ए सी ए सी-5, श्रीनाथ अपा., एम व्ही पी रोड, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400 092
158	047596	विद्या प्रसाद देशपांडे ए सी ए बी-17 अनुबंध को ऑ हा सोसा., टिलक हायस्कूल रोड, टिलक नगर, डोबिवली इस्ट, डोबिवली 421 201	172	049407	श्री. अग्रवाल राकेश नवरंगराय ए सी ए सी/33 पेठे नगर, केदारमल रोड, मालाड इस्ट, मुंबई 400 097
159	047717	श्री. संघवी अनिल कुमार ए सी ए 303 शारदा बि. नं 3 बी, शारदा कॉम्प्लेक्स, आशा नगर, कांदिवली इस्ट, मुंबई 400 101	173	049408	श्री. सरोफ अरमैती नोशीर ए सी ए 1/सी/503 सलसेटे पारसी सी एच एस., पप हाऊस, अंधेरी इस्ट, मुंबई 400 093
160	047814	श्री टेलर शाम सुंदर ए सी ए जी-4, साईसदन विद्या मंदिर रोड, देवानमन वसई रोड, ठाणे वेस्ट, वसई 401 201	174	049499	श्री. परमार यशवंतलाल मोहनलाल ए सी ए 3 मुकेश पार्क, नं 132 रिंग रोड, अहमदाबाद 308 051
161	047822	श्री. शीवरामन व्यंकटरामन ए सी ए 33/2, रोड नं 2, एल टी नगर, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई 400 062	175	049525	श्री. ताराचंद आसनदास वझीरानी ए सी ए ब्लॉक नं ए/263 रु नं 525, निअर सत्य साई निकेतन हायस्कूल, जि. ठाणे, उल्हासनगर 421 004
162	047983	श्री. मीरंदा बीन सिमोन ए सी ए रतन मामा अर्न्ड कं., पी ओ बॉक्स 13094 दुबई 0	176	049587	श्री. केरावाला फिरोझ आदर्श ए सी ए सलेटर हाऊस नं. 2, सलेटर रोड, मुंबई 400 007
163	048216	मिस बंगारी हर्षा भूपेन्द्रा ए सी ए 1102 आकृती आदित्य टॉवर, स्लेटर रोड, ग्रेंट रोड वेस्ट, मुंबई 400 007	177	049633	श्री. निशा सुभाष ए सी ए 1003 ए विंग, इतेरनिया को ऑ हा सोसा., हिरानंदानी गार्डन, पवई, मुंबई 400 076
164	048352	श्री. दोशी राजेंद्र कुमार पुनमचंद ए सी ए ए-8 रुशवबाग अपा., श्रेयस तेकरी, आंबेवाडी, अहमदाबाद 380 015	178	049721	श्री. रुणगता प्रेम प्रकाश ए सी ए 21 डॉली अपा., चिंचोली रोड, मालाड वेस्ट, मुंबई 400 064
165	048408	श्री. सवला वसंत मौजी ए सी ए इसर हाऊस, 11 केशवराव खाद्य मार्ग, ओपो, महालक्ष्मी रेस कोर्स, महालक्ष्मी, मुंबई 400 034	179	049793	श्री. प्रभुदेसाई आशुतोष विजय ए सी ए 105 प्रथमा सी एच एस, लोकमान्य कालोनी, पौड रोड, ओपो वनाझ, कोथरुड, पुणे 411 038
166	048705	श्री. बंगेरा विनोद चिन्मया ए सी ए बि. नं. 37 प्लॉट नं 403 सेक्टर 2ए, उरनुस सी एच एस ली., एक्हरशार्डनस् मिलेनियम परदेसी, ठाकूर व्हीलेज, कांदिवली ईस्ट, मुंबई 400 101	180	049803	श्री. घोश अदृश्य मरीनल ए सी ए दफोदिल बी4-12, महिंद्र गार्डन, एस व्ही रोड, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई 400 062
167	048721	श्री भट जयश्री केतन ए सी ए 4 संकरेदिप, टागोर रोड, सांताक्रुझ वेस्ट, मुंबई 400 054	181	051615	श्री. प्रकाश रघुवीर करण ए सी ए टोरीन्ट परीवते ली., टोरीन्ट हाऊस, 5 माला, निअर दिनेश हॉल, ओपो आश्रम रोड, अहमदाबाद 0

182	051889	श्री. धातक सुप्रोओ ए सी ए सी/74/104 सेक्टर 9, शांतीनगर, मिरा रोड, जि. ठाणे, मिरा रोड 401 107	197	078721	श्री. कुंभट अनुज ए सी ए 301, सुंदरम 5 बी, रहेजा कॉम्प्लेक्स, निरर तोई प्रेस, मालाड इस्ट, मुंबई 400 097
183	056100	श्री. श्रीधर शीवराम ए सी ए न्यु पुनम फ्लैट 16, 29/30 पाली हिल युनिक्स पार्क, खार, मुंबई 400 052	198	079695	सोनी तरुण ए सी ए सुश्लोक एनर्जी ली., 5 माला, गोर्देज मिलेनियम, बैन्ड गार्डन, पुणे 411 001
184	057684	श्री. धुत अविनाश ए सी ए सी-404 भूमि क्लासीक. ओपो सबकुछ सुपर मार्केट, लिंक रोड, मालाड वेस्ट, मुंबई 0	199	080081	श्री. शांता राम दिनकर लटकर ए सी ए एल/7 मंजी पार्क 11, कोथरुड, पुणे 411 029
185	057901	श्री. सखलोक केतन ए सी ए नवीन फुआरीन इंडस्ट्रीज, कैमिकल डिवीजन ऑफ मफतलाल इ. ली., सुरत नवसारी रोड, भेसतन, सुरत 395 023	200	080558	श्री. श्रीनाथ गुप्ता ए सी ए 12, ओव्हरसी अँव्हेन्यु, निरर नथुभाई सेंटर, गोजी रोड, वडोदरा 390 007
186	058426	श्रीमाला एल ए सी ए 702 तुलोप मैजी गार्डन, पोखरन रोड नं. 2, ठाणे वेस्ट, ठाणे 400 601	201	081828	श्री. गोविंद सिंह ए सी ए 703, 16 कॉस रोड, निरर खार ग्यामखान क्लब, खार वेस्ट, मुंबई 400 052
187	060533	श्री. अमित कुमार भुवनीया ए सी ए पो-804 राज तिलक को आ हा सोसा., सीटी लाईट रोड, सुरत 0	202	092731	श्री. निरज पांडे ए सी ए सी/ ओ हाँकीन्स कुकरर्स लि. मेकर टॉवर एफ 101, कुफी पराडे, मुंबई 400 005
188	060682	मजुमदार मधुमीता ए सी ए 2/9 उमा अपा., निरर रतनराज अपा., अडजपटोया, सुरत 0	203	092825	श्री. पद्मनाभ अनिल ए सी ए डि-1/28 सोलाके पार्क, 52/1 बि टी कवाडे रोड, घोरपाडी, पुणे 411 036
189	071370	श्री. महेंद्र कुमार ए सी ए प्लॉट नं 32, गुलाबनगर, धनकवाडी, पुणे 411 043	204	094152	श्री. शाह अमिशा ए सी ए 202 11 माला 145, अब्बास मंजील, खार वेस्ट, मुंबई 400 052
190	072117	श्री. शशांक चर्तुवेदी ए सी ए रेमो मेटल प्रा. ली., 11 कामा इंडस्ट्रियल इस्टेट, गोरगाव इस्ट, मुंबई 400 063	205	096235	श्री. उमा शंकर ए सी ए 704 सी-41, त्रेवानी अपा., वसंत विहार, पोखरन रोड नं. 2, ठाणे 400 606
191	074048	श्री. अतुल शेठ ए सी ए पेप्रोको इंडिया होल्डींग (प्रा.) ली., प्लॉट नं 71 टु 74, नरोड इंडस्ट्रियल इस्टेट, अहमदाबाद 380 01	206	097053	बोहरा शालांना ए सी ए 902 टॉवर 7, सी बीएन टॉवर सेक्टर 16, नेरुळ, नवी मुंबई 0
192	074146	श्री. सुरेश चंदा गतानी ए सी ए प्लॉट नं 54, बि. विंग, बि पुनरवसु, श्रीजी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 3, मिरा रोड इस्ट, मिरा रोड 401 107	207	100003	बरटाके नितिन सुहास ए सी ए 4 सिद्धार्थ श्री, 1194 / 27 ड, घोले रोड, पुणे 411 005
193	074323	श्री. अंजानी सिन्हा ए सी ए इको मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ली., ए 102 लॉड मार्क, सुरेन रोड चकला, अंधेरी इस्ट, मुंबई 400 093	208	100018	श्री. शाहा हिमांशु बिपीन ए सी ए 116 मधुबन वरली हिल रोड, मुंबई 400 018
194	075201	श्री. गगनानी दिनेश कुमार ए सी ए डि-602 गायत्री सतसंग कॉम्प्लेक्स, निरर गोकुल गगन टॉवर, ओबराय टॉवर, मुंबई 400 101	209	100027	श्री. गुंडेछा नंदलाल रमेशलाल ए सी ए निलसन रजिन सिस्टीम इंडिया ली., प्लॉट नं 1, सिल्कर इंड इस्टेट, भिमपुर, दमन 396 120
195	077736	श्री. बंसाली वंसत ए सी ए गरासीम इंडस्ट्रीज ली, 9 टाटा हाइट, 5 माला, वकोडेवाडी, मुंबई पुणे रोड, पुणे 411 003	210	100036	श्री. मनोहर सत्यनारायण माहेश्वरी ए सी ए ए-19 सिद्धार्थ पार्क, भुदेरपुरा रोड, बिहाइंड सी एस विद्यालय, आंबेवाडी, अहमदाबाद 380 06-
196	078114	श्री. मंजी सरवेश्वर ए सी ए फ्लैट नं. 502, बी वींग, अस्मीता उपाहरा, पुनम सागर कॉम्प्लेक्स, मिरा रोड इस्ट, ठाणे 401 107	211	100308	श्री. भाराडिया राजेंद्र कुमार ए सी ए ए-211 सुफलाम का आ हा सोसा ली., ओपो अमिकुज नरनपुरा पोस्ट ऑफिस, निरर अमिकुज बस स्टैंड, नरनपुरा, अहमदाबाद 380 013

212	100441	सुधा लोकेश चेबोम ए सी ए 801 ओरोअन बी विंग, वसंत गलेंक्सी, बनपूर नगर, गोरेगाव वेस्ट, मुंबई 400 090	226	101474	पुर्वी मेहुल सुरकाठा ए सी ए डि 1/11 खिरा नगर, एस व्ही रोड, सांताक्रुझ वेस्ट, मुंबई 400 054
213	100524	श्री. कामथ राजेश रमेश ए सी ए 301 ए वींग ग्रिन गगन नौअर लोखंडवाला, आकुरली रोड, कांदिवली इस्ट, मुंबई 400 101	227	101767	ध्रुव कृती निरंजन ए सी ए बी/306 कुबेर भवन, बजान रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 400 056
214	100598	श्री. परशुराम सिध ए सी ए 201 विनायक अपार्टमेंट, प्लॉट 56, सेक्टर 4, जि रायगड, न्यु पनवेल 410 206	228	101852	श्री. झरपकर प्रशांत विष्णु ए सी ए 162/27 मोहन बि., 111 माला, जे एम एस रोड, गोरगाव, मुंबई 400 004
215	100638	श्री. शाह केतन सुमतीलाल ए सी ए 52 केतन इस्टेट, रामचंद्र लेन, मालाड वेस्ट, मुंबई 400 064	229	101892	श्री. पलन मेहुल जयंत ए सी ए दत्तमम पी ओ बॉक्स 10993, डिलोमोर्टो एरीया, मनमा, बहैरन 0
216	100736	श्री. चालके राजेश भालचंद्र ए सी ए मुख शांती को ऑ हा सोसा., आर एच प्लॉट नं 8, सेक्टर 8, एरोली, नवी मुंबई 400 708	230	101914	श्री. मिकरीया रवी श्रीजमोहन ए सी ए ए-301 शहा आरक्रेड, निअर वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, रवी सती मार्ग, मालाड इस्ट, मुंबई 400 097
217	100769	श्री. पोद्दार रविकांत विश्वनाथ ए सी ए डी-112/113, व्यंकटेश प्लाजा, भायंदर वेस्ट, भायंदर 401 101	231	101928	श्री. वलकटो गणेश वीरशाम ए सी ए 3 कैलास 28, सहकार नगर, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 053
218	100791	श्री. शहा जितेंद्र जयतीलाल ए सी ए 3ए हरीकुज, सेंट जेवीअस स्ट्रीट, परेल, मुंबई 400 012	232	101941	अपर्णा जितेंद्र म्हाजे ए सी ए फ्लैट नं 310 सी विंग मोटन रेसीडेंसी, ओपो हॉक कॉलनी, बिहाइंड गार्डन हॉटेल, ठाणे नाका, पनवेल 406 210
219	100822	श्री. जैन सुरेश कुमार ए सी ए बी-38 / 503 युनिक विहार, शांती पार्क, मिरा रोड इस्ट, मिरा रोड 401 107	233	102090	पेंडसे सिमा सुधाकर ए सी ए ए-101 सूर्योदय अपा., शिव वल्लभ कॉस रोड, खालपाड (301 लास्ट स्टॉप) दहिसर इस्ट, मुंबई 400 068
220	100912	श्री. पांचाल गौरव ए सी ए 555 ओल्ड पोस्ट रोड, अपार्टमेंट सी-2, एडिसन एन जे 08817, यु एस ए 0	234	102138	श्री. रेडबेन अबोलत मेनड्रेस ए सी ए 1009/4 परेमोड अपा., मोडेल कॉलमो, फ्लैट नं 10, पुणे 411 016
221	101042	श्री. शहा केतन जयतीलाल ए सी ए 7/134 जुहू प्रभात, न्यु डि एन नगर, निअर जुहू सर्कल, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 053	235	102145	श्री. आचार्य आशुतोष कृष्णकुमार ए सी ए 432 शिनागे बि., लमीनगटोन रोड, मुंबई 400 004
222	101114	श्री. प्रयाग शशीकांत गाडगीळ ए सी ए फ्लैट नं 20/21, 1 माला, जानकी निवास, 8 / 10 शेनवीवाडी, गोरगौम, मुंबई 400 004	236	102204	मेहता मनिषा जयेंद्र ए सी ए 3/10 34 स्वप्नगंधा को ऑ हा सोसा., भवानी शंकर रोड, निअर कबुतरखाना, दादर वेस्ट, मुंबई 400 028
223	101162	कश्मीरा कृष्णकुमार जोबनपूजा ए सी ए सी/ओ जगसीध पोपट, 12 बलेटीने, 5 एन गमडीया रोड, ओपो पोडार रोड, मुंबई 400 026	237	102322	श्री. मेहता मेहुल रमेशचंद्र ए सी ए 3 मातृछाया, पारेख लेन, कांदिवली वेस्ट, मुंबई 400 067
224	101383	जलन रेणुका पुरुषोत्तम ए सी ए 3/5 भगवती अपा., एस व्ही रोड, मालाड वेस्ट, मुंबई 400 064	238	102594	श्री. शहा निहार विजयकुमार ए सी ए 795 ए जीवबस्मृती 2 रा भाळा, फ्लैट नं 7, 3 रा रोड, खार वेस्ट, मुंबई 400 052
225	101470	गेओगीना कुरीन ए सी ए ए 602 मनवस्तल 11, गोकुलधाम, गोरेगांव इस्ट, मुंबई 400 063			

239	102643	श्री. साथरस ए नरीमन एफ सी ए बी 13 वृंदावन 2 रो कोलाडांगरी लेन, सहार रोड, अंधेरी इस्ट, मुंबई 400 069	254	103338	श्री. सचिन विलास सहस्त्रबुध्द ए सा ए डि-1 शालीमार सोसा., 477 / बि पार्वती, पुणे 411 009
240	102702	श्री. कृष्णकुमार अरुणकुमार काबरा ए सी ए वृंदावन 11 ए बीग फ्लैट 603, रहेजा टाउनशिप, मालाड इस्ट, मुंबई 400 098	255	103350	श्री. जयदिप किशोर खटाड ए सी ए इग्नस्ट अँड यंग एक्सप्रेस टॉवर 18 माला, नरिमन पॉइंट, मुंबई 400 004
241	102730	श्री. दिपक हरीलाल लालवानी एफ सी ए 31/603 शालमाली वसंत विहार पोकरन रोड 2, ठाणे वेस्ट, ठाणे 400 601	256	103445	श्री. कोरइसा फॅन्सीस अँथोनि ए सी ए 10 प्रफुला को ऑ हा सोसा., कॉलेज लेन, आप्रा बज़ार, दादर, मुंबई 400 028
242	102777	श्री. गुरुस्वामी सत्यनारायण ए सी ए 401 डि एन एस टॉवर कोर्ट नाका, वैलकरवाडी, ठाणे वेस्ट, ठाणे 400 601	257	103484	श्री. खरे रविंद नारायण ए सी ए सत्य निवास बिहाइड रेशन ऑफिस, डॉ आंबेडकर रोड, विष्णु नगर, डॉंबिवली 421 202
243	102814	सहस्त्रबुध्द प्राण्या मधुसुदन ए सी ए सी/12 साधना सोसा., तेजपाल समे, विलेपार्ले इस्ट, मुंबई 400 057	258	103590	श्री. दलाल धर्मेश किर्ती ए सी ए 301 मेघना अपा, दिक्षीत कॉम रोड नं. 1, विलेपार्ले इस्ट, मुंबई 400 007
244	102818	श्री. शहा मनिशकुमार किर्तीकुमार ए सी ए ए-11 दिपोका सोसायटी-2, ओपो हरनी रोड, वॉटर टैंक, बडोदरा 390 022	259	103702	मेहता पुनी अरुण ए सी ए 13 / 42 नवजीवन सोसा., लेमिंगटोन रोड, मुंबई 400 008
245	102842	श्री. बपना प्रशांत नरेंद्र ए सी ए 401, मिडवे अपा., ए एस एम मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400 025	260	103713	श्री. धोलकिया निकुज नितीन ए सी ए 19 / बी, पार्वती मेसन, अलीभाई प्रेमजी मार्ग, ग्रैंट रोड, मुंबई 400 007
246	102890	श्री. गुप्ता दिनेश ए सी ए बि/ 301 गुलमोहर पुनम कैम्प्लेक्स, आशा नगर, कांदिवली इस्ट, मुंबई 400 101	261	103982	श्री. जोशी रुपेश रमनरैन ए सी ए 603 उशमा कुंज, 30-डि जुहू तेरा रोड, कोलीवाडा, मुंबई 400 049
247	102896	श्री. शर्मा गौतम गोविंदराम ए सी ए ए / 5 फ्लैट नं 11 पराग शांती नगर सी एच एस., सेक्टर 4 शांती नगर, मिरा रोड इस्ट, मिरा रोड 401 107	262	104004	श्री. श्रीकांत कुटी शेटी ए सी ए 102 / बी महेश्वरी-1 सी एच एस, बी बी मार्ग, दहिसर ब्रिज, दहिसर वेस्ट, मुंबई 400068
248	102923	श्री. मोनिका मनोहर टिकले ए सी ए 21 अदवैत विवेक सोसा., पद्मावती, पुणे 411 009	263	104093	श्री. आशोश सत्यप्रकाश जगनानी एफ सी ए 120 / बी मधुबन अपा., वरली हिल रोड, मुंबई 400 018
249	102988	श्री. सुनिल कृष्णा वरटक एफ सी ए सरठक बिहाइड रेमांडि चर्च, मंडलई, जि. ठाणे, वसई 401 201	264	104102	श्री. घोलप आनंद अभ्युत ए सी ए 403 / 3ए वैभवगिरी, सिंधवाल प्लाज़ा 1 सी एच एस, निरार वसंत विहार, पोखरन रोड नं 2 ठाणे 400601
250	103055	श्री. लक्ष्मीनारायण प्रसाद करतीकेयन ए सी ए 22 लावण्य छेडा नगर, चेबुर, मुंबई 400 089	265	104112	श्री. सुंदरसेन धीअगरराजन एफ सी ए फ्लैट नं 4 टाइप 4 क्वार्टर्स सी टी ओ कम्पाउंड, जुहू रोड, सांताकुझ वेस्ट, मुंबई 400 054
251	103086	श्री. बलराज डुबेय ए सी ए डि 11 इस्टर्न कोर्ट, सर्वे नं 74ए (सी टी एस नं 912) बि टी कवाडे रोड, घोरपोडी गांव, पुणे 411 001	266	104130	श्री. कल्पेश नितीन शहा ए सी ए घोडा निवास, प्राउंडल्लोअर, तिलक मंदिर रोड, विले पार्ले इस्ट, मुंबई 400 057
252	103178	श्री. रुनगता अलोककुमार अरुणकुमार ए सी ए 17 रिध्दी सिध्दी सदन, तेजपाल स्कीम रोड नं. 2, विलेपार्ले इस्ट, मुंबई 400 056	267	104134	श्री. रचना केतन रमेशचंद ए सी ए 122 / 123 गुलाब वाटीका सोसा., तंदालजीया रोड, निअर टयुब कंपनी, बडोदरा 390 020
253	103236	श्री. समीर गोपालजी छादवा ए सी ए ऑफिस नं. 2, राजदिप कस्तुर्बा, एक्स रोड नं 1 बोरिवली इस्ट, मुंबई 400 066			

263	104163	श्री. वीरा हिरन महेदकुमार ए सी ए 201 साई अरमान, अशोक चक्रवर्ती मेन रोड, अशोक नगर, कांदिवली इस्ट, मुंबई 400 101	283	104641	अश्वनी आशीश शेट्टी ए सी ए बी / 8 / 2 / 9 दुधसागर को आँ हा सोसा. सीबा रोड, निअर आर्य चेकनाका, गोरेगांव इस्ट, मुंबई 400 065
264	104198	श्री. सरधरा संजय कुबेरजीभाई ए सी ए 313 / 6920 (1) आनंद लोक, राम नारायण नारकर रोड घाटकोपर इस्ट, मुंबई 400 077	284	104779	श्री. रमाकांत प्रकाश शोमबेकर ए सी ए 4 विष्णू 74 डहाणूकर कॉलोनी, लेन नं 6, कोथरुड, निअर केसीएल सर्कल पुणे 411 029
265	104304	श्री अवस्थी मनमोहन प्रभाशंकर ए सी ए फ्लैट नं 83 विंग ए 8 फ्लोअर, तुलसी टॉवर को आँ हा सोसा ली., ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली इस्ट, मुंबई 400 101	285	104827	श्री. श्रीधार्थ मदनलाल गुप्ता ए सी ए सी/ 201 तुलसी आशीश को आँ हा सोसा शहाड वेस्ट, शहाड 421 103
266	104343	श्री. दोमडिया प्रशांत दलपतराय ए सी ए 2 / 18 कैलास ज्योत देरासर लेन, घाटकोपर इस्ट, मुंबई 400 077	286	105058	श्री. राजेश मुलचंद भाटोया ए सी ए 107 हशीम बि., 2 फ्लोअर मोहमद आली रोड, मुंबई 400 003
267	104349	बादशाह अवेन जाल ए सी ए अरथुर अनदेरसेन, 17 फ्लोअर, एक्सप्रेस टॉवरर्स, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021	287	105091	ज्योती चंद्रशेखरन नायर ए सी ए जे एन-4 बि., नं 13 फ्लैट नं. 4, सेक्टर 10, वाशी, नवी मुंबई 400 703
268	104429	मनिषा हेमंत लखोटिया ए सी ए एल-2 / 503 निलयोग रेसीडेंसी, गौरीशंकर वाडी, पंतनगर, घाटकोपर इस्ट, मुंबई 400 075	288	105103	श्री. बालाजी व्यंकटचालम ए सी ए फ्लैट नं 301, बि.3 बी, शीव भगतानी मनोहर, बिहाईड जलवायु विहार, निअर एस एम शेट्टीस्कूल, चंदोवली, मुंबई 400 072
269	104491	श्री. सुंदर रामस्वामी ए सी ए 12 / 159 श्रीकृपा, गरोडिया नगर, घाटकोपर इस्ट, मुंबई 400 077	289	105105	परना कलना नाथ बॅनर्जी ए सी ए 602 पराग, पेडार रोड, मुंबई 400 026
270	104531	श्री. लैला आन फर्नांडिस ए सी ए 35 लोवेडले मिडो देसाई मार्ग, कुलाब मुंबई 400 005	290	105293	श्री. अजय हरिश लखानी ए सी ए ए-108 प्रेमजी नगर, दौलत नगर, बोरीवली इस्ट, मुंबई 400 066
271	104532	श्री. अमित अविनाश नाडकर्णी ए सी ए 11 विनय, बी.के. मार्ग, मुंबई 400 016	291	105365	श्री. निखोल घनशाम दागा ए सी ए बी-303 वैभव अपा., ओल्ड प्रभादेवी लेन, ओपो टाटा प्रेस, प्रभादेवी, मुंबई 400 025
272	104560	श्री. जयेश हरखचंद देहडिया ए सी ए रुम नं 6, गणेश चाळ, तुलास्करवाडी, एम जी सी आर रोड नं 1, कांदिवली वेस्ट, मुंबई 400067	292	105370	श्री. अनिल बनवारीलाल अप्रवाल ए सी ए 702 शिव दर्शन सी एच एस., ओल्ड एम एच बी कॉलोनी गोराई रोड, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400 091
273	104568	श्री. अमित नाडकर्णी ए सी ए 11 विनय, बी.के. मार्ग, माहिम, मुंबई 400016	293	105446	श्री. राजेश शशीकांत रेवाटकर ए सी ए फ्लॉट नं 219, गांधी नगर, नागपूर 440 010
274	104569	श्री. राकेश शामलालजी अप्रवाल ए सी ए सी-2 जैप्रम सोसा., कैम्प रोड शाहझबाग, अहमदाबाद 380 004	294	105447	श्री. मुक्ता गौतम ए सी ए शील्पा, ए-8 29, राजवाडी सी एच एस., राजावाडी, घाटकोपर इस्ट, मुंबई 400 077
275	104580	श्री. विनित सराफ ए सी ए इ-102 ज्योती आरच., एस व्ही रोड, कांदिवली वेस्ट, मुंबई 400 067	295	105519	श्री. निखिल आनंदभाई गजार ए सी ए ए / 4, देसाई पार्क, निअर रेल्वे लाईन रोड, जीवराजपार्क एरीया, अहमदाबाद 380 051
276	104586	श्री. सोनार संतोषकुमार राममूर्ती ए सी ए ए-42, शुभम, ओपो इ एस आय एस हॉस्पिटल, आकली रोड, कांदिवली इस्ट, मुंबई 400 101	296	105528	श्री. गौरव कमलकृष्ण चोपरा ए सी ए डि-203 रुनबवाल सेंटर, बी एस डि मार्ग, डेओनार, मुंबई 400 088
277	104608	काजल सुचित कामथ ए सी ए एन2/3 सुन्दर नगर, एस व्ही रोड, मालाड वेस्ट, मुंबई 400064			

297	105612	श्री. सोमा विराल संधानी ए सी ए 10 / 21 वरमा नगर, ओल्ड नगरदास रोड, अधेरी इस्ट, मुंबई 400069	312	106735	श्री. अमलेश दयानंद मस्कीकर ए सी ए बि.नं. 2 डि फ्लैट नं. 402, पवई विहार, बि.नं. 2 को ऑ. हा सोसा पवई विहार कॉम्प्लेक्स, अदज शंकराचार्य मार्ग, पवई, मुंबई 400 076
298	105614	श्री. देवंग हसमुखभाई शहा ए सी ए सी-20 अंड 21 स्वामीनारायण नगर 1, निरर गांधी पार्क, हरनी रोड, वडोदरा 390 006	313	106754	श्री. मोना केतन शहा ए सी ए 7/34 जुहू प्रभात, न्यु डि एन नगर, निरर जुहू सर्कल, अधेरी वेस्ट, मुंबई 400 053
299	105655	श्री. सतोष कुमार चौधरी ए सी ए नेटवर्क हाउस, जी 7 एम आय डि सी, अधेरी इस्ट, मुंबई 400 093	314	106803	श्री. अमित जाधवजी धरोड ए सी ए ए-202 विश्वामित्र, सप्तश्री पार्क, निरर स्वप्ना नगर, मुलुंड वेस्ट, मुंबई 400 080
300	105852	निती कैलाश सराफ ए सी ए इ-102 ज्योती आरच., एस व्ही रोड, कांदिवली वेस्ट, मुंबई 400 067	315	106813	श्री. गोपाल बालचंद्रन ए सी ए 32, स्वाती, तरनगन कॉम्प्लेक्स, पोखरन रोड नं 1, ठाणे वेस्ट, ठाणे 400 606
301	105985	श्री. अनिल भास्करन नायर ए सी ए सी / 15 गुरुकृपा नगर, लावण्य सोसा., नाहुर व्हीलेज, मुलुंड वेस्ट, मुंबई 400 080	316	107050	श्री. रवी प्रकाश अग्रवाल ए सी ए पी एच-4 8 फ्लोर, मारुती टॉवर सेक्टर 11, ओपो सरोवर विहार, सी बी डी बेलापूर, नवी मुंबई 400 614
302	106115	श्री. गजानन पांडुरंग पोते ए सी ए फ्लैट नं. 402, बि.नं 12, मिलेनियम पार्क, हरी ओम नगर, मुलुंड इस्ट, मुंबई 400 081	317	107092	श्री. मुकेश सिताराम शर्मा ए सी ए डि 301 सोनी परदेसी, ओपो राम मंदिर रोड, वझीर नाका, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400 091
303	106116	श्री. टेलर शैलेश हरकृष्णदास ए सी ए ए-1 / 10 श्री पुनीत नगर सोसा., एस व्ही रोड, बोरवली वेस्ट, मुंबई 400 092	318	107111	अनिता बाल ए सी ए 16/ 86, वानमाली, गरोडिया नगर, घाटकोपर इस्ट, मुंबई 400 077
304	106217	श्री. माधवजी मोहनलाल भादरा ए सी ए 12 दामोदर निवास, 32 / 34 सी पी टैंक रोड, मुंबई 400 004	319	107128	रसीका अतुल रेगे ए सी ए 1958, सदाशिव पेठ, माडिवाला कॉलनी, कोपरखैरानी, पुणे 411 030
305	106365	श्री. संकेतकुमार नलीनचंद्रा मवनी ए सी ए 102 ओम दिव्या अपा., टिकम दास रोड, निरर सिने स्टार सिनेमा, कांदिवली वेस्ट, मुंबई 400 067	320	107235	श्री. शशीकांत खेमानी ए सी ए बी-605 अहिन्सा एनक्लेव, ओपो सबकुछ सुपर मार्केट, लंक रोड, मालाड वेस्ट, मुंबई 400 092
306	106533	श्री. विजय हरसुखलाल मेहता ए सी ए जोश चैंबर, 3 फ्लोर सर पी एम रोड, फोर्ट, मुंबई 400 001	321	107238	श्री. अजय मुरलीधर फालोड ए सी ए ए / 19 / 20, नेमिनाथ अपा., सिम्पली रोड, बोरवली वेस्ट, मुंबई 400 092
307	106615	श्री. व्यंकटकृष्ण राजवेकट राव ए सी ए सी-15, कैलाश अपा., सारस्वत कॉलोनी, डोंबिवली ऑन इस्ट, डोंबिवली 421 201	322	107265	श्री. चंद्रशेखर सोमनाथ कामथ ए सी ए दुभास बि.आर एन 1, गोखले रोड दादर वेस्ट, मुंबई 400 028
308	106628	श्री. दर्शन अनिल शाह ए सी ए 5 पारीजात, 3 फ्लोर, 54 वाडिलाल, पटेल मार्ग, ग्रैंट रोड, मुंबई 400 007	323	107305	श्री. दिनेश मोहनलाल जासरापुरया ए सी ए 204 आय आर आय एस ए उनाथी गार्डन, पोखरन रोड नं 1, ठाणे वेस्ट, ठाणे 400 606
309	106643	श्री. सचिन शामराव अमोनकर ए सी ए फ्लैट नं 8, निर्मला अपा., सेनावाडी औध, पुणे 411 007	324	107329	श्री. किरन अरविंदकशन मेनन ए सी ए फ्लैट नं. 402 ए-1, कुमार प्रेरणा, सर्वे नं 158 / 1 / 1 न्यु डि पी रोड, औध, पुणे 411 007
310	106668	श्री. किशोर संतराम बेर्डे ए सी ए 301 / 266-ए टेम्पल अक्वेन्यु, देवधर रोड, मादुंगा इस्ट, मुंबई 400 019			
311	106673	श्री. नमिता श्रीकांत कामथ ए सी ए 132, पुरनंद, बानगंगा रोड, बालकेश्वर, मुंबई 400 006			

325	107461	श्री. शंकर विष्णु पवार ए सी ए 4 / 228, बाद्रीकृष्णराम सेकंड खेतवाडी, मुंबई 400004	340	108340	श्री. वर्मा प्रेमसिंग ए सी ए 12 नरेंद्र भवन, मुरबाड रोड, निअर राजासोडा फैक्टरी, कल्याण 421301
326	107489	सुजाता संजय वर्मा ए सी ए 104 जी विंग बिहाईड सुंदर नगर, ओपो दालमिया कॉलेज, एस व्ही रोड, मालाड वेस्ट, मुंबई 400 064	341	108382	श्री. मनिश सुरेश मेहता ए सी ए 101-102 मुनिसुवरत अपा., सुर्योदय नगर, मुलुंड वेस्ट, मुंबई 400 080
327	107494	श्री. विरेन नवनीतभाई पारेख ए सी ए 24-बी सुखानंद चाल, खटगेरगल्ली, फ्लोअर, रुम नं 46, सी पी टैंक, मुंबई 400 004	342	108413	श्री. निपुन दिपककुमार शहा ए सी ए 802 आदर्श टॉवर, आदर्श विहार कॉम्प्लेक्स, ओपो मारवे रोड, मालाड वेस्ट, मुंबई 400 064
328	107565	श्री. अनीहोजी अक्षय ए सी ए 302 अभिशेख, निअर स्प्रिंग मिल, डॉ. आंबेडकर रोड, दादर, मुंबई 400 014	343	108416	श्री. हरीशकेश अनंत मेहेंडाले ए सी ए अमृत कुंभा को ऑ हा सोसा., स्वाती 6 ए, चितळे रोड, दादर, मुंबई 400 028
329	107671	श्री. ब्राजेंद्र बी तालेसारा ए सी ए 102 नुतन सिध्दार्थ अपा., आनंद नगर, जि ठाणे, वसई वेस्ट, वसई 0	344	108450	ममता सिंग ए सी ए डि-108 फ्लोअर, सिंगलेटोन फ्लोअरर्स, साउथ सिटी 11, हरियाणा गुरुगांव
330	107675	श्री. युबैन दिनशाव मिस्त्री ए सी ए ब्लॉक एम-2, माउंड फ्लोअर, कुसरी बाग, शहिद भगत सिंग रोड, कूलाबा कौसवे, मुंबई 400 001	345	108488	स्मीना हिमांशु पतंगे ए सी ए बी6 103 ब्रम्हांड, फेज 3 आझाद नगर, ठाणे वेस्ट, ठाणे 400 607
331	107855	श्री. होशी बेजन भरुचा ए सी ए 7 निर्मला महल, 12 ए बीमंजी पेट्रीट रोड, मुंबई 400 036	346	108491	श्री. पटेल केतन ए सी ए ए-601 मोरेश्वर कृपा सी एच एस ली., पन्नालाल घोश मार्ग, लिबर्टी गार्डन, रोड नं. 3 एस्कटेशन, मालाड वेस्ट, मुंबई 400 064
332	107912	श्री. हर्षल अविनाश सुलाखे ए सी ए 4 / 67 गोदावरी प्रवार, डी एन नगर, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 053	347	108520	श्री. गजानन प्रकाशराव मामीदवार ए सी ए सी / ओ श्री प्रकाश बालाजी मामीदवार अेंट पोस्ट बितरगांव, ता. उमरखेड, पुणे 0
333	107931	श्री. पंकज विनोदकुमार धनधनिया ए सी ए 8 / 68 पीरामल नगर, एस व्ही रोड, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई 400 062	348	108549	निशीता रमेश मोदी ए सी ए 1001 ग्रीन रिज नं 11, 100 एफ टी रोड, चिक्कु वाडी, एन्ड ऑफ सिंपोली, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400 092
334	108016	श्री. जितेंद्र एस गुप्ता ए सी ए 33 बाभा चाल, खेतवाडी 13 लेन, मुंबई 400 004	349	108659	श्री. मुरारका अनुपम ए सी ए दि असोसीएट्स सीमेट कं. ली., नागपुर रिफैक्टर वर्क्स, प्लॉट नं ए-1, बुटीबोरी इंडस्ट्रीयल एरीया, बुटीबोरी, नागपुर 0
335	108029	श्री. तन्मय धनंजय केलकर ए सी ए 41 / 55 जय विजय को ऑ सोसा., सहार रोड, पारसीवाडा, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400 099	350	108878	श्री. सुरेश कुमार रमन नायर ए सी ए 217 / ए 13 एम एच बी कॉलोनी, धयनईश्वर नगर, सेवरी वडाला, मुंबई 400 031
336	108112	श्री. जयेशकुमार कालाभाई पटेल ए सी ए जयराज हाउस, नानो पटेल वास व्हिलेज, कोटेस्वर, पोस्ट मोतेरा, गांधीधाम 382 424	351	108914	जया हर्षद पारेख ए सी ए 1-कमला अपा., जे पी रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 058
337	108125	शितल प्रभाकर घोसाळकर ए सी ए 101 खेमराज भुवन, फ्लोअर रु नं 19, खेतवाडी, 7 लेन, मुंबई 400 004	352	108918	श्री. उमेश ओमप्रकाश बियानी ए सी ए बी1 / 301 हरसिन्धी पार्क, पवार नगर, पोखरन रोड नं 2, ठाणे वेस्ट, ठाणे 40 601
338	108215	श्री. मुहम्मद झुबैर मेमन ए सी ए 202 शबनम, 33 एस व्ही रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 058			
339	108326	श्री. पुरुषोत्तम एन शर्मा ए सी ए 404 ग्रीन एक्वेन्सु 1, रहेजा इस्टेट, कुलुपवाडी, बोरीवली ईस्ट, मुंबई 400 066			

108937	मिस अमी सुनील क्रिस्ती ए सी ए अनिकेत चेंबर 5 माला, चौथा बोज, सूरत 395 003	367	109601	श्री. मनिष मधुसुदन शहा ए सी ए बो / 105 हायलैंडहारमोनी, पी प्लॉट पंचशील, एनक्लेव महावीर नगर, कांदिवली वेस्ट, मुंबई 400 067
108964	श्री. प्रशांत चंद्रकांत शहा ए सी ए 15 कस्तुरी, 3 फ्लोअर, गोशाला रोड, मुलुंड वेस्ट, मुंबई 400 080	368	109639	श्री. मेलवीन सेक्युरा ए सी ए 7 / 9 गजानन कॉलोनी, गोरगांव वेस्ट मुंबई 400 062
108996	श्री. मनिश नवनितराय वोरा ए सी ए सी / 502 गोकुल देविने, नेस्कट टू कल्पना गैरिज, ओपो इरला जैन टेम्पल, विलेपार्ले मुंबई 400 056	369	109694	श्री. हरशीत मनोज मेहता ए सी ए 26 सुदर्शन बि., 13 फ्लोअर, 22 एल डि रुपरेल मार्ग, मलबार हिल, मुंबई 400 006
109003	श्री. घोलम हुसैन अब्बास मंसुरी ए सी ए अरथुर अनदेरसन, 65 मेकर टॉवरस एफ, कुफे पराडे, मुंबई 400 005	370	109725	श्री. गुरुप्रसाद परमेश्वर माया ए सी ए प्लॉट नं 201, बालाजी कृपा, प्लॉट नं 36, सेक्टर 19 नेरुल इस्ट, नवी मुंबई 400 706
109019	श्री. सचिन सुरेश अहुजा ए सी ए 6 / 10 माटुंगा नवजीवन सी एच एस ली., 172 तुलसी पीपे रोड, माटुंगा वेस्ट, मुंबई 400 016	371	109728	श्री. जगदीश मुलचंद थाडनी ए सी ए डि एस पी मेरील लनच ली, मनगर फायनन्स, 10 फ्लोअर मफतलाल सेंटर, नरिमन पॉइंट, मुंबई 400 021
109046	श्री. झिनीबिया मिनु मेवडावाला ए सी ए जी / 57 विर देसाई रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 053	372	109746	श्री. सुशील हरीप्रसाद बुधिया ए सी ए 602 बी विंग सेंटलाईट गार्डन, ए के वैद्य मार्ग, गोरगांव इस्ट, मुंबई 400 063
109147	श्री. निखिल घनश्याम दाते ए सी ए 8 चंदन अपा., पेंधरकर कॉलोनी, साने गुरुजी नगर, जेल रोड, नासीक रोड, नासीक 422 101	373	109833	श्री. रॉय मेलविन गालडिन डि कुन्हा ए सी ए 22 हेथेर को ऑ हा सोसा., बामवाडा सहार पी ओ, मुंबई 400 099
109182	इंगरीद प्रीया जॉन डा कुन्हा ए सी ए इ दि सेक्टरुम, 14 बी रोड खार, मुंबई 400 052	374	109903	श्री. प्रफुल पन्नालाल सोमनी ए सी ए सुप्रभातम्, सी बी आय कॉलोनी 7, ब्लॉक 12, जाठरपेठ, अकोला 444 005
109198	श्री. निलेश सुधाकर खजी ए सी ए 217 शरद, शंकर नगर 2, पुणे 411 009	375	109909	श्री. निलय रजनिकांत शहा ए सी ए ए 4 / 304 विनानगर, एल बी एस रोड, मुलुंड वेस्ट, मुंबई 400 080
109231	श्री. इवेतल मनिश शहा ए सी ए मधुकुज 4 फ्लोर, नवरोजी एक्स लेन, घाटकोपर वेस्ट, मुंबई 400 086	376	109968	श्री. दिपेन चंद्रकांत शहा ए सी ए 104 / 4 जवाहर नगर, 5 रोड गोरगांव वेस्ट, मुंबई 400 062
109256	श्री. तुषार माधव सराफ ए सी ए यामुना ए / 102 वसंत सागर, ठाकुर व्हीलेज, ओपो वेस्टर्न हायवे, कांदिवली इस्ट, मुंबई 400 101	377	109980	श्री. तेजस अशोककुमार शहा ए सी ए 6 सेंचुरी अपा., अबो सठनकवाशी उपसराय, वासना बैराज रोड, वसाना, अहमदाबाद 380 007
109282	श्री. आशीश ओमप्रकाश सोनथालीया ए सी ए इ 101 / 102 लोक सरीता, मिलीट्री रोड, मरोल मराशी, अंधेरी इस्ट, मुंबई 400 059	378	110161	श्री. सुनिल कृष्णभाई पोमल ए सी ए 2 गोल्डन सीक्स अपा., भाईकाका नगर, थालतेज रोड, अहमदाबाद 380 051
109305	श्री. हिमांशु सुभाशचंद्र अग्रवाल ए सी ए इरस्ट अँड यंग हाउस, दि मेट्रोपोल, एफ-11 फ्लोअर, बंड गार्डन रोड, पुणे 411 001	379	110210	श्री. अतुल विनायक पाई ए सी ए 402 / सी पंचरतन अपा., भाईरोबा नाला, सोलापूर रोड, पुणे 411 013
109377	श्री. महान भोजा शेटीगार ए सी ए 103 साईराज अपा., कोपरगांव, निरा नागेश्वर टेम्पल वेस्ट, अहमदनगर 421 202	380	110219	श्रीमती राजगोपालन अयंगर ए सी ए डि / 908 उशा नगर, व्हीलेज रोड, भांडूप, मुंबई 400 078

381	110237	राधा जे तीब्देवाला ए सी ए गुंजाइ 23, पारीजात नगर, ओपो भेसला मिलेटरी स्कुल, निअर तुलसी बि., नासिक 422 005	395	111143	श्री. कपील विजयकुमार अग्रवाल ए सी ए चितेश्वर वर्ड 95, निअर काल भवन मंदिर, भगदगंज, नागपूर 440 008
382	110284	श्री. महेश कुमार अग्रल ए सी ए 1 मसाबो बंगलो, सिल्हर गोलड कम्पाउंड, ओपो उबो मडपेश्वर रोड, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400 092	396	111175	श्री. विरल विजय पारेख ए सी ए बी / 2 ब्लॉक नं 8, प्रेमजी नगर, रोड नं 10, दौलत नगर, बोरवली इस्ट, मुंबई 400 066
383	110489	श्री सिध्दार्थ प्रेदीमनवासु ए सी ए फ्लैट नं. 5, टाइन 4, फिल्म टि व्ही इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, स्टाफ क्वार्टर्स, पुणे 411 004	397	111252	श्री. चेतन किरनराज भंडारी ए सी ए 293 / 26 सुपारीवाला हाउस, प्रीस स्ट्रीट, मरीन लाइन्स, मुंबई 400 002
384	110546	शिल्पा शांतोलाल विमल मेहता ए सी ए 801 श्रीनाथ को ऑ सोसा., 11 / बी डॉ देशमुख लैन, मुंबई 400 004	398	111275	मधु राम विरवानी ए सी ए सी-15 / 29 न्यु तेनामेंट, उल्हासनगर 421 004
385	110552	श्री. विशाल ज्योतइंद्र गोर ए सी ए काडीला हेल्थ कारे ली., सर इसेवटीवे मनेजमेंट ऑडिट, झेविअस टॉवर, ओपो इस्कॉन टेम्पल, सरखोज गांधीनगर हायवे, अहमदाबाद 380 015	399	111278	श्री. विरल जितेंद्र ठक्कर ए सी ए ए / 104 वाघनी विहार, नारायण नगर रोड, भाईदर वेस्ट, भाईदर 401 101
386	110554	श्री. ललीत पुरुषोत्तम बाग ए सी ए 403 अमेया आरकेड, ओपो बि. नं. 10 ओल्ड एम एच बी कॉलनि, गोराइ रोड, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400 091	400	111279	श्री. राजेश जेरोमल पठाई ए सी ए लिला सदन फ्लैट नं. 202, 2 फ्लोअर, बी के नं 158 / 1, सेक्शन 30ए, निअर व्ही टी सी ग्राउंड, उल्हासनगर 421 004
387	110613	श्री. सिमसोन के व्ही देवस्य ए सी ए एम एच बी 24 / 167, शिवाई नगर, ठाणे वेस्ट, ठाणे 400 606	401	111364	श्री अमिशा हरेंद्र द्रोशी ए सी ए फ्लॉट नं 87, फ्लॉट नं 5, शंकर विला को ऑ हा सोसा., ग्राउंड फ्लोअर, सायन वेस्ट, मुंबई 400 022
388	110681	श्री. दिपक मुरारीलाल दालमिया ए सी ए ए 703 सारस्वती वसंत सागर, ठाकूर व्हीलेज, कांदिवली इस्ट, मुंबई 400 101	402	111381	श्री. कृपाल भुपेंद्र मन्यार ए सी ए ए / 5 अरीहंत बि., निअर दामोदर वाडी, अशोक नगर, कांदिवली इस्ट, मुंबई 400 101
389	110731	मिसेज मिशा अरविंदकुमार इनतवाला ए सी ए 7 जमनगरवाला बि., सी डि बरफिवाला लैन, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 058	403	111470	श्री. मयंक नलीन आशर ए सी ए एम / एस जी डि आपटे अॅन्ड कं., 1202 / 17 इ, झीम्फ्रेसिडेसी, ओपो आपटे रोड, शीवाजी नगर, पुणे 411 004
390	110745	श्री. राजेश गागरानी ए सी ए 11- राजस्तान सोसा., निअर जलाराम टेम्पल, करेलीबाग, वडोदरा 0	404	111491	सीरजा जयकुमार पील्ले ए सी ए एफ1-106 गोविंदधाम, कलवा, ठाणे, कलवा 400 605
391	110919	दिप्ती देवेंद्र दोशी ए सी ए 5 / 17 समर्थ नगर, चुनाभट्टी, सायन, मुंबई 400 022	405	111664	पुष्पा चंद्रमणी ए सी ए 1 / 61 मुरली पेस्टम सागर तिलक नगर, पोस्ट ऑफिस, मुंबई 400 089
392	110976	श्री. कपिल अजितकुमार गुप्ता ए सी ए 803 रेडबुड बी, एक्हरशार्इन ग्रीन, ओपो तंडन गैरिज, ओपो न्यु लिंक रोड, ओशिवरा, जोगेश्वरी वेस्ट, मुंबई 400 102	406	111672	श्री. हेमल नविनचंद्र झवेरी ए सी ए 23 बी-10 आकाश सोसा., अशोक नगर, कांदिवली इस्ट, मुंबई 400 101
393	111022	दिपा दिवाकर शेटी ए सी ए 301 विसवा, फ्लॉट नं 10, सरस्वती बाग, निअर, रामेश्वर टेम्पल, जोगेश्वरी इस्ट, मुंबई 400 060	407	111730	श्री. मितेश कैलास माहेश्वरी ए सी ए सी / ओ एस आर बाटलीबोय अॅन्ड कं., 6 फ्लोअर, एक्सप्रेस टॉवर, नरिमन पॉइंट, फोर्ट, मुंबई 400 021
394	111039	श्री. मोहम्मद राजा सुलतानअली घोवाला ए सी ए सीनिअर अकाउंट एक्सीक्यूटिव, अल हसान ग्रुप ऑफ कं., पी ओ बॉक्स 1948, रुबी, सुलतनत ऑफ ओमान, मार्कट-112	408	111735	श्री. मनीष सुरेश तीब्रेवाल ए सी ए बी-901, रोजबुड इस्टेट, निअर प्रेरणा तीरथ जैन टेम्पल जोधपूर, क्रॉस रोड सेंटैलाईट, अहमदाबाद 380 015

409	111817	श्री. निशांत कुटी शेठ्ठी ए सी ए 1 / 505 लीलीया नगर, एस व्ही रोड, निअर कामत क्लब, गोरगांव वेस्ट, मुंबई 400 062	424	112653	श्री. देवेन्द्र किशोरदान गाधवी ए सी ए 5 / 41 शारदा दिप कॉम्प्लेक्स, निअर अकूर कॉस रोड, नारंपूर, अहमदाबाद 380013
410	111874	श्री. नरेन रासमीकांत शाह ए सी ए ए / 201 शीवकृपा, मॉडल टाउन, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 053	425	112693	झैनब हकीम बुकवाला ए सी ए 90 सारंग स्ट्रीट, अली मेसन, 3 प्लोअर, मुंबई 400 003
411	111945	श्री. मनिश पुरुषोत्तम संघई ए सी ए शॉप नं 7, आयतुषी अपा, नेक्ट टू केंनरा बैंक, जे.बी नगर, अंधेरी इस्ट, मुंबई 400 059	426	112700	श्री. संदिप अर्जुन रेणू चोतराणी ए सी ए 6-बी / 92 सेवा समिती को ऑ हा सोसा., सायन, कोलीवाडा, मुंबई 400 037
412	112018	श्री. पंकज लाल ए सी ए 301-ए हमिलटन कार्ट, डि एल एफ सोटी, फेज 4, गोरगांव 122 002	427	112736	मिनल अशोक जोशीराव ए सी ए 4 बटागे कार्ट, 100 गोल्डवर्थ रोड, वोकिंग, यु.के. सुरेय जी.यु. 216 एन.पी
413	112075	श्री. अशोककुमार जीवनलाल राठी ए सी ए ए 1 अमोल विहार, रासने नगर, सावेडी नाका, अहमदाबाद 414 111	428	112784	श्री. धिरज सत्यपाल भाटिया ए सी ए ए-604, नारायण हेरोतगे, न्यु लोक रोड, निअर 240 लास्ट बस स्टॉप, खडारवाडा, दहिसर वेस्ट, मुंबई 0
414	112140	श्री. महेश बासेर ए सी ए सी / ओ वेल्सपुन गुजरात स्टहल रोहरेन ली., बी / 9 ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल कम्पाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400 013	429	112785	श्री. मोहम्मद फारुक अहमद किल्लेदार ए सी ए 11 / 14 किल्लेदार मेसन, किल्लेदार स्ट्रीट, जकाब सर्कल, मुंबई 400 011
415	112170	शिल्पा अशोक जोशी ए सी ए ए / 3 विनय सोसा., तरुण भारत, अंधेरी इस्ट, मुंबई 400 099	430	112826	श्री. शोशीरी रामनाथ शानभाग ए सी ए साई भवन, 141 ग्रीन्सस्ट्रीट, मुंबई 400 002
416	112331	श्री. दिनेश विष्णू पाटील ए सी ए डि सील्हा वाडी रिव्हर कॉसिंग हाउस, संतोषी माता रोड, दहिसर वेस्ट, मुंबई 400 068	431	112827	मोना चंद्रकांत शाह ए सी ए सी / ओ एम / एस रशमी ट्रेडींग कोरपोरेशन, 91 नागदेवी कॉस लेन, 1 प्लोअर, मुंबई 400 003
417	112446	श्री. अमित दत्ताराम खेडेकर ए सी ए जी-4 न्यु आम्बीवली सी एच एस, विरा देसाई रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 053	432	112861	श्री. शोखर दिलीपकुमार जोशी ए सी ए 3 / 4 खाखर बि., एन डि रोड, सी पी टॉक, मुंबई 400 003
418	112455	श्री. अंकित रासमीकांत किनारीवाला ए सी ए बी-7 शांतीनाथ, ओपो सोमेश्वर, जैन टेम्पल, 132 रिंग रोड, सॅटेलाइट, अहमदाबाद 380 015	433	113130	श्री. राजेशकुमार शीतला प्रसाद सिंह ए सी ए शॉप नं. 10, प्रेमाजी नगर, एक्वरीन स्कुल, अचोले रोड, नालासोपारा इस्ट, जि. ठाणे, नालासोपारा 401 209
419	112505	श्री. समिर सुभाष बोवालकर ए सी ए ए / 02 अनंत विहार, ओपो सोहम हॉस्पिटल, मोहनंद नगर, मंजारली वेस्ट, बदलापूर 427 503	434	113150	मनाली चित्तनाथ पाटील ए सी ए इंद्रायणी, बी 1 प्लोअर, ब्लॉक नं 6, ओल्ड बेलापूर रोड, कळवा 400 605
420	112544	ज्योती पद्माकर पल्लवी फडके ए सी ए अब्देत फ्लॉट नं 8, प्रशांत नगर, ओपो ताज रेसीडेंसी, पठार डी फाटे, नाशीक 422 010	435	113194	श्री. शौख युसुफ अमिना शौख ए सी ए 13 सारंग टॉवर, 3 क्रॉस स्वामी समर्थ रोड, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 053
421	112597	श्री. धनंजय काशीराम भोसले ए सी ए 05 राजे सोसा., निअर शीवा टेम्पल, माजीवडे, ठाणे 400 601	436	113266	श्री. अभय अशोक सावंत ए सी ए सी / 302 राधा विहार, आजडे गोलवाली शैल रोड, बी / एच व्यंकटेश पेट्रोल पंप, डोबीवली इस्ट, डोबीवली 421 203
422	112602	दिक्षा महिपाल सिंह थलोन ए सी ए 61 प्रेम कोर्ट, पेडेर रोड, मुंबई 400 026	437	113445	उमा वासु अस्वानी ए सी ए परम टॉवर बी वींग, फ्लॉट नं 107, रघुनाथ नगर, निअर इस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, ठाणे वेस्ट, ठाणे 400 604
423	112650	श्री. मनिष नरपतसींग लुनिया ए सी ए 240 न्यु क्लॉथ मार्केट, अदरसाईड, रायपूर गेट, रायपूर, अहमदाबाद 380 002			

438	113538	जेन सिलविया सेक्युरा एफ सी ए 22 छेडा अपा., आय सी कॉलनी, क्रॉस रोड नं 3, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400 103	451	114505	रशमी पंकज मुंदरा ए सी ए जे 10 / 18 जालमंदिर सी एच एस ली. ओपो भंगुर सेवा सदन, भंगुर नगर, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई 400 090
439	113561	श्री. सुनिल अरुण रावल ए सी ए ए 12 इद्रसुख सी एच एस, ओपो स्ट्रीट लोयुस स्कूल, 4 बगलो, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 053	452	114506	श्री. अंचित लखोटीया ए सी ए 601 महावीर दर्शन, एल टी रोड नं 3, ओपो एम जी रोड, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई 400 062
440	113632	श्री. मनिष अग्रवाल ए सी ए 106 सौरभ को आँ हा सोसा., ओपो अपॉल हेरोटज, अबोव्हा अंधारा बैंक, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी इस्ट, मुंबई 400 058	453	114514	श्री. कल्पेश सतिशचंद्र राहा ए सी ए एफ 403 आनंद सागर सोसा., आनंद नगर, एम जी रोड, निअर बोहरी कॉलोनी, कांदिवली वेस्ट, मुंबई 400 067
441	113699	श्री. अतुल हसमुखराय ढोलकीया ए सी ए बी-1214 जिमुर्ती अपा., मामलातदार वाडी रोड, मालाड वेस्ट, मुंबई 400 068	454	114519	श्री. अल्पेश सलेशभाई सुतारीया ए सी ए 24 एशिया हाउस, 1 फ्लोर, निअर स्वस्तिक चार रास्ता, नवरंगपुरा, अहमदाबाद 380 009
442	113742	श्री. चिराग मधुकांत मेहता ए सी ए ए-401, माहेश्वरी-1, बापू भगवे रोड, दहिसर वेस्ट, मुंबई 400 068	455	114532	श्री. महेशकुमार शामलाला वाढवानी ए सी ए दिनेश अपा. फ्लैट नं. 4, 1 फ्लोर सी-11 / 16 निअर भाटीया हॉस्पिटल, उल्हासनगर 421 005
443	113850	श्रीवानी रविकमल भारगव ए सी ए 602 निलांबरी, महर्षी कर्वे रोड, कोंपिरागे, ओपो सागर सैलर्स होम, मुंबई 400 021	456	114606	श्री. अल्पेश विनुभाई पटेल ए सी ए 2 / 7 सहकार सदन, दत्ताराम लाड मार्ग, चिंचपोकळी, मुंबई 400 012
444	113873	श्री. विनय के बागरी ए सी ए उदय निवास, 29-डि डोंगरसी रोड, मलबार हिल, मुंबई 400 006	457	114616	श्री. शशांक विनय सावंत ए सी ए ए-5 / 201 शीव छाया को आँ हा सोसा., गोल्बर्ट हिल रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 058
445	113944	श्री. विक्रांत विनय कुमार जैन ए सी ए बी-502 गोकुल नगरी-2, ठाकूर व्हीलेज, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, कांदिवली इस्ट, मुंबई 400 101	458	114672	श्री. विशाल विजय सराफ ए सी ए बिंदल ब्रदर्स, वयेनकाटेश प्लाज़ा, रुकार रोड, महल, नागपुर 440 018
446	113991	श्री. मंदार जयंत कदम ए सी ए 39 डफ्लोअर, 6 ब्लॉक, नौरोजी शेठ स्ट्रीट, ठाकूरद्वार, निअर चारनी रोड, मुंबई 400 002	459	114711	श्री. रीतेश फतेचंद रानवट ए सी ए 35 / 41 मनोहरदास स्ट्रीट, शीव सदन, 4 फ्लोर, फोर्ट, मुंबई 400 001
447	114012	श्री. रेहना अली मोहम्मद मुलतानी ए सी ए 101 वर्षा कॉम्प्लेक्स, 406 काप कानेरी, आग्रारोड, कल्याण नाका, भिवंडी 421 302	460	114724	श्री. अरविंद व्यंकटराम सुभ्रमण्यम ए सी ए एच 4 / 15, जान-कल्याण, भंगुर नगर, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई 400 090
448	114119	श्री. सोमेश देवीदीन चौरसीया ए सी ए 7 / 30 1 सुतार गली, संतोष सदन, 2 फ्लोर, रुम नं 30, गोरगांव, मुंबई 400 004	461	114734	श्री. मेहुल मनसुखलाल गांधी ए सी ए 608 निलधरा अपा., देवीदास लेन, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400 092
449	114337	जिगना नेहूल पटेल ए सी ए 16 मयुर सोसा., सिंधवैमाता रोड, प्रतापनगर, वडोदरा 390 004	462	114756	प्रीती आशीश लाठ ए सी ए 8डि / 201 अलीका नगर, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अकृती रोड, कांदिवली इस्ट, मुंबई 400 101
450	114499	प्रसाद सुरेश नाईक ए सी ए ए / 603 सोनल क्लासीक, भरडावाडी, जे पी रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 058	463	114786	श्री. प्रभाकर शंकर शेटी ए सी ए 1 / 23 शिवकृपा नि सोसा., न्यु प्रभादेवी रोड, प्रभादेवी, मुंबई 400 035
			464	114806	सकिना अब्बास उदयपुरवाला एफ सी ए 101 / 9-ए कपाडिया नगर, सी एस टी रोड, कुर्ला वेस्ट, मुंबई 400 070

465	114807	श्री. निलेश नरेश माहोत ए सी ए 185 / 5161 जिशुल, सो विंग, पतनगर, घाटकोपर इस्ट, मुंबई 400 075	479	115210	श्री. संकेत महेंद्र कात्याना संघवी ए सा ए 23 / 25 दिव्या दर्शन, जगदुशा नगर, घाटकोपर वेस्ट, मुंबई 400 086
466	114826	यशोदा नारायण श्रीयन ए सी ए श्रीसाई अपा., ए-2 / 9 निअर सोल्वानीया अपा., सावरकर नगर, ठाणे वेस्ट, ठाणे 400 606	480	115243	श्री. नैयनेश नयन शहा ए सी ए 12 राहूल बि., 34 वालकेश्वर रोड, मुंबई 400 006
467	114855	श्री. संतोष कुमार सींग ए सी ए वसंत उत्सव को ऑ हा सोसा., राखी, सी ब्लॉक, फ्लैट नं 804, निअर ठाकुर सिनेमा, कांदिवली इस्ट, मुंबई	481	115303	श्री. भूपेश रतनकर जिपाठी ए सी ए रुम नं 9, ललीता सोघ चाळ, टेक्नीकल एरीया, मरोल पाईप लाईन, अंधेरी इस्ट, मुंबई 400 059
468	114856	श्रीतम अशोक नरसाळे ए सी ए 402 न्यु शीवदर्शन सी एन एस, होली क्रॉस रोड, आय सी कॉलनी, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400 103	482	115314	श्री. मिहिर प्रभाकर मनकाद ए सी ए एफ / 11-12 जवान नगर, बिसाईड इंड्रप्रस्त शॉपिंग सेंटर, एस व्ही रोड, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400 092
469	114904	श्री. गौरव रजनीकांत शास्त्री ए सी ए एच / 52 मनेजमेंट एनक्लेव, बस्तरापुर अहमदाबाद 380015	483	115456	श्री. नरेशकुमार सत्यपाल मित्तल ए सी ए 71 / सी गोवर्धन पार्क सोसा नं 1, निअर नथैबा नगर, हरनी रोड बडोदरा 380 022
470	114942	श्री. सुहास दिनेश पाटील ए सी ए सी / 32 प्रकाश छापुरी सी एच एस, संत मुक्ताई रोड, विले पार्ले इस्ट, मुंबई 400 057	484	115521	मोनिका चगितन मास्करेनहास ए सी ए सुभाष नगर, पोखरन नं 2, बिहाईड इंग्लीश हायस्कूल, ठाणे वेस्ट, ठाणे 400 601
471	115011	श्री. मनिस हर्षवर्धन शहा ए सी ए 206 / ए रीटा पॅलेस, हर्षा पार्क, चंदावारकर रोड, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400 092	485	115530	श्री. मितेश किर्तीभाई संघवी ए सी ए 703 / 704 शालीभद्र अपा., पंचेश्वर टॉवर, जाम नगर 361 001
472	115014	मिलु दिलीपकुमार देसाई ए सी ए बी / 205 गौरी अपा., एकसार रोड, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400 091	486	115725	श्री. विशाल शंकर कोडविलकर ए सी ए बी-102, विनस, साई बाबा गलेक्सी, ओपो ओशीवरा बस डेपो, ओपो न्यु लॉक रोड, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई 400 104
473	115040	श्री. मुरतुझाभाई अब्बासभाई जवादवाला ए सी ए प्राइस वॉटर हाउस कोर्पोरेट, 1104 रहेजा चेंबर, नरिमन पॉइंट, मुंबई 400 021	487	115742	श्री. केदार शंकर मुचंदी ए सी ए 18 फ्लोर, एक्सप्रेस टॉवर, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021
474	115087	श्री. गौरव सुभाष गुप्ता ए सी ए सहल गोविंदपूरा, निअर गुरुद्वारा, अहमदनगर 414 001	488	115830	श्री. पंकज सुंदरदास चंदवानी ए सी ए 402 शिवम अपा., शांती नगर, बिहाईड प्रकाश ओटो, उल्हासनगर 421 003
475	115125	भारती रमेश शकुंतला गांधी ए सी ए फ्लैट नं. 5, 2 ल्फोअरस, बेस्ट को ऑ हा सोसा., सेक्टर 14, कोपर खेराने, नवी मुंबई 400 709	489	115980	श्री. चिराग कुंजकुमार शहा ए सी ए बी-2, 507 ल्फोरीडा इस्टेट, केशव नगर, मुंधवा, पुणे 411 036
476	115150	श्री. निरज नवीनकुमार जैन ए सी ए एफ / 81 सॅटेलाईट सेंटर, ओपो मनेजमेंट एनक्लेव, प्रेमचंद नगर रोड, बस्तरापुरा, अहमदाबाद 380 015	490	115987	श्री. चिराग शाम करकारीया ए सी ए माहिरभाई वाडिया, बि., 1 फ्लोर वाडिया स्ट्रीट, तारदेव, मुंबई 400 034
477	115181	कविता मोहनलाल जसरापुरीया ए सी ए 204 इरीस ए उन्नती गार्डन, पोखरन रोड नं 1, ठाणे वेस्ट, ठाणे 400 606	491	116032	सुप्रिया सचिन पेंडसे ए सी ए ए / 12 यशोदीप, ठाकूर नगर, संत रामदास रोड, मुलुंड इस्ट, मुंबई 400 081
478	115203	श्री. जैशील जतीन अल्का शहा ए सी ए बी-307 मनिश रोज सोसा., बि नं 29, मनिश नगर, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 053	492	116060	किनजाल अजित ठाकर ए सी ए ए-402 महावीर दर्शन, पारेख लेन, एस व्ही रोड, कांदिवली वेस्ट, मुंबई 400 067

493	116161	सामया गणेश अईयर 4 श्रीनिवास अपा., जीवन बीमा नगर, ओपो ए/ 6-10, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400 103	ए सी ए	507	209568	श्री. बालाजी ए एल ए सी ए बि नं 42 फ्लैट नं. 1555, एम एच बी कॉलोनी, वरतक नगर, ठाणे वेस्ट, ठाणे 400 606
494	116244	श्री. अनिल बोरा नं 708 माहेश्वर 11, बापू बागवे रोड, निअर दहिसर ब्रीज, दहिसर वेस्ट, मुंबई 400 069	ए सी ए	508	210107	ललीता जयरामन ए सी ए ए-6 दत्त कृपा अपा., बाइसर तारापूर रोड, नैक्ट टू पंचमी होटल, बोइसर 401 501
495	116249	श्री. शैलेश शांती चिपेर सी / ओ बी एस जैन, पीपारा भवन, पीनली घोरया, बीजैनगर, अजमेर 305 627	ए सी ए	509	211087	श्री. जगन्नाथ साबट ए सी ए गलेनमार्क फार्मासीटीकल ली., 301-305, महालक्ष्मी चेंबर, 3 फ्लोर, 22 भुलाभाई देसाई रोड, मुंबई 400 026
496	116339	श्री. जतीन रवीलाल छेडा 2 / 21 इदू बाग, सन मिल रोड लोअर परेल, मुंबई 400 013	ए सी ए	510	400197	श्री. दिपक गुप्ता ए सी ए फ्लैट नं. 405 4, निलकंठ अपा., ओपो इफको मेन गेट, गांधीधाम 0
497	116346	श्री. गौतम चिनिवारदा सी / ओ श्री पी व्ही बोतरे, बंगलो नं 3, नेक्ट टू सारंग सोसा., शंकरनगर, पार्वती, पुणे 411 009	ए सी ए	511	400229	सुशमा तालसारा ए सी ए ए/ 1404 एवालोन बि., हिरानंदानी गार्डन, पवई, मुंबई 400 076
498	116390	श्री. नरेद्र दामजी नगडा सी / 16 गुरुमोलन को ऑ सोसा., तिलक नगर, डॉ आर पी रोड, डॉंबिवली इस्ट, डॉंबिवली 421 201	ए सी ए	512	401126	श्री. धनुका गुजन ए सी ए 401 4 फ्लोर, वागले वीजन, 18 जुनारोड, पणजी, गोवा 403 001
499	116503	श्री. कुमार सुरेशकुमार शहा ए सी ए 101 मानश्री अपा., स्टाफ बैंक कॉलोनी, नरहरीनगर, राजापेठ, अमरावती 444 601	ए सी ए	513	401300	श्री. निलेश चौधरी ए सी ए ए 402 आर एन ए हाइट, ओपो फेंटासी लैंड, जे व्ही एल रोड, अंधेरी इस्ट, मुंबई 400 093
500	116602	श्री. दर्पण जगदीश मेहता ए सी ए 101 / बी चंदुलाल पार्क, ओपो एस बी आय, स्टेशन रोड, भाईंदर वेस्ट, जि. ठाणे, भाईंदर 401 101	ए सी ए	514	402433	शिवरान प्रीयंका ए सी ए सी / ओ आक्सफेम (इंडिया) ट्रस्ट (पर्सनल), 1 फ्लोर मेनिकयाम बि., ओपो समुद्रा अनैप्ली ओपो सी जी रोड, नवरंगपूर, अहमदाबाद 380 009
501	116641	श्री. निलेश रमेश निकम ए सी ए 147 / 58 दिग्विजय मिल चाळ, डि एल रोड, कालाचौकी, मुंबई 400 033	ए सी ए	515	500738	श्री. शर्मा ऐरिक ए सी ए टाटा-ऑगलाईफइंश्युरन्स को ली., निशोरी कोरपोरेशन, 75 अनिया बसंत रोड, वरली, मुंबई 400 018
502	116751	श्री. सुरज नारायण शेट ए सी ए 601 गोल्ड क्रॉन, पीकनीक कॉटेज, वरसोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 061	ए सी ए	516	502653	श्री. सहदेव अमित ए सी ए इंडियन होटल कं लि., कोरपोरेट फायनान्स डिपार्टमेंट, 3 फ्लोर, मंडलिक हाउस, मंडलिक रोड, कुलाब, मुंबई 400 001
503	200766	श्री. सतिश कुमार एस फ्लैट नं 4 रामस्फ्लैटस् नं 26-बी व्यंकटरामन नगर, अदयार, पोखरन 2, ठाणे वेस्ट, ठाणे 0	ए सी ए	डॉ. अशोक हल्दिद्या सेक्रेटरी		
504	203074	श्री. जोसेफ.बी.ए एच नं 54-ए 1, 1 मेन अमृत नगर, गोगोल मारगो गोवा 403 602	ए सी ए			
505	203229	श्री. धमरायखन्ना टि आर न्यु नं 12(ओल्ड नं 34), आग्रहराम रोड, सीवालीगापुरम, 1 क्रॉस स्ट्रीट, कोरतुर, चेन्नई 600 076	ए सी ए			
506	203325	दिपा जे न्यु नं 21, जे-फ्लैट, न्यु टेक स्वरनाम अपा., 3 रोड मेन रोड, गोधी नगर, अदयार, चेन्नई 600 020	ए सी ए			

मुम्बई-400 005, दिनांक 21 जुलाई

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3 डबल्यूसीए (8)/1/2004-2005 :- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनयम 1988 के विनियम 10(1) खण्ड (3) के अनुसरण में तद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये गये प्रेक्टिस प्रमाण पत्र-उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रेक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं।

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
1. 001232	श्री देसाई शंभु नानुभाई एफसीए शारदा फ्लैट नं. 1 फर्स्ट फ्लोर, ए-रोड चर्चीट, मुम्बई-400020	01/04/2004	7. 005154	श्री नौशीर जहंगिरजी सेतन्य एफसीए अमलफोरी सी-13 फ्लोर 15 एल.डी. रूपरेल मार्ग मलाबार हिल, मुम्बई-400006	15/06/2004
2. 003006	श्री कन्नकर डेविलदस ओमकजी एफसीए 170 हैलेवेल रोड नेर्बुड मिडलैक्स एवक-1डीयू यू के	01/04/2004	8. 005718	श्री कुकेकर श्रीपद मुकुन्द एफसीए 111बी, पैराडाईज अपार्टमेंट्स 44, नैपेन सी रोड मुम्बई-400036	15/02/2005
3. 003687	श्री गणपति अश्वराम वैक्टरमन रोडपिरी एसीए अपेले बिल्डिंग ए-विंग फ्लैट नं. 1104 हीरानिनी स्टेट, फाटल्लोफ ऑफ घोट बुर रोड मुम्बई-400607	01/04/2004	9. 005746	श्री भोखल्लाल शतिलाल त्रिवेदी एफसीए सी-603 मुनि दर्शन विहाइड सागर प्लाजा बिल्डिंग नियर वैफ ऑफ बड़ेड एम जी रोड, वाटकोसर-(वैट) मुम्बई-400086	26/07/2004
4. 003875	श्री चीनूभाई चुनीलाल शाह एफसीए 4 बी सहिल अपार्ट, 4 फ्लोर 14 अल्टामाउंट रोड मुम्बई-400026	25/08/2004	10. 006158	श्री गुरेदिया प्रतापराम जीवालाल एफसीए पी-307 न्यू फुल्लोबाई कार्पोरल निवास एस बी रोड, विले पारले (डबल्यू) मुम्बई-400056	01/02/2005
5. 004075	श्री मयरा मेन्नीलाल हीरालाल एफसीए सी/24 यशोवन्त, इंडस्ट्रियल सेक्टर बी/एच कैलाशपति टेम्पल न्यू सभा रोड कटेरा-390002	01/04/2004	11. 006639	श्री साह कनुभाई प्राणलाल एसीए फ्लैट नं. 12, सैटलाईट शॉपिंग प्रेमचंद नगर रोड, अहमदाबाद-380015	01/04/2004
6. 004989	श्री अर्धर वैवीरवन नत्तेसन एफसीए 73 ज्यूपिटर अपार्टमेंट्स 41 कुफे रोड मुम्बई-400005	01/04/2004	12. 007009	श्री आर बी श्रीकांत एसीए 14 मीरा ओम साई को. ओच. हा. लि. चेन्न नगर, मुम्बई-400089	30/09/2004
			13. 008610	श्री नरेन्द्रा कुमार प्राणशंकर उपाध्याय एफसीए 102-कंचनगंगा-95 एस बी रोड नैक्सट टू बाल भारती स्कूल कांजूर-वैट, मुम्बई-400067	01/04/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
14.	009099	श्री साह अरुण कुमार मणि लाल एसीए 24 परिचय पार्क टिक्लीपुरा ओल्ड फ़ार्म रोड वन्देरा-390015	01/04/2004	23.	013024	श्री दत्तशेखर प्रहलदराव जयव एसीए 106, इच्छापुरी को.-ओप. हा. सोसाएटी सेक्टर 16/थु, वापी नवी मुम्बई-400703	26/08/200
15.	009924	श्री मंडरी सुशील कुमार एसीए द इंडियन स्मैलिंग एंड रिफ़ॉर्मिंग को. लि. लाल बहादुर, राखी मार्ग भनडुर, मुम्बई-400028	03/11/2004	24.	014269	श्री साह प्रवीणचन्द्रा संकलचंद एसीए ए/10 आसीवांद सोसाएटी विहांड सुप्राय पार्क हरनी रोड, वन्देरा-390022	01/04/200
16.	010236	श्री विश्वास मनोहर सोमन एसीए सी-11 सहकर निवास प्रोफ अगाशे रोड वन्देरा, मुम्बई-400028	01/04/2004	25.	014506	श्री मिरजा नौशीर होशंग एसीए 6/ए, सोमरस्ट प्लेस, 61-डी, भूबर्माई देसाई रोड, अयो. सेफिया कॉलेज मुम्बई-400026	01/04/200
17.	010392	श्री गोरे अविंद बलचन्द्रा एसीए 773/6 ए ईस-कृष्ण नियर कमल नहर पार्क पूने-411004	15/02/2005	26.	014962	श्री साह अनिल चंमराल एसीए 63, हरिभक्ति कालोनी-एक्स. अयो. राजलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स ओल्ड फ़ार्म रोड वन्देरा-390001	2/06/200
18.	010445	श्री सेठ रमिकान्त प्रणजीवनदास एसीए 18 क्लेनवुड रोड रिचमंड हिल ओप्ट एल 4 बी ट्रांस कन्नडा-0, कन्नडा	01/04/2004	27.	014998	श्री हितेशकुमार ठाकोरभाई देसाई एसीए 9-ए नटराज सोसाएटी नियर डिलक्स सोसाएटी निजामपुरा, छात्री रोड, वन्देरा-390002	17/01/200
19.	011222	श्री पद संतकुमार त्रिकमल एसीए सी/1, रंछोड भुवन, नियर स्वराष्ट्र से. कॉटर टैंक, धूमकेतु मार्ग फ़र्दी, अहमदाबाद-380007	30/03/2004	28.	015293	श्री दलाल जवाहर रमणिकलाल एसीए 7-सी जय टॉवर 1 पोखरण रोड, खोमल अयो. पुंजनि इंडस्ट्रियल स्टेट पूने-400601	24/09/200
20.	011335	श्री वैरिअब फ़ुलेख मंचरसॉ एसीए एफ-50, कुररो बाँ, ए. एस. भातर्सिंह रोड, मुम्बई-400039	01/12/2004	29.	016112	श्री साह जितेन्द्र ठाकुरलाल एसीए कंधन गौरी हॉस्पिटल बिल्डिंग ग्रैंड फ़्लोर डा. भजवर स्ट्रीट प्रकाश समान मुम्बई-400004	31/08/200
21.	011560	श्री त्रिवेदी विष्णुकर जयदिलाल एसीए विष्णुकर जे त्रिवेदी एन्ड कं. 203 अर के हाउस, विहांड सिल्ल ऑफ सी जी रोड, नवरंगपुरा अहमदाबाद-380009	07/12/2004	30.	016313	श्री सुधीरचन्द्रा गोयल एसीए संजीव अन्तराल, 301, बी.जे.पी. रोड 7 बंगला एओरी (वैस्ट) मुम्बई-400061	01/04/200
22.	011980	श्री मोहन लाल सोमनी एसीए बी2/16, 2 फ़्लोर, मोहन नगर एस. बी. रोड, गोलोवा (वैस्ट) मुम्बई-400062	01/04/2004				

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल त
31.	016944	श्री श्रीवत्सव जय प्रकाश एफसीए केयर ऑफ जेपीएस एसेसिएट्स 6/2, न्यू एक्सिसिअर बिल्डिंग कैपेस स्ट्रीट, फोर्ट मुम्बई-400001	01/04/2004	39.	022227	श्री टी आर गोपी कन्नन एफसीए केयर ऑफ अतुल प्रोडक्ट्स लि. डिस्ट. कलसद (गुज) अहमदनगर-396020	01/04/200
32.	017109	श्री सुपन्न नवरतनमल एफसीए 52 कौमर सैट, गुजालवादी फर्स्ट फ्लोर, मुम्बई-400004	01/12/2004	40.	022397	श्री बी पद्मानाभन एफसीए फ्लैट नं. 306 मेहदिय भवन लोकमत स्वकेयर वर्धा रोड वांटोली, नागपुर-440012	03/05/200
33.	017485	श्री मणिलाल सुबलाल अग्रवाल एसीए बी-11 निलम्बर बंगलो जं. 1 नियर ऑक्टोए नाका कस्तन रोड वडेदण-390015	01/04/2004	41.	025138	श्री मुकुन्दन के वी एफसीए डी-109 सिलवर ब्रेस्ट रहेज विहार, चांदीवली फार्म रोड अंबर (ईस्ट) पेवाई मुम्बई-400072	03/11/200
34.	017723	श्री देवई तारुण बाबुभाई एफसीए ए/7 फर्ल क्वीन रो. नोर्थ एवेन्यू टेगोर रोड सैंटा क्रुस कैट मुम्बई-400054	01/04/2004	42.	025922	श्री लेनीअल विक्टर एसीए एल-463 वर्ड फ्लोर रघुनाथ विहार सेक्टर 14, कारघर नवी मुम्बई-410210	13/08/200
35.	017898	श्री विष्णु तन्नाजी पवार एफसीए 6875/ए मुकुन्दनगर 1 लेन तपोधाम हा. रो. आनंद अपार्ट्स, फ्लैट नं. 2 फर्स्ट फ्लोर, पुणे-411037	01/04/2004	43.	026897	श्री हेरेस रौझीस एफसीए 302 केड सेलम अपार्ट्स अपे सिविल हॉस्पिटल एस पेडनेकर मार्ग वने कैट, वने-400601	01/04/200
36.	017900	श्री मेहरा भारत छोटलाल एफसीए बिल्डिंग नं. 12, फ्लैट नं. 16 4 फ्लोर नवजीवन को.-ओप. हा. रो. लि. लैंग्विज रोड, मुम्बई-400008	13/09/2004	44.	030012	श्री सहा अनिल प्रकाश एफसीए 1402 आरकेडिया, नरिपन फ्लैट मुम्बई-400021	01/04/200
37.	020042	श्री रविचन्द्रन जे एसीए फ्लैट नं. 21, 1-ए अल्फाउट रोड मुम्बई-400026	01/04/2004	45.	030369	श्री गुप्ता अशोक कुमार एफसीए 52-ए, गोपाल मैसन, 2 फ्लोर, टर्न रोड बंदर (डबल्यू), मुम्बई-400050	14/02/200
38.	020478	श्री फिलिप थोमस के एसीए मैसरो इंडिया लि. कोलोरेट रिसर्च सेंटर, रिजिस्ट्री गार्डंस पेवाई मुम्बई-40076	01/04/2004	46.	030976	श्री नायक प्रकाश पुरुषोत्तम एसीए कैलफेयर मैसन फ्लैट नं 54 फ्लैट नं. 1-सहयन कैट मुम्बई-400022	01/04/200
				47.	031563	श्री रूपी चन्द्रशह नरेन्द्र एसीए फ्लैट नं ए-36, 9 फ्लोर मॉन्ट वर्ट, सस रोड पासन, पुणे-411021	25/08/200

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल त
48.	031620	श्री मेहता हरीश हिममल्ल एफसीए 402 फुकर अपार्टमेंट्स जगिज बंगलेज बेडकरोव, अहमदाबाद-380054	31/08/2004	57.	033829	श्री बागले रजनीव दिनकर एफसीए 15 प्रफुल गोकुलदास पास्ता रोड ददर, मुम्बई-400014	03/08/200
49.	031679	श्री दीपक नारायण जुवेकर एफसीए 503 मोहर अपार्टमेंट, एल. टी. रोड बापई बेरीवली (वैस्ट) मुम्बई-400091	26/09/2004	58.	033858	मिस अर्चना अनिल जयवंत एसीए 392 ए नीलकण्ठ अपार्ट्स नारायणपेठ पूने-411030	01/04/200
50.	031848	श्री मिर्द्री गितेन्द्रा छगनलाल एफसीए फ्लैट नं बी-304 हिन्दन अपार्टमेंट कसुकरा अन्कलेव दिल्ली-110096	18/08/2004	59.	034034	श्री पॉल सुपारी श्रीराम एफसीए बी/504, मधु मित्तन टॉवर एकसार रोड, बेरीवली (डब्ल्यू) मुम्बई-400103	17/05/200
51.	032117	श्री अमरेंकर विकास दत्तत्रेय एफसीए 602, यशवंत, चित्तरंजन रोड विले पारले (ई), मुम्बई-400057	01/04/2004	60.	034228	श्री शेषादीनधन जयराम एसीए 504 रेखा, कोर्स टॉवर्स 1 पोखरान रोड वाने कैट, वाने-400606	18/06/200
52.	032411	श्री अश्वर उज्जेश हरिदास एफसीए बी-9 राजेश्वरी सीएफएस लि. एम जी रोड घाटकोपर ईस्ट मुम्बई-400077	20/12/2004	61.	034274	श्री देवी रजेंद्रा सिद्धार्थकुमार एफसीए 1405, इन्दर टॉवर काकमराबेव गडगिल मार्ग, ऑफ झण्डू फर्मा ददर (डब्ल्यू), मुम्बई-400025	13/01/200
53.	032735	श्री पोखरान अरुण चंडुलाल एफसीए 1265 सदाशिव पेठ सुभा आशीर्वाद सेक्टर टी एकव गंगीस क्लबसिस निम्बलकर तारिम चौक, पूने-411030	28/02/2005	62.	034320	श्री ठाकर चन्द्रकांत भाईसांकर एफसीए मैसर्स सी. बी. ठाकर एन्ड कं. 206, 2 फ्लैट अटमजी बिल्डिंग 413, नरवी नाथ सैट, कथ बजर मुम्बई-400009	01/04/200
54.	032902	श्री विमललाल जयंत गुन्वन्तलाल एफसीए 34/बी-1 ग्रेट इस्टर्न रोड 333 क्लबसिस ब्रिज दरिद्रि, मुम्बई-400034	01/04/2004	63.	034379	श्री मेहता ज्योतिन कर्तिलाल एफसीए 804/5 गोल्लन रेज वाई विंग, शास्त्री नगर अंधेरी वैट मुम्बई-400053	01/04/200
55.	033178	श्री राहु नरेन्द्रा सुनील एफसीए 13 म्हाप्रीरी, 1 फ्लैट असोक ग्राम, चक्रवर्ती असोक रोड, कांडीवली-ई, मुम्बई-400101	25/10/2004	64.	034424	श्री कज्जरीया प्रसांत नवीनचंद्रा एसीए बी-1ए शिल्प बीन अपार्टमेंट्स फ्लैट नं. 202, एकसार रोड बेरीवली वैट मुम्बई-400092	08/07/200
56.	033499	श्री असोक कुमर जैन एफसीए 1203 वास्तु टॉवर बिल्डिंग टी/2, लिंक रोड, मल्लद वैट, मुम्बई-400064	14/09/2004				

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल त
65.	034679 श्री स्वप्नेश विनसेट पॉल एफसीए पी. ओ. बॉक्स नं. 230 रियास-11383, सऊदी अरेबिया	01/04/2004	74.	035868 श्री सोमानी प्रकाश चन्द्रा एफसीए डी-714 इन्द्रप्रस्था सत्या नगर नैक्सस टू साई बाबा नगर बेरीक्ली वैट, मुम्बई-400092	27/05/201
66.	034745 श्री पटेल जयेशकुमार भार्गवभाई एफसीए 20/11/2004 ए/7 रविकरुप सेसएटी बी/एच रचना सेसएटी सेटलहईट, अहमदाबाद-380015	20/11/2004	75.	035944 श्री मेहता प्रणय अंजुभाई एफसीए ए/802, रावे अपार्टमेंट्स, पाशाभाई पटेल पार्क, रेस कोर्स सर्कल, वडेदरा-390007	01/04/201
67.	034782 श्री अविनाश रामचन्द्रावत एफसीए फ्लैट नं. 22 मधुर हा. सो. बंदर रिक्लेमेसन बंदर वैट, मुम्बई-400050	30/09/2004	76.	036036 श्री हेमendra रतिलाल शाह एसीए 305/बी, स्काईवे, शास्त्री नगर, ऑफ जे. पी. रोड, अंधेरी (डबल्यू) मुम्बई-400053	15/03/201
68.	034914 श्री गुलाब गिरधारी लाल एफसीए 604, सेनमार्ग ई अग्ने बज्जल हॉल, एस वी रोड मालव (डबल्यू), मुम्बई-400064	30/09/2004	77.	036038 श्री मोदी भारत नंदलाल एफसीए 304, अमृत कुंज को. ओप. हा. सोसाएटी रोड नं. 2, पेस्टम सागर, फ्लैट नं. 40, चैयूर, मुम्बई-400089	09/08/201
69.	035080 श्री डोगरवामी महदेवन एसीए नं. 4 नारायण अमृत नगर, घटकोर वैट मुम्बई-400086	26/07/2004	78.	036070 श्री ओक सूर्याकांत रामचन्द्रा एफसीए फ्लैट नं. 3 रोड नं. 13 सेक्टर नं. 12, अपो सिडको बस स्टैंड न्यू फ्लैट, रायगढ़-410206	01/04/201
70.	035213 श्री विलास महादोश पुणे एफसीए "श्री रामकृष्ण", फ्लैट नं. 14/15 पूजा पार्क, पुष्परी कालोनी पौड रोड, कोयलुड, पुणे-411029	01/04/2004	79.	036178 श्री नाहर द्रवीण गुलाबचंद एसीए 5-ए संकुल कंठेमिनियम 1410 एरेन्डवाने नैक्सस टू मोस्कर हॉस्पिटल पुणे-411004	01/04/200
71.	035266 श्री भूटाअशोक इन्दुलाल एफसीए 401-बी श्रीराम अपार्ट्स विहसंड मिलन सिनेमा एस वी रोड कंडोमिन-वैट मुम्बई-400067	31/03/2004	80.	036219 श्री गणपति रिश्विनारायणमंगलम एफसीए केयर ऑफ के वी सुब्बारायण फ्लैट 302 रचना 1-ए बापूसाहेब ज्युकर मार्ग भांडुप (ई), मुम्बई-400042	01/04/200
72.	035401 श्री अमित अश्वनी एलियास रतिलाल मेहता एफसीए 1 फ्लोर, 4 सेयन हाऊस 13 लेक्नाम रोड गमदेवी, मुम्बई-400007	24/12/2004	81.	036631 श्री मेन्चेका गिलबर्ट एसीए ए-2/सी पंचवटी सी.एच.एस. महोदय-विजयनगर अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई-400059	29/03/200
73.	035627 श्री विनोद मिलिन्द नागवत एफसीए फ्लैट 195 फ्लैट 7 बालाजी, गजप्रिय नगर, घटकोर ईस्ट, मुम्बई-400077	29/07/2004			

क्र. सं.	एम. आर. एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम. आर. एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल त.
82.	036643	मिस पारवी अक्लब हेमंत एसीए 302, सोले सैमन कॉलोन वर्सेव, मुम्बई-400061	01/04/2004	90.	037782	श्री मेहरा कैलाश कपिलदे एसीए फर्नेस इन्सर्ज्ड रफ्त हॉस्पिटल केन विमनगर रोड बबनगर-364001	28/12/200
83.	036697	श्री दलाल कुलीन महेन्द्राभाई एफसीए 503/ए राज आरकेड, महावीर नगर, धनुकर बाघे अपो पंचशील हाईट कोडीवली (डक्यू), मुम्बई-400067	01/04/2004	91.	037811	श्री मधु दीपक विसनजी एसीए 202 ब्रदा अपार्टमेंट प्लॉट नं. 12 एस नं. 32 नवकर नियर यूटीटी हाउस वसई रोड ईस्ट वसई-401210	13/09/200
84.	036927	श्री जैन मिलनप सरोमल एफसीए मिक्ल टॉवर 'सी' ऑफिस नं 45 IV फ्लोर, नरिमन प्वांट मुम्बई-400021	01/04/2004	92.	038013	श्री सिनाए दीपक भाकर एफसीए बी-14, कालीवरी अपार्ट्स नैसट द बॉन्डे कॉलोन ऑफ फारमसी सुन्दर नगर करली, मुम्बई-400098	01/04/200
85.	037168	श्री नाथनी प्रकाश मन्नादीन एफसीए आर नं. 4 फर्स्ट फ्लोर खावरी बिल्डिंग पिकेट रोड, मुम्बई-400002	12/08/004	93.	038168	श्री डीसूझ केवीन जेम्स एसीए चैक्स मैसन 1 फ्लोर, डा. अम्बेडकर रोड फोरेल, मुम्बई-400012	07/01/200
86.	037453	श्री भास्कर अशोक चैमनलाल एफसीए बी-203 समजदीप बिल्डिंग जमनादास अफुकिआ रोड कांडीवली डक्यू मुम्बई-400067	03/08/2004	94.	038258	श्री गणेश शिवा गणेश एसीए 3/12 सीमा से. एन दक्ष मार्ग अखी कैट मुम्बई-400053	01/04/200.
87.	037553	श्री मेटावाला गजेन्द्र चंद्रलाल एफसीए ए-76 श्री कृष्णवाम एलबीएस मार्ग, अपो. गैबरीअल लिमिटेड मुरुन्द कैट मुम्बई-400080	23/12/2004	95.	038597	श्री पटेल विसपी बहाम एसीए 16 मोदी कार्लोनी सुएनागा सैट पूने-411001	01/04/200.
88.	037692	श्री डिपिकेश मन्मथी चैमन एफसीए 1, विस्वात्मनी अपार्टमेंट्स कैट एस चड्यकर मार्ग 14, अहमदर बादी, कांडीवली (डक्यू), मुम्बई-400067	05/10/2004	96.	038653	श्री विजय कुमार एफसीए 15, यमुना सी एच एस नव श्री नगर, पी एल लोखंड मार्ग चैकू, मुम्बई-400089	11/05/200.
89.	037756	श्री पटेल विवेकानंद चतराम एफसीए 706/बी आई अर आई एस दोस्ती एक्स, अंशु हिल्स कान्हा ईस्ट मुम्बई-400037	27/07/2004	97.	038791	श्री राहु पराशर नवीनलाल एसीए पराशर एसी. ब्लॉक ए/3 दीन बाबा पटेल स्टेट स्टेशन रोड, बन्स-डक्यू मुम्बई-400078	01/04/200.

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल त
98.	038836	श्री विनय सजीद एफसीए 203 हरमूद अपार्टमेंट्स 131, अमृत, फ्रैन्चिज कैम्पस कॉर्पोरेशन, मुम्बई-400036	01/04/2004	106.	039946	श्री फारख प्रकाश चन्द्रा एफसीए 504/सी सहजानन्द सोनिया सेंटर साही बाग रोड, अहमदनगर-380004	20/08/200
99.	039233	श्री राजेशकुमार शक्तिरत्न एफसीए सी/310, राम निर्मल कोओप. हा. से. 3 फ्लोर, नरसिंह लेन भारत डकल्यू मुम्बई-400064	19/07/2004	107.	040077	श्री सेमवेकर अनिल कुमार श्रीराम एसीए 3 सुख समाधान को ओप हा. सो. रिक्तक नगर, डेबोवली (ई) डेबोवली-421201	01/04/200
100.	039247	श्री रविन्द्र पद्मकर सरावटे एफसीए बी/12, शक्ति अपार्टमेंट्स, मराठी विद्यालय रोड महाकाली नगर, भुलुन्द (ईस्ट) मुम्बई-400081	22/03/2004	108.	040671	श्री राजेन्द्रा माधव कामथ एफसीए 25/673, नेहरू नगर, रजत कोओप हा. से. कुरला (ई), मुम्बई-400024	01/04/200
101.	039294	श्री कोणवल्लभ सज्जद कामरुली एफसीए 1 मैस स्क्वेयर अपार्ट 1106, टोरेन्टो ओन्टेरियो-एम००००००, कनाडा	11/06/2004	109.	040722	मिस रंजनेकर सुजाता संतोष एसीए 139 जौली मेकर्स चैम्बर II नरिमन पार्क, मुम्बई-400021	06/05/200
102.	039343	श्री प्रसन्न मनोहर अकल्या एफसीए फ्लैट नं. 7, II फ्लोर, विले पारले साई कुटिर सी.एच.एस. तेजपाल स्कीम, रोड नं. 5, विले पारले (ईस्ट) मुम्बई-400057	24/06/2004	110.	040754	श्री रामाकृष्ण टी एन एसीए बी/214 टाटा हाउसिंग सेंटर लाल्लूभाई पार्क रोड अंधेरी डकल्यू मुम्बई-400058	01/04/200
103.	039363	श्री देवदास चेतन कर्तिकर एसीए बी-601, 6 फ्लोर राधाकृष्ण गोकुलधाम, नियर कोरा केन्द्र, एस बी रोड, बोरीवली (वैस्ट) मुम्बई-400092	20/12/2004	111.	040822	श्री गिरीधर दिन्यर जल एफसीए एसपन 7 फ्लोर, 8 पेरी ब्रॉस रोड बंदरा, मुम्बई-400050	17/06/200
104.	039478	श्री अवधानी रमेश एसीए रिलेक्स नैट (रिल 17 जी 2) नं. 13, 13 फ्रॉन्स एनएचएस लेआउट विजयनगर, बंगलौर-560040	01/04/2004	112.	040990	श्रीमति तुषारमैति परसी सासुरी एसीए एस-5, गोदरेज बाग ऑफ नैपियन सी रोड मुम्बई-400026	01/08/200
105.	039621	श्री घटे बालकृष्ण काशीराम एफसीए ए/12, मौली दर्शन, श्री नवरा जाटोबा, रत्नागिरी-415612	01/04/2004	113.	041014	मिस एफन्सो ललितता कोरिया एसीए 3 सनसार्न बिल्डिंग जनरल बेनार्ड ग्युडन रोड पानवेली रोड-403001	30/07/200
				114.	041093	श्री दखेरा सूरत राम एफसीए ए - 706 गायत्री दर्शन ठाकुर कामपलैक्स, कांडोवली ई मुम्बई-400101	24/03/200
				115.	041099	श्री भट्ट देवेंद्र वासुदेव एफसीए यूनिट नं. 001 ग्रैंड फ्लोर, गोडवरी विंग ए शक्तिवन कॉम्प्लेक्स नियर नैसनल पार्क बोरीवली (ईस्ट), मुम्बई-400066	01/04/200

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल त
116.	041244	श्री लक्ष्मणराव रियाज अब्दुल्ला एस्सीए अलफिहद केटीरिस्ट कं. लि. एकजुट डिपार्ट पी. ओ. बॉक्स 10174 जुबैल हिल्स सिटी को. एस.ए-31961, को. एस.ए	01/04/2004	125.	042152	श्री प्रबोध सपन सुदित एफसीए 12ए सुलेमन चैम्बर्स 4 बेटरी स्ट, अपोलो बंदर मुम्बई-400039	09/08/200
117.	041246	श्री खेडकर निरतिन रुखमदास एस्सीए बी 403 पंचरत्न नियर भूटा हाई स्कूल ओल्ड कारदास, क्रॉस रोड अंबेरी हिल्स, मुम्बई-400069	28/03/2005	126.	042493	श्री सेनपल विनय शिवलाल एफसीए 17, मकनजी मैसन बल गेब्रिंज रोड, अपोहरी निक्का महिय, मुम्बई-400016	05/05/200
118.	041281	श्री नरेन्द्रकुमार काननलाल जी राह एफसीए बी 305 सीनो सी एच एस लि. अपो एम सी एफ गार्डन प्रेम नगर ऑफ, एस बी पी रोड बेरीकली (डबल्यू), मुम्बई-400092	4/12/2004	127.	042682	श्री अश्वाल मनीष विजयकिशोर एफसीए 301, डी के हाउस नियर मीडकली अन्डरविज, एल्विसविज, अहमदाबाद-380006	25/12/200
119.	041324	श्री मुच्छला अतुल सतिशलाल एस्सीए बी/101 कर्मा नगर, ऑफ लिंक रोड प्लॉट नं. 247 विशाखंड येरी नगर बेरीकली - कैट, मुम्बई-400091	16/03/2005	128.	042737	श्री लक्ष्मीनारायण एस एस्सीए एच 4, 201 रिडि गार्डन जनरल ए के वैद्य मार्ग माल्ट (हैट) मुम्बई-400097	01/04/200
120.	041458	श्री प्रियु के.प्रकाश गोपाल एफसीए 501, अर्चना राजमल्ली पटेल लेन अपो श्रीव कैन्डी हॉस्पिटल मुम्बई-400026	01/04/2004	129.	042763	मिस चंदनी नैन विजयलाल एस्सीए बी-4, सगर संजो पिकनिक कॅंटेन, वसंत सी फेस मुम्बई-400061	01/04/200
121.	041482	श्री जयेश नरेन्द्र सेठ एफसीए 12, ओरिजन अपार्टमेंट, 29-ए लाल्लुमाई पार्क रोड, अंबेरी (कैट), मुम्बई-400058	01/12/2004	130.	042968	श्री गोपनी कोतन किशोरभाई एफसीए 113 मल्लिक अपार्ट, 11 फ्लोर असोक चक्रवर्ती रोड नियर जैन टेम्पल, कांडीकली (हैट), मुम्बई-400001	15/03/200
122.	041758	श्री पटनी संजय विरडीकंद एस्सीए केंयर ऑफ ससासुबा बी. पटन, 14 गेल्स सदन बी, जगदुब नगर, घाटकोर (डबल्यू), मुम्बई-400086	20/02/2005	131.	043010	मिस देवई उमिता धीरुभाई एफसीए 12, ओरिजन अपार्टमेंट्स 29-ए, लाल्लुमाई पार्क रोड अंबेरी - कैट, मुम्बई-400058	01/12/200
123.	041946	श्री जैन विपिन कुमार एफसीए 19 फ्लोर निर्मल, 241/242 नरिमान पॉइंट, मुम्बई-400021	24/03/2005	132.	043038	श्री राहु धीरन रजनीकांत राह एस्सीए ए-11, तेजकिरण से., राम मंदिर रोड, विलो पार्क-हैट, मुम्बई-400057	31/08/200
124.	042069	श्री कोकला प्रेम विष्णु एफसीए प्रेम कोकला एन्ड एस्टेरेसिड्स 15 ए रूप नगर, 80 एस. बी रोड कांडीकली कैट, मुम्बई-400067	28/07/2004				

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल
133. 043124	श्री षटवी मोहेश कमलकर एफसीए ए 4/002 सिवळगा मिलवट हिल रोड, डोलकिया नगर नियर रिक्विजन कल, अखेरी कैट, मुम्बई-400058	29/06/2004	141. 044003	श्री मटालिया कमल एफसीए कमल मटालिया एन्ड कं., 21, मेघदूत, पैस्टम सागर रोड नं. 4 चैम्बू, मुम्बई-400089	01/08/200
134. 043301	श्री राहु हेमंत कर्तिलाल एफसीए 54, सिद्धाचलपरी अपार्ट्स, असोक चक्रवर्ती रोड, कांडीवली ईस्ट, मुम्बई-400001	19/08/2004	142. 044350	श्री संजीव उषाकान्त राहु एसीए ए-92 विन्स अपार्टमेंट नियर प्रकाश हाई स्कूल, वस्वपुर, अहमदाबाद-0	29/07/20
135. 043303	मिस डॉक्टर सुषमा संगीव एसीए बी 203 सल्लव को. ओप. हा. से. स्वामी नित्यानंद मार्ग अखेरी (ईस्ट) मुम्बई-400069	01/04/2004	143. 044360	श्री बसंत कुमार बंसल एफसीए ए 5/404, आर एन ए पार्क नियर एच पी नगर ईस्ट वाणी नाका चैम्बू, मुम्बई-400074	01/04/20
136. 043506	श्री अमोल विनय सक्ता एफसीए ए/604 सीटी अपार्टमेंट्स महाकाली नगर विद्यालय रोड मुमुंजुई मुम्बई-400081	01/04/2004	144. 044366	श्री अश्विन माधवन एन एसीए फ्लैट नं. बी-21 5 फ्लोरे, क्लेरिजन पार्क, औंध, पूणे-7	01/04/20
137. 043734	श्री कोटरी सुनील मणिकान्त एफसीए 2 कृष्ण कॉटेज 27 नव पार्क नगर घाटकोटर (ईस्ट) मुम्बई-400077	15/03/2004	145. 044523	श्री राहु अमर नरेन्द्राभाई एसीए 12 हर्ष अपार्टमेंट्स 36 प्रीतम नगर, अहमदाबाद-380006	23/11/20
138. 043781	श्री गौरी संकर झलनी एफसीए 407 मिनिमस पार्क एसबी रोड, मालाद कैट मुम्बई-400064	03/01/2005	146. 044526	श्री प्रभु पराग वैकटरमन एफसीए ब्लॉक नं. 8, टीपा अपार्ट्स, मालविया रोड, विले पार्ले ई मुम्बई-400057	01/04/200
139. 043862	श्री परस नवीनचंद्रा सक्ती एसीए 195/5, स्वामी नित्यानंद स्टेशन रोड, वस्वपुर, मुम्बई-400031	01/04/2004	147. 044541	मिस नाल्वाडे आशा प्रसन्ना एसीए पोस्ट बॉक्स नं. 13173 दुबई, यूएई	10/08/200
140. 043968	श्री यशव अश्विनीका गोपालम एसीए ए-11, 106, एस्टेट रेजीडेन्सी ऑफ महाकाली केस रोड, विहांड पून नगर अखेरी - ईस्ट, मुम्बई-400060	24/01/2005	148. 044865	श्री राहु मुकेश गोर्षनदास एसीए 1/5 जूहू समीप जूहू कर्सेव रोड, अखेरी (कैट), मुम्बई-400053	01/04/200
			149. 044956	मिस गिरजा महादेवन एसीए फ्लैट 12 वैराव मुमुंजु ओम सीएचएस लि. पी खेरान रोड, नाहूर मुमुंजु कैट मुम्बई-400080	01/04/200

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल त
150.	044957	मिस राजलक्ष्मी जयारमण एफसीए केयर ऑफ पी पी जयारमन एंड कं. ऑफिस नं. 107 एन्ड 108 1 फ्लोर स्वस्तिक फ्लूइड नियर कोल्टस लि. सुभाष नगर, पोखरान रोड नं. 2 थानेवैट, थाने-400602	01/04/2004	158.	045652	श्री मेहता भावेश नलिनकुमार एसीए केयर ऑफ एन जी मेहता 501 लक्ष्मण टॉवर्स चीकवाडी, बेरीवली (वैस्ट) मुम्बई-400092	10/10/200
151.	045091	श्री कपिल प्राणदत्त मारवाड एसीए 4/31 शक्ति बिल्डिंग नं. 2 पेक्षार रोड मुम्बई-400026	22/03/2004	159.	045820	मिस सुक्ला तुति दीपक एसीए 702 सी हल्डस बस्ती टॉवर दत्ता मंदिर एक्स रोड धनुस्वरवाडी कांडीवली-डबल्यू मुम्बई-400067	17/08/200
152.	045193	श्री विवेक विनयक मुक्त्य एसीए ए 303 अटरीय, अवधूती निहारीक कॉम्प्लैक्स प्रोफ एन एस फडके मार्ग अंधेरी (ई), मुम्बई-400069	01/04/2004	160.	045892	श्री देसाई दिव्यल किशोरभाई एसीए बी/502 कृष्ण रेजीडेंसी 5 फ्लोर आत्माराम कम्पाउंड सुंदर नगर, मालाद वैस्ट मुम्बई-400064	01/04/200
153.	045301	श्री नारायण जगदीश अनांत एफसीए सिवनिवास अवर नं. 5 जवाहर नगर खार झेट, मुम्बई-400051	11/05/2004	161.	045917	श्री राठोड़ उत्तम सिंह एफसीए रुस्तमजी पेंकल फ्लैट नं 1304 13 फ्लोर ए विंग आईडीयल फार्म वैस्ट ऑफ रेलवे लाईंस जे एस मार्ग डहिस्तर (डबल्यू) मुम्बई-400068	17/01/200
154.	045307	श्री मनियन संकर सुब्रह्मण्यम एसीए सी/1, गणेश कोओप हा. सो. मेक्सर रोड-डबल्यू मुजुंन वैस्ट, मुम्बई-400080	01/04/2004	162.	045973	मिस बाणी विनोद चीनवनी एफसीए केयर ऑफ एल.एल.मुन्दद विद्यार्थी भवन लक्ष्म देवीदयल रोड मुजुंन डबल्यू मुम्बई-400080	01/04/200
155.	045339	मिस मेहता जगृति भावेश एसीए केयर ऑफ एन जी मेहता 501 लक्ष्मण टॉवर्स चीकवाडी, बेरीवली (डबल्यू), मुम्बई-400092	10/10/2004	163.	046091	श्री शाह निलेश कुमार धीरजलाल एसीए बी/11, विमल अपार्ट्स 3 फ्लोर जुहू लेन, अंधेरी (डबल्यू) मुम्बई-400058	01/04/200
156.	045565	श्री मनीष सोमनाथ राव एसीए 6 नीमछाय, एम जी रोड, घाटकोपर (ई) मुम्बई-400077	30/12/2004	164.	046093	श्री ब्रह्मेश शिवानंद एसीए 9/102 रामकृष्ण नगर खार-डबल्यू मुम्बई-400052	01/04/200
157.	045635	श्री मदन बजरंगलाल वैष्णव एफसीए बी-22, अमलेश, सैक्टर 3 सुट्टि, मीरा रोड (ईस्ट) डिस्ट. थाने मीरा रोड-401107	09/03/2005	165.	046103	श्री सईद सिकंदर सैयद एफसीए ई ए जुफाली एन्ड ब्रेस (कोरपोरेट ऑफिस) पी ओ बॉक्स-15877, जेयल-21454 सउदी अरेबिया	19/08/200

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल त
166. 046147	मिस देवपांडे अंजलि अशुतोष एसीए बिल्डिंग नं. 6 एफ, फ्लैट नं. 9 सरवे नं. 21, पश्चिम नगरी कावे नगर, पुणे-411052	01/04/2004	173. 046554	श्री दशैया मनीष विमलजी एफसीए 1/8, आनंद, बी एस ई एस रोड नियर राशनिंग ऑफिस सैटलुज-हैट, मुम्बई-400055	01/04/200
167. 046151	श्री हंफन मुकुंद माधव एसीए फ्लैट नं. 2, ग्रैंड फ्लोर 'एक्स' विंग, श्री स्वामी समर्थ अपार्टमेंट्स एस. नं. 106, (ओल्ड एस नं. 66) मिले मोरे नियर पटकर पार्क, नल्ल सोपरा (डबल्यू) वार्ड धने-401203	01/04/2004	174. 046779	श्री शाह संजय एम एसीए ए-12 समथार नगर रैना पार्क, वाटलेंदिया अहमदनगर-380061	08/09/200
168. 046252	श्री बेंद्रे दीपक मोती एम एफसीए 308, सिविक, रघुनाथ नगर सरवेवादी ऑफ इस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे धने-400604	24/09/2004	175. 046821	श्री रतन परवेज मिस्री एफसीए 732 दिनसा हाउस जे वी प्रदुलन रोड पारसी कॉलोनी दर, मुम्बई-400014	15/03/200
169. 046302	मिस एलानी टेरेसा अंटी मुकादन एसीए 5-वर्कम हाउस सैट पीटर्स को. ओप हा. से. 31 फ्लैट रोड, बंदा मुम्बई-400050	05/01/2005	176. 046824	श्री सेल्मिनीयन ए वी एसीए 9/7 मुम्बई को-ओप हा. से. साई नगर कॉलोनी चैकुर, सैट एनपीजी रोड मुम्बई-400071	19/08/200
170. 046328	श्री जैन राजेन्द्र कुमार एफसीए 110 जैलकंड कमलिका सेंटर 122/123 सहर रोड अखेरी (हैट) मुम्बई-400099	16/11/2004	177. 046825	श्री जैन सुनील कुमार हनुमानमल एसीए 17 एम. बी. चैकर स्ट्रीट (1 ब्रॉस लेन) जयदेवी निवास 1 फ्लोर, मुम्बई-400002	19/08/200
171. 046382	श्री ष्ट एकेस एफसीए ए/10 संकरादीप अपार्टमेंट्स अपे सूर्यवंशी टॉवर कलामपुर अहमदनगर-380015	15/09/2004	178. 046841	मिस बन्देवी वैकटेश देवपांडे एसीए बी 4/302, गंगाधाम फेस I बिक्वेवादी, कोल्हा रोड नियर मॉर्किट यार्ड पुणे-411037	01/04/200
172. 046502	श्री खरे सुनील असोक एसीए बी-18, अखेर वीरा देवई रोड ग्रॅस रोड नं. 1, अखेरी (वैट) मुम्बई-400058	22/09/2004	179. 046915	श्री अश्वेष्टकर सावित्र सलीम एसीए जफली प्रिंटिंग सिस्टम्स लि. पी. ओ. बक्स 52967 जेल्ह-21573 सऊदी अरेबिया	01/04/200
			180. 046932	श्री रघुनाथ वसंत देवई एसीए फ्लैट नं. 8, 1 फ्लोर सुजात अपार्टमेंट रामनगर, ऑफ एस बी रोड बोरीवली वैट मुम्बई-400092	01/04/200

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता/	रिमूवल
181.	046934	श्री जेसी ब्रिटेन मनुष्य एसीए ब्रिडिंग एव-6, फ्लैट नं. 2-4 लेक व्यू को. ओप. सो. सेक्टर 14, एरोली नवी मुम्बई-400708	24/09/2004	189.	047288	श्री पटेल देवा भूनेन्द्रभाई एफसीए गुरु स्मृति तिलक विद्यालय रोड विले पारले ईस्ट मुम्बई-400057	25/03/20
182.	046974	श्रीमती देवकी अतुल नयक एसीए केयर ऑफ आर जी राममचिंदर 504 - ए/2, रत्निकार पीठ येहुनपुरा पूने-411080	22/12/2004	190.	047307	श्री ठक्कर जुनीन किशोर एफसीए बी 1 मयूर मा कृपा अयो गोखले स्कूल सिमफोली रोड बेरीकली चैट मुम्बई-400092	31/05/20
183.	047084	श्री श्रीराम को एस नरपयस्वामी एसीए फ्लैट नं. 1, पद्मनाभ इंटरसिटी को ओप हा. सोसाइटी फ्लैट नं. 5, सेक्टर 16-ए, वसो, नवी मुम्बई-400705	01/04/2004	191.	047353	श्री जयश्रीलाल बबूलाल जैन एसीए 302 गिरिनार टॉवर सेठ मोतीबा लेन (लव लेन) नैक्ट टू मरगाव टेलीफोन एक्सचेंज बार्कला, मुम्बई-400010	01/04/200
184.	047093	श्री अजय बालकृष्ण भटवाल एफसीए मैसर्स ए एस भटवाल एंड एसोसिएट्स 1424 अण्णा रोड पी बक्स 69, पुणे-424001	19/08/2004	192.	047395	श्री भद्र विजुल खीमजी एफसीए 01, लाम असीन-ए अल्फ्रेड पुलिस लेन, अंथेरी (ईस्ट) मुम्बई-400069	01/04/200
185.	047105	मिस विद्या मधुसूदन सिनार एसीए 71/202, राम वसंत विहार, पोखरण रोड नं. 2 वने चैट वने-400601	15/12/2004	193.	047471	श्री कितरणी विजयकुमार सीताराम एसीए सी-8/29 एमएससीबी कवाटर्स न्यू पारली यार्ड फॉर प्रोजेक्ट विद्युत नगर, डिस्ट. बीद पारली, वैजनाथ-431520	16/02/200
186.	047130	श्री सुश्री कुमार बबूलाल सिंघी एफसीए सिल्वर अमर्त्यैट फ्लैट ए-3, अमर्त्यैट प्रॉक्स रोड नं. 1 कांझीवली-ईस्ट मुम्बई-400101	23/03/2005	194.	047500	श्री देसाई हेमलकुमार सुरेशचन्द्रा एसीए 102-ए, समवेत संत ज्ञानम्बा रोड ऑफ हनुमान रोड विले पारले-ईस्ट मुम्बई-400057	01/06/200
187.	047145	श्री बी सुरेश एसीए ए-4, तुलसी पर्वत को ओप हा. सो. कैलाश नगर डेवीकली-421202	27/03/2005	195.	047517	श्री मुत्तानी मोहम बाबानाथ एफसीए 32/बी नवगुा मैदान सुल्तान रोड मुम्बई-400007	29/12/200
188.	047188	श्री कामाय दिवाकर केवव एसीए एएल-सुईरम पी ओ बक्स 485, सफा 13005 कुवैत-0, यू. ए. ई.	26/09/2004				

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल त
196. 047548	श्री देवर्षि कौशल उत्तमचंद एफसीए 31/160 हैप्पी होम अपार्टमेंट्स अंधुर रोड, नरनपुरा अहमदनगर-380013	11/02/2005	204. 048235	श्रीमति रजनी नटराज एफसीए केसर ऑफिस के. वी. आर बिल्डिंग 206 सुमर्श अपार्टमेंट्स सर्वोदय नगर नहूर रोड, मुलुंड (वैस्ट) मुम्बई-400080	06/09/200
197. 047658	श्री रमेश गौरंग गुनवने एसीए मुहल को ओप हा. सो. सेकंड फ्लोर, फ्लैट नं. 12 छ सिवनी मार्ग ककोला ब्रिज सेंट्रल - ईस्ट, मुम्बई-400055	09/12/2004	205. 048264	श्री चन्द्रशेखर गोपालकृष्ण एसीए फ्लैट नं. 11, रेखा बिल्डिंग रेवती को ओप हा. सो. फ्लैट नं. 470, 14 रोड कैम्पूर, मुम्बई-400071	28/02/200
198. 047705	श्री रमेश किन्नर करिश्माल एसीए 1192, रामलक्ष्म फोल्ड रायपुर, अहमदनगर-380001	01/04/2004	206. 048330	श्री समीर रामजीभाई दळीया एफसीए ए-9, गांधीसदन, न्यू नगर (दक्षिण) अवेली ईस्ट, मुम्बई-400069	01/04/200
199. 047765	श्री प्रभु केतन नारायण एसीए ए/6 बैंक ऑफ इंडिया स्टफ बिल्डिंग भारद्वारी रोड अवेली ईस्ट, मुम्बई-400058	01/04/2004	207. 048348	श्री पारीख ज्वलंत सतीश एसीए बी-83, फर्नस सेजकल बिल्डिंग एस के बेलो रोड, दादर (डबल्यू) मुम्बई-400028	23/02/200
200. 047903	श्री यशवन्तरी बाल मुकंद एसीए डी-303, धर्म नगर सीएचएस लि. अवे. योगी नगर लिफ्टिंग रोड, बोरीवली ईस्ट मुम्बई-400091	01/04/2004	208. 048379	श्री नटराजलाल सीताराम बांबर एफसीए बी 206 उपवन टॉवर्स अपर गोविंद नगर मल्लद ईस्ट, मुम्बई-400097	21/02/200
201. 047996	श्री सर्म जितेन्द्र महावीर प्रसाद एसीए सी-2/15 सुंदर नगर मल्लद (डबल्यू), मुम्बई-400064	27/08/2004	209. 048400	श्री कृष्ण सुब्रमण्यम एसीए 7 अक्षर मंजिल 1 फ्लोर नियर गोमल भुवन बस स्टॉप आगरा रोड, घाटकोपर (वैस्ट) मुम्बई-400086	24/01/200
202. 048174	श्री सुब्रमण्यम के वी एसीए फ्लैट नं. 301 परीक्षित बिल्डिंग नं. 2 कस्तूरिहार बने डबल्यू बने-400601	29/09/2004	210. 048418	श्री ज्ञान प्रकाश एफसीए 315 पंच शील-3 विंग डी, रहेज टाऊनशिप मल्लद (ईस्ट), मुम्बई-400097	30/12/200
203. 048198	श्री नेमांशु राजीव (अर्थात् सिंह) एसीए 1205-1206 ए विंग संकर पार्क, संकर लेन फादरजी ईस्ट, मुम्बई-400067	22/06/2004	211. 048480	श्री परमर रोहित मोहनलाल एसीए 45-एफ सैक्टर VI, सिल्वरस टाऊनशिप मोती खवादी, पी ओ दिग्विजयसम जम्मनगर-361140	10/07/200

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल त
212.	048620	श्री गोखले निरंजन विद्याधर एसीए सुबेदु को ओप हा. सो., फ्लैट नं. 6, 1 फ्लोर रामबाग पोंड रोड, पूणे-411038	05/02/2005	221.	049077	श्री पंडित अश्विनी अनिल एफसीए डी-201/202, सैटलहैंड पार्क कैप्टन रोड, जोगेश्वरी (ई) मुम्बई-400060	01/04/200
213.	048714	श्री अशोक नरेन्द्र विशंभरनाथ एसीए ए-201 हिल ग्रेज, हीरानंदी स्टेज बेडवॉकर रोड, बने (वैस्ट) बने-4000607	19/07/2004	222.	049141	श्री जैन ललित कुमार एसीए डी-82 ओम, टॉवर सहोबाग नियर राजस्थान हॉस्पिटल कैप्टन रोड, अहमदाबाद-380004	01/04/200
214.	048726	श्री तेजी श्रीकृष्ण पांडुरंग एसीए 2 'अम्बे' छीछपद रोड बेरीवली ई, मुम्बई-400066	29/03/2004	223.	049196	श्री हितेश रमणीकलाल शाह एफसीए ए/303 ब्रुंक्वैन कम्युनैटिस अपो. फिनस्य टॉवर्स नियर सुभाष चौक मेनगर, अहमदाबाद-380052	08/02/200
215.	048819	श्री मनेज मेहत एसीए सी-9, अन्विता वीरा देसाई रोड असेरी (डबल्यू) मुम्बई-400053	10/10/2004	224.	049246	श्री राजेश कंस्त एसीए 5666 गोदी रोड, देसाई-389151	30/11/200
216.	048830	श्री अक्षय राजू विस्वनाथन एफसीए 16, 'फैवी', बोरला उद्यम बने-ओप हा. सो. लि. सैट एक्वनी रोड, चेन्नई, मुम्बई-400071	20/08/2004	225.	049456	श्री अश्विनी प्रसांत कैलास एसीए मैसर्स साई मंगल इंडस्ट्रीज रोड नं. 2 सुवर्ण लक्ष्मी उद्योग योजना (एसएलएनएच) बिहाड़ टुक टर्निंग नियर श्रमिक चौक नगर रोड एमआईडीसी बरुज औरंगाबाद-0	01/04/200
217.	048895	श्री धनुष सुनील वी एसीए 16/22, ब्रुंक्वैन रो., बने-400601	01/04/2004	226.	049480	मिस गुरुवती फलानी उदय एसीए 607 / बी2 शिवाजीनगर ऑफ वारी रोड, वराना, असेरी वैस्ट, मुम्बई-400061	01/04/200
218.	048932	श्री जैन नृप राज एसीए 204, 'ए' विंग, सी लैंड टॉवर जेता पार्क, बनर (ईस्ट), बनर-401105	30/06/2004	227.	049605	श्री उमेश अनिल कुमार देसाई एफसीए 9, साई सदन, 2 फ्लोर हरमोहिन्दस लेन, एम वी रोड असेरी ईस्ट मुम्बई-400069	09/03/200
219.	048973	श्री द्विवेदी प्रवीणकुमार एफसीए बी/304, मोरेश्वरी नगर, एन आई डी सी असेरी - ईस्ट मुम्बई-400093	08/12/2004	228.	049613	श्री जयदीप मुकुंद अनंतराय एसीए 7 मनीष फ्लिंटा 5 फाट्टर रोड, बेरीवली ईस्ट मुम्बई-400066	01/04/200
220.	048983	श्री मुनीष अमीन अनिलकुमार एसीए फ्लैट नं. 156, 6 फ्लोर सहाकर निवास, 20 टारडिओ रोड मुम्बई-400034	01/04/2004				

क्र. सं. एम.आर.एन.	एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
229. 049660	श्री नीलेश्वर रंजन राह एफसीए ए-2, रेखा अपार्टमेंट डेमनिक कालोनी रोड नं. 3 मालव कैट, मुम्बई-400064	15/03/2005	237. 052582	श्री दिनेश रमणीकलाल देसाई एफसीए मैसर्स सन फामास्यूटिकल इ. लि. एकमा प्लाजा, अंधेरी कुर्ला रोड अंधेरी ईस्ट, मुम्बई-400059	17/08/200
230. 049727	श्री पंडित हितेश जसवंतराव एसीए 12 गोकुल निवास बज्जण रोड, विले पारले (डबल्यू) मुम्बई-400056	22/12/2004	238. 054039	श्री डीरूपा एनयनी रेमंड एसीए जी-35, विन्स अपार्टमेंट्स 9 फ्लोर, आर. जी. धवनी मार्ग क्ली सीफेस रोड मुम्बई-400018	01/04/200
231. 049811	श्री मोदी राजेश कुमार मोहन लाल एसीए ए/302, शिव रागर अपार्टमेंट, आशा नगर, ठाकूर कामपलेवस कांडीवली (ईस्ट) मुम्बई-400101	24/06/2004	239. 054440	श्री मनोज के चौहान एसीए 301 पार्क रेजीडेन्सी विशाल चंडवस बंगलो नॉर्थ अम्बाजारी रोड घरमपेठ, नागपुर-440010	16/06/200
232. 049856	श्री लक्ष्म अरविंद गोविंदप्रसाद एसीए फ्लैट नं. 8, II फ्लोर, सुखानी चैम्बर्स मिम्री, पूने-411018	27/09/2004	240. 054562	श्री गुप्ता गुलाबदास एफसीए 304, गीता टॉवर एक्सप्रेस सिटी वसाई (ईस्ट), धने-401205	01/04/200
233. 049880	श्री अरुण राह एफसीए ए-26, ब्लॉक ए, श्री कृष्ण (बी) को ओप हा. सोसायटी एडजेस्टेड लेड से., आउटसाइड वसपुर अहमदनगर-380015	24/01/2005	241. 056019	श्री विनोद कुमार रमा एफसीए बी-505 गंगा गार्डन एस नं. 77 मुन्धवा रोड कोरेगाव, पार्क एन्डैक्सी पूने-411036	20/12/200
234. 049904	श्री करीम अलाफक मोहसिन एसीए फ्लैट नं. 5 विंग सी 1 खयमंड को-ओप हा. सो. विद्या नगरी मार्ग कलिन सैटलज (ई) मुम्बई-400098	24/12/2004	242. 056323	मिस सुखानी रंजना एसीए केयर ऑफ श्री मनोज सुखानी 609 सी उपवन टॉवर अपर गोविंद नगर मालव (ई), मुम्बई-400097	28/03/200
235. 049957	श्री जोशी प्रमोद कुमार एसीए ए 501 गोवर्धन नगर बोर्डर रोड पेंसल कांडीवली (डबल्यू) मुम्बई-400067	22/02/2005	243. 057167	श्री पांडे संजय कुमार एसीए सी-93, वाटनड पार्क नियर गुरुद्वारा, कलतेन, गुजरात अहमदनगर-380059	28/09/200
236. 051588	श्री मंडरी प्रदीप कुमार एफसीए केयर ऑफ पी को मंडरी एंड कां. बंगलो नं. 1 रेमंड स्टॉफ कवटर्स पी ओजेकराव, धने-400606	14/09/2004	244. 057498	श्री सुखानी मनोज एसीए फ्लैट नं. 609 सी विंग उपवन ऑक्स अपर गोविंद नगर मालव ईस्ट, मुम्बई-400097	28/03/200

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
245.	059374	श्री सुभाष चन्द्रा मोहनजी एसोए पीएल 6ए-2/15, वर्षा अपार्टमेंट्स ओनर्स एसोसिएशन सेक्टर 1, खंड कालोनी न्यूफनवेल (वैस्ट) नवी मुंबई-410206	01/04/2004	252.	073501	श्री परीक महेश चंदर एसोए बी-702 स्टर्लिंग कोर्ट ऑफे फ्रिल लेन एमआईडीसी मारेल अंधेरी ईस्ट मुंबई-400072	02/08/200
246.	061066	श्री बजाज रवि कुमार एसोए फ्लैट नं. 204, बिल्डिंग नं. 6 बालाजी गार्डन्स को-ओप. हा. सोसायटी सेक्टर-II, कोपरखैरणे नवी मुंबई-400709	16/08/2004	253.	073526	श्री कमलेश कुमार मेहता एसोए 102 अरिहत पार्क, नियर मॉडल टाउन, पर्वत पाटिया, सूरत-395003	01/04/200
247.	061295	श्री लखवेटिया मनीष कुमार एसोए बी 108 राज सत्यम कॉम्प्लेक्स शिव कस्तुर रोड अशोक वन, दाहिसर ईस्ट मुंबई-400068	28/03/2005	254.	073572	श्री हरीष कुमार महेश्वरी एसोए आ-1/3 जैकिजयश्री सोल्वेक्स लि. बंगूर नगर, गोरेगाँ (डबल्यू) मुंबई-400090	07/01/200
248.	072310	श्री अग्रवाल प्रदीप कुमार एसोए कोटन कोरप. ऑफ इंडिया लि. डिप्टी जनरल मैनेजर (सेल्स) फ्लैट नं एफ-49, इनकम टैक्स कालोनी सेक्टर 21/22 सी बी डी बेलापुर नवी मुंबई-4000614	19/08/2004	255.	074221	श्री अग्रवाल प्रदीप कुमार एसोए एसबी-61, अविष्कार कॉम्प्लेक्स नियर जी ई बी कालोनी ओल्ड पादरा रोड वडेदरा-390015	15/01/200
249.	072626	श्री अब्नी गजेन्द्रा राज एसोए बी/4, 1 फ्लोर, योगा को ओप हा. सो. लि., फ्लैट नं. 19, 12 गुलमोहर क्रॉस रोड, जे. वी. पी. डी. स्कीम, जुहू, अंधेरी वैस्ट. मुंबई-400049	01/04/2004	256.	074254	श्री नवीन कुमार अग्रवाल एसोए सी-303 ऑरचर्ड अनक्लेव जे बी नगर, अंधेरी (ई) मुंबई-400059	03/01/200
250.	072855	श्री सारूपारिया दीपक एसोए 402, 1-बी ग्रेन मोडेल लोडनवला टाउनशिप कंडेक्लेव (ईस्ट), मुंबई-400101	05/02/2005	257.	075019	श्री तैमोनाल रामावतार एसोए जीएमके चैम्बर्स 108 हीरा प्लाजा नियर टेलीफोन एक्सचेंज सी ए रोड, नगरपुर-440008	03/01/200
251.	073205	श्री गोयल सी पी एसोए सी पी गोयल एंड कं. फ्लैट 104 बिल्डिंग सी-18 सेक्टर 6, सत्कार को-ओप हा. सो. मीरा रोड, शान्ति नगर, मीरा रोड-401104	28/12/2004	258.	075185	श्री जैन मनोज कुमार एसोए 206 पंचरत्ना टॉवर्स नियर कोयरूड, बस स्टैंड कोयरूड, पुणे-411029	17/06/200
				259.	075455	श्री महेश्वरी गोविंद एसोए मैनेजर (मार्किटिंग) मैसर्स मणिकगढ़ सिमेंट पी ओ गडचंदूर, द-कोरपाना चंद्रपुर-442908	01/04/200

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल त
260.	076088	श्री प्रवीण कुमार मंडरी एसीए ए-201, राज रेजीडेंसी विलिङ्ग नं. 2, महावीर नगर वस्तुसंकटग्रस्त, कांडीवली (उक्त्यु) मुम्बई-400067	01/12/2004	267.	078301	श्री बाबू सिंह राजपुरोहित एसीए 301/2बी आदर्श नगर कोल्हाद रोड नियर प्रताप सिनेमा थाने (उक्त्यु), थाने-400601	31/08/200
261.	076533	श्री छेखानी कल्याण एफसीए सी-205, माधव त्पोत अपार्टमेंट नियर हनी पार्क अदजान, पुणे-395009	01/04/2004	268.	078354	श्री कलानी आशीष एफसीए केयर ऑफ सोनी अग्रवाल एन्ड कं. 104 सतिदशन अपो. वीना होटल स्टेशन रोड, भयंदर वैस्ट था. -458441	01/04/200
262.	076788	मिस जैन अल्का एसीए फ्लैट नं. 206, पंचरत्न टॉवर नियर कोठरुड, बस स्टैंड कोठरुड, पुणे-411029	17/02/2005	269.	078392	मिस रीना सेन एफसीए फ्लैट नं. 204, महावीर दर्शन को. ओपरेटिव हाउसिंग सोसाएटी सेक्टर 2, आरडीपी 1 नियर पुलिस स्टेशन चारकोप, कांडीवली (उक्त्यु) मुम्बई-0	28/05/200
263.	076800	श्रीमति सोमा घौमिक तुरखिया एफसीए खे-12, V फ्लैट, एक्सेट विलिङ्ग फडित एम एम पालकिया मार्ग टॉरडिओ, मुम्बई-400034	15/02/2005	270.	079009	श्री तरंग गोयल एसीए 503/1ए, द नेबरहुड लेखंडवली, कांडीवली (ई) मुम्बई-400101	18/05/200
264.	076894	श्री अनंद बुधिया एसीए डीजीएम एकाउंट्स बल्लारपुर इंडस्ट्रिय लि. 105 मार्शल स्टोन, पुणे सोलापुर हाईवे भदलवाडी, पैक्वाडी नियर भीमवान, तलुका इंडूर पुणे-413105	01/04/2004	271.	079915	श्री सोनी अभिषेक एसीए फ्लैट नं. 5, गोदवावरी नगर विहाड सुम फ्लैट्स अपो. तुलसी पार्टी फ्लैट वासना अहमदाबाद-380007	01/04/200
265.	077476	श्री अनिल कुमार गर्ग एसीए पृथ्वी प्रकाशन लि. लेकमता भवन पूर्णिमा अपार्टमेंट्स कॉड लेन, लक्ष्मीपुरी, कोरलपुर-0	01/04/2004	272.	079982	श्री मोहनोट दीपक एसीए रूम नं. 201, 2 फ्लोर रिद्धी सिद्धि अपार्टमेंट्स केयर ऑफ डी पी राह नियर कॉलेज कमण्डंड फालनपुर, कनकचंड-0	02/11/200
266.	077728	श्री मेहता तिरुपत एसीए केयर ऑफ बी एल दशरथ एन्ड एसोसिएट्स 2 श्रेयस, ग्रैंड फ्लोर, विहाड राज ऑयल सेंटर 113 जे पी रोड, अंबेरी वैस्ट मुम्बई-400058	16/06/2004	273.	083116	श्री अनुप कुमार एफसीए फ्लैट नं. 1104 सेवेन विलिङ्ग हीरानंदीनी गार्डन पोवाड मुम्बई-400076	29/09/200

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल त.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल त.
274.	083683	श्री अश्वल अरुण एफसीए वाईएस प्रेजिडेंट (फाइनेंस) जी टेलीफिल्म लि. 135, कॉन्टीनेंटल बिल्डिंग डा. एनी केसंत रोड, वर्ली, मुम्बई-400018	05/08/2004	282.	092130	श्री संजय कुमार मीरानका एफसीए विरला ग्लोबल फाइनेंस लि.-गुप्त मैनेजर एपीजे हाऊस, 2 फ्लोर शहीद भात सिंह मार्ग फोर्ट, मुम्बई-400001	04/02/200
275.	085287	श्री खुशना विजया कुमार एफसीए एच-23/2-3, पंचज्योत को-ओप हाउसिंग सेक्टर-29, वसो (नवी मुम्बई) मुम्बई-400703	10/09/2004	283.	093058	श्री सेजी गौतम एसीए ए-21, ओशीवारा तारापरे गार्डन न्यू लिंक रोड अंधेरी डबल्यू मुम्बई-400058	23/06/200
276.	085368	श्री मितल आलोक कुमार एसीए 23 बीच टावर्स पी बलू मार्ग प्रभवेरी वर्ली, मुम्बई-400025	29/09/2004	284.	093079	श्री सैनी रोम नाथ एसीए 11-बी/402 सिंगलीफ लोड्डेकला कम्प्लेक्स कांडीवली (ई), मुम्बई-400101	01/04/200
277.	088227	श्री गुला प्रदीप एसीए 1304-ए, ऑक्सफोर्ड गार्डन टाकुर विंग कांडीवली (ईस्ट) मुम्बई-400101	31/05/2004	285.	093717	श्री मोहन एसीए से 4 सहनसह अपार्टमेंट मोहिनीस लेन, नॉर्थ मेन रोड कोरेगांव पार्क, पूने-411001	20/12/200
278.	088370	श्री दीपक कुमार एफसीए फ्लैट नं. 601 पक्व हिल II फ्लोर, खडवाडी रोड पवनगर-364001	01/06/2004	286.	094532	श्री अनुपम बंसल एफसीए 506 5 फ्लोर नन्दाई मैदान सर पी. एम. रोड, फोर्ट, मुम्बई-400001	01/04/200
279.	089483	श्री अश्विन नारायण एफसीए 11बी/12, सिद्धार्थ नगर अपार्टमेंट फेस II, अनुप, पूने-411007	01/04/2004	287.	095760	श्री मोहन नवीन एसीए मैनेजर कम्प्लेक्स हल ऑफ़ सेर सिमिटिड 201 बिल्डिंग नं. 8 सेक्टर-29 कोरेपोरेट पार्क, अंधेरी कुरुला रोड अंधेरी (ई), मुम्बई-400093	06/01/200
280.	091061	श्री गिरीश कुमार एसीए फ्लैट नं. 402, स्तुति फ्लैट्स अंधेरी जी ई बी, सब स्टेशन गेवली रोड, वडोदरा-389001	01/04/2004	288.	096851	श्री राकेश धरमान एसीए ए-42 निरमान टॉवर नियर सतवर ब्रॉस रोड, सेला रोड, अहमदाबाद-380061	28/09/200
281.	091148	श्री वज्र अश्विनी कुमार एफसीए फ्लैट नं. बी-52, फ्लैट नं. 47 रघुनाथ पार्क सेक्टर-29 जे अर महारे रोड, रघुनाथ पार्क जुहू विले पारले (डबल्यू), मुम्बई-400049	15/03/2005	289.	100049	श्री गिरीश सक्कीयाई अमीरा एसीए डी/101, कन्वेंशियल पार्क II, टाकुर कम्प्लेक्स, कांडीवली (ई) मुम्बई-400101	23/08/200

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल त.
290. 100101	श्री जमाल अख्तर अब्दुल हबीब घटरीवाल एसीए डायमंड अपार्टमेंट सी थिंग, 2 फ्लोर, फ्लैट नं. 212 रूम नं. 134, एस वी रोड जोगापुरी डक्यू मुम्बई-400102	01/04/2004	298. 100400	श्री मर्चेन्ट दीपेश कमलकांत एसीए ए-701 अमार को ओप हा. सो. लि. डी पी रोड, ऑफ जय प्रकाश रोड सैमन कॉलोनी अंधेरी वैस्ट, मुम्बई-400061	18/03/200
291. 100169	श्री पोपटलाल हरिभाई पटेल एफसीए 149 मनहट्टन टेर एनजे 07628, डमोन्ट-0, यूएसए	01/04/2004	299. 100409	श्रीमति राजुल पराग रिन्दनो एसीए फ्लैट नं. 504 टॉवर ए नैक्सट टू वास्तु पार्क अपो. रयान इंटरनैशनल स्कूल मल्लद (डक्यू), मुम्बई-400064	16/09/200
292. 100179	श्री अग्रवाल दीपक पुरुषोत्तम एसीए ई-21 22 साई पार्क नववर रोड मयंदर-401105	25/06/2004	300. 100459	श्री केतन गिरीश बोरा एफसीए ए/2, विशरति, 16 रोड, खार (वैस्ट) मुम्बई-400052	28/03/200
293. 100208	श्री छेनानी हरीश किशन एसीए 304, वांसी अपार्ट्स नववर रोड, मुलुंद ई मुम्बई-400081	01/04/2004	301. 100494	श्री सकपाल अजय रघुनाथ एसीए फर्स्ट फ्लोर, रूम नं. 12 कोरार बाग डा. अम्बेडकर रोड दादर, मुम्बई-400014	10/01/200
294. 100217	श्री मिस्ट्री जूबीन दया एसीए लेडी रतन टॉवर्स ए थिंग फ्लैट नं. 303-ए, दैनिक शिक्कर मार्ग, अपो. नेहरू साईंस सेंटर, वर्ली मुम्बई-400018	21/03/2005	302. 100502	मिस वैशाली आर राजाध्या एसीए बी-33, रायगढ़ निकेतन चैम्बर्स सह्यो रोड, अंधेरी (ई) मुम्बई-400099	08/09/200
295. 100271	श्री उधेजी योगेश रत्नाकर एसीए 11 मेडीनी ऑक्सिड रोड अपो. पार्क कॉलोनी विले पार्ले ईस्ट, मुम्बई-400057	16/08/2004	303. 100531	मिस अरुण बाबूकल्लत चिटलिया एफसीए 304/ए, गावर्धन एल टी रोड, बोरीवली (वैस्ट) मुम्बई-400092	23/03/200
296. 100370	श्री बागले राजेश नारायण एसीए 1, सत्यव्रत बिल्डिंग, तुकाराम लाऊजी रोड, मुम्बई-400007	01/04/2004	304. 100633	श्री गोपेट मंदिर तुकाराम एसीए सी-21 प्राची सोसायटी शाहजी राजे मार्ग दिले पार्ले ईस्ट मुम्बई-400057	01/04/200
297. 100388	श्री लखोटिया विजय लक्ष्मीनारायण एसीए 11/12, ब्रह्मिणी अपार्ट, संतोष बिल्डिंग, पीवांडी-421302	31/03/2004	305. 100645	श्री राजेश कुमार मुन्ना एसीए श्री सर्वेश्वर, 11 भुलेश्वर रोड कृष्ण भावन 1 फ्लोर, मुम्बई-400002	18/05/200

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
306.	100691	श्री संजय चन्द्रभूषण द्विवेदी एफसीए बै-304, नीरव बिल्डिंग आस्ता नगर, अपो. प्रहारा कॉम्प्लेक्स 90 फीट रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कांटीक्ली (ई), मुम्बई-400101	01/04/2004	314.	100996	श्रीमति रेखा नगेश केतसारे एसीए 14 उल हरेकृष्णा कॉम्प्लेक्स प्रीतम नगर, एलीसब्रिज अहमदनगर-380006	07/02/200
307.	100701	श्री जेम्स तेजस जितेन्द्र एसीए 23818 ई बैटरी रोड बीवुड, ओएच-44122, यूएसए	06/09/2004	315.	101033	श्री मेहता सचिव नानुभाई एसीए कोजलेव स्टै अपार्टमेंट्स # 1407 बैरी ओन, ओन-एलएन 5ए, कन्नड	01/04/200
308.	100726	श्री दुर्गा हनुमंत नाडकर्णी एफसीए 12/14 डा. सुंदरलाल बी मार्ग (गोआ स्ट्रीट) नैक्सट टू रेक्स चैम्बर्स क्लार्ड स्टेट, मुम्बई-400038	06/05/2004	316.	101043	श्री भूत संजय कुमार मदन लाल एसीए डी 201 ग्रेट ईस्टर्न लिंकस राम मंदिर रोड, गोरगांव वेस्ट मुम्बई-400104	28/12/200
309.	100785	श्री सरफ मनेज कुमार गिरधरीलाल एसीए 15 शांत कुंज एक्व गज्जनन हटेल कार्टर रोड नं. 3 बेरीक्ली स्टेट, मुम्बई-400066	03/12/2004	317.	101055	श्री कुलकर्णी मंदार अरविंद एसीए 121 कोनस्टन रोड कैम्पसॉट, बेसिंस्टोक-आरजी22 5एचयू यूनाईटेड किंगडम	26/02/200
310.	100831	श्री सतार नवाब बेग एसीए जे9, वीर जीजामन्न नगर डा. ई मोसेस रोड क्ली, मुम्बई-400018	15/01/2005	318.	101196	श्रीमति कोमल महेन्द्रा महागौडकर एसीए बै-50 ओम पुष्पाजलि चैम्बर्स अपो. पोएसर गिमखाना कांटीक्ली (वेस्ट) मुम्बई-400067	24/09/200
311.	100842	श्री राजेश जयेंद्र कुमार शाह एसीए एकअंटेस सुपरवाइजर एमीरेट्स गैस एल एल सी पी ओ बॉक्स नं. 7736, दुबई-0, यूएई	29/12/2004	319.	101259	श्री ब्रिजेस रामेश्वरदास दागा एसीए 14/18 4 फ्लोर विठ्ठल लेन, विठ्ठल बादी, कल्बदेवी रोड मुम्बई-400002	01/04/200
312.	100930	श्री संदीप सुरजमल मुठा एफसीए 34 रत्नद्वीप महसी लेन नियर ओल्ड हैन्डलू हाउस फोर्ट, मुम्बई-400001	24/12/2004	320.	101285	श्रीमति फरजाना मुन्वर अनवरे एसीए ए-406 नूर-ए-जहां II पार्श्व रोड, कूलिंग वेस्ट मुम्बई-400070	13/09/200
313.	100980	श्री प्रदीप सुरान एसीए एसबीआई कॉर्पोरेट एंड इंटरनैशनल बैंक लि. मेकर चैम्बर्स III नरिमन प्वाइंट, मुम्बई-400021	01/04/2004	321.	101346	श्री कृष्णानी विनेस मोहन एसीए 48 पैराडाईज बैर रोड पूने-411045	01/04/200
				322.	101357	श्री मुन्ना विजय नटवरलाल एसीए बै-205, गोमती अपार्टमेंट्स एस वी पी रोड, बेरीक्ली वेस्ट मुम्बई-400092	29/03/200

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल त
323.	101507	श्री समीर अग्रवाल एसीए 1202-2/ए बीरज गैरव हाईट्स अंधेरी लिंक रोड अंधेरी, अंधेरी (वैस्ट), मुम्बई-400053	01/04/2004	331.	102126	श्री तिष्येच्छा अजय कुमार ओम प्रकाश एसीए 3/1 सेकसरीय बिल्डिंग पवन बाग रोड नियर विन्डोनी फाउक मल्लद (वैस्ट), मुम्बई-400064	26/07/2000
324.	101584	श्री वकेल नीतेश पी एसीए बी8/3 कोसमो सी.एच.एस. खीरा नगर, एस. बी. रोड सैटलुज (वैस्ट) मुम्बई-400054	01/04/2004	332.	102159	श्री काकर योनेन्द्रा कुमार एसीए सी-203 कोसमोस वैली ऑफ फ्लेक्स ठकुर क्लेन कांडीवली (ईस्ट), मुम्बई-400101	01/04/200
325.	101617	श्री प्रदीप प्रकाशचंद नवलखा एसीए महावीर मार्ग, एट पोस्ट तालुका जमनेर डिस्ट. जलगाँव जलगाँव-424206	30/07/2004	333.	102211	श्री ददकर संदीप शरद एसीए रूम नं. 18, सगर विहार सी. एच.एस. नंदीवली रोड डेम्बेवली (ईस्ट), डेम्बेवली-421201	01/04/200
326.	101622	श्रीमती किष्क ल्यूकिस एसीए 'बोनस' फ्लैट नं. 6 डीई को-ओप सोसाइटी उमनगर, नरिस-422006	01/04/2004	334.	102228	श्री सक्ता प्रभन्त लखामशी एसीए 3-ए/28, अग्रवाल नगर डा. बी. ए. रोड मलुंग, मुम्बई-400019	26/07/200
327.	101672	श्री देवई मृगेस विनोद एसीए "आनंद सगर" ए-52 राजदीप सोसाइटी, बागीछान, नियर पोले ग्राउंड्स वडेरा-390001	30/06/2004	335.	102272	श्री निरेन चोन्द्रा शाह एसीए 304, न्यू श्री सगर 29/सी खंभारी रोड, मुम्बई-400006	22/02/200
328.	101775	श्री राहु गिगनेस हरिप एसीए डी/21, बांग्ला II फ्लोर, कलाम्बोनी रोड मुम्बई-400002	18/03/2005	336.	102295	श्री कारिय नंदेय श्रीकान्त एसीए 204 महावीर टॉक्स अपो. गैरियल को. एल बी एस मार्ग, मुजुं वैट मुम्बई-400080	29/03/200
329.	101934	श्री खातूद राम प्रकाश एसीए एक्सलैन्स रिजिस्टर्ड परिणत हाऊस, 2 फ्लोर, रूम नं. 1076, डा. ई मोरिस रोड वली मुम्बई-400018	09/11/2004	337.	102365	श्री खले अमोल अरुण एसीए बी/12, सगर स्वप्न डा. एस. आर. रोड, अंधेरी (ई) मुम्बई-400069	14/03/200
330.	101972	श्री राकेश जसवंत गांधी एसीए जी-28 जयलक्ष्मी सोसाइटी अपो. खेदल नगर विल्वन्डी वडेरा-390011	02/03/2005	338.	102366	मिस लक्ष्मी कास्तुरी एसीए 121 कोनिस्टन रोड कैम्पफोर्ट, वैनिस्टॉक-अरजी22 एचयू पुनईटिड विंगडम	26/02/200

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूकल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूकल त
339.	102368	श्री रामचंद्रनी विक्रम संकरलाल एसीए पीटी जेके फार्मस इंडोनेशिया जी सुक्नेवेने, जेडनगन सिडोरजे-61254 इंडोनेशिया	18/11/2004	347.	102861	श्री नंदकिशोर लखड़ा एफसीए 604 एडिंग, ओम सैकम को-ओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. फ्लॉट नं. 40 सैक्टर 17 काशी नवी मुम्बई-400703	03/09/200
340.	102391	श्री अजय विनायक शास्त्री एसीए 29, श्रीनिवास बिल्डिंग नियर वारटक कॉलेज, अम्बरी रोड, वसई-401202	09/06/2004	348.	102892	श्री राहु गौरंग सतीष एसीए 9 लक्ष्मी भवन, सह्याय नगर, अणे. जेन टेम्पल, घाटकोपर-डब्ल्यू मुम्बई-400086	12/07/200
341.	102458	श्रीमति अनीता प्रवीण बसकर एफसीए बी/3, जीवन सेना लिंगनफ रोड (एक्स.) सैदापुरा (वेस्ट) मुम्बई-400054	23/12/2004	349.	103015	श्री पंजवीदलीप ताराचंद एसीए फ्लैट नं. ए-3, बिल्डिंग नं. 4 बसंत पार्क को. ओपरेटिव हाउसिंग सो. लि. आर सी मार्ग, चैम्बर, मुम्बई-400071	13/08/200
342.	102543	मिस पोद्दारकर सरयू अशुतोष एसीए केयर अँड सजय घेलकर फ्लैट नं. 11, बिल्डिंग नं बी-3 सरिता वैफल अपार्टमेंट्स अणे. सह्यायडी पैमिकल्स सिंहगढ़ रोड, पूने-411030	26/02/2005	350.	103045	श्री हेनरिनेस वाई एसीए रूम नं. 15, रिचर्ड सदन मिशननगर-3, पूने-400604	30/06/200
343.	102549	श्री भंडारी मनीषकुमार जगदीशचन्द्र एसीए रूम नं. 26, 7 फ्लोर टाइडजे, ए. सी. मार्फिट टाइडजे, मुम्बई-400034	01/04/2004	351.	103047	मिस लूमा सुरेश रूपारेल एसीए 9, सगर दर्शन हनुमान रोड विले पारले (ई) मुम्बई-400057	06/08/200
344.	102718	श्री राहु सिद्धार्थ दलीप कुन्वर एसीए 6 कर्ति म्हाल, तेली गल्ली, अणे. होटल इम्पिरियल पैलेस, अंबेरी-सैट, मुम्बई-400069	01/04/2004	352.	103135	श्री फटेल विनयकुमार नटवरलाल एसीए जीड पुष्प भारती जय प्रकाश नारायण रोड मयंदर वैट मयंदर-401101	01/04/200
345.	102754	श्री दीपक आर वैद्य एफसीए बी/120, 10 फ्लोर विश्राम टॉवर्स सैक्टर 9 श्री नगर, वागलेस्टेट वने डब्ल्यू वने-400604	23/03/2005	353.	103177	श्री राहु जगृति महेन्द्राभाई एसीए 10 सगर दर्शन 74-बी हनुमान रोड विले पारले (ई), मुम्बई-400057	03/08/200
346.	102796	श्री मोहन के के एसीए "काव्यम" नियर रेलवे गेट चेरुवूर (पीओ), कस्तूरगोड (डिस्ट.) केरल-671313	25/03/2004	354.	103183	श्री नेहांबी देवांगणतसिंह एसीए चत्रपुज जीकनदास बिल्डिंग, रूम नं. 106, एस बी रोड, अणे. मनीष, हॉस्पिटल मालद-डबल्यू मुम्बई-400064	01/04/200

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
355. 103192	श्री कमल अमिता सरदरदा एसीए केयर ऑफ श्री अर्जुन नलवडे जी-302 गंगालीथ सीएसएस अनन्तेश्वर नियरअनन्तेश्वर टेम्पल ऑफ पुने सतारा रोड पुने-411009	01/04/2004	363. 103409	श्री शर्मा असोक चतुर्मुख एसीए बी-16 अल्का को ओप. हा. सो. लि. अपो. डैन बोसको स्कूल कजरीरा नाका, एल टी रोड बोरीवली डबल्यू मुम्बई-400091	01/01/20
356. 103228	श्री मोहनकुमार किशननारायण गुप्ता एसीए बी-306 शक्ति ज्योति, स्टेशन रोड भयंदर (वेस्ट), बाने-401101	01/04/2004	364. 103551	श्री शाह हितेश जयेंद्रा एसीए 1303 स्काई वॉक टॉवर ओरलेम टैंक रोड, माल्टा वैस्ट मुम्बई-400064	19/07/20
357. 103284	श्री विकास विजयकुमार खेमनी एफसीए केयर ऑफ पी पी पोद्दार रूम नं. 140, प्रिन्सेस स्ट्रीट गोविंद विरिछा, 4 फ्लोर मुम्बई-400002	26/08/2004	365. 103641	श्री चौगले पारितोष सह्याद्रि एसीए 5, यदय, घंटाली नैमय, बाने-400602	06/08/20
358. 103364	श्री शाह सैलेस कुमार कपूरचंद एसीए 302 जय गिन्जर अपार्ट्स 3 फ्लोर, 69 टारडिओ रोड मुम्बई-400034	24/01/2005	366. 103725	श्रीमति उषा संजय एसीए नं. 4, ऐश्वर्या पैस्टम सागर, रोड नं. 4 चैम्बर, मुम्बई-400089	01/04/20
359. 103371	श्री सुप्रिया अनंद जगदीश एसीए 508 सी किंग, सर्व ज्योति विरिछा लाल्लूभाई पार्क, विलो फारले (डबल्यू) मुम्बई-400056	10/09/2004	367. 103802	श्री पैडसे अमित सदाशिव एसीए 7, कामधेनु प्रसाद सोसायटी राम गणेश गडकारी पाथ घंटाली, बाने-400602	20/12/20
360. 103378	श्री अजय श्रीराम रिसमुद एफसीए 725 2 बी प्रॉक्स 2 फेन 8 ब्लॉक कोरमंगल, बंगलौर-560095	20/06/2004	368. 103852	श्री कारवारहो फ्रांसिस जोजफ एसीए 1/2 जकना रोड, फोरेस्ट हिल विकटोरिया-3131, अस्ट्रेलिया	26/08/20
361. 103388	श्री राजक राजेश एम. एसीए यूनिफन नैशनल बैंक पी ओ बॉक्स 3865 अवधू बाई-400050, पुर्न	05/10/2004	369. 103857	श्री जगदीश मंगललाल केवरीय एफसीए केयर ऑफ विनोद ट्रेडिंग कम्पनी दन्नापीठ, जूनागढ़-362001	21/12/20
362. 103393	श्री जैन संदीप कुमार गोविंद सिंह एसीए जीईसी नं. 15237, इंटरनेल ऑडिट एन्ड कंट्रोल गलफर इजि. एन्ड कन्ट्रोलिंग एलएलसी पी ओ बॉक्स 533, मुम्बई-113, पुर्न	15/12/2004	370. 103927	श्री भंडारे अजया रघुवीर एसीए एफ-13 प्रभा मंदिर प्रभा नगर, प्रभा देवी मुम्बई-400025	25/08/20
			371. 103967	मिस् रेखा कानिलाल शाह एफसीए 6/30, जवाहर को-ओप. हा. सो. गोविंद नगर, सेडवला लेन बोरीवली (वेस्ट) मुम्बई-400092	01/04/20

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल त.
372.	103983 श्री जैन संजय जिन्नाल एसीए 103 मोदी स्ट्रीट पंडुवा हाउस, 2 फ्लोर फोर्ट मुम्बई - 400001	23/08/2004	380.	104419 मिस गोयल नीतू सुरेश एसीए 202 प्रदा बिल्डिंग मिस्ट्री कॉम्प्लेक्स, जे बी नगर अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई-40059	01/04/200
373.	104142 श्री अमित कुमार खेमानी एसीए 4सी/603, विसपिंग पाम्स लेकडबल कॉम्प्लेक्स, अकबुली रोड, कांटीकली (ईस्ट) मुम्बई-400101	27/08/2004	381.	104444 मिस गीता नवीनचन्द्रा महेश्वरी एसीए केयर ऑफ एन. सी. गुप्ता 304-डी2, 'लेक उपवन-II' मैडिज़न अलवेयर्स रोड मनोविक्रम थने (वैरा) थने-400610	17/09/200
374.	104156 श्री गुलामहसन सज्जादली सलीम एसीए हालक मामू टामर एड क. सेख अम्बुल खान स्ट्रीट अमर रिया हिरिट्रकट पी ओ बॉक्स 180, जेहल-21411 सउदी अरेबिया	13/08/2004	382.	104456 श्री गङ्गाील अमित असोक एसीए 47, राजेन्द्रा नगर आगरकर एस बंगलो नवी पेठ, पुणे-411030	01/08/200
375.	104188 श्री दीपक बालचन्द्रा पडवले एसीए 33/23-सी II फ्लोर जुनेजा बाई, ठाकुरकर मुम्बई-400002	26/08/2004	383.	104647 श्री मयूरेश बालचन्द्रा भीडे एसीए 18-ए, सैफी मॉडल इरानी ब्रिज, गीरागाव मुम्बई-400004	01/04/200
376.	104240 श्री मनेज कुमार बरमचंद खोवा एफसीए जी-1004 कमला विहार नियर कमला विहार स्पेस क्लब महावीर नगर, कांटीकली (डमरु) मुम्बई-400067	12/08/2004	384.	104654 श्री मुकेश कुमार दीओपुरा एफसीए ए-102, बंसरी टॉवर सैफि पार्क, डिस्ट. थने भीरा रोड - ईस्ट भीरा रोड - 401107	31/12/200
377.	104259 श्री सुभाष संजय सावरमल एसीए 210, न्यू विहाल कैम्पस कोलेसेन्ट, कल्याण-421306	30/12/2004	385.	104658 श्री सतपालकर राजेश कमलाकर एसीए विठ्ठल मंदिर, एल टी रोड, वरीसर - वैरा मुम्बई-400068	23/12/200
378.	104264 श्रीमती जयसज्ज अनिल उन्नावट एफसीए 5 कुण्ड कुंज फ्लैट नं. 17, हिंद कैम्पस 23 एन एस मणिकर मार्ग एसआईओएन नृगण्डी मुम्बई-400022	01/04/2004	386.	104675 श्री विष्णु त्रिलोकगर्ग साह एसीए टॉरेन्ट फार्मेटिकल्स लि. मैनेजर - फार्मेट 4 फ्लोर, अग्रेन्ट हाउस अग्रम रोड, अहमदनगर-380007	17/08/200
379.	104292 श्री गुणवत्ता साह एफसीए फ्लैट नं. 223, राजव विहार एडमरपूरवासे रोड-14 खारव, नवी मुम्बई-410210	13/08/2004	387.	104752 श्रीमती चेतना आनंद मिश्री एसीए 25/1012, डी एन नगर अहलीबाद को-ओप. हा. सो. लि. अंधेरी (वैरा) मुम्बई-400053	28/07/200

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
388. 104769	श्री संजय नेशनल निसार एसीए 202 मल्लिकार्जुन अपार्ट. सर एम वी रोड अंबेडी (स्टेट), नियर नटराज स्टूडिओ मुम्बई-400069	10/06/2004	397. 104946	श्री राजेश बलवंत बीरारी एसीए 78 हुडको कालोनी ताल. नंदगाँव डिस्ट. नासिक मनमाड-423104	01/03/200
389. 104785	श्री सुनील सुरेश वैद्य एसीए 187, रत्निकर पेठ सीटे हाऊस, पूने-411030	23/06/2004	398. 105012	मिस जीन अलबर्ट फर्नेडिस एफसीए 4, सम्राट् किल्न, विखोली किलेज विखोली -ई मुम्बई-400079	31/12/200
390. 104839	मिस वैशाली कस्तूरबा म्हात्रे एसीए नंद दीप, कस्तूरबा वसई रोड, स्टेशन रोड, वसई-401201	19/10/2004	399. 105029	मिस स्वपना के देवमुख एसीए श्रे-आनंद, बी-703 कोलसेट रोड, दोखली धाने-400607	21/12/200
391. 104841	श्री संजय जगदीशराय जैन एफसीए पी 2/12, सुन्दर नगर एस वी रोड, मल्लिकार्जुन, मुम्बई-400064	01/04/2004	400. 105112	श्रीमति केतकी केदार पाठक एफसीए जी-201 गंगातीर्थ सहाकरनगर नं. 1 नियर अरुणेश्वर टेम्पल पूने-411009	01/02/200
392. 104868	श्री चंद्रेल विनोदकुमार शर्मा एसीए 9 न्यू फ्लैट चॅल, किरोल रोड, अयो फातिमा हार्ब स्कूल विशाल विहार कैट मुम्बई-400086	01/04/2004	401. 105181	मिस यासमिन फरम दस्तूर एसीए कसरो बांग, यू ब्लॉक, फ्लैट -4/1, 4 फ्लोर एस बी सिंह रोड मुम्बई-400001	01/04/200
393. 104893	श्रीमति भवित अरुण गङ्गाधर एसीए आर नं. 4, प्रचन भुवन अक्षीकर स्टेशन दरार कैट, मुम्बई-400028	01/11/2004	402. 105268	श्री वैशाल नरेन्द्रकुमार शाह एसीए सबा एन्ड कं. (डिलेग्रेट एन्ड टच-एम, ई) 701 कोरनीचे प्लाज्मा II पोस्ट बॉक्स नं. 5470 सरजग-0, मुम्बई	22/12/200
394. 104925	मिस मैथिली जयवंत पठारे एसीए "सद" मोरेस्वर फ्लैट रोड दरीसर (वैट), मुम्बई-400068	03/01/2005	403. 105309	श्रीमति विभी जयेश ताल्लेज एसीए 4, गंगोत्री, 5 रोड, खार, मुम्बई-400052	01/04/200
395. 104937	श्री गिरीश नरोजराज मेहता एसीए बी-5 शेफन अपार्टमेंट्स के वी रोड, मराठ कालोनी दरीसर - ईस्ट, मुम्बई-400068	01/04/2004	404. 105354	श्री गिरीश कुमार अग्रवाल एसीए जनरल मैनेजर-कम्प्यूटेशनल विभागी ऑरगेनिक लि. बी-12 एन्ड बी-13/1 एमआईडीसी डिस्ट. रायगड, महद-402309	19/07/200
396. 104943	श्री समीर मधुकर गङ्गाधर एसीए एफ 10 सगर सेक्टर नियर श्रीमन् सेक्टर करवेकर पूने-411052	24/01/2005			

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
405.	105372 श्रीमती स्वती मंदार बंजारे एसीए फ्लैट नं. 6, चारुदाता चैम्बर्स सरंग सोसायटी सहकरनगर-2, पूणे-411009	24/06/2004	413.	105707 श्री नीरेन नवीनचन्द्रा देसाई एसीए 9 कैलाश भुवन 7 रोड, प्रभात कालोनी, सैदाकुन (इंस्ट) मुम्बई-400055	08/12/200
406.	105410 श्री विनोद माधवजी जोषी एसीए पैनल कर फोर्स्टर 301 अल मैदन टॉवर मकटूम स्ट्रीट पीओ बक्स नं. 13094 डेरू दुबई-0, यूएई	23/07/2004	414.	105735 श्री आशीष श्रीपद दत्ते एसीए बी-1/15-16, मीनल गार्डस पटवर्धन बाँ एंडवना, पूणे-411004	01/04/200
407.	105493 मिस उमा मंडार टेरसकर एसीए ए-5, 303 प्रभाष कंचन पुष्प कॉम्प्लैक्स अपो सूरज वॉटर पार्क घोडबंदर रोड कावेसर, पूणे-400605	30/08/2004	415.	105771 श्री राकेश कांतिलाल जोवनपुत्रा एसीए 87 काजी सईद स्ट्रीट 10 प्रेम जीवन बिल्डिंग यर्ड फ्लोर मस्जिद बंदर, मुम्बई-40	29/09/200
408.	105549 श्री सद्दीक हुसैन गुलाम मय्योदीन मोमीन एसीए 7 जीलानी पार्क सोसायटी बारकोसिया रोड मालरपुरा नारियड-387001	14/07/2004	416.	105824 मिस अस्मिनी प्रकाश जोषी एसीए फ्लॉट नं. 22 क्षिप्रप्रा सोसायटी कारवे नगर, पूणे-411052	01/01/200
409.	105580 श्री राजेश रामनिवास जाखेटिया एसीए फ्लैट नं. 2/डी/410, 4 फ्लोर विहल मंदिर को-ओपरेटिव हा. सो. एस्वीपी रोड, बेरीकली (डकरपु) मुम्बई-400092	26/05/2004	417.	105890 श्री अमित राधेश्याम भावसर एसीए एलआईसी मय्युअल फंड इंडस्ट्रियल एस्थेस बिल्डिंग 4 फ्लोर, अपो. चकीट स्टेशन मुम्बई-400020	01/04/200
410.	105611 मिस शाफ़ा रशीद खान एफसीए 4, जौनत, 1 फ्लोर 57/ए, एल. जे. रोड महिम, मुम्बई-400016	01/04/2004	418.	105909 श्री अभिजीत कस्त विरूपटकर एफसीए एच-3/478 लक्ष्मीनगर पर्वति, नियर रामणा गणपति पूणे-411009	27/08/200
411.	105619 श्री नवीनरायण दास ठाकरी एसीए 2/5 शाम निवासपुत्राजी कम्प्लेक्स पूणे-411042	01/04/2004	419.	105913 श्री श्रीनिवास दामोदर हैगडे एसीए 4 पंचवटी सैक्टर नं. 4 एकव सरस्वत बैंक चरकोप, कांडीवली - इंस्ट मुम्बई-400067	20/03/200
412.	105615 श्री सुनील अनिल रंवी एसीए फ्लैट नं. 312, ए विंग, ओम अपार्टमेंट अपार्ट्स विन्हावली, पूणे-411037	18/06/2004	420.	105915 श्री पटेल दीपक दय्याभाई एसीए 22, निवेरिया नगर निवेरिया रोड, मालद - इंस्ट मुम्बई-400097	26/07/200
			421.	106131 श्री विपुल विलनजी हरिया एसीए 1, सिव शक्ति, बी पी क्रॉस रोड नं. 2, मुजुं - कैट मुम्बई-400080	19/11/200

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
422. 106143	श्री धर्मेन्द्र दौनेश चन्द्रा साह एसीए अमि 42सी, बी नं. 11 मजीकवा पार्क, अचले रोड ईस्ट मुम्बई-401209	27/08/2004	431. 106670	श्री अमेश भूलचंद नथानी एसीए सी-20, ओम निवास, एल बी एस मार्ग, कुरला - वेस्ट मुम्बई-400070	24/12/200
423. 106199	श्री सखीकुमार गोविंदभाई सुखदिया एसीए एस सुखदिया एन्ड कं. ए/410 यश प्लक अपो. वनामल मिल नियर पोथर एफ्रेडे वराज रोड, सूत-395006	20/10/2004	432. 106694	श्री निपुन सुरेश सम्पत एसीए 52, रेकडिया निवेशन पी पी रोड, अंबेरी ईस्ट मुम्बई-400069	27/08/200
424. 106313	श्री राजीवकुमार प्रवीणचन्द्रसाह एसीए 11, अनुपम विल्ल, काले मार्ग कुरला (वेस्ट), मुम्बई-400070	13/05/2004	433. 106702	श्री दत्तात्रेय शरद दलाल एसीए 22, स्योन्नोति, ठाकुर नगर संत रामदास रोड, मुमुंद ई मुम्बई-400081	30/11/200
425. 106339	श्री संजय सुभा एसीए बी/2, मनमोहन पार्क विकेवटी पूने-411037	15/12/2004	434. 106712	श्री प्रयाग ए किनरीवल एसीए मटरू वतसल, फ्लैट नं 402 विठ्ठलभाई पटेल रोड ऑफ एस वी रोड, अंबेरी डबल्यू मुम्बई-400058	20/12/200
426. 106384.	श्री कौशल अनुभाई वेरा एसीए 8 पार्क व्यू पी के रोड अपो. कल्लोदस, मुमुंद-वेस्ट मुम्बई-400080	09/12/2004	435. 106736	श्री अमीश अश्विन शाह एसीए 2/3 पार्सवा दर्शन ओल्ड नगर दस, क्रॉस रोड अंबेरी (ई), मुम्बई-400069	28/01/200
427. 106398	श्री उत्सव नरेश गांधी एसीए 321/ए रवि किरन, दिओवर रोड मनुं (सी. अर.), मुम्बई-400019	09/03/2005	436. 106778	श्री शाह देवल एसीए बी-108, ओम श्रीनाथ कृपा सुभाष लेन, कांडीवल (डबल्यू) मुम्बई-400067	01/04/200
428. 106564	श्री सुरेश साजनकुमार नेमानी एसीए 301, रिंक अपार्टमेंट नियर मेरी इमेक्यूनेट गर्ल्स हाई स्कूल संतोषी माता रोड दरीसर -वेस्ट, मुम्बई-400068	04/02/2005	437. 106831	मिस रिचा प्रेमप्रकाश गुप्ता एसीए बी-14, वासुदेव अपार्टमेंट्स अपो. सोना उद्योग पारसी पंचायत रोड, अंबेरी (ई), मुम्बई-400069	27/09/200
429. 106609	श्री सुरेश जी प्रजापति एसीए फ्लैट नं. 8, विलिडिंग नं. सी-4 मसेरा हा. कॉम्प्लेक्स, आम्बेरी, सिलवसा-396230	17/09/2004	438. 106851	श्री जिगेश अश्विन शाह एसीए 7 आशीष 38/6, मारवे रोड मालद डबल्यू मुम्बई-400064	15/07/200
430. 106665	श्री गोपल सुब्रमण्यम एसीए फ्लैट नं. 6, फ्लैट नं. 11 नेह-समता, डा. के ए एस रोड, संतोष (ईस्ट) मुम्बई-400019	28/06/2004	439. 106862	श्री गजेन्द्र बी जैन एसीए 7, देवकिशन निवास, 166 सिजन ई, मुम्बई-400022	01/05/200

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
440.	105949 श्री मिलिंद मुरारी मोरजकर एफसीए बमनवाडे सिओलिम, कादेव गेज-403517	29/07/2004	449.	107301 श्री प्रेमल किशोरकुमार बटाविया एसीए रवि फ्लैट्स, ब्लॉक नं १/1-एस नियर फारिमा बोनवैट स्कूल जेल रोड, भवनगर-364001	07/12/200
441.	107028 श्री संजय लक्ष्मण सरांजे एसीए 2/79 सूर्यवंशी भुवन नं. 2 ई एस फटनवाला मार्ग बयवकुला, मुम्बई-400027	01/04/2004	450.	107311 श्री निखिल अशोक मधेकर एसीए 2, पुकराज दहनुकर कालोनी लेन नं. 9, कोठरुड पूने-411029	14/09/200
442.	107060 मिस उषा डी बरोट एसीए 31, श्रीनिवेत्ता चैपाटी बौड स्टैंड मुम्बई-400006	01/04/2004	451.	107319 श्री अब्दुल्ला युसूफभाई पेट्टीवाल एसीए 188-ए बापू खोटे स्ट्रीट जामली मोहल्ला मुम्बई-400003	10/01/200
443.	107072 श्री मनन राजकुमार व्यास एफसीए 18, जय अम्बिका सोसायटी अयो महत नगर हसनपुर रोड, मणिनगर अहमदनगर-380008	15/01/2005	452.	107322 श्रीमति जया संजय तारुचंदानी एसीए 204 अर्बेटाईड को-ओप हा. सो. खार डंडा रोड, खार वेस्ट मुम्बई-400052	06/08/200
444.	107107 श्री प्रदीप पांडुरंग दलवी एसीए बी-401, सार्ग सागर टॉवर सार्ग सागर कॉम्प्लेक्स गोरेगांव ईस्ट मुम्बई-400063	01/04/2004	453.	107354 श्री जयेश अशोक कुलकर्णी एसीए एस नं 128/2/10, चारुलता अपार्टमेंट्स नियर मयूर कालोनी, काठरुड, पूने-411038	29/09/200
445.	107117 श्री केतन अरविंद कुमार कल्याणी एसीए 73/डी ब्लॉक, "उत्तम" हरिदास नगर, सिमपोली रोड बेरीकली - वेस्ट, मुम्बई-400052	18/11/2004	454.	107365 श्री अनुपम प्रताप कोराडिया एसीए बी-307 न्यू फुललीबाई कापोल निवास एस बी रोड, विले पारले (डबल्यू) मुम्बई-400056	01/01/200
446.	107131 श्री कमुद्वे अरविंदन नगर एसीए कालोनी नं. 12, कैलाश सोसायटी 4 प्रॉक्स रोड, राजाजी पेय, कनेक्ट, डोम्बेवली-421201	01/04/2004	455.	107427 श्री सुनील नरेन्द्रा जेन एसीए ए/13, रेलवे ऑफिसर्स फ्लैट दद सब्जेक्ट फलको रोड ददर ईस्ट, मुम्बई-400014	28/10/200
447.	107203 श्री दिनेश करमसी छेडा एसीए 401 वेस्ट बिल्डिंग, एल एम रोड नवगोवा, दादर डबल्यू मुम्बई-400068	04/02/2005	456.	107454 मिस मानसी गौतमभाई चोव्हाणी एसीए 12, कैलाश कालोनी, सैअराईट रोड ऑफ 132 फीट रिंग रोड अहमदनगर/380015	01/04/200
448.	107231 श्री विजयेश मधुसूदन ठाकर एसीए 2 फ्लैट बिल्डिंग नं. 15 कदम बाबा लेन, एम बी वेक्टर स्टेशन काकोदेवी, मुम्बई-400002	01/09/2004	457.	107469 श्री मनीष छवीलदास सेठ एसीए 602 अंकुर बी को ओप. हा. सो. लि. लिबर्टी गार्डन रोड नं. 3 एक्सटेंशन, मल्लद वेस्ट मुम्बई-400064	01/04/200

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
458.	107498	मिस वैशाली रजनीकान्त प्रताप एसीए रिडी सिटी, वडी-अलि पापडी, डिस्ट: धने मुम्बई-401207	01/04/2004	467.	107742	श्री नादिर दिनशां दजी एसीए 621, खुश विला खरेषाट रोड, पारसी कालोनी दादर, मुम्बई-400014	29/12/200-
459.	107516	श्री संजय प्रदीप प्रताप एसीए विलिङ्ग नं. 57 रुम नं. 1468 कन्नामवर नगर नं. 1 विखरोली (डी), मुम्बई-400083	13/12/2004	468.	107766	श्री नंदन रविन्द्रनाथ प्रधान एसीए 2, "वर्षा", बैंक ऑफ बड़ोदा सोसायटी एम. सी. छागला रोड, विले पारले (डी) मुम्बई-400099	01/04/200-
460.	107569	मिस ज्योति नरसिम्हा मल्लया एसीए महिम मैसन, 85-बी, ब्लॉक एम. एम. सी. रोड, महिम मुम्बई-400016	14/10/2004	469.	107780	श्री चन्द्रकुमार अमरावमल नहाटा एसीए ए-5 अंजली अपार्टमेंट्स नियर रेलवे कालोनी अपो. गुरुद्वारा, मणि नगर अहमदनगर-380008	19/01/200
461.	107586	श्री नईसर गिरीश शाह एसीए डी 12 न्यू फूम बॉग कोओप हा. सो. ग्रैंड फ्लोर नरिमन रोड विले पारले (डी) मुम्बई-400057	01/04/2004	470.	107784	श्री शक्तिरमण रामण अईयर एसीए बी-3 फ्लैट नं. 3 ग्रैंड फ्लोर, विठोबा कृपा को. ओप. हा. सो. बिहाइंड होली क्रॉस स्कूल मसोमा मैदान, कल्याण कैट, कल्याण-421301	31/03/200
462.	107600	श्री हेमंत उज्ज्वल कुमार झा एसीए सी-5-67 सैफरी रेयन कालोनी एट एन्ड पोस्ट राहद, धने डिस्ट्रिक्ट राहद-421103	27/09/2004	471.	107803	मिस उर्वशी अश्विनी कुमार पांड्या एफसीए 1317, जंगली, महाराज रोड अपो. मॉडर्न हाई स्कूल पूने-411005	09/11/200
463.	107621	श्री अजीत अर्जुन छवन एसीए गामदेवी रोड, टेम्बोपद रूम नं. 22, श्रीकण्ठे निवास मनसुपुई मुम्बई-400078	28/10/2004	472.	107818	श्री पुष्कर सुहास बेडेकर एसीए जी/102 लोकमान्या नगर टी एच कटारिया मार्ग महिम, मुम्बई-400016	23/08/200
464.	107630	श्री जतिन रंजितलाल मिश्री एसीए 7 पंकज सोसायटी, अयो. वैशाली फ्लैट नियर रामजी मंदिर, बड्डा फलदी अहमदनगर-380007	10/02/2005	473.	107828	श्री अमरीश जगदीश शीरवाणी एसीए 299 सैम्यूल स्ट्रीट फूमवाला विलिङ्ग, 2 फ्लोर रूम नं. 4 वादगाड़ी मुम्बई-400003	26/02/200
465.	107668	मिस बकुल राजेन्द्रप्रसाद गडिय एसीए 202-ए गेडवरी अपार्टमेंट्स नवकर रोड कॉर्नर - ईस्ट मथंदर - 401105	27/09/2004	474.	107862	श्री संजय मणिलाल शाह एसीए 10 केसकर अपार्टमेंट नियर जैन टेम्पल, एल टी रोड दादर कैट, मुम्बई-400068	01/04/200
466.	107721	श्री श्रीराम मन्नेर पंगवता एसीए बी/12 फलवाला सोसायटी राहद, ख. आर. पी. रोड ईस्ट, खेरीवाली-421201	01/04/2004				

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
475.	107911 श्री मनदेव शिरोडा एसीए 101 तुलीप, वस्ता कैरी मालद (स्टेट), मुम्बई-400097	03/01/2005	484.	108539 श्री कल्पेश कुमार प्रवीणचन्द्रा घट्ट एसीए रूम नं. 6, लैटलीकर चॉल हनुमान नगर, कुरार विलेज मालद (स्टेट), मुम्बई-400097	31/01/200
476.	108061 श्री शिरोडा केजोरकुमार वखारिया एसीए पवन विहिंग एफ/8 एसवी रोड, कांडीवली (डबल्यू) मुम्बई-400067	26/08/2004	485.	108553 श्री मोहित द्वारकादासजी गुता एसीए केयर ऑफ बी एल गुता अपो. मानक टॉकिंग मालेगु, अकोला-444001	10/05/200
477.	108142 श्री पुष्कर मोतीलाल नाराय एसीए ए/11, मनोरथ चैम्बर्स दत्तपद क्रॉस रोड नं. 2 बोरीवली (स्टेट), मुम्बई-400066	10/02/2005	486.	108557 श्री हेमन अनिल आसर् एसीए एसएम 3, 5 फ्लैर ऑरिजन हाऊस 14 के दुबारा मार्ग मुम्बई-400023	16/11/200
478.	108268 श्री जीतेन्द्र जगदीश नायक एसीए 13-बी सिडि विहिंग अश्वनगर रोड नं. 3 चैन्नूर, मुम्बई-400089	01/04/2004	487.	108577 श्री संजय घांगेकर रॉय एसीए फ्लैट नं. 101 सैक्टर 9 सहो नगर मीरा रोड-401107	14/06/200
479.	108347 श्री परेश रतिकांत पारेख एसीए ए/602 बीन सराग, चमनगर वडी महानगर, कांडीवली (डबल्यू) मुम्बई-400067	01/03/2004	488.	108585 श्री के.एम. सुरेश एसीए कोयमबेवली हाऊस एडवुड (पी.ओ.) केलेनूर (वाय) केरल, कोलीकूट-673616	01/03/200
480.	108415 श्री सुयस नीलकंठ पीसे एसीए 4, नवीन, सिवर्टी गार्डन रोड नं. 3 मालद (वैल्ट), मुम्बई-400064	18/03/2005	489.	108597 श्री असीम अशोक अग्रवाल एसीए 203 जन्मभूमि चैम्बर्स डबल्यू एच मार्ग कलंड स्टेट मुम्बई-400001	14/12/200
481.	108424 श्री अजीतकुमार अश्व एसीए रूम नं. 7 धीरज सिंह चॉल गैंगोत्री रोड पॉक्सर, कांडीवली (स्टेट), मुम्बई-400067	07/08/2004	490.	108657 श्री हेम पंकज नेगावी एसीए 401, अशोक अपार्ट्स रोज टाऊनशिप, मालद (ई) मुम्बई-400097	31/01/200
482.	108448 श्री सुनीलकुमार पीयूषाई ठाकर एसीए ए/01/बी-15 अवधूत नगर सिखली रोड, दासरा स्टेट मुम्बई-400068	31/12/2004	491.	108663 श्री अमिता दिनेशभाई सोनी एसीए केयर ऑफ डी. एल. सोनी, ओएस डील नियर हवेली जम्मनगर-361001	31/08/200
483.	108461 श्री कैपटेन सरवी एसीए ए-18 श्रीराम विहास चैम्बर्स लि. नर अर बी अई कालोनी ओब डेवली रोड, वैल्ट डेवली-421202	07/06/2004	492.	108700 श्री विनोदकुमार फतेहचंद जैन एसीए 1 अश्वी अनुग पारदादी नियर अश्वी अश्वी अश्वी कालोनी अश्वी वैल्ट, मुम्बई-400058	13/01/200

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल त
493.	108702	श्री केदार विरेन्द्रभाई साहू एसीए 36 मधुप फ्लैट्स लाड से. आर, वसन्तपुर, अहमदाबाद-380054	23/03/2005	501.	108966	श्री अनन्त राजाराम हुक्कत एसीए ए/5 रंगबिंदु सोसाएटी बी/एच बॉम्बे गैराज सह्याद्री, अहमदाबाद-380004	18/10/200
494.	108717	श्री यजुनेन्द्र बाबूराम यदव एसीए 16 कर्कालाबाई कॉम्प्लेक्स विशालजीवन विकास केंद्र कोल्हापुरी, अंबेरी (ईस्ट) मुम्बई-400069	27/12/2004	502.	109035	श्री मनीष रविन्द्र नैमिक्यार एसीए टाटा टेक्नालॉजीज लि. एमएसडी बिल्डिंग टेलको प्रेमिसिज जमसेदपुर-831010	17/11/200
495.	108731	श्री जगदीप विरेन्द्र सेठ एसीए फ्लॉट नं. 145/ए ब्लॉक नं 3 जैन सोसाएटी, अणे. जैन टेम्पल सिप्पन वैट मुम्बई-400022	24/11/2004	503.	109041	श्री मुनेन्द्र राजाराम गजुल एसीए केयर ऑफ वर्ल्ड बी डी डी चॉल नु. 101 रूम नं. 18, एन जी बनसोडे रोड वर्ल्ड मुम्बई-400018	11/03/200
496.	108806	श्री जयेश रवीन्द्रकुमार गोकलगांधी एसीए सी-203 सिव्हाल कैम्पस सिव कल्याण क्रॉस रोड अनोकवन रावलाद दरीसर(ई), मुम्बई-400068	31/08/2004	504.	109044	श्री विजय मोहनदास मिहलानी एसीए रामकुंज, रेलवे स्टेशन रोड न्यू ओमानपुर औरंगाबाद-431005	31/12/200
497.	108907	श्री नितीन पटनी एसीए केयर ऑफ श्री एन के पटनी एसबी 10 जे एल एन मार्ग, बापुर नगर जयपुर-403004	31/03/2004	505.	109062	मिस मीतल नरेन्द्र कामदार एसीए बी - 501, विजय पार्क मधुदास एक्स. रोड कांठेवली (वैस्ट), मुम्बई-400067	19/07/200
498.	108912	श्री कमलेशकुमार रिचार्ड साहू एसीए ए/9 मधुप विहार अणे. भावती हॉस्पिटल एस बी पी रोड, ब. बेरीवली वैट मुम्बई-400103	31/03/2004	506.	109076	श्री पुरेस अजीत बाफना एसीए 247/14, केतीर्थ बिल्डिंग्स डेवुन कॉलेज रोड यरवेडा, पुणे-411006	30/12/200
499.	108913	श्री सुनील किशोरलाल वाकनी एसीए 16-ए शांति स्मार, फ्लॉट नं. 777 जी फ्लो, 5 रोड खार (डबल्यू) मुम्बई-400052	18/03/2005	507.	109112	श्री दीपक धनजी साहू एसीए बी-3, मधुकुंज नॉर्गेजी क्रॉस लेन छाटकोर (वैस्ट) मुम्बई-400086	04/10/200
500.	108932	श्री मीतल नरेन्द्र कामदार एसीए अनोकवन रावलाद दरीसर(ई), मुम्बई-400068	23/06/2004	508.	109156	मिस प्रज्वला जगदीश सेठ एसीए 2 स्वप्नाली अपार्टमेंट्स 38 गिरजा सोसाएटी एम आई टी कॉलेज रोड कोठरुड, पुणे-411038	20/08/200
		श्री मीतल नरेन्द्र कामदार एसीए अनोकवन रावलाद दरीसर(ई), मुम्बई-400068		509.	109176	मिस दीपक मूलचंद मीरानी एसीए 304-कांठेवली अपार्टमेंट नवकर रोड, मुर्दु (ईस्ट) मुम्बई-400081	01/04/200

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
510.	109195	श्री विश्वर भवनजी गद्य एसीए बी-702 विन्डक्ट, अजीत नगर भद्रनगर, रिडी विन्डक्ट टेम्पल लेन एस. बी. रोड, मल्लद (डबल्यू) मुम्बई-400064	28/12/2004	519.	109573	श्री प्रितेश नरेन्द्रकुमार राह एसीए सी-210 सुंदरप, 2 रहेज कॉम्प्लेक्स विहार्ड टाईस ऑफ इंडिया सुमरवन प्रैस कैटन एक्सप्रेस हाईवे मल्लद स्ट, मुम्बई-400097	10/08/20
511.	109256	श्री विजय लक्ष्मीनारायण अग्रवाल एसीए 5 दुर्गा सदन, होटल नालंदा बिल्डिंग सी पी रोड, मुम्बई-400101	17/01/2005	520.	109577	श्री दीपक पुजाराज ओझा एसीए बी 307 साई सिविल, कैप्टन रोड डिस्ट. थाने, भयंदर स्ट भयंदर-401105	19/11/20
512.	109244	श्री कौस्तभ रमणीकान्त राह एसीए बी-3 मोहन सदन चैम्बर्स लि. अपे. बैंक ऑफ मद्रास एम जी रोड, घाटकोपर स्ट मुम्बई-400077	20/02/2005	521.	109593	श्री पराग भूनेन्द्र राह एसीए 235/237, रमन स्मृति वी पी रोड, मुम्बई-400004	24/01/20
513.	109250	श्री सुरेन्द्र नागराजन एसीए बी-3/8, माधुसूदन कल्लेनी करिना, सैट्राक्रुज स्ट मुम्बई-400098	07/01/2005	522.	109645	श्री प्रशांत नरिना कोठरी एसीए 15, नरना, 36 गडबिया नगर घाटकोपर (ई), मुम्बई-400077	01/02/20
514.	109267	श्री नरेन्द्र विन्डक्ट गनपुले एसीए 31/ए कलकृष्ण भवन, पहाड़ी रोड नं. 1, गोरेगांव - स्ट मुम्बई-400063	23/09/2004	523.	109653	श्री प्रसन्न जी आर को एसीए ई-2, नंदीग्राम को.-अपे. हा. सो. एक्स. गिल्बर्ट हिल रोड, अंधेरी वेंस्ट मुम्बई-400058	03/01/20
515.	109357	श्री प्रितेश राजेन्द्र राह एसीए 21/ए सुभाष नगर, एन एम जोशी मार्ग मुम्बई-400011	15/03/2005	524.	109681	श्री प्रितेश दत्तत्रेया खोटे एसीए सी/201 2 फ्लोर लॉन्ग आशीष विहार्ड पुलिस क्वार्टर्स ओल्ड पुलिस लेन, ऑफ सहर रोड अपे. अंधेरी स्टेशन स्ट अंधेरी स्ट, मुम्बई-400069	01/04/20
516.	109420	श्री हेमन्त ईश्वरलाल मिश्री एसीए 15 जवहेरी निवास, रामकृष्ण लेन, मल्लद (वैस्ट) मुम्बई-400064	23/09/2004	525.	109692	श्री लक्ष्मण मयिक्कास एसीए 7, संव्य किरन, दत्त मंदिर रोड ककोला, सैट्राक्रुज (ई) मुम्बई-400055	11/05/20
517.	109502	श्री नीलेश हेम पारेख एसीए बी/206 रिषम अपार्टमेंट्स वर्क आर क्वार्टे रोड, अपे. रेलवे स्टेशन, व्हीसर (वैस्ट) मुम्बई-400068	31/03/2004	526.	109727	श्रीमति अमीता नेस राफ एसीए 8/2 मल्लद को अपे. हा. सो. पोद्यर रोड, मल्लद स्ट मुम्बई-400097	30/09/20
518.	109516	श्री नीरव दलीपकुमार जोशी एसीए 7/2653 सर्वानंद पुरा वैज स्ट्रीट सुरत-395001	11/02/2005	527.	109749	श्री मनोज प्रहलाद दतार एसीए 43/88 समर्थि, नवसह्याद्री सोसाइटी पूने-411052	29/09/20

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
528. 109773	श्री संदीप गोपेश म्हास्कर एसीए 14 नव अर्कस सोसाइटी एंडेनान, गाओवन, पूने- 411004	01/04/2004	537. 109984	श्री पराक्रमसिंह जतुभा जडेजा एसीए शक्ति पार्क, फेज III, बी/9/403, पुनम नगर, मीरा रोड ईस्ट थाने-401107	01/04/2004
529. 109779	श्री हेमंत रतनलाल मंत्री एसीए शिरीकृष्ण बी, फ्लैट नं. 5 रोड नं. 7, दशरुमर कालोनी कोथरुड, पूने- 411029	14/06/2004	538. 110015	श्री कुन्हाल किसिन पंजाबी एसीए 1 माउंट यूनिफ 62ए पेदर रोड मुम्बई- 400026	01/04/2004
530. 109816	श्री विनोद वैकटेश दिओ एसीए 157 एबीसी/1, श्री लक्ष्मी नारायण पार्क सोसाइटी नियर कावे स्टेश कोथरुड, पूने-411038	01/04/2004	539. 110020	श्री सम्मोद बालकृष्ण शेट्या एसीए 88 ई स्पॉल बंगाली नारायणजीची वडी प्रभादेवी रोड, नियर सम्माना प्रैस मुम्बई- 400025	11/08/2004
531. 109891	श्री सविन कोचड एसीए ए-11 मॉडल टाउन सोसाइटी गुलमोहर क्रॉस रोड 7 जुहू, मुम्बई- 400049	01/04/2004	540. 110036	श्री नीलेश जोशी एसीए 28एच जय संतोषी नगर 2 विहार्ड कारोलीबाग टेलीफोन एक्सचेंज कारोलीबाग, वन्देरा-390018	18/8/2004
532. 109904	श्री सगर नरेन्द्रकुमार सुपना एसीए 431/4, कलाम सोसाइटी नियर राधास्वामी मैम गुलटेकडी, पूने-411037	05/03/2005	541. 110047	श्री प्रदीप हसमुखल जैन एसीए बी/16, पुनेस्वर फ्लैट्स अपो. वसुधरा सोसाइटी, गुलवई टेकरा अहमदनगर-380009	14/12/2004
533. 109908	श्री संदीप सुशीलन एसीए 304 3 फ्लोर बी - विंग नित्यानंद अपार्टमेंट्स कलाम (गणेश चौक) कोरीवली (ईस्ट), मुम्बई-400066	23/12/2004	542. 110053	श्री प्रतीक विनोदकुमार शाह एसीए डी/11 परिराज, पटेल स्टेट जोगेश्वरी - कैट मुम्बई-400102	30/08/2004
534. 109913	श्री संदीपकुमार अनंतराव देवी एसीए ए/402, रवि अपार्टमेंट, विठ्ठल नगर, एस. एल. रोड मुलुंद (वैस्ट), मुम्बई- 400080	08/04/2004	543. 110088	श्री विमल दिनेश जाधव एसीए 132बी-1, रुम नं. 204 शक्ति निक्कान, कांदरपद, एल एम रोड दरीसर कैट, मुम्बई-400068	09/08/2004
535. 109935	श्री विजय जगदीशभाई पांडेय एसीए 12, 2 फ्लोर, हार्जिसिद्ध कैम्पस नियर इनकम टैक्स सर्विस अहमदनगर रोड, अहमदनगर-380014	23/04/2004	544. 110091	श्री मुनेश मोहनदास केवलाजी एसीए 502 जीवनदीप टॉवर गोल मैदान, अहमदनगर -421001	01/04/2004
536. 109962	श्री संदीप दीपक बनवली एसीए 2/40, नव मलय सोसाइटी अमरुता क्रॉस रोड नं. 1 कांदीवली (ईस्ट), मुम्बई- 400101	01/04/2004	545. 110101	श्री योगेश रमेश राजपूत एसीए बी-704, स्टारलाईट, महावीर नगर कांदीवली कैट, मुम्बई-400067	14/07/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
546.	110123	मिस मीनल मोहन हीरेलेकर एसीए 23/9 गुरुनगर, आसीन चैम्बरस लि. फोर बंगलोव असेरी-वैस्ट मुम्बई-400053	25/05/2004	555.	110282	श्री नीतिन लोकमल खत्री एसीए बीके नं. 27/162, अणे. भाटियल हॉस्पिटल ऊहसनागर-421005	12/07/2004
547.	110158	श्री कर्तिक के नटराजन एसीए फ्लैट नं. 15, लक्ष्मी कोराव अपार्टमेंट्स फ्लैट नं. 147, रास्ता पेव पूने-411011	01/09/2004	556.	110289	श्री रविन राजेन्द्र मोदी एसीए 404-बी, अनंत अपार्टमेंट्स पीरामीटर रोड, एडिया बजार कोरगाव-390001	27/08/2004
548.	110174	मिस अरती छेदीलाल आग्रवाल एसीए 1001 ग्रीन रिज टॉवर I विश्वेश्वरी निगर सिमफोली टेल्फोन एक्सचेंज बेरीवाल वैस्ट, मुम्बई-400091	01/04/2004	557.	110296	मिस लक्ष्मी किशिन करमचंदनी एसीए 33, कोल्हिया, सेंट डेमनिक रोड बंद्रा (वैस्ट) मुम्बई-400050	04/06/2004
549.	110188	श्रीमती मधुर रामचन्द्र रनाडे एसीए 759/44, वेङ्गन गिन्सखाना फार्मेनी फार्मि दर्शन अपार्टमेंट्स पूने-411004	25/01/2005	558.	110369	श्री सीमंत रामकुमार श्रीवास्तव एसीए एच एच आर जॉनसन इंडिया लि. बगाले इंडस्ट्रियल स्टेट एलबीएस मार्ग, बने-400604	31/03/2004
550.	110232	श्री अनिल कुमार एलानी एसीए फ्लैट-17, 501, मोरु सदन अणे. सेंट टेरेसा गार्स हाई स्कूल एस. बी. रोड, सेंट्रल -वैस्ट मुम्बई-400054	29/03/2004	559.	110384	श्री सुनील रमेश करनजवाला एसीए 504 उमा हाउसिंग सोसाइटी 499 रास्ता पेव, पूने-411011	26/07/2004
551.	110241	श्री रूपेश जगदीश आग्रवाल एसीए 9/सी जगदीश भवन मुमुं-सैट, मुम्बई-400081	01/04/2004	560.	110414	श्री अरुण अम्बस लोखंडवाल एसीए 404, सन मूल II, आग्रवाल स्टेट, जोरवारी डक्यू मुम्बई-400102	15/07/2004
552.	110263	मिस रमिता कोराव सेव एसीए रुक्मणी-1, फ्लैट नं. 4 ग्रैंड फ्लोर, जगती लेन कटवारी सैमन, अंबरनव सैट अंबरनव-421501	01/04/2004	561.	110430	श्री अण्णकुमार गोकुलदास पीटले एसीए केयर ऑफ श्री भारत एन गांधी फ्लैट नं. 5, गिरनार क्लब्सिक फ्लैट नं. 87; महेश सोसाइटी, बीकनेवडी, पूने-411037	07/10/2004
553.	110264	श्री अमय नारायण एसीए बी/604, एलित अपार्टमेंट्स ग्रीन पार्क कॉम्प्लेक्स नंदीवली मिलेज, निगर गंधीनगर खेचीवली (सैट), खेचीवली-421201	23/12/2004	562.	110471	मिस मीनल प्रदीप सेव एसीए 21/बी श्री कृष्ण ज्योत 105 महेदिय नगर कटकोर सैट, मुम्बई-400077	01/04/2004
554.	110270	श्री मनीष बच्चुर्ब जेठव एसीए बी-5 श्रीनगर को अणे. हा. से. अलेक वन, वीसर सैट मुम्बई-400068	19/10/2004	563.	110487	श्री गिरीश हेमंत पोडकर एसीए 101/ए नव फ्लैट अपार्टमेंट्स अणे. सर्वोदय हॉल, तिलक रोड खेचीवली (ई), खेचीवली-421201	31/03/2004

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
564. 110551	श्री वनस्पति महेश्वरी एसीए 101 सपना को-ओप. हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर नं. 6, चारकोप, कांडीवली (वैस्ट), मुम्बई-400067	16/09/2004	573. 110872	मिस कौशल्या संपत एसीए 82-बी डायमंड कोर्ट 40 नैपियन सी रोड मुम्बई-400036	25/08/2004
565. 110552	श्री विमल जयदेव गोर एसीए कॉन्डोमिनियम को-ओप. लि. सिनीयर एक्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ऑडिट क्याइडस टॉवर, अपो. स्कॉन टेम्पल सरखेज गंधीनगर हाईवे अहमदाबाद-380015	24/03/2005	574. 110902	श्री मंडार जय प्रकाश छापेकर एसीए 176/3, नलिनी अपार्टमेंट्स पार्क पूने-411009	05/02/2005
566. 110602	श्री मौलिक पंकज देवी एसीए अनुम सौ-6, करानी लेन छाटकोप (वैस्ट), मुम्बई-400086	31/12/2004	575. 110908	श्री नीतिश सेमनाथ भास्कर एसीए सेट-1/104, स्टारलिंग अपार्टमेंट्स राज नगर, छवनी नियर शिव मंदिर, नजारा-440013	27/08/2004
567. 110625	श्री पार्वति कुंज इन्वेंचरी एसीए 1 उर्मी कालेनी, सुब्रह्मण्य वडेरा-390023	01/02/2005	576. 110909	श्री बंकिम चन्द्रकांत भट्ट एसीए 704/ई वैस्ट व्यू को-ओप. हा. सो. लि. सेक्टर-2, विहाइड महावीर दर्शन चारकोप कांडीवली (वैस्ट) मुम्बई-400067	31/03/2004
568. 110639	मिस विमल प्रफुल्ल कर्मदार एसीए 193/5353 सुभाष 'ए' पंत नगर छाटकोप-ई मुम्बई-400075	01/04/2004	577. 110953	श्री अश्वय मोहन अंशुकर एसीए 46/912 समता नगर कांडीवली ई मुम्बई-400101	31/03/2004
569. 110654	श्री चंद्रशेखर बाबुराव इंदकर एसीए केयर ऑफ सी एम सलियम, नवजीवन को. ओप हा. सो. लि. 1/2 हिरण गांधी नगर कंजुर मार्ग ई मुम्बई-400042	01/04/2004	578. 111015	श्रीमति कृष्णली विभास खोपडे एसीए श्रीनिवास 555, खोपडे पेय पूने-411042	24/02/2005
570. 110744	मिस कृति प्रमोद गोरडिया एसीए 25/ए बिरला मैसन प्रधान सभा मुम्बई-400004	01/04/2004	579. 11036	मिस करुण परमेश्वर जैसवाल एसीए केयर ऑफ श्रीमति हज्जिमंदर कोर कोहली 143/ए शहीद भात सिंह हा. ओप हा. सो. जे बी नगर, अंधेरी ईस्ट मुम्बई-400059	14/09/2004
571. 110796	श्री नीलेता सरद कोरेडे एसीए 4/89 एक्सेट को ओप हा. सो. दीनदयाल मर्च विष्णुनगर छेबीवली वैस्ट, छेबीवली-421202	28/03/2005	580. 111047	श्री नीरव प्रवीणकर शाह एसीए 1 नवपद सोसाइटी, बी/एच जैन टेम्पल अजवा रोड, वडेरा-390019	31/01/2005
572. 110854	श्री अमय वनस्पति संव्या फाउंडे एसीए 'ग्रामोदय', पंडुरंगवाडी मनपद रोड, छेबीवली (ई) छेबीवली-0	09/08/2004	581. 111058	श्री विरग महेंद्रकुमार शाह एसीए 5 जैन भुवन, गान्धेजी रोड गार्डन लेन, छाटकोप वैस्ट मुम्बई-400086	01/09/2004
			582. 111104	श्री रमेश राजाराम गौरव एसीए 8/159 जेडिआ मैसन, जी के मार्ग लोअर फोरेल, मुम्बई-400013	28/12/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
583.	111107	श्रीमति कविता राकेश साहू एसीए कॉन्टेनर कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. 5 फ्लोर, सेंट्रल रेलवे बिल्डिंग डी एन रोड, फोर्ट मुम्बई-400001	25/01/2005	591.	111437	श्री अर्पण कल्पेश साहू एसीए 2/55 स्वयंसेवा रोड सेक्टर-1 रोड, अहमदाबाद-380015	01/04/2004
584.	111159	श्री लीकेश हीरालाल दगड एसीए 16 अल्ट्रा मॉडर्न बिल्डिंग, बिल्डिंग मंत्रालय पीओ मंत्रालय (सीआर), मुम्बई-400019	21/06/2004	592.	111453	श्री जगजित पंजाबी दलाल एसीए 11/1448-बी, अमरीक विजयलाल स्ट्रीट नानावट, मुंबई-395003	01/04/2004
585.	111211	श्री दिनकरप्रसाद हीरालाल लहोरी एसीए 14/302 नटराज अन्वलेख नियर जलपुत्र टैम्पल करेलीबाग, कटोदर-390018	22/03/2004	593.	111469	श्री अनिरुद्ध प्रकाश बेडेकर एसीए फ्लैट नं. 303, गंधार अपार्टमेंट्स 1204/18, पूरनपुर रोड अपो. समझौता पार्क, पूणे-411004	16/06/2004
586.	111251	मिस लीकेश रामनरेश कल्याण एसीए 20 - बी, ओमकार को-ओप हा. सो. भट्टीपट्ट रोड, कोल्हापुरी नगर धानकुप कैट, मुम्बई-400078	28/03/2005	594.	111557	श्री भास्कर धनश्यामभाई गांधी एसीए ए29 प्रेरणा टेम्पल-II, नियर पारसगार बस स्टॉप इन्दुराव कवठ रोड, अहमदाबाद-382443	22/12/2004
587.	111315	श्री हर्षल बबलरसाहेब गीरड एसीए फर्स्ट फ्लोर, मधव अपार्टमेंट्स नियर श्री दत्त मंदिर श्रीधर नगर, चौकवाड, पूणे-411033	01/04/2004	595.	111560	श्री अमिता अनांद अक्लये एसीए 1188 सुक्रवर पेथ सुभाष नगर, लेन नं. 3 पूणे-411002	01/04/2004
588.	111346	श्री सविता जगदीश अग्रवाल एसीए 248 जेजे पार्क, शॉप नं. 1 एन्ड 2 नियर शांति हॉटेल रास्ता पेथ पूणे-411011	01/04/2004	596.	111596	श्री कन्हैयालाल स्वयं सुंदर मनियार एसीए 603 अशोक फ्लैट मिनेत्र रोड, मल्लद (ईस्ट) मुम्बई-400097	25/11/2004
589.	111356	श्री अविनाश रोहिता पटेल एसीए 16 अविनाश फ्लैट अपो. पारसगार फ्लैट पार्क रेस कोर्स सक्ल कटोदर-390007	01/02/2005	597.	111631	श्रीमति हेतल अपूर्वा साहू एसीए ए/15, कर्मा विला, विठ्ठलभाई रोड, विलेपारले (वैस्ट) मुम्बई-400056	29/07/2004
590.	111370	मिस वैशाली चंद्रकांत भट्ट एसीए बी-8 मंगल प्रभा, गुजराती मंडल एक्स रोड विलेपारले (ईस्ट) मुम्बई-400057	30/07/2004	598.	111667	मिस शक्ति कीर्तिकुमार मोदी एसीए 14 श्री गणेश को-ओपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सरस्वती बैंक रोड, सेक्टर 3 फ्लैट 233, चारकोप, कांटीवली वैट, मुम्बई-400067	28/07/2004
				599.	111668	श्री नवीन कुमार एसीए अर्द्धशतकरी अर्द्ध लेमबर्ड जनरल इंश्योरेंस कं. चौधरी रोड, कोल्हापुरी-700071	05/06/2004

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
600. 111683	श्री कल्याण सुदम फटिल एसीए रो हाऊस # 1, भिमरोज बैनर, पूने-411045	01/09/2004	608. 111986	श्री सज्जदुल्लेन मोहम्मद सरंगपुरवाल एसीए 29 संगन सोसायटी नियर नवपुन कॉलेज रंथौर रोड, सूरत-395009	10/07/2004
601. 111688	श्री किशोरकुमार गौतमभाई कथिरिया एसीए 9 पार्थ अपार्टमेंट सेवित सोसायटी, फ्लैट नं. 4 श्रीराम ब्रह्म फाल्गुनी, मुम्बई-380007	14/12/2004	609. 112047	श्री भालचन्द्र बंधु खंडेकर एसीए 17/196, ब्रह्मराज सभा बिल्डिंग नं. 2, राजा मोहन राय रोड, मुम्बई-400004	01/04/2004
602. 111702	श्री अमरेश हरीशचन्द्र पट्टाभोकर एसीए 1/31 रहीमतभाई बिल्डिंग सेन गुरुजी मार्ग टारडिओ, मुम्बई-400034	01/04/2004	610. 112053	श्री प्रणव नरेन्द्र पांडेय एसीए ई-6/15 जय तारामणि सो., कंगूर नगर गोरेगाँव (वैस्ट), मुम्बई-400090	03/06/2004
603. 111709	श्रीमति रश्मि दिनेश राठी एसीए केनर ऑफ बसंत कोला 502 रश्मिकुंज अपार्टमेंट्स ओल्ड बर्यांग रोड, हिवरी लेआउट, वर्कानगर, नागपुर-440008	24/01/2005	611. 112094	श्री सईनाथ सूर्याकांत गडेवर एसीए केनर ऑफ सईनाथ गडेवर ई-7/8, पंचपुर प्रैरिटज नियर बॉम्बे बंकर हॉटेल वरजे, पूने-411030	08/01/2005
604. 111826	श्री विशाल अमरेशभाई इन्वेरी एसीए ए/4 फर्स्ट फ्लोर, सरोज फ्लैट्स अणे. न्यू फुलकित हार्ड स्कूल फतेहपुरी फाल्गुनी अहमदाबाद-380007	16/09/2004	612. 112095	श्री पकरंद चन्द्रकांत नशीङ्कर एसीए वीन 4, राजाराम हा. सो. अणे. विस्वमित्रे ब्रिज मध्यमह्मद तीन रोस्त कोदेरा-390020	02/02/2005
605. 111850	श्री प्रतीक चैतन्य राह एसीए 3 फ्लोर, बालकृष्ण निवास 9 एल. एन. रोड, मलंग (सी.आर.) मुम्बई-400019	27/09/2004	613. 112113	श्री सुनील गोपीचंद रामसखियानी एसीए बीके नं. 1692, रुम नं. 1 सेक्शन 25, महावीर हेस रोड अणे. मन्व क्लीनिक अहमदनगर-421004	01/04/2004
606. 111857	श्री गौतम कुमार डिप्पार एसीए सी 102, गोखुल फ्लैट्स नियर विडियोकॉन टॉवर अवर कॉम्प्लेक्स कांठेवली ई मुम्बई-400101	09/12/2004	614. 112134	मिस मितल कर्ति कुमार राह एसीए जी/204 विशाल सोसायटी, 2 फ्लोर एम वी रोड, अंबेरी (ई) मुम्बई-400069	01/04/2004
607. 111905	श्री समीर रविन्द्र वाकन एसीए बी - 7 नवरविराज चैम्बर्स जयहिंद कॉलोनी, गुले रोड डेवली-421202	02/07/2004	615. 112145	श्री हर्षद कल्लफडस बाबुविया एसीए 8/बी लेखंडवला बिल्डिंग 130 मोदी स्ट्रीट फोर्ट, मुम्बई-400001	31/03/2004
			616. 112149	श्री अमिता वसंत वाजे एसीए 89, सुखर पेव पूने-411002	10/11/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
617.	112256	श्री सतीश श्रीकिशन मुंडय एसीए बी/28 सैट टॉवर सुखसागर नगर कटराज, पूने-411046	01/02/2005	626.	112475	श्री पर्वचैन राह एसीए सरदार पोल, ककराखड नरियड-387001	18/08/2004
618.	112260	श्री आशीष महेस्वरी एसीए 307 नैन कृपा 118/122 काजी सहद स्ट्रीट मस्जिद डबल्यू मुम्बई-400003	01/04/2004	627.	112483	श्री राकेश चन्द्रस राह एसीए सुमिलन राह भवन फ्लैट नं. 2, रामबाग लेआउट रोड जखोडी स्वयं नियर मेडिकल स्वयं नगर-440003	25/10/2004
619.	112268	श्री रवि कुदन्तल तनेज एसीए एम4/68/526, सासवी नगर शॉपिंग सेंटर सेला हाउसिंग, अहमदाबाद-380003	22/03/2004	628.	112540	मिस्त्र फलतवी सरदार राह एसीए 703/704 बी रिंग, श्री सहस्रिलप गवन्मय, मुद्रुमंड मुम्बई-400081	01/04/2004
620.	112270	श्री परिमल रमेश गगार एसीए ए/3 दिनेश अपार्टमेंट्स अचो. न्यू माधवपुरा मार्किट राहीबा, अहमदाबाद-380004	20/09/2004	629.	112573	श्री कर्मात परतभाई राह एसीए 404 रिदी अपार्टमेंट्स नैसस्ट टू सेंटर अन्वलेन असोक नगर, कांडीवली (ई) मुम्बई-400101	20/01/2005
621.	112295	श्री सचिन जैन एसीए 403-सी कृष्ण प्लान फ्लैट नं. 218, लक्ष्मण नगर-440008	19/07/2004	630.	112579	मिस्त्र ममता मिश्रा एसीए 64, हिल पार्क, ए. जी. कैल मार्ग मलबार हिल, मुम्बई-400006	31/03/2004
622.	112367	श्री जितेन्द्र सुनेन्द्र अन्न एसीए ए 1101 अक्षुति नेव्य, सहंवाडी, तेलेरी गल्ली अवेरी स्टेट, मुम्बई-400069	31/03/2004	631.	112622	श्री अमितकुमार रमेशचन्द्र पटेल एसीए एम 109/1306 लससमीकृष्ण 2, विहंड परसमगर सरा रोड, नरनपुरा अहमदाबाद-380063	30/11/2004
623.	112395	श्री निहाल मणिकान्त राह एसीए जी-9 नालंद कॉम्प्लेक्स बी/एच होटल प्रेजिडेंट तीन गद्दी जम नगर-361001	01/04/2004	632.	112651	श्री कुन्तल मुनेशभाई राह एसीए 7 अर्जुन अपार्ट. च. प्राप्ति नगर कास्टोप, नरनपुरा अहमदाबाद-380013	10/02/2005
624.	112411	श्री ललित ओमप्रकाश ताम्बी एसीए 2 फ्लोर, कोठरी कॉम्प्लेक्स नियर एनी सति मंदिर रैलिव फ्लैट अमरवर्ति-444601	20/12/2004	633.	112665	श्री विशाल रमेशचन्द्र सखडकर एसीए इम्प्री 73/603, एकराईन प्रिन्सिपम पैराडिस अमर विलेज, कांडीवली स्टेट मुम्बई-400101	31/12/2004
625.	112433	श्री अरुणकुमार रामदास एसीए 13/80 सरोज पेस्टम सगर, चैम्बर, मुम्बई-400089	05/04/2004	634.	112719	श्री असीष एनीभाई इन्वोरी एसीए ए/7 कमलेश अपार्ट्स, पारसी पंचायत रोड अवेरी (इन्वो), मुम्बई-400069	31/03/2004

क्र. सं. एम.आर.एन.	एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.		
635.	112726	मिस चन्द्रिका संकर शेखी एसीए सै-43 जय जवान ह. सोसाइटी, सेक्टर 17, वली, नवी मुम्बई-400705	01/04/2004	644.	12903	श्री मिलिंद सुभाष पावले एसीए ए 84 विकास फाईनली टैक्स को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड पारेल टैंक रोड, मुम्बई-400033	09/07/2004
636.	112737	श्रीमति ममता नीलेश मुंकर एसीए केयर ऑफ मधुकर पी. खानोलकर 1/51, पारेख महल, एल. जे. रोड, महिम मुम्बई-400016	18/03/2005	645.	112905	श्री रजनीश शहा एसीए केयर ऑफ श्री प्रकाश सी पटवर्धन रूम नं. 3, नाग मूर्ति अप्टे टिपकोर कं., रानी सती मार्ग, मलद (ई), मुम्बई-400097	31/12/2004
637.	112750	श्री विपला रतिलाल सेथिया एसीए बी 26, मेरुपल मैसन बछनी नगर रोड मलद-सैट, मुम्बई-400097	30/12/2004	646.	112911	श्री विवेक करुणकर नमबियर एसीए 7 हरी निवास, पोस्टल कालोनी चैबूर, मुम्बई-400071	09/09/2004
638.	112787	श्रीमति खयने फारोख गोतला एसीए एफ/18 कसरो बांग सहीद भगत सिंह रोड इलेक्ट्रिक हाऊस मुम्बई-400001	09/06/2004	647.	112919	श्री अमिता जगदीश शहा एसीए 39/2830 अमृत्यु नगर कालोनी, मुम्बई-400033	01/04/2004
639.	112796	श्री नीरज पुरुषोत्तमदास सराफ एसीए बी-101 एलियड अपार्ट्स तिलक रोड, डिस्ट. बाने (सैट) डेवेलोप-421201	14/12/2004	648.	113057	श्री सत्यजीत उषव भादे एसीए गुरुज को. हा. से. 137/4, सुरुख बिल्डिंग फ्लैट 3, पैद रोड कोटरुडपुरे-411029	14/09/2004
640.	112809	मिस कृति प्रकाशभाई शक्कर एसीए 52 सतिनगर सोसाइटी बी/एच अर्यकन्य कलेजी बांग वडेरा-390018	29/09/2004	649.	113095	श्री मैत्रिका दिव्यकांत देवई एसीए बी-6 नीरले अपार्ट्स अप्टे वसन्तपुर तेलवे स्टेशन, वेजलपुर अष्टमसद-380051	31/03/2004
641.	112823	मिस सुनीता जयकिशन मदनानी एसीए फ्लैट नं. 9, 3 फ्लोर सतनगर एक अपार्टमेंट्स गोल्ड मैडन, उरुसतनगर-421001	31/08/2004	650.	113105	श्री श्रीराम विजय मुंशी एसीए 302, मल्हारी सदन, अजमत रोड क्लोफाले-सैट मुम्बई-400057	23/09/2004
642.	112892	श्री संदीप संकरलाल सांवी एसीए फ्लैट नं. 403, ए/2 कस्तूर विहार टाऊनशिप अजमतनगर रोड सूत-395017	24/02/2005	651.	113121	श्री मनीष कुमार रावत एसीए केयर ऑफ तिलक रोड, षटकोर सैट, मुम्बई-400077	29/09/2004
643.	112902	श्री नीरव वीरित पुजारा एसीए 49/50, बी-10 कैप्टेन व् हार्नेगरी टारबिये रोड मुम्बई-400034	17/09/2004	652.	113124	श्री मुत्तस अम्बस तावला एसीए 214/16 नाथेवी स्ट्रीट 7 मेममदी हाऊस 3 फ्लोर, मुम्बई-400033	27/12/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
653.	113157	श्री नरेन्द्र चन्दरलाल अकंठनी एसीए बीके नं. 1102/12 नियर जसलदेक हाई स्कूल ओ. टी. सेक्शन, उल्हसनगर उल्हसनगर-421003	13/09/2004	662.	113457	श्री निखिल मुकुंद बोरकर एसीए 232 जय प्रकाश चैम्बरलि. ओ. नवजीवन हॉस्पिटल मानस रोड, डेवकीली ईस्ट डेवकीली-421201	28/12/2004
654.	113190	श्री संजय नारायण काम्बले एसीए डा. राजेन्द्र प्रसाद नगर, अप्पे. रयूअर कॉलेज, एल. एन रोड दादर, मुम्बई-400014	31/03/2004	663.	113502	श्री संदीप कुमार जैसवाल एसीए सी-113 सत्यम, बी/एच डेन बेक्करे स्कूल बोरीवली (वैट), मुम्बई-400091	08/07/2004
655.	113192	श्री सुनील जगदीश वर्मा एसीए आरएच-2 पुनीत को-ओप. हा. सो. प्लॉट नं. 10/7, नियर एपीजे स्कूल सेक्टर 15 नेहरू नवी मुम्बई-400706	01/04/2004	664.	113550	श्री चन्द्रशेखर महावल सैलियन एसीए नवजीवन को-ओप. हा. सो. सैक्टर 2 रूम नं. 1/2, इंदिरा गांधी नगर कंजरगाई ईस्ट, मुम्बई-400042	23/08/2004
656.	113204	मिस्स मृण्मयी सुरेश फावते एसीए प्लॉट नं. 294/295, महात्म्य सोसाइटी कोयंबूर, पुणे-411038	28/12/2004	665.	113577	श्री जयशंकर प्रदीप वैद्य एसीए बी 304 विजय पार्क, मधुसूदन रोड एक्स. कांडीवली डकल्यू मुम्बई-400067	16/05/2004
657.	113285	श्री रामनृज चन्द्रशेखर कनकावनी एसीए 205 ओमकार को-ओप. हा. सो. लि. रिडुल रोड, बलसद-396001	23/07/2004	666.	113592	मिस्स सिल्वी लक्ष्मण ऊपट एसीए बी/16, रजुल नगर नियर कारवेस्टेचु कोयंबूर, पुणे-411038	12/10/2004
658.	113290	श्री विवेक विष्णुसद अग्रवाल एसीए 14 निखारिका कॉलेज अप्पे. प्रिम्मा लाल पार्क नियर अग्रवाल सोसाइटी, अंकावली, अहमदाबाद-380015	31/08/2004	667.	113634	श्री कुन्ता हरेन्द्र मुनिस एसीए 202/ए. वि. (मनी) बिल्डिंग एस वी फटेल् रोड, अंगो गेवुल हेटल बोरीवली वैट, मुम्बई-400092	31/03/2004
659.	113390	श्री स. यशोत अशोकसिंह पंजर एसीए बी-101, आधुनिक अपार्ट्स 58 प्रीतम नगर सो. एलैसिगिण, अहमदाबाद-381 206	23/02/2005	668.	113640	श्री संदीपन सेगुता एसीए कैयर ऑफ देवकीन मजुमदार बी-17, श्री स्वामी समर्थ सस रोड, पल्लन पुणे-390007	02/02/2005
660.	113411	मिस्स मृणालिनी प्रमोद मेहंठले एसीए जे 402 अमरेद अंकुर सिखानंद गार्डंस तेजस सोसाइटी, कोयंबूर पुणे-411038	31/01/2005	669.	113647	श्री के.एन. संजय नम्वीरी एसीए कैयर ऑफ श्री एच पी मिश्र बी-6 श्रीराम अपार्टमेंट लक्ष्मीनगर, नागपुर-440010	31/01/2005
661.	113447	श्री विश्वनाथ विरमल पार्थ एसीए ए-1 101 मिस्स यूट्य नगर सिखली रोड, दादर ईस्ट मुम्बई-400068	20/09/2004				

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
670.	113800	श्री अमेरसिंह टिंतली एसीए 21, "सबली" जीवन विहार से जय भवानी रोड, नारिक रोड कैम्प नारिक-422102	15/12/2004	679.	113972	श्री प्रेम राज लख्य एसीए 6/5 सहयोग अपार्टमेंट केरव नगर, सुभाष ब्रिज अहमदनगर-380027	17/08/2004
671.	113810	श्री अनंद महेंद्रकुमार झावेरी एसीए फ्लॉट नं. 164, धावड बिल्डिंग बिहाईड श्रीराम भवन न्यू रामदास पेथ, नागपुर-440010	07/02/2005	680.	113996	श्री सुनील इंदुकर होठवानी एसीए 1 फ्लोर, शारदा कन्यालय मकान गंडिया-441601	27/01/2005
672.	113811	मिस आकांक्ष भाववन सिंह एसीए 126-ए, न्यू जगृती कालोनी, काटोल रोड, नागपुर-440013	19/08/2004	681.	114037	मिस संजयेंत पुष्कर चिदरवर एसीए फ्लॉट नं. 26, दक्षिण नगर, नागपुर-440024	31/03/2004
673.	113814	श्री कैलास हतकनरदास दौलतानी एसीए 6-ई शिव सगर, 5 रोड, शिवजी पार्क, महिम वेस्ट, मुम्बई-400016	21/03/2005	682.	114108	श्री अनंदरमणिकराल धोरे एसीए सुवित्र फ्लॉट नं. 13 तेजमल लेन 5 क्रिओपरले स्टेट, मुम्बई-400057	31/12/2004
674.	113883	श्री प्रदीप कुमार जगदीश प्रसाद सराफ एसीए 86/38 कवेलो ब्रॉड लेन-2 डेवी सेठ अम्बरिलेन रूम नं. 38 एन्ड 39 कलकत्ते रोड मुम्बई-400002	21/06/2004	683.	114112	श्री जतिन दिव्यनीय एसीए ए 16 श्री निवास बिल्डिंग महतरपद, अंक सौर रोड अकोली, मुम्बई-400058	27/05/2004
675.	113945	श्री नीरव दिनेश सेठ एसीए 5/103 श्रीकुंज फ्लैट्स नियर राज पार्क बस स्टॉप मटलेडिया अहमदनगर-380061	08/07/2004	684.	114120	श्री चेतन अशोक सुनील बाफन एसीए 7, अर्चिता रेजिडेंसी अशोक सिम्पति टॉवर बीए अवसलवाणी टॉवर गंगपुर रोड, नारिक-422013	27/12/2004
676.	113951	श्री धर्मेश सरदकुमार जनानी एसीए 52 सविता टेनिस मैदान इरानपुर, अहमदनगर-382443	19/06/2004	685.	114135	श्रीमती सेजल शिशिर कपडिया एसीए 29 श्रीनय से अशोक मुनिम हॉल असमनपुर, अहमदनगर-380013	06/01/2005
677.	113957	श्री नीलेश किशोर शिरसगर एसीए 206 सत्यवर्णी, सी एच एस स्टेशन रोड करस नगर-421004	24/03/2005	686.	114193	श्री मुकेश रविकान्त हटवलने एसीए बी 104 इरा गार्डन एस नं. 52/45 अशोक महेश विद्यालय सहजानंद सेक्टर कोयंबटूर, पुणे-411029	25/11/2004
678.	113963	श्री जितेश रामरतन लड्डा एसीए 6/5 सहयोग अपार्टमेंट केरव नगर, सुभाष ब्रिज अहमदनगर-380027	17/08/2004	687.	114203	श्री अनिल अग्रवाल एसीए कैप्टन अंक अर्जुन अग्रवाल, ए/604 प्रथम अवरकोड अशोक सहज डिपार्टमेंट स्टोर, अनंद मल रोड, अजंज, पूना-395009	22/06/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
688.	114210	श्री प्रभव हर्षदे जेजी एसीए बी/52 सिव टावर्स अयो. राजसूय कॉम्प्लेक्स रामदेवनगर सैटलमेंट अहमदनगर-380015	11/06/2004	697.	114459	श्री गुरुनाथ नारायण रॉय एसीए 4/12 एलेग कॉम्प्लेक्स कोओप. हा. सो. देवस्थान मार्ग (वेस्ट) धने-421202	22/06/2004
689.	114221	श्री गिरीश सेनार कटपाडीकर एसीए 171 लहीद भात सिंह कालोनी जे बी नगर, अंधेरी कुरला रोड अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400059	29/12/2004	698.	114470	श्री कैलेन गेहलदास पुरलिया एसीए फ्लैट 601 ग्रीन एकेडू बिल्डिंग नं. 1, रोना स्टेट नियर नैशनल पार्क कुलुम्बडी बेरीकनी-ई मुम्बई-400066	5/08/2004
690.	114229	मिस स्वेच्छा अंतर्बा करकरे एसीए 301/302, सिअन सिवजी नगर कोओप. हा. सो. भाऊ दाजी रोड एक्स. नियर सिअन हॉस्पिटल सिअन मुम्बई-400022	14/03/2005	699.	114537	श्री डेबिसन अब्दुल एसीए केसर ऑफ एन. ए. वार्षी, 204 ब्लूगैटी रामबांलेन 5, कल्याण पैट मुम्बई-421304	01/04/2004
691.	114245	श्रीमति ममता संजय अलमेडा एसीए सेक्टर V ए/5 403, शांति नगर मीरा रोड, डिस्ट. धने मीरा रोड-401107	20/08/2004	700.	114584	श्री विवेक रामदास मेनन एसीए फ्लैट नं. 101 फ्लूरीडन्यती स्टेट मेडममवडी हवेलार पूने-411028	01/04/2004
692.	114281	श्री समीर उत्तमरॉय जगन्नाडे एसीए 7 गायत्री निवास नारोव - हुडको अहमदनगर-414001	02/12/2004	701.	114611	श्री असीव कुमार जैन एसीए फेरीक्रेम अवरिन्स इंट. इ. एलएलसी पी. ओ. बॉक्स नं. 37029 दुर्गदूर्यदुर्ग-0	21/03/2005
693.	114325	श्री नीलेन कन्हैयालाल ओसवाल एसीए 52A/2, सिवजी नगर, नियर कबीरा भवन, पूने-411005	01/04/2004	702.	114618	मिस आरती प्रमोद पाड्या एसीए 5वीं फ्लोर बिल्डिंग अपोस्टीलार्ड सिनेमा एल जे रोड, मरिम मुम्बई-400016	30/08/2004
694.	114333	श्री नीरव हसमुख राह एसीए बी/15, सम्पद तीर्थ फ्लैट्स बी.एच. वासन टेल् एक्स. वासन अहमदनगर-380007	31/03/2004	703.	114647	मिस दिव्य सबाजी एसीए 5X6, सैकंड फ्लोर चर्च रोड, न्यू सिविलीय फ्लैट, बंगला-560075	01/04/2004
695.	114380	मिस रेखा चौध सईयद एसीए नारायण निवास, ग्राउंड फ्लोर अर नं. 20 खेतवाडी, खामवाडा लेन मुम्बई-400004	13/12/2004	704.	114656	श्री मेहुन वासंतोय राह एसीए 15 न्यूमर इडिय फैक्स डैस्ट्री रोड, मलद (ई), मुम्बई-400097	01/04/2004
696.	114422	मिस दिव्य विनायक बंदना घाव एसीए 7 गीतकर धाम सो. देवी चौक, राखी नगर (वेस्ट) खेवडी-421202	10/09/2004				

क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल त
705. 114688 श्री उर्मिन मूलचंद बोरा एसीए 1601 कोमल निर्मल लक्ष्मणस्टाइन बिल्डिंग सॉफर्स स्टॉप एलबीएस रोड, मुजुंज वैट मुम्बई-400080	01/04/2004	714. 114833 श्री सचिन्दी इन्फन्ट मॉमस एसीए तस्नीम, 2 फ्लोर एल. जे. एक्स रोड नं. 2 महिम, मुम्बई-400016	15/12/20
706. 114693 श्री अभिजीत महेस कुलकर्णी एसीए वात्सल्य बंगला, मयूर विहार कलनेनी नियर प्रशान्त नगर, पाथरी फटा नसिक-422010	10/09/2004	715. 114848 श्री किन्जल अशोककुमार धारिया एसीए 2/15 एनील - बी नील शीत स्टेजस्टी कजी प्रभु देवगडे मार्ग विलोपरले वैट मुम्बई-400056	14/03/20
707. 114709 श्री अश्विन केबी मजुवेंदरी एसीए 14/329 सैक्टर-7, सीजीएस कलनेनी अंटेप हिल मुम्बई-400037	01/04/2004	716. 114861 श्री हार्दिक अतुलधर्मा राह एसीए 305 निर्माण हाऊस बी/एच टाइम्स ऑफ इंडिया अग्रम रोड, अग्रमदंड-380009	28/08/20
708. 114714 श्री अमिता तरुण चव्हा एसीए एस आर बटलीवॉर एन्ड कॉ. द मैट्रोपॉल एफ 1, 1 फ्लोर, बुंदगार्डन रोड पुणे-41100001	01/04/2004	717. 114881 मिस मंजुषा सुरेश भावे एसीए 1, अष्टनयेक कोओर. हा. से. पंडुरंग वाडी डेविकली (ईट) डेविकली-421201	31/03/20
709. 114766 श्री केलेसुखाम के घंडापानी मुजुंजवर एसीए 31/1 सी-33 अपर गोविंद नगर एच बी रोड, मालद (ईट) मुम्बई-400097	31/03/2004	718. 114883 श्री वैभव दत्तात्रेय देवगडे एसीए 42 मिस्ट्री पैलेस, खजुरावली क्रॉस रोड, चुगवली मुम्बई-400022	24/12/20
710. 114802 श्री विमिन संकर मोरे एसीए सी/502, निवय अग्रदूर, घोलो नगर सक्कर पद, बेरीकली (ई) मुम्बई-400066	17/12/2004	719. 114885 श्री प्रशान्त अरुण अरती देवगडे एसीए 34/बी परस निवय, संतोषी माता नगर गोमसवाडी, डेविकली (ईट) डेविकली-421201	03/01/20
711. 114813 श्रीमति श्रद्धा गणेश अर्कर एसीए ए-1/603 सरोवर को-ओर. हा. से. नियर राम अग्रम राम बांग एस राउण्ड पोवई मुम्बई-400076	09/09/2004	720. 114891 श्री विनय नमोद पडे एसीए रूप नं. 170, बिसाईस नव टेलस नियर अग्रमदी मण्ड नारायण नगर, घटकोर (वैट) मुम्बई-400086	01/04/20
712. 114817 श्री विनय हसमुखलाल राह एसीए टी/2 नूतन स्टेट, 19-20, गणेशदिया नगर कल्लय बांग लेन एक्स. घटकोर (ई), मुम्बई-400077	01/04/2004	721. 114912 मिस सख्खिया अग्रम हिल वकई हो एसीए ए/9, गंगा अपार्ट्स नियर आरसीए कलनेनी बांदुप (ईट) मुम्बई-400042	01/04/20
713. 114821 श्री अजय अश्वकान्त पटेल एसीए कोर ऑफ प्रवीण के पटेल, दर्शन गंगा फ्लॉट नं. 24, महालक्ष्मी नगर, अपो. नंदीनी आगरवाडी हीरा वाडी रोड, नसिक-422003	02/11/2004		

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल
722.	114983 श्री रमेश भाऊराव केद्रे एसीए रूम नं. 1 कापूस कं. बी पी रोड, खासवी नगर, मुजुंदा कैट, मुम्बई-400080	21/02/2005	731.	115058 श्री समीर चन्द्रकांत गडगे एसीए एफ-9, हरिहर बिहड़ंड तालुका, तोंगेल्लन, ता. तोंगे नगर, नागपुर-4440015	15/03/20
723.	114985 श्री नीलेश जितेन्द्र मालविया एसीए पूर्वी को-ओर. हा. सो. लि. फ्लैट नं. 601, निगर एडिशन बेकरी माधुसूदन ब्रॉड रोड कांठलान-डकयू मुम्बई-400067	11/11/2004	732.	115080 मिस मीरा सुभाष रसीला गोरी एसीए इं. 6 विप्रम धम, वीणा नगर II, एल.बी.एस. मार्ग, मुजुंदा (डकयू) मुम्बई-400080	01/04/20
724.	114993 श्रीमति मृणाल मंडर खटे एसीए 1/6 सिरिस, उद्यान को ओर हा. सो. पंत नगर, बटकोर हंट, मुम्बई-400075	01/04/2004	733.	115097 मिस फल्लुची दीप चिंकाडे एसीए महादेव अपार्ट, फ्लैट नं. 2, पडकल लेन, चिंकाड, पूने-411033	24/11/20
725.	114994 श्री अमिता कबीरलाल जैन एसीए 301 गिरिनगर अपार्ट्स ऑफ मंडसकर रोड अणे हिममत नगर, बोरीकली (कैट) मुम्बई-400092	01/04/2004	734.	115098 श्री श्रीनिवास मुखैया पुजारी एसीए 7/54, गोरगांव, सिद्धार्थ नगर सी. हा. सो. सिद्धार्थ नगर नं. 1, बिहड़ंड वेडिंग गोरगांव कैट, मुम्बई-400104	01/12/20
726.	115004 श्री मनीषकुमार प्रकाशराज कोटवरी एसीए 9 नूबानू मैदान, टीली गल्ली चीचकोवली, डी. आर. बी. ए. रोड मुम्बई-400012	28/12/2004	735.	115108 श्री सुजाता कुमार नयक एसीए बी-1/-1, कैलाश पार्क नियर तालिका पुलिस स्टेशन फाकर, रोमगाड, नवी मुम्बई-410206	20/06/20
727.	115020 श्रीमति संतोष सुनील मुष्टे एसीए 302, अंगुलन, 49 सी. डी. बर्डीकला मार्ग अणेरी (कैट), मुम्बई-400058	31/12/2004	736.	115187 श्री प्रिंसिपल विनय नव कारी एसीए 4/16, सरस्वतीनगर को-ओर. हा. सो. कोरेगाँव, कानोई धने-400603	13/08/20
728.	115025 श्रीमती केनेकर जुनीन सेठना एसीए 787, जामे-जामेदे रोड फारसी कालोनी, पयार मुम्बई-400014	14/01/2005	737.	115229 मिस वैशाली चन्द्रकांत कादम एसीए एच/202 गौता नगर फेन 11 गौरा भयंदर रोड अणे गेल्डन कैट, भयंदर हंट भयंदर-401105	14/01/20
729.	115041 मिस महीन जमीर लैमकाबा एसीए 503 सी फिंग मिडिंग, ऑफ आर्थर पुंर रोड कोरेगांव, मुम्बई-400005	21/02/2005	738.	115264 श्री कमलाचंद बाफना एसीए 57/11, हंटस रोड, 2 फ्लोर पूना चेन्नई-600112	15/05/20
730.	115050 श्री कोतन सदाशिव एसीए 146 ख. चौमस स्ट्रीट, 3 फ्लोर, कृष्ण पुन, कालावडेवी रोड, मुम्बई-400002	15/12/2004	739.	115306 श्री किशन किशोर बर्देवा एसीए अला काना तपूना एल.एल.सी 312, गेल्डन कैट मिडिंग पी. ओ. बाबा 8968, मुम्बई-पूना मुम्बई-8968 युनाइटेड असन एसीए	10/11/20

क्र. स. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल
740. 115321	मिस नेहा रसिक कामदार एसीए 202 केसत अराटी, केसत स्ट्रीट सैटकुन, मुम्बई-400080	13/08/2004	750. 115682	श्री प्रमोद श्रीनिवास रेड्डी एसीए 202 जलदहन अफार्म महदेव फर्लिया, काटरगम सूत-395004	20/08/20
741. 115344	श्रीमती ब्रिजिज गणेश रेलेंकर एसीए 1-203 कृष्ण कसंत विहार ठाकुर विलेज, कांडीकली (हैट) मुम्बई-400101	30/09/2004	751. 115702	श्री कल्पेश विमललाल राह एसीए 2/14 श्रीमल को-ओप ह. सो. एस एन रोड, टांवेनगर, वैक ऑफ इंडिया, मुजुं (कैट) मुम्बई-400080	26/07/20
742. 115354	श्री मंडार विकास अंजलि गडकरी एसीए बी 101 बी एड सी 68, अम्बेद ए विंग गोकुलकाम, गोरगंधा स्ट मुम्बई-400063	02/08/2004	752. 115705	श्री खुशरू जल अमीर एसीए बी/14 स्वर्ण अफार्म अपो सगर कॉम्प्लेक्स अनंद, महल रोड अवज, सूत-395009	01/04/20
743. 115401	श्री प्रसन्न वासुदेओ सैवे एसीए ए-304, विंग एफ 1, श्रीकडे वडी मानपा रोड, डेवीकली स्ट, डेवीकली-421201	27/08/2004	753. 115717	श्री दीपक चम्पलाल रम एसीए केयर ऑफ एन. अर. समूह 111/बी अरावली रोडिंग सैटर जवाहरिय रोड, मलद कैट मुम्बई-400064	17/01/20
744. 115469	श्री विजय कुमार लखी एसीए डी/203, सैक्ट्रम टॉवर अपोआईट पुलिस स्टेशन सलीबा, अहमदनगर-380004	03/12/2004	754. 115744	मिस गीतांजली सिद्धार्थ एसीए 173 ज्युडियर, कुफे रोड मुम्बई-400005	01/04/20
745. 115482	मिस सपना विस्वनाथ फोला एसीए 201/202 फोला सऊरा, इंगनीकली नं. 2, कांडीकली (कैट) मुम्बई-400067	15/12/2004	755. 115788	श्री विक्रम जयदेव लाल सुजा एसीए केयर ऑफ श्री जेवी सुजा नियर ओल्ड टेलीफोन एक्सचेंज रोड विस्तुन-415605	17/01/20
746. 115535	श्री विराल अशोक कुमार राह एसीए बी-205 इन्वे पार्क ई-2 ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांडीकली (हैट) मुम्बई-400101	28/10/2004	756. 115793	श्री मुनेश मरामंद घटिया एसीए मैसर्स तैमन एक्सपोर्ट्स लि. 706-707, हैट नं. बिल्डिंग हंता इंगो लु गंधा-511091 कैट	01/04/20
747. 115600	मिस दिशा परेश सुटारिया एसीए ज्येष्ठ सदन, सेबा हिले नियर जीवीओ जम्मगर-361001	24/02/2005	757. 115796	श्री हेमल अशोक चर्चारी एसीए 501, मनी टॉवर 1/5, फेटल करुणेनी जम्मगर-361008	01/04/20
748. 115649	मिस निखिता जयदेव लाल वकर एसीए 003, सेडम बी-8, सिद्धार्थ कॉम्प्लेक्स सिटी लाईट रोड, सूत-0	07/12/2004			
749. 115668	श्री संजय वासुदेओ सक्ता एसीए बी 301 ओप समर्थ अरावली केयर प्रॉस रोड, राहनी नगर डेवीकली कैट, डेवीकली-421202	15/02/2005			

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
758.	115812	श्री प्रतीक राकेश्वर अग्रवाल एसीए केयर ऑफ मुक्ता एस अग्रवाल 4/16 एमआईपी वीएचबी कॉलोनी गिरीपेठ, नगरपुर-440010	01/04/2004	768.	116017	श्री सुनेन्द्रकुमार अशोककुमार जैन एसीए फ्लैट नं. 2सी, पूजन अपार्टमेंट्स त्रिभुवन कॉम्प्लेक्स छेड छेड रोड सुरत-395007	01/11/200-
759.	115845	श्री सुरेश्वर प्रवीण परख एसीए 16/3 दीप जयोट, कस्तूर पार्क बेरीकली कैट, मुम्बई-400092	01/04/2004	769.	116019	मिस सिल्विया विस्वाक्ष फोर्ला एसीए शॉप नं. 2, फोर्ला हाउस इन्फोवर्डी नं. 2, कांडीकली (कैट) मुम्बई-400067	15/12/200-
760.	115854	श्री रहूल दत्तात्रेय वाटारकर एसीए 41/5-एबी/2/3, कुलदीप सो. पंड फाट कारवे रोड पूने-411038	01/04/2004	770.	116026	श्री केयूर नरेन्द्र राह एसीए 29 जय शिव शक्ति से बीएचएचड सो, जीवरणपार्क अहमदनगर-380051	15/12/200-
761.	115871	श्री प्रार्थन जगत कौशिक एसीए 203, मानवस्थल-1, गोवर्धनधाम, गोरेगांव (ईस्ट) मुम्बई-400063	25/06/2004	771.	116059	श्रीमती चेतना चेतन राह एसीए 49-मन्नेर कोर्ट, यॉर्क कैस्टेल, लंदन एन 20 ओडीअर यूनाइटेड किंगडम-0	17/05/200-
762.	115881	श्रीमति प्रीता महेस करानी एसीए 202, रोसेवेन अन्वलेव एचव बैरिअन केथेरिन्क बैंक फांटर (कैट), भयंदर-401101	01/06/2004	772.	116066	मिस कौशिक बेनी बटलर एसीए 6/3 जम्मे जम्मेद रोड फारसी कॉलोनी, वदर मुम्बई-400014	01/08/200-
763.	115944	श्री कुलदीप विष्णुकान्त खानापुरकर एसीए 5 साई फुंज, लेन नं. 7 दहनुकर कॉलोनी कोयंबूर, पूने-411029	31/03/2004	773.	116067	श्री सुनील अमरलाल कमर एसीए सीओमल निवास बरोक नं. 1604, रूम नं. 3 एच 4 सैकसन नं. 26 उल्हासगर-421004	31/03/200-
764.	115949	मिस जूही सनी बेकर एसीए 54, श्री रानाविला, बीएच एल. जे. कॉलोनी, कावपुर, अहमदनगर-380015	23/08/2004	774.	116082	श्री जतिन दलीपभाई पांड्या एसीए 4/185, सिक्नेरी, दय सहेव फारलके रोड दर ईस्ट, मुम्बई-400014	22/12/200-
765.	115952	श्री अभिजीत श्यामसुंदर धारगव एसीए केयर ऑफ युसराज एम खाटपे 2/39 सदाशिव पेठ, पूने-411030	28/12/2004	775.	116093	श्री परतकुमार सतीशराजी गंगवाल एसीए डी/502 सेमरगा, बीएच सहायदी बिल्डिंग एस वी रोड, मालद (डकल्यू) मुम्बई-400064	01/03/200-
766.	115984	मिस पद्मिनी रामनाथ सान्याग एसीए 151 अलम्पस, खरम एम सी रोड महिम, मुम्बई-400016	01/04/2004	776.	116097	श्री विरान हेसलत घटिया एसीए 112, निरंजन बिल्डिंग मरवेरोड, मलद (कैट) मुम्बई-400064	01/04/200-
767.	115988	श्री सख्ख मानेक पावरी एसीए एच/54 न्यू अम्बीकली से. वीए देसाई रोड, असेरी (कैट) मुम्बई-400053	01/08/2004				

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
777.	116118	श्री नरिन्द्र फल भूनिन्द सिंह गटिया एसौर 29/10/2004 12 गेहिस कल्लेनी नियर बल्लजी मंदिर नदे-431601	786.	116277	मिस कमला सुब्रमण्यम एसौर 01/04/20 केयर ऑफ लै. पी. आर. प्रसन्न पी 202/10, मल्ली स्टोरीड बिल्डिंग हैटीट्यूट ऑफ आरमान्ट टेक्नोलॉजी गिरिगिर, पुने-411025
778.	116122	श्री सुरेश रेवन्सिन्हा बसतो एसौर 02/02/2005 एस-1, तुलसी अपार्टमेंट 637 एस. कस्तूरबा, सोलनपुर-413007	787.	116331	मिस मेनिक्का विजयनन्दन राह एसौर 23/02/0 ए/301 सिद्धार्थ अपार्ट्स नियर मेहता स्कूट्स कस्तूर, अहमदनगर-380007
779.	116156	श्री ओमकार दत्तात्रेय जोषी एसौर 22/09/2004 अरुण फॉटिल चॅल आगरोड, नियर पेट्रोल पंप घोडेवेल अलि, कल्याण-421301	788.	116364	श्री मुरली कृष्ण चेळुव एसौर 01/04/20 जेसन-3, बिल्डिंग नं. 23 फ्लैट नं. 15, अश्विनी सेक्टर सेक्टर-9, वल्ली नवी मुम्बई-400703
780.	116171	श्री विजय कुमार वसंत हलदंकर एसौर 19/11/2004 जी एच मल्लवदिया चॅल गुंडवली गव्हेन अहमद रोड नियर स्टेडसदन अहमद, अंबेरी-हैट, मुम्बई-400069	789.	116376	श्री रविचंद्र विस्वास डेकर एसौर 26/08/20 5/3 गंगा भुवन ब्रह्मपुरी रो नैद, वनेवैट फने-400602
781.	116176	मिस अन्नमिका युवराज खटपे एसौर 28/12/2004 2/39 सदाशिव पेथ पुने-411030	790.	116387	श्री नीलेश अरविंद पंडे एसौर 30/11/20 जय कॉटेज कम नं. 10 अणे सीतल तलावे एम एन रोड, ओल्ड कुला वैट मुम्बई-400070
782.	116193	श्री नीलेश पंथरीनव श्रवक एसौर 19/01/2005 केयर ऑफ श्रवक पी. आर. नियर गणपति टेम्पल तल्ल रोड, रोड जलगांव-425508	791.	116394	श्री समीर केजर अहमद एसौर 23/03/20 32 खेसरा अपार्ट्स अहमद रोड, नियर रमंड रोड अहमद - 444001
783.	116204	श्री मुकेश कुमार अहवाल एसौर 19/11/2004 702 गुरु समिती अपार्टमेंट्स फ्लैट नं. 2, सेक्टर 14 पाम बीच रोड, वल्ली समथ नवी मुम्बई-0	792.	116437	श्री राजेश महावीरकुमार जैन एसौर 01/04/20 48, कपिल नगर, अणे समथ नगर हैसनपुर, अहमदनगर-382443
784.	116217	श्री कुमार कन्हैयालाल परमानी एसौर 29/03/2005 ए/1502-1503, पंचसैतन हार्ड्स नियर ओल्ड रेस्टोरेंट (कुल्लेड) महावीर नगर, कनुर वल्ली कांडीवली वैट, मुम्बई-400067	793.	116453	श्री राजेश हैरी फर्नांडिस एसौर 15/12/20 1/17, विमल कुंग, किरान नगर नं. 1 वालेस्टेट, फने-400604
785.	116259	श्रीमती प्रभा सुगुन एसौर 06/05/2004 पी-85 बकवर फार्म वोडे हाउस रोड, कोल्हापूर, मुम्बई-400005	794.	116477	श्री रितेश किशोर देवर्ष एसौर 04/06/20 40 परमर चैक्सलि. 213 हनुमान रोड, बिलो फाले (री) मुम्बई-400057

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल त
795.	116502	मिा निकिता जितेन्द्र शह एसिए 29 सीमा वैभव मुख्य रोड, थोवाडी कराण (कैट) कराण-421301	10/03/2005	803.	116690	मिा फयल अमृतलाल पुजारी एसिए एक्स-17, फल्लव पार्क-2 विहंड ब्रॉड स्ट्रीट, वीआईपी रोड, कोल्हापुर, कोल्हा-390018	01/04/200
796.	116516	मिा दीपली सुरेश कंभोज एसिए सुमोद अपार्ट्स फ्लैट नं. 4 नियर नरसिंह टैम्पल किरल, मीराज-416410	15/03/2005	804.	116699	श्री अमर मणिलाल शह एसिए ए/203 द नवभारत को ओप हा. सो. लि. फ्लैट नं. 5 सैक्टर 2, न्यू फल्लव स्ट न्यू फल्लव-410206	03/01/200
797.	116535	मिा पूनम शशिकान्त गाडगे एसिए मनोरथ हाऊसिंग सो. नियर हेटल पंचरील सबेडी, अहमदनगर-414003	21/07/2004	805.	116710	श्री संतोष शामराव पोस्ते एसिए फ्लैट नं. 9/ए टाकलकर कार्लोनी सेन गुरुजी रोड कोल्हापुर-416012	07/10/200
798.	11655*	श्री फल्लव कर्तिगाई मोदी एसिए 565 गायत्री निवास सर पडनी रोड नियर सिव शक्ति हॉल भाव नगर-364001	17/02/2005	806.	116912	श्री कुन्नाल श्रीकृष्ण फसरी एसिए तिरुपति एजेसिस पंकर रोड, पुणे-424004	01/06/200
799.	116595	मिा नूजई अमीराली नयनी एसिए नयनी फ्लैट्टी फार्म अपो. एमएससीबी कार्लोनी एकलव्य रोड, नरसिंह रोड, नरसिंह-422105	13/07/2004	807.	116962	श्री वैभव प्रकाशमदस अग्रवाल एसिए फ्लैट नं. 125, रोड नं. 06 नियर अर. को. पार्क्स सैक्टर-1/एस, न्यू फल्लव (डी) न्यू फल्लव-410206	25/08/200
800.	116606	श्री भवेश महेन्द्रकुमार भीमजियानी एसिए 5/33 कैप्टन बाडी, कल्लेवड स्ट्रीट राजकोट-360002	16/09/2004	808.	117004	श्री लक्ष्मीकान्त कर्माज शर्मा एसिए 20/14 द ग्रेट, ब्रिदा नगर निर ओल्ड मस्जिद महोला फार्मरबाई असरी स्ट, मुम्बई-400059	15/09/200
801.	116607	मिा पूनम अशोक पुष्प रामरावानी एसिए ब्लॉक एनएससी 791/1581, नियर नेत्राजी हार्म स्कूल, अपेडिज जय नन्ध धम अहमदनगर-421005	07/12/2004	809.	117013	श्री अमित फालचन्द्र साहसेन एसिए 1 फ्लो, सक्ली बिल्डिंग चिंकाय रोड, डिस्ट. रायगड, पेन-0	28/02/200
802.	116644	श्री वैभव दीपकलाल चैडे एसिए केयर ऑफ श्री संजय पी गांधी 101 विष्णु अपार्टमेंट्स, 722/4 लक्ष्मी पार्क एल बी साहबी रोड, नवी पेठ पुणे-411030	08/10/2004	810.	117017	श्री राकेश रोहितार्थ दस्तगी एसिए ए/404, निरुता सदन, राजजी पय, राम नगर, डेवीकली (स्ट) डेवीकली-421201	06/12/200
				811.	117018	श्री गिरा चैतू लाल एसिए 109/4, अडेवीर डेवी सैट वीपी रोड, फटेला बिल्डिंग मुम्बई-400004	07/05/200

क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल त
812. 117118 श्री श्रेष्ठ किशन पखिख एसीए 304 इन्डियन क्वार्टर, वेस्टमैन लेन एस्बीसी रोड, बोरीकली (वैट) मुम्बई-400103	03/12/2004	820. 117487 श्री तपन मधुसूदन दवे एसीए 65/105, दया कॉन्टेनटर कालोनी नियर अर टी ओ, असेरी वैट मुम्बई-400053	29/03/200
813. 117143 श्री प्रताप रेबिन कारमोकर एसीए 12 जहीर चॉल, लक्ष्मण नगर, कारर क्लोज, मालद (ईस्ट) मुम्बई-400097	27/08/2004	821. 117555 श्री अशोक उमाशंकर चतुर्वेदी एसीए सी-14/5 बोरीकली एमोराल्ड, एनजिनी कालोनी बोरीकली (वैट), मुम्बई-400103	12/07/200
814. 117214 मिस रिचा चन्द्रकान्त देसाई एसीए बी/2 स्याम अपार्ट्मेंट II, बी/एच सहज बंग, पेज ऑफिस सक्ति बंग अहमदनगर-380004	20/01/2005	822. 117755 श्री गुरुल शक्तिरत्न हरिय एसीए 101 अमर्चि सैट, प्रभत कालोनी, सैटग्रुव (ईस्ट), मुम्बई-400055	24/09/200
815. 117249 श्री सिद्धार्थ विजय जेबी एसीए कैमर ऑफ एडव. रमेश कान्त कुलकर्णी अरुओ वार्ड ए 700 ए कुंगन अपार्ट्मेंट, सन-नयक कालोनी सिक्की पेज कोल्हापुर-416012	10/08/2004	823. 117922 श्री हरिकृष्ण दलीपकुमार पुनार एसीए रूम नं. 15, जेम्सडी नगर चॉल नं. 7, चंवारकर लेन धनुनर वाडी, गोकुल रोड कांथीकली वैट, मुम्बई-400067	25/01/200
816. 117259 श्री सविन महेन्द्र सेठ एसीए 106/बी पार्सल नगर नं. 3, देवचंद नगर रोड मयंडर (वैट), डिस्ट, बने मयंडर-401101	01/03/2005	824. 117937 श्री सौरभ दलीप कोटकुडे एसीए 1/7 अपूर्वा परीरेव बिल्डिंग अपे श्री मैटरनीटि हॉस्पिटल महलम फ्लोरोड डेम्बेकली वैट, डेम्बेकली-421202	01/11/200
817. 117307 श्री विरग रोजेन्द्र भाई कोठारी एसीए जे/6 मिरजू अपार्ट्मेंट, अपे अहमद सोसायटी अहमद, अहमदनगर-380015	15/01/2005	825. 117967 मिस फल्लवी अनिल सिंघा एसीए ए/12 मिना चैम्बर्स सक्की नगर देवी चैक, डेम्बेकली वैट डेम्बेकली-421202	22/11/200
818. 117389 श्रीमती सुरेखा प्रवीण गोकुल एसीए बी-61 परीकल, बंदर रिकलेमेसन नियर लौलावती हॉस्पिटल बंदर वैट, मुम्बई-400050	21/06/2004	826. 117972 श्री सविन धनपाल शेटी एसीए 5 चंदनी अपार्ट्मेंट ड. पी अर पटिल मार्ग संजाली-416416	08/10/200
819. 117436 श्री केदार नंदकुमार हटकर एसीए बी-51 अश्विन गेहड ट्वीन टॉवर्स लेन, प्रभा देवी, मुम्बई-400025	20/12/2004	827. 117989 श्री केदार मिलिंद देवकुडे एसीए 9/3 "भयु", एम पी मार्ग, विष्णु नगर, डेम्बेकली (वैट) डेम्बेकली-421202	19/10/200
		828. 118004 श्री गिरीत जादीसकर सह एसीए 2 सेक्टर अपार्ट्मेंट, अपे अजेय टेम्पल कोर्ट नियर गुरुकुल ब्रह्म इन रोड मेमनगर, अहमदनगर-380052	03/09/200

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल त
829.	118022	श्री पी.के. कुमार मन्सुखबाई पटेल एसीए 18 कृष्ण पार्क सोसाइटी नियर टैन्क पार्क सोसाइटी नवावदन, अहमदनगर-380013	14/09/2004	838.	118276	श्री पराशर हिमतरुण तन्ना एसीए सरदा अपार्टमेंट, बी 6 कोटेजीय रोड नियर नीलकण्ठ सिनेमा राजवटे-360002	01/12/2001
830.	118023	श्री निगर अशोककुमार राव एसीए 9 कुम्भापुरी फ्लैट्स बी/एच बीडी केयर, ओल्ड वदन अहमदनगर-380013	01/12/2004	839.	118295	श्री सविन जिनदास राव एसीए 4 एस वी पी रोड नियर बला हनुमान अणे लुगर, स्मर वडवी सुनेन्द्र नगर-363001	21/02/2001
831.	118036	मिस्त्र नेत्र रायण कामन एसीए 2 बीर सगर, 396/20 डी पी नगर 17 रोड सैटलुव डक्यू मुम्बई-400054	03/11/2004	840.	118305	श्री विस्तारत मन्सुखबाई ठाकुरे एसीए 10 समस्त सा. नारायण नगर रोड फाल्दी अहमदनगर-380007	13/12/2001
832.	118056	मिस्त्र रमण प्रकाश राव एसीए 2 ए अमृत मिडिल, पी एम रोड सैटलुव डक्यू मुम्बई-400054	03/09/2004	841.	118504	श्री प्रसाद सी जिकिन एसीए 305 वीन अपार्टमेंट, पखडी खोर्गोम करलवा (कैट), वीन-400605	25/11/2001
833.	118090	श्री चकोर समीकराल जयश्रीन रंगपुरा एसीए न्यू ए सी सी रोड छाय, पोर्बंदर-360578	02/11/2004	842.	118605	श्री अमोल शिरीश देवगडे एसीए 102 सुखद मलक कैवर्त नैसर्ग टू मन्सुख करलवा हॉस्पिटल टाटल पंजर, लाईन रोड तिलक नगर, डेवीकली (हैट) डेवीकली-421201	24/12/2001
834.	118119	श्री मोक्ष कुमार एन एसीए केसर कैवर्त लि. फ्लैट-10, अणे रोड, नियर सार्जना डेवीकली (हैट), डेवीकली-421201	15/02/2005	843.	118677	श्री गेम्बल जयप्रकाश कामरा एसीए केसर ऑफ जय प्रकाश कामरा अणे अट्रिक्टिव कॉलेज करीगुड, नैस-431601	18/11/2001
835.	118126	श्री प्रमन बंधारी एसीए 301 रिक्म मिडिल, एकरजान नगर मलद कैट, मुम्बई-400054	27/10/2004	844.	118688	श्री पंकज पवनकुमार मुरारका एसीए 5/20 जीवन गंगा नगर उवन, सूरत-394210	09/02/2001
836.	118151	श्री नीलेश प्रदीपक राव एसीए बी/104 श्री भरत सी एच एस नियर नेहरू मैदान, गोलेश मीर रोड डेवीकली (हैट), डेवीकली-421201	02/11/2004	845.	118694	श्री निनीता तपस्वि एसीए केसर ऑफ विराज प्रोपर्टि लि. जी-76, एस गार्ड सीरी तारपुर इंडस्ट्रियल एरिया डिस्ट. वने वीन-401506	15/12/2001
837.	118241	श्री संदीप संतोष सराफ एसीए 108, स्टैंडर्ड हउस 83, मर्दि कसवे रोड मैदान लार्जस, मुम्बई-400002	29/03/2005	846.	118699	श्री चोक्ष विजय लेख एसीए 'सुदीप कवन', फ्लैट नं. 44 प्रताप नगर, नियर ड. डकलपटक जलगांव-425001	08/12/2001

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
847.	118720	श्री गौरव कर्तिष्य भद्र एसीए "सर्व मंगल", सेठ फल्टी नं. 2 हवाई चौक, जमनागर-361001	04/12/2004	856.	119156	श्री जितेन्द्र भीम सिंह अग्रवाल एसीए ए/404, ब्रह्मपदेव को-ओप. सो. परमवर्द्ध टक्कर रोड महिम, मुम्बई-400016	21/02/2005
848.	18733	श्री हेमंत अरविंद भई मेहता एसीए सम्पन्न अर्द्ध, 20 रंछेदनगर से. नियर फटेला बाड़ी, अणे जैन डेअर एन्क्लेव-360003	08/02/2005	857.	119161	श्री अमित भूपेन्द्र कुमार सेठ एसीए बी/7, अटिनाव अर्द्ध ग्रैंड फ्लोर, सर्वज्ञान नगर, बोकोली कैट, मुम्बई-400016	11/02/2005
849.	118738	श्री बलरामधन कलियणन पिल्लई एसीए फ्लैट नं. 19, अरवी-11 256 सेअर एलवर्ड कल्लेनी, ज. बीए रोड, पारेला मुम्बई-400012	18/03/2005	858.	119232	मिस रेडिणी धनीश्वर रसपुत्रा एसीए 24/बी गणेश्वर अर्द्ध मानन्द रोड, नियर पांडुरंग स्कूल डेम्बोली (ईस्ट), डेम्बोली-421201	21/03/2005
850.	118746	श्री प्रिती श्री प्रकाश गोरखरी एसीए 503/505, रूम नं. 4 1 फ्लोर, जे. एस. एस. रोड चीराक्कर, मुम्बई-400002	01/03/2005	859.	119280	श्री धर्मेन्द्र कुमार बंसल एसीए बी-107 अमर क्लिन अर्द्ध जेसल पार्क, फर्नर (ई) डिस्ट. बने, फर्नर-401105	16/03/2005
851.	118838	मिस प्रिया श्रीकृष्ण कुलकर्णी एसीए फ्लैट 4/16, स्टेट बैंक नगर को-ओपरेटिव हा. से. 85-1/बी विशाल वनज कोटेरुड, पूने-411038	11/03/2005	860.	119300	श्री संतोष कुमार गर्ग एसीए केसर ऑफ आर एस जैन डेअर-404, अमीराज अर्द्ध एस बी रोड, अहीरा हट मुम्बई-400068	16/12/2005
852.	118840	मिस पुष्पांगी सिद्धार्थ एसीए 17 ज्युवेलर अर्द्ध कुफे फेड, मुम्बई-400005	29/03/2005	861.	119364	श्री नीलेश सुभाष ब्रजेज एसीए एट फेड-ब्रह्मपदेव तलास्तान, डिस्ट - नरसिक नरसिक-423213	4/03/2005
853.	118914	श्री मीनिमन फर्नांडो एसीए 13, फरत फुटेर नेथरलैंड कल्लेनी नं. 1, एस बी रोड, मल्ल वेट, मुम्बई-400064	17/03/2005	862.	203857	श्री गणेश एम एसीए न्यूनं 4, ओल्ड नं. 18/2 हनुमन् कोरल स्ट्रीट वैट मैकलम, चेन्नई-600034	16/08/2004
854.	118990	श्री पंकजिणी रमेश गिरी गोकुली एसीए ब्लॉक नं. 815, सेनेवर सेक्टर सेक्टर-27 (न्यू), गंधीनगर, गंधीनगर-382028	17/01/2005	863.	209577	श्री बबू के एसीए एसेसिस्टेंट सिमेंट कम्पनिज लिमिटेड असिस्टेंट मैनेजर, 121 महर्षि फरवे रोड, चक्रीट, मुम्बई-400020	12/05/2004
855.	118997	श्री केवन् बर्नर एसीए डी/02 वर्कनगर, ज. आर पी रोड, मुद्रुं (वैट), मुम्बई-400080	28/02/2005	864.	213136	श्री कल्याण सागर श्रीनाथ एसीए फ्लैट नं. 69, हिकरी, एडन वुड्स हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ फकरान रोड-2, (नियर फकर नगर) फोनेट, बने-400601	31/03/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल त
865.	213397 श्रीमति अरुणा स्वप्नीलकांत एसीए सी-16 न्यूक्लियर गेजिंग हाउसिंग सोसाइटी भनोरम नगरकर मार्ग स्टार सिटी थिएटर लेन महिम (वैस्ट), मुम्बई-400016	12/01/2005	870.	500832 श्री षटनगर पीयूष एसीए फ्लैट नं. 601, सिटीलीन पार्क सेक्टर-12बी, फ्लैट नं. 54 कोरम छेले नवी मुम्बई-400709	29/12/200
866.	400563 श्री मालु मनीष एसीए जी002 सज्जन टावर्स गुरुकुल मेमनगर अहमदनगर-0	12/07/2004	871.	501298 श्री कलगीत सिंह एसीए टी-1/7, दूर संस्तर कालोनी गोंड पेड रोड नियर एल बी टॉकिज सूत-385001	31/08/200
867.	400579 मिस अश्वाल रूचि एसीए सी-3/4, एचडीएफसी कॉलोनी चौकड, पूने-411019	25/11/2004	872.	501467 श्री निमिषेकल मनीष एसीए आईए डी, 20 प्लोर, आईडीबीआई टॉवर डबल्यू टी सी कॉम्प्लेक्स, कुफे रोड, मुम्बई-400005	06/03/200
868.	400615 श्री विकासगर्ग 15/178, मेहुल अपार्टमेंट सेला रोड, नरनपुरा अहमदनगर-380063	10/07/2004	873.	501726 श्री चौबरी संजय कुमार एसीए जेएन(टी)अर वी जीएफटीडी बरुच, अटल मर्किट डिस्ट्रिक्ट बरुच (गुजरात) बरुच-392001	13/09/200
869.	400875 श्री निम्रामनेन कुमार एसीए एकाउंट्स सेक्शन टेनीसने पवन (नियर सिविल हॉस्पिटल) महाराष्ट्र, नांदे-431601	01/04/2004			

अशोक हल्दिया
सचिव

चैन्नई-600 034, दिनांक 7 जुलाई 2006

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3एस/ए(4)/5/2004-2005 : यह संस्था सूचित करती है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अधिनियम 1988 के विनियम 18 के भा 20(1), (सी) के एक्ट, 1949 के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्यों का नाम निर्धारित फीस जमा न करने के कारण 1 अक्टूबर, 2004 सदस्यों के रजिस्टर से नाम निकाल दिया गया है।

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
1. 001245	श्री देसाई वासुदेव मणिलाल कृष्णा अपार्टमेंट्स, सी ब्लॉक 1001 पुनमल्ली हाई रोड चैन्नई-600084	8. 004653	श्री नारायणमूर्ति कोंडूरी डी नं. 8-5-19 ऑटोमामीडी जंक्शन गांधी नगर, ईस्ट गोदावरी डिस्ट. ए. पी. काकीनाडा-533004
2. 002402	श्री हरिहरण शिवरामआईयर चित्तूर प्लॉट नं. 1 कृष्णा भवन कालोनी एसोसी सेंटर रोड वैस्ट मैरेडपेल्ली, सिकंदराबाद-500026	9. 004816	श्री लक्ष्मीनारायण एस न्यू नं. 19 (ओल्ड नं. 10) देसिका रोड, माएलापोर चैन्नई-600004
3. 003132	श्री सत्यनारायण मूर्ति पी वी श्रीनिवास 1-1-384/सी, गांधी नगर हैदराबाद-500380	10. 005464	श्री माधवन आर केयर आफ एम बालसुब्रमण्यम ओल्ड नं. 8 मुरुगेसा मुदलियर रोड (न्यू नं. 19) टी नगर चैन्नई-600017
4. 003573	श्री नारायणा मेनन एम "दुर्गा" ए. एल. जेकब रोड पुल्लापेडी, कोची-682035	11. 005491	श्री रघुनाथा रूख आर 'श्री अक्षिता' 1-8-32/12, बापूबाग प्रेन्डीघास्ट रोड सिकंदराबाद-500003
5. 003733	श्री विश्वनाथन आर 1/33, कविता फ्लैट्स ग्राउंड फ्लोर एसबीआई स्टॉफ कालोनी एक्सटेंशन III स्ट्रीट अरुम्बक्कम, चैन्नई-600106	12. 005494	श्री राम वर्मा अंचेरी सुधार्मा पैलेस, पैलेस नं. 8 वेस्ट नाडा, श्री राम टैम्पल तिरुपुनीथुरा-682301
6. 004001	श्री गोपालकृष्णन टी एस फ्लैट # 3 'शक्ति महल' 41 I मेन रोड सी आई टी कालोनी माएलापोर चैन्नई-600004	13. 005929	श्री प्रसन्ना वैक्टेसन आर 14 नॉर्थ मादा स्ट्रीट श्रीनगर, चैन्नई-600015
7. 004232	श्री पद्मनाभन के एन4-24 मेन जे पी नगर I फेज बंगलौर-560078	14. 005937	श्री बालरमन एस नं. 30, 4 मेन, 5 ब्रॉस गिरीनगर I फेज, बंगलौर-560085

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
15.	005946	श्री बकुलचन्द्रा हीराचंद शाह एफ/2 प्रीमियर अपार्टमेंट्स फर्स्ट फ्लोर चर्च रोड नियर तिप्पासैड्डा मार्किट बंगलौर-560075	24.	010106	श्री हरीश कुमार जी प्लॉट नं. 233 4 क्रॉस रोड त्रिमूर्ति सोसाएटी, महेन्द्रा हिल्स ईस्ट मैरेडपेल्ली, सिकंदराबाद-500026
16.	006077	श्री सावगुर उमेश भंडारी 'जयेश' 431-सी, 10 क्रॉस फर्स्ट 'एन' ब्लॉक राजाजी नगर, बंगलौर-560010	25.	010116	श्री श्रीनिवासन ए बी नं : 3/110 (ओल्ड नं: 3/115) सेंडूरन कालोनी सैकंड स्ट्रीट मादीपक्कम, चैन्नई-600091
17.	007414	श्री जेकब मैथ्यू न्यू नं. 14 (ओल्ड नं. 87) एथीराज सलाय, एममोरे चैन्नई-600008	26.	010244	श्री कलापति वैद्यनाथ रामानाथन फ्लैट जीएफ-1, अक्षय फ्लैट्स कृष्णास्वामी एवेन्यू लुज भाएलापोर, चैन्नई-600004
18.	007523	श्री जोसुफ एन्टोनी बी-8, एक्सप्रेस गार्डन्स कल्लूर, एर्नाकुलम, कोची-682017	27.	011196	श्री विजयाकुमार 38/5345 अम्बेदी बिल्डिंग्स एम जी रोड, कोची-682035
19.	007988	श्री जॉन एम सी 42 हिल गार्डन्स अन्नेरी पी ओ थिरुसुर-680006	28.	011585	श्री महादेवन आर 151 अलवर थिरुनगर अनेक्से चैन्नई-600087
20.	008348	श्री वैद्यनाथन आर श्रीनिधी, 4 फ्लोर न्यू नं. 22, (ओल्ड नं. 10) को-ओपरेटिव कालोनी श्रीराम नगर, एलवरपेट चैन्नई-600018	29.	011786	श्री सेकर वेल्लोर श्रीनिवासन 129 नतेसा नगर, थर्ड मेन रोड थिरुगम्बक्कम, चैन्नई-600092
21.	008623	श्री रामानाथन एल 423, डी थाडायम रोड आर एस पुरम कोएम्बतोर-641002	30.	011964	श्री गुडीवादा सुब्बा रॉव एच नं. 5-62-12/1 ब्रॉडीपेट 6 लेन 19 क्रॉस रोड, गन्तूर-522002
22.	009230	श्री श्रीरामुलु आर नं : 130 जवाहर बाजार करूर-639001	31.	012462	श्री रामानाथन 3/110-ए, न्यू फेयरलैंड्स एक्सटेंशन एम जी रोड, सलेम - 636016
23.	010045	श्री उमेश आर पीओ बाक्स 38918-00623 पार्कलैंड्स, नायरोबी-7244 केन्या	32.	012520	श्री महादेवन एम पी 45, जोसियर स्ट्रीट, चैन्नई-600034
			33.	012589	श्री चैकटेश्वरन गोपारतनम चेयरमेन एन्ड मैनेजिंग डायरेक्टर जी बी फिल्मस लि. "सुजाता सैन्टर" 4 शोशाद्री रोड अवरपेट, चैन्नई-600018
			34.	012746	श्री बालासुब्रमण्यन एस चीफ एकाउंटेंट, शरीकट फानिनियाओमानिया (सलालाह) एलएलसी, पी ओ बाक्स 127,, पी सी 211, सलालाह-7311, सल्लनत ऑफ ओमन

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
35. 012938	श्री पांडुलु पुत्तापुरति चैलैयाह 10 क्लासिक अनक्लेव सैनिकपुरी, सिकंदराबाद-500094	45. 016656	श्री बिपिनचन्द्रा जयनादास अम्बानी मैनेजिंग डायरेक्टर, मैट्रोलेका लिमिटेड 205 केसले स्ट्रीट, कोलम्बो 8, श्रीलंका
36. 012988	श्री पार्थसारथी वी 2 गोरडन स्ट्रीट, ईस्ट स्ट्रीट अगस्तितने त्रिनीदाद एन्ड तोबागो-7365 वेस्ट इंडिज	46. 017791	श्री गोपाल नारायणन # 73 एमआईजी 2 III क्रॉस III स्टेज, हेम्बल, मैसूर-570016
37. 013068	श्री अशोक कुमार अग्रवाल नं. 1-बल, नारायणन एवेन्यू बी कृष्णा कालोनी, सिंगनल्लूर कोएम्बतूर-641005	47. 017891	श्री प्रकाश नायक जनरल मैनेजर (फाईनैस) इंद्रप्रस्था पॉवर जन. को. लि. हिमाद्री, आरपीएम कॉम्पलैक्स न्यू दिल्ली
38. 013298	श्री कृष्णमूर्ति नाडू सीवाराय कोयर ऑफ टी डी बैंक टीडी सेंटर टोरोन्टो ओन्टेरिओ एमएसके 1ए2, कनाडा	48. 018004	श्री सतीष कुमार एस फ्लैट नं. 2, फर्स्ट फ्लोर, श्रीमहल ओल्ड नं. 56, III मेन रोड, राजा अन्नामलाईपुरम, चैन्नई-600028
39. 013771	श्री मैथ्यू वी जी राजेश्वरी कॉम्पलैक्स पेरुन्नई, चंगनाचेरी-686102	49. 018020	श्री श्रीमन नारायणा चौधरी के 12/593 संसार फ्लैट्स वैद्याक्काडु जंक्शन कुन्नुकुण्डी, थिरुवनंतपुरम-695037
40. 014154	श्री महेन्द्र चंद जैन फ्लॉट नं. 24, विलिंगटन रोड वेस्ट मेरेडपेल्ली, सिकंदराबाद-500026	50. 018022	श्रीनूक् नायडू बी एस वी डोर नं. 14-8-29 नागेन्द्र सदन अपो. इंदिरान आईल बंक वेस्ट साईड ऑफ कोनाथला आर्ट्स एन्ड साईंस डिग्री कॉलेज गवारा पालेम, अनाकापल्ली-531002
41. 014292	श्री गोपाल दास बी 1511, II क्रॉस, III मेन अरविंद नगर, के एक्सप्रेसटैशन स्ट्रीट थॉमस टाऊन, बंगलौर-560084	51. 018033	श्री सत्तनाथन सी 4 आनंदम स्ट्रीट, टी नगर चैन्नई-600017
42. 014808	श्री मुथु कृष्णन वी एम 1/21, सन्नाथी स्ट्रीट निरुनेवेली डिस्ट्रिक्ट रावनासामुद्रम-627424	52. 018054	श्री राजागोपालन टी वी 138 6 मेन 13 क्रॉस, एन एस पाल्या बी टी एम लेआउट 2 स्टेज बैनरघाट रोड, बंगलौर-560076
43. 015508	श्री रंगनाथन बी आर न्यू नं. 37 (ओल्ड नं. 38-सी) गंगा नायडू स्ट्रीट, वैकटपुरम वेलदीपलायम पोस्ट, कोएम्बतूर-641025	53. 018166	श्री सत्तनाथन पी 114 कुचेरी रोड (II फ्लोर) लुज कॉर्नर, चैन्नई-600004
44. 016192	श्री मोहनकृष्णन ए एन बी-3, सीब्रांस रिजेंट पार्क 32 फर्स्ट एवेन्यू इंदिरा नगर अड्यर, चैन्नई-600020	54. 018371	श्री जॉर्ज जोक्कफ अकोडिया, ओमेगा इंजिनियरिंग इंडस्ट्रिज अडूर-691523

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
55.	018-52	श्री मधु एन 70, साऊथ स्ट्रीट, थिरुवनैकोएल तिरुचिरापल्ली-620005	64.	019088	श्री विश्वनाथ गोविंद फार्मैस मैनेजर पॉवरट्रेक एसपी टीडीजी कं. पी ओ बाक्स 23325 अल्ल वाहदा पीओ शारजाह, यूएई
56.	018515	श्री मिनाक्षी सुन्दरम सी वी 941 बिग बाजार स्ट्रीट कोएम्बतोर-641001	65.	019162	श्री वासुदेवन वी नं. 100, 17 बी मेन रोड एचएएल 2 स्टेज, इंदिरानगर बंगलौर-560038
57.	018585	श्री श्रीधर एम 8-3-319/बी/24/9 बी/एच सराफी स्टूडियोज, येल्लारेड्डी गुडा अमीरपेट, हैदराबाद-500007	66.	019233	श्री लक्ष्मीगिरी जयरमन केएस फ्लॉट 49/1, सिविल एविएशन कालोनी नांगानल्लूर, चैन्नई-600061
58.	018665	श्री सूर्या चारा प्रसाद बराहमाटला फ्लैट नं. 102, I फ्लोर, रागा एवेन्यू बिहाईड साई रंगा 70 एमएम थियेटर भियापुर, हैदराबाद-500050	67.	019275	श्री रामनाथन पी 205 वैगई कालोनी, अन्ना नगर मदुरई-625020
59.	018838	श्री अब्दुलरहीम सी एच मैनेजिंग डायरेक्टर इंटीग्रेटेड रुबियन एक्सपोर्ट्स लि. रुबियन कॉम्प्लेक्स, अरूर-688534	68.	019350	श्री राघवन वी डोर नं 18-5-319/ए9 सप्तगिरी नगर, नियर सिवासक्ति कल्याण मंडापम, तिरुपति-517507
60.	018945	श्री पद्मनाभन एम ए डिप्टी चीफ एकाउंटेंट्स ऑफिसर आंध्रा प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कोरपोरेशन लि. कुद्यापाह ज़ोन, कुद्यापाह-516001	69.	019480	श्री विजयकुमार एम एन नं. 37, 1 मेन विनायका लेआउट, 3 स्टेज विजयानगर, बंगलौर-560040
61.	018958	श्री सम्पत कुमार आर 210 चेरी डाऊन लेन केप कनेक्टिवरल फ्लोरिडा-32920, यू. एस. ए	70.	019536	श्री संका राजगोपाल डी नं. 24-10-4 वीवर्स कालोनी फ्लैट एफ-3 तिरुमाला अपार्टमेंट्स राजामहेन्द्रावरम-533105
62.	018982	श्री वैकटेश रतन एन एच-45, रामाकृष्णा नगर फ्लैट्स मंडावली, चैन्नई-600028	71.	019598	श्री बालासुब्रमण्यन के ई-3 132 स्ट्रीट मेरीज रोड अल्वरपेट, चैन्नई-600018
63.	019075	श्री कृष्णा एम आर फार्मैशियल कंट्रोलर ईएसएसपी-आईडीए क्रेडिट 3172 एम 02 मिनिस्ट्री ऑफ एड्युकेशन एंड कल्चर पी ओ बाक्स 34, मापूटो मोजाम्बीक्यू	72.	019662	श्री बेलीअप्पा टी के अपार्ट. 209 3590 केनेफ ब्रेस मिस्सीसौगा, ओन्टेरियो-एल 5 ए 3एक्स3 कनाडा
			73.	019837	श्री जगतपति के वाईएस प्रेजीडेंट, बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड 126 सैरोजीनी देवी रोड, सिक्कराबाद-500003

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
74. 019852	श्री मनोहर रॉय एस गुनगु पुत्री, 30, तमन डाग्रे लिप्पो सिविलरंग, चेन्नई-17550, इंडोनेशिया	85. 020737	श्री बलराज एन मरुति टॉवर्स, नं. 207 सैकंड फ्लोर 1569 त्रिची रोड (अपो. : चा.) कोयंबटोर-641018
75. 019900	श्री विष्णु के सी-25/24, मोहन नगर सलेम-636030	86. 020764	श्री श्रीवात्सन सी एस 17-ए टी के नाम्बी स्ट्रीट कांचीपुरम-631503
76. 020000	श्री दीपक ए 38 सक्करी चैतैयर स्ट्रीट चून्नगिरी-608601	87. 020776	श्री सुंदर सी इंस्पेक्टर आफ ब्रिज आंध्रा बैंक - हैड ऑफिस आंध्रा बैंक बिल्डिंग्स, IV फ्लोर कोटी सुल्तान बाजार, हैदराबाद-500195
77. 020033	श्री चंदी नारायण एम अर सी पी अर 1, एम एम डी एक्स्प्रेस वॉटर टैंक रोड, अरुम्बक्कम चेन्नई-600106	88. 020852	श्री गोविंद गुरु आर फ्लैट नं. 51, कोटस रोड टी नगर, चेन्नई-600017
78. 020199	श्री सुब्रमण्यन एन न्यू नं. 40, अरुम्बक्कम पुरम मार्लापोर, चेन्नई-600004	89. 020856	श्री अनंतमूर्ति एन 110 3 मेन, 6 ब्लॉक बीएसके III फेज III स्टेज बंगलौर-560085
79. 020262	श्री इलीम एके ऑडिटर, अला सलैदी पी ओ बक्स 31300 शहराज, यू.ए.ई	90. 020972	श्री जॉन पट्टाम्यान नं. 3, श्रीराम नगर कालोनी आई आई टी यरमानी चेन्नई-600113
80. 020311	श्री अशोक एम 60, बाजार रोड मार्लापोर, चेन्नई-600004	91. 021079	श्री हरीष पी एम आर नं. 8 एसबीआई स्टॉफ कालोनी अरुम्बक्कम, चेन्नई-600106
81. 020383	श्री जेकब फिलिप पीडियाकला हाऊस, नियर हैड पोस्ट ऑफिस तिरुवल्लूर-689101	92. 021102	श्री मैमन के सी कॉडपिल, कारशाका रोड कोची-682016
82. 020532	श्रीसुकुमार एस 27 वॉरेल्ड फ्राफ्ट इस्ट नॉर्थ होल्मबुड, डॉकिंग सुरे आरएच 54टीएल यूनाइटेड किंगडम	93. 021133	श्री मोहम्मद नियामाथुल्लाह 59, स्ट्राहंस रोड पीराम्बूर बैराक्स, चेन्नई-600012
83. 020642	श्री राधवन आर एस नं. 4 गेवुल्लम कालोनी 2, रामावरम रोड, कलासारावक्कम चेन्नई-600087	94. 021176	श्री द्वारकानाथ एम नं. 366 III फ्लोर चेन्नई ट्रेड सेंटर नियर होटल पार्कलेन, सिकंदराबाद-500003
84. 020708	श्री बैकटसुब्रमण्यन एस वी असिस्ट. जनरल मैनेजर, आंध्रा बैंक न्यू दिल्ली गैंगल ऑफिस, सिग्नेयर टॉवर्स साऊथ सिटी, गुडगांव-122001		

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
95.	021227	श्री सुंदर राजन बी चीफ फाईनैशियल ऑफिसर एजटेक सॉफ्टवेयर एंड टेक्नॉलॉजी सर्विसेज लि. 17/9सी, माकसु चैम्बर्स, रूपेन्द्रनगर, होसुर रोड, बंगलूर-560068	104.	022026	श्री रविन्द्र मेनन 52 उरल सर्कल, ब्रॉम्पटन ओन्टेरियो-एलबामा 1 एच3 कनाडा
96.	021264	श्री आनंद कुमार के नं. 2/2 फर्स्ट मेन रोड राजा अन्नामल्लई पुरम चैन्नई-600028	105.	022030	श्री जेम्स जॉन ए-2, अल्सा टॉवर्स 187 पी एच रोड, किरलपपौक, चैन्नई-600010
97.	021294	श्री अब्बास खेरियन मास बिल्डिंग्स, मास जंक्शन कंदनमेडू, इडुक्की-685551	106.	022040	श्री हारून रशीद एन पी 12-ए, फर्स्ट फ्लोर - नूर मस्जिद रतिनासेमी नादर रोड नियर अनकम टैक्स ऑफिस बीबीकुलम, मदुरई-625002
98.	021313	श्री शंकर बी एस 15, 5 क्रॉस, गणेश ब्लॉक दिन्नूर मेन रोड, अन्न टी नगर बंगलूर-560032	107.	022263	श्री गणपति सुब्रमण्यन जी पोस्ट नेट बाक्स # 213 पोस्ट बैग नं ई 891 लुसाका जाम्बिया
99.	021481	श्री मुरली एन आर डी जी एम - फाईनैस इयूटैय मोटर्स इंडिया लि. एच-1, सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क इरंगडूकहई-602105	108.	022373	श्री मनोहरन पी 78, के आर कोरल स्ट्रीट, वेस्ट मैम्बलम चैन्नई-600033
100.	021529	श्री रंजितकुमार एन सी 305, ज्योति अपार्टमेंट्स महेश नगर, ईसीआईएल एक्स रोड हैदराबाद-500062	109.	022600	श्री सुंदर सी एस 29 फलानीअप्पा नगर, हस्तमण्डी सलेम-636007
101.	021615	श्री राजेन्द्रन एस 39 भारती कालोनी, पील्लमैडू कोयम्बतूर-641004	110.	022690	श्री हरिनारायणन बी 12 टैगोर स्ट्रीट, 'बालू ईल्लम' महालिंगपुरम, पोल्लुची-642002
102.	021660	श्री शेखर के न्यू नं. 21 (ओल्ड नं. 10) 6 वेस्ट क्रॉस स्ट्रीट, रोनोंए नगर वेस्ट चैन्नई-600030	111.	022810	श्री रेक्त्र वेमुर्गोटी 20 एस बी कालोनी, नारायणगुडा हैदराबाद-500029
103.	021888	श्री कुमारसुब्रमण्यन आर फाईनैशियल कंट्रोलर सनसैड बीच होटल लि. पी ओ बाक्स 2, एमटीडब्ल्यूएन मोम्बासा, केन्या	112.	022835	श्री गंगाधरन टी एस मै. एस. आर. बाटलीबाँए एंड कं. घाटई एकावर्टेंट्स, दिव्या श्री चैम्बर्स 'ए' बिंग 2 फ्लोर लॉगफोर्ड रोड, बंगलूर-560025
			113.	022893	श्री रशीद मोहम्मद एस ए मैनेजिंग डायरेक्टर सुगति इनफोटेक प्रा. लि. स्क्व 302 रिलाएंस रेजीडेंसी इंदिरा पार्क रोड, अरविंद नगर, हैदराबाद-500029

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
114. 022947	श्री हरिगोपाल एल मैनेजर - इन्ट. फाईनैस, एफ एम सी कोरप. 200 ईस्ट रैड्क्लिफ डा. चिकागो आईएल-60601, यू.एस.ए.	124. 023370	श्री राम प्रकाश शिवम नं. 2 IV क्रॉस रोड आर ए पुरम, चैन्नई-600028
115. 022954	श्री पुन्नोसे जेकब 682 एवेन्यू सी, अपार्ट 3 बेओन एन जे-07002, यू.एस.ए.	125. 023383	श्री विनू टी जॉर्ज पी ओ बाक्स 28709 दुबई
116. 023064	श्री रविन्द्र कुमार एन कोयर ऑफ श्री स्टीफन, क्वार्टरपरम्बिल हाऊस के पी कल्लान रोड, काटवथरा कोची-682020	126. 023448	श्री संकर जी 315, वैस्ट एवेन्यू, म्हाकावी भारती नगर व्यासारपदी, चैन्नई-600039
117. 023071	श्री बेबी जोसफ 38/535 अम्बेदी बिल्डिंग्स एम जी रोड, कोची-682035	127. 023492	श्री राजाशेखर के यू 6410 मैट्रोवैस्ट बीएवीडी अपार्ट # 1101, ओरलैंडो फ्लोरिडा-32835, यू.एस.ए.
118. 023198	श्री सनी सेबस्तियन 36/433 लेयाम रोड कोची-682011	128. 023569	श्री गौतमचंद संघेटी परमार प्लेस, 32 कलाटी फिल्लई स्ट्रीट सौकारपेट, चैन्नई-600079
119. 023221	श्री पाषसारधी पी फ्लैट नं. 204 II फ्लोर, लोटस अनक्लेव, युसुफगुडा रोड नियर आरबीआई क्वार्टर्स येल्लारेड्डी गुडा, हैदराबाद-500073	129. 023579	श्री आनंद कुमार डी 13, जी डी. नायडू रोड रेस कोर्स, कोएम्बतोर-641018
120. 023232	श्री अशोक पी बी-2/11 अन्नापूर्णा अपार्टमेंट्स भारती पार्क एक्स-रोड 1 कोएम्बतोर-641011	130. 023611	श्री मैथ्यू सनीचन एम बदेर एन्ड कं. कूपर्स एन्ड लाएब्रांड पी ओ बाक्स 20174, सफ्ट 13062 कुवैत
121. 023268	श्री बेनी जोसफ फर्स्ट फ्लोर आइरिस प्रैस बिल्डिंग बैनर्जी रोड, एर्नाकुलम, कोची-682018	131. 023613	श्री श्रीनिवास गुड्डी 5-9-279, फर्स्ट फ्लोर बी-115 मयूर खुशाल कॉम्प्लैक्स अबीदस रोड, गुनफाउंड्री, हैदराबाद-500001
122. 023288	श्री पंचनाडेश्वरन बी 11966 थरलो डा. तिमोनियम एमडी 21093 यू एस ए	132. 023615	श्री वेमपेटी राजेन्द्र प्रसाद रॉव डिप्टी जनरल मैनेजर (फाईनैस एन्ड एकाउंट्स) कोरपोरेट परचेज डिपार्ट. एस सी को. लि. हैड ऑफिस कोठागुडम-507101
123. 023324	श्री जयरामन एस फ्लैट 104, वास ऑल सीजन्स अपार्ट्स IV क्रॉस, कोनेना अग्रहारा ऑफ : एयरपोर्ट रोड, बंगलौर-560017	133. 023638	श्री अम्माना जी जी 1938 कादोल्कर गल्ली बेलगाँव-590002

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
134. 023668	श्री नीलकण्ठन पी 2623 टारलेटन कॉर्नर डा. हर्नडन-वर् 20171 यू एस ए	144. 024201	श्री रघुनाथन आर सुंदर भवनम 17/1, 5 स्ट्रीट, पेक्कलपुरम तिरुनेलवेली-627071
135. 023730	श्री अगादी विजयलक्ष्मी एम 215, ईस्ट पीपल एवेन्यू वेस्ट लफायट्ट, इंडियन-47906-1382 यू एस ए	145. 024226	श्री अब्राहम थॉमस पी शैलम, सुपर प्लास्टिक इंडस्ट्रिय लेन चंगामपुन्हा नगर पीओ कोची-682033
136. 023735	श्री एल्लंजीकल विनय साहिराक असिस. मैनेजर फरड डिपार्ट. अल बैंक अल साऊदी अल फांसी पी ओ बाक्स 56006 रियाध-11554, साऊदी अरेबिया	146. 024253	श्री लक्ष्मी प्रसाद गोवरा हाऊस नं. 1, रोड नं. 1, लेन नं. 1 अपो 5 सिंधु भवन, सिंधी कार्लोनी सिकंदराबाद-500003
137. 023815	श्री प्रसाद बी फ्लैट नं. 'एफ', III फ्लोर असय होम्स, नं. 48, थर्ड मेन रोड गांधी नगर, अद्वर, चैन्नई-600020	147. 024259	श्री अनंता नारायणन एस फार्मिस डायरेक्टर, सबले ट्रांसपोर्ट लि. पी ओ बाक्स आरडब्ल्यू 219 एक्स लुसाका, जाम्बिया
138. 023851	श्री शैलेव श्रीवराज "आशीर्वाद", 12-13-1270 टरनाका, हैदराबाद-500017	148. 024368	श्री सुब्रमण्यन एस नं. 418/3 4 ए क्रॉस, 12 ए मेन, येलहंका न्यू टाऊन, बंगलौर-560064
139. 023942	श्री वैकटेश्वर रॉय टी फ्लैट नं. 99, एन्सीएल अन्वलेव मेडवेल रोड, पेटबासीराबाद सिकंदराबाद-500855	149. 024380	श्री वैकटा नारायण एन 7/109, प्रकाश रोड, न्यू टाऊन अनंतपुर-515001
140. 023959	श्री किरण प्रसाद पी 6-3-907/4, कपाडिया लेन सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500082	150. 024453	श्री सुंदर के एल असिस. मैनेजर, यूनाईटेड इंडिया इं. कं. लि. लर्निंग सेंटर, 19 IV लेन नंगम्बक्कम हाई रोड, चैन्नई-600034
141. 023963	श्री मुधु एन के जी4 श्री कनकादेवी 25/11 पार्थसारथी नगर 3 स्ट्रीट अडम्बक्कम, चैन्नई-600088	151. 024528	श्री साजु पीटर 241 बोनीटा लेन, फोस्टर सिटी सी ए-94404, यू.एस.ए
142. 023988	श्री भीमा संकरा मूर्ति ए रूम नं. 210 II फ्लोर, मल्लेश कॉम्प्लेक्स अमीरपेट, हैदराबाद-500035	152. 024682	मिस हेमलता सी एन डि. मैनेजर फार्मिस इंडियन एयरलाइन्स लि. बेगुमपेट, हैदराबाद-500016
143. 024160	श्री रंगन एन कन्नन 12-सी, न्यू नं. 6, वीरापंडी नगर सैकंड स्ट्रीट, चूलाईमेडु, चैन्नई-600094	153. 024692	श्री रविचन्द्रन एन्री स्वामीनाथन 21/2 सुधा निलायम I फ्लोर VII क्रॉस रोड बी स्ट्रीट मारुति सेवानगर, बंगलौर-560033

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
154. 024702	श्री पद्मनाभन के मैनेजर, कौनरा बैंक हैड ऑफिस, 112 जे सी रोड बंगलूर-560002	164. 025712	श्री गोपाल कृष्ण एन ए 304 कस्तूरी धाम, 9 क्रॉस 8 मेन मल्लेश्वरम, बंगलूर-560003
155. 024834	श्री कुमारसेमी टी के 127 जजिज कालोनी बिहारंड वार्डमसीए बाँएस स्कूल कोह्लीयकम, थिरुवनमियूर चैन्नई-600041	165. 025751	श्री चन्द्रशेखर एस न्यू नं. 20 (ओल्ड नं. 28) न्यू सैक्रेटेरियट कालोनी किल्लीक, चैन्नई-600010
156. 024873	श्री पद्मनाभन एस न्यू नं. 13, (ओल्ड नं. 12) अशोक स्ट्रीट अलवरपेट, चैन्नई-600018	166. 025763	श्री सुसिन्दरन एस केयर ऑफिसबारे गारमैट्स टीवी कॉम्प्लेक्स 48-डी चिन्नंदन कोविल रोड करूर-639001
157. 024986	श्री नागराज बी एन पोस्ट बाक्स नं. 20613 नाथरोबी, केन्या	167. 025788	मिस गोमती सोमासेकर सिनीयर मैनेजर (फाईनैस) बी एच ई एल कैलसपुरम, तिरुचिरापल्ली-620014
158. 025306	श्री सुवर्णा प्रताप कुमार के बी प्लॉट नं. 108, बालाजी स्वर्णापुरी कालोनी एरागड, हैदराबाद-500018	168. 025812	श्री राम कृष्ण कुमार सी 123/107 II फ्लोर 27 क्रॉस, 2 मेन, 7 ब्लॉक जयनगर, बंगलूर-560082
159. 025335	श्री बैंकटेश्वरन अर नं. 13-02 फलेम ट्री पार्क 1 सिन मिंग एवेन्यू सिंगापुर-575728	169. 025832	श्री जयकांत जे जीएफ 2 वारेन मैनेरे, 22 वारेन रोड माएलापोरु चैन्नई-600004
160. 025442	श्री नागेन्द्र कुमार ए मैनेजर - फाईनैस सत्यम कम्प्यूटर सर्विसिज लि. मेयर सेंटर, एस पी रोड सिकंदराबाद-500003	170. 025837	श्री जगकन्नाथन एस आर 2237 अपस्टेयर्स, त्रिची रोड सिंगनल्लूर, कोयंबटोर-641005
161. 025487	श्री दलीप कृष्ण फाईनैस मैनेजर, ए.एल फुलैम-एक्सेल लोजिस्टिक्स पी ओ बाक्स 61450, दुबई, यू.ए.ई.	171. 025872	श्री रमन के एस 46बी टोह टक रोड # 01-11 सिग्नेचर पार्क सिंगापोर-596748
162. 025534	श्री प्रभाकर एन एस बी 36 राजामत्या अपार्टमेंट्स जीवरत्नम नगर अड्यर, चैन्नई-600020	172. 025916	श्री श्रीधर आर चीफ मैनेजर - फाईनैस हिन्दुस्तान पेट्रोलियस कोरप. लि. 7 फ्लोर, नॉर्थ टॉवर, स्क्रेप भिन्नार लक्ष्मी नगर, दिल्ली-1110092
163. 025628	श्री सुंदरम डी एम पी ओ बाक्स 7372, डम्पाम 31462. साऊदी अरेबिया, के एस ए	173. 025917	श्री रमेश के ओल्ड नं. 18 न्यू नं. 14 सी पी रामासेमी स्ट्रीट, चैन्नई-600018

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
174. 026180	श्री ससि के एस फार्मिस मैनेजर, ग्रुप एलार्ड इंड. सर्विसिज को. लि. पी ओ बाक्स 1135, अल जुबैल-31951 साऊदी अरेबिया	183. 026582	श्री रविन्द्रा एस 50 बागीरवीअम्पल स्ट्रीट टी नगर, चैन्नई-600017
175. 026187	श्री वैकटेश्वरन आर 25/13 कृन्कन स्ट्रीट कन्नचीपुरम-631501	184. 026596	श्री चाको अब्राहम स्वाति हाईड्रोएन्युमेटिक्स पी लि. एस-16 ग्युंडी इंडस्ट्रियल स्टेट ग्युंडी, चैन्नई-600032
176. 026193	श्री सुदर्शन आर नं. 29, सैक्य एवेन्यू अशोक नगर, चैन्नई-600083	185. 026679	श्री मनोहर पी 15 अलगांठा स्ट्रीट त्रिपलीकेन, चैन्नई-600005
177. 026259	श्री गोपाल जे 3-6-69 बी/18 दत्तात्रा अवतिनगर, असीर बाग हैदराबाद-500029	186. 026690	श्री सुंदर रमन के जम्बो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोरपोरेट फार्मिस डिपार्ट. पी ओ बाक्स 2548, दुबई, यू.ए.ई
178. 026278	श्री सुब्रमण्यन के वी फ्लैट 4 वैष्णवी, नं. 21 वर्ध क्रॉस स्ट्रीट, शस्त्री नगर अड्यर, चैन्नई-600020	187. 026699	श्री मुरलीधरण वी सेंद्राम, 14 सम्बंधम आईयर लेआउट कोएम्बतोर-641018
179. 026383	श्री विजया राजेन्द्र प्रसाद जी जनरल मैनेजर नेमकैम इंटरनैशनल लि. पी ओ बाक्स 35980 लुसाका, जाम्बिया	188. 026768	श्री विजयाकुमार आर वी सत्यनारायणा पेट पी ओ लिमिटेड बेल्लरी-583201
180. 026395	श्री श्रीधर एस 48-ए, 'ए' ब्लॉक श्री अपार्टमेंट्स, कालक्षेत्र रोड तिरुवनमियूर, चैन्नई-600041	189. 026775	मिस सत्यवती शिवासुब्रमण्यन 185, साई नगर, सैकंड मेन रोड विरुगैम्बकम, चैन्नई-600092
181. 026467	श्री रामकृष्ण वी 1बी2 जागृति रेजीडेंसी स्ट्रीट नं. 10, ईस्ट मैरेड पैल्ली सिकंदराबाद-500026	190. 026807	श्री प्रमोद कुमार पी फ्लॉट नं. 266 एच. नं. 30-662/2/2 चंद्रागिरी कालोनी (ईस्ट) सिकंदराबाद-500056
182. 026472	श्री कल्याण सुन्दरम वी असिस्ट. जनरल मैनेजर फार्मिस बीपीएल टेलीकॉम लिमिटेड चन्द्रा नगर, पल्लवकड-678007	191. 026810	श्री वैकटेश्वरा राव जी डीनं : 5-87-22, साई बालाजी हाऊस मेन रोड, लक्ष्मीपुरम, गंतूर-522007
		192. 026814	मिस रीमा हेब्बर 436, 9 क्रॉस, 4 मेन, एचआईजी कालोनी आरएमवी सैकंड स्टेशन, बंगलौर-560094

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
193. 026838	श्री कृष्णन आर 452 वाईटहॉर्स रोड, सरे हिल्स वीआईसी 3127, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया	203. 027690	श्री हर्षावर्धन रावन मैनेजिंग डायरेक्टर संकाया रनिंग (प्रा.) लि. 75, टी टी के रोड, अल्बरस्ट चैन्नई-600018
194. 027060	श्री शानमुगम बी जनरल मैनेजर फाईनैस सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड 8500 लीसबर्ग पार्क # 201 वीना वी ए 22182, यू एस ए	204. 027783	श्री गोपालकृष्णन बी बी-26 अप्टलक्ष्मी अपार्टमेंट्स फेज I कालक्षेत्रा कालोनी, बेसंत नगर चैन्नई-600091
195. 027081	श्री रामकृष्णन एस एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू प्रजीडेंट भारती इन्फोटेक लि. 234 ओखला इंडस्ट्रियल फेज-III न्यू दिल्ली-110020	205. 028060	श्री श्रीवातसन आर 19 गांधी रोड, अल्बरथिरुनगर चैन्नई-600087
196. 027094	श्री प्रकाश ठाकुरदास 8 डा. मुनिअप्पा रोड कीलपौक, चैन्नई-600010	206. 028064	श्री राघवेन्द्राचार्यकुलू ए वाईस प्रेजीडेंट - फाईनैस एन्ड सीएफओ न्यूलैंड लेबोरेटरीज लि. 204 मेरिडियन प्लाना अमीरपेट, हैदराबाद-500038
197. 027158	श्री अजीजुल्लाह सिद्दीकी एम दनाटा इंटरनल ऑडिट पी ओ बाक्स 1515, दुबई, यू ए ई	207. 028117	श्रीसंजय प्रकाश माहनोट बीएलके 426 अनग मो किओ एवेन्यू 3 रू 07-2572, सिंगापोर-560426
198. 027202	श्री थॉमस टी सी अपार्ट # 903-100 किंगडन कोर्ट टोरोन्टो-ओन एमआईबी 2पी4 कनाडा	208. 028147	मिस विजयालक्ष्मी एस बरा 8 रामस 101 मेन रोड भक्तवत्सलनगर, अड्यार चैन्नई-600020
199. 027258	श्री कार्तिकान ए 203 ब्रैड्स रोड, अपो. स्ट्रीट टू वाईएमसीए सलेम-636001	209. 028169	श्री रविन्द्रन आर प्रिन्सीपल कन्सल्टेंट अपासॉप सोल्यूशन्स (पी) प्रिवेट लि. 8 फ्लोर, एचएमजी बिल्डिंग रेजीडेंसी रोड, बंगलौर
200. 027281	श्री नारायणन के आर एफ-184 ईस्ट अन्ना नगर चैन्नई-600102	210. 028176	श्री वैकटेश्वरा रॉय एन 60/2, एमीरलुड हाऊस एस स्डी रोड, सिकंदराबाद-500003
201. 027398	श्री मुरली डी फ्लैट नं. 302 सत्यलोक टॉवर्स बिसाईड्स सूर्या हॉस्पिटल नामपल्ली स्टेशन रोड, हैदराबाद-500001	211. 028225	श्री जगन्नाथ पी एस एच नं. 1-2-383, गगन महला रोड डोमलमुखा, हैदराबाद-500019
202. 027519	श्री श्रीनिवास राघवन ए फाईनैशियल कन्ट्रोलर, पी टी हेबेलबर इंडोनेशिया, कोएवी 14-16, जली एमटी हेयोने, कयांग, जकारटा-13330, इंडोनेशिया	212. 028235	श्री श्याम प्रसाद जी फ्लैट नं. 935, विवेकानंद नगर कालोनी कुकरटपल्ली, हैदराबाद

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
213.	028244	श्री सुब्रह्मण्यम एन चीफ फाईनैशियल ऑफिसर एसबीआई एनईफ इंश्योरेंस कम्पनी लि. 2 फ्लोर टर्नर मीरिसन बिल्डिंग जी एन वेंच मार्ग, फोर्ट मुम्बई-400023	222.	028790	मिस गोमति शंकर 5424 सनस्टार कोमन फ्रीमोन्ट सीए 94555 कैलिफोर्निया-94555, यू.एस.ए.
214.	028249	श्री अमलीने पीटर एक्जक्यूटिव मैनेजर, किड्स वर्ल्ड पी ओ बाक्स 300, बहरीन	223.	028901	मिस माला श्रीनिवासन 121 I स्टेज, 10 क्रॉस इंदिरा नगर, बंगलौर-560038
215.	028276	मिस चीना एम आर 002, मसूरी अपार्टमेंट्स # 8, सर्विस रोड, डोमलूर लेआउट बंगलौर-560071	224.	028976	श्री धवाला वैकटा सूर्या प्रकाश 5 फ्लोर, सत्या सूर्या कॉम्प्लेक्स द्वारकानगर, विशाखापट्टनम-530016
216.	028329	मिस कृष्णवल्लभ डॉक्टर ऑफ श्री एस सिव्वाकुमारन 41-एच, अमीरामी चट्टो, वैकट्टयनाम नगर अद्वय, चैन्नई-600020	225.	029004	श्री शंकर एस मूर्ति 9353 फौन्टेनवेलीन बीएलबीडी अपार्ट # 4210, मियामी एफ एल-33172, यू.एस.ए.
217.	028345	श्री सत्यनंद प्रसाद एस 10-51-12 फट्टा मिया कैल्लरमिछ, वलटेयर अपार्ट्स, विशाखापट्टनम-530003	226.	029011	श्री सुरेश आर फाईनैस कंट्रोलर, माईक्रोसोफ्ट अरेबिया पी ओ बाक्स 17100, ओलाया, रियाध-11454, साऊदी अरेबिया
218.	028446	श्री चार्मसरथी अर एस 11/4 फर्स्ट स्ट्रीट फट्टननगर, अद्वय, चैन्नई-600020	227.	029024	श्री मुत्थाप्पन के 03-10, केमबंगन कोर्ट 5 जली मस्जिद, सिंगापोर-418924
219.	028462	श्री कार्तिकेयन अर असिस्ट. चार्ज-प्रोजेक्टर सिटी बैंक एन ए, रविता टॉवर्स III 766 अन्न सल्लाई, चैन्नई-600002	228.	029055	श्री रवि के 13 अप्पापुराई स्ट्रीट, टेयनामपेट, चैन्नई-600018
220.	028643	श्री अरविन्द अर सन ऑफ श्री ए अर एम रामनाथन एस-11, गोकुल अपार्टमेंट्स 2 फ्लोर 30-31, थियमरैया प्रमोनी स्ट्रीट टी नगर, चैन्नई-600017	229.	029073	श्री रामानुजम आर रिज. हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स, ई कॉमर्स, मीसा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 180 गवर्नमेंट एवेन्यू पी ओ बाक्स 29 मनामा, बहरीन
221.	028700	श्री सिव्वाकुमार एन 5-एफ, सूरज टॉवर्स, 128, लेड्डीस मित्र रोड, थियमरैया चैन्नई-600041	230.	029154	श्री नारायणन एस नं. 33 II भारतीअर स्ट्रीट पालवर्थगल, चैन्नई-600114
			231.	029158	श्री रमेश एस फाईनैस मैनेजर पंडित उंगाराम सारी गारमेंट्स जेएल डिपानगोरो नं. 235 अंगारन, सेमारंग, इंडोनेशिया

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
232. 029190	श्री सुंदरमन अर 1279 कुकरबर्न सीटी नेपरविले-आईएल60563, यूएसए	242. 029513	श्री श्रीधर एन सी 101 स्वर्ण श्रीनिवास अपार्टमेंट्स 2-2-1129/1 रामास्वयम रोड न्यू नल्लाकुंडा, हैदराबाद-500044
233. 029220	श्री नागराजन वी फर्नैंडिसियल कन्ट्रोलर क्वैलीप्लास्ट लि. पी ओ बाक्स 7136, एमन नॉर्थ, एमन, वन, वैस्ट अफ्रीका	243. 029571	श्री माटी सीताराम्मंजनेयुलु 27-23-152 अपूर्वा स्टेट्स 11 फ्लोर, दुर्गाअह स्ट्रीट गोवरनोरपेट, विजयवाडा-520002
234. 029334	श्री लक्ष्मीनारायणन टी वी 204 रॉयल पाल्मस, 2 क्रॉस, 3 मेन एलबीएस नगर, बंगलूर-560017	244. 029596	श्री रामकृष्ण रेड्डी आर नं. 7-4-1, 2 फ्लोर 59 क्रॉस, 5 ब्लॉक राजाजीनगर, बंगलूर-560010
235. 029339	श्री पार्यसाथी एन चीफ एकाउंटेंट, पंडा प्लॉट (पीटीवाई) लि. प्रा. बैंग एफ-36, मॉसिस टाऊन बोटस्वाना	245. 029608	श्री संजय वी जेसरानी बी-45/46, इंडस्ट्रियल स्टेट सनथ नगर, हैदराबाद-500019
236. 029360	श्री विद्यासंकर ए एकाउंटेंट मैनेजर द वन टोटल होम एक्सपेरियंस एलएलसी पी ओ बाक्स 27232, दुबई, यूएई	246. 029639	श्री विशु कुमार पी नं. 69 सैलाप्पर स्ट्रीट तिरुनेवेली टाऊन, तिरुनेल्वेली-627006
237. 029411	श्री नागराजन के जी-5 म्हालक्ष्मी अपार्ट्स नं. 5, रामचन्द्रन स्ट्रीट अम्बादूर, चैन्नई-600053	247. 029669	श्री गिरीश के पी ओ बाक्स 117847 दुबई, यू.ए.ई.
238. 029414	श्री राम कुमार वी वी नं. 1 वासुदेवनगर - अपस्टेयर्स (एक्सपर्ट्स ऑफ साऊथ एक्वेन्यू) थिरुवनमिसूर, चैन्नई-600041	248. 029705	श्री श्रीनिवास पिनीसेट्टी ग्रुप चीफ एकाउंटेंट अल्फा ग्रुप, रोड २, आफ एंटप्राइज रोड पी ओ बाक्स 10271-00400, टोम एमबोया स्ट्रीट नायरोबी, केन्या
239. 029433	श्री वैकटेश एस टी 40-बी म्हाल वदम पोकी स्ट्रीट मदुरई-625001	249. 029748	मिस साईगीता एन नं. 34 वारेन रोड माएलापोर, चैन्नई-600004
240. 029440	श्री जॉन कुरियन क्वैकैयिल, कल्याणम पोस्ट कोट्टायम-686538	250. 029770	श्री नारायण वासु ए वी एस प्लॉट नं. 196-197 फ्लैट नं. 105, बालाजी विहार कल्याणनगर, हैदराबाद-500038
241. 029498	श्री अनिल शंकर जी एटी-2 जी आर ग्रांड रेजीडेंसी अपो. फेमिली मार्ट, कनकपुरा रोड जे पी नगर VI फेज, बंगलूर-560078	251. 029780	श्री नागेश्वर रॉय एन केयर ऑफ मूर्ति वी एस एन 8-2-988/29 श्रीनगर कालोनी हैदराबाद-500873

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
252. 029799	श्री खिलाकम्मारी अप्पाला चारुलु 94 एलआईसी कालोनी अपो. इंदिरा पार्क, हैदराबाद-500029	261. 034632	श्री केशव पाई एच मैनेजिंग डायरेक्टर फंड पाईट फाईनैस लि., एस-705 मणिपाल सेंटर, 47, डिक्सेसन रोड बंगलूर-560042
253. 029878	मिस निरंजना सी श्री साई राम अपार्टमेंट्स फ्लैट नं. एफबी, 71-73 फर्स्ट मेन रोड शास्त्री नगर, चैन्नई-600020	262. 035271	श्री रामकृष्ण एस फाईनैस मैनेजर ओमन नेशनल इन्वैस्टमेंट, कोरपोरेशन होलिडिंग साओग, पी ओ बाक्स 1949 पीसी 114, जिब्रू, सल्लनत ऑफ ओमन
254. 029897	श्री जयराम वी फ्लैट बी-11, वसंत महिला क्लब न्यू नं. 29, वारेन रोड (डा. बसन्तबाबलम रोड) माएलापोर, चैन्नई-600004	263. 037247	श्री माधव प्रभु जे गेविंदकृपा, जाकरीबेडू दक्किला कन्नड डिस्ट्रिक्ट बालास, मंगलूर-574211
255. 029917	श्री संकरलाल एन एस 85 (ओल्ड नं. 407बी) महल कदमपोन्की स्ट्रीट मदुरई-625001	264. 037380	श्री रमानी राजामणि ग्रुप फाईनैशियल कन्ट्रोलर अल अमीन मैडीकल इंटरनैट्स कं. लि. पी ओ बाक्स 55320, दुबई, यू.ए.ई.
256. 030298	श्री सुकुमार कृष्णगिरी चेयरान्टेक्सेको मीना इंन. 12 फ्लोर अलसलाम टॉवर पी ओ बाक्स # 11791 मनामा, बहरेन	265. 038245	मिस लता महादेवन आईयर 24 फर्स्ट कोनेडी स्ट्रीट लुज, माएलापोर, चैन्नई-600084
257. 030771	श्री थॉमस एम वी III/364 मवार, चेम्बुमुक्कु बी एम सी पोस्ट, कोची-682021	266. 041813	श्री श्रीराम कृष्णामवेरी फ्लैट नं. 36/15 पिल्लयारकोएल स्ट्रीट जफरखानपेट, चैन्नई-600083
258. 031088	श्री सुब्बा रॉय कृष्णमुरी मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लोबैक इंड. लिमिटेड 120 भानु अनबलेव, सुंदर नगर हैदराबाद-500038	267. 045692	श्री सैथिलनयामम के फ्लैट # 136, कल्याण नगर हैदराबाद-500038
259. 032410	श्री रामामूर्ति के एस 1 फ्रैंच एवेन्यू टूनगेबी एनएसडबल्यू 2146 आस्ट्रेलिया	268. 046051	श्री राम कुमार एस श्रीविजी, जानविला कम्पाउंड बच्छमंगलम, थिरुवर्तापुरम-695010
260. 033742	श्री नायक दयानंद विष्णु बीएलके 84, क्वोआ इरुव # 03-280 सिंगापोर-320084	269. 046572	मिस दर्शन के भट 4 शांता पैराडाईज, 106 वीरस रोड, बंगलूर-560005

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
270. 048581	श्री त्रिवेदी बबलर कानुभाई ग्रुप फार्मैस कन्ट्रोलर अला नसीर होलिडिंग्स 12 फ्लोर, फाल्गुन टॉवर अला नसीर स्ट्रीट, पी ओ बक्स 46611 एबीयू धाबी, यू.ए.ई.	278. 055061	श्री राजीव कुमार चतुर्वेदी 120 चार्ज 4 मेन, 4 फेज, 7 ब्लॉक बी एस के III स्टेज, बंगलौर-560085
271. 048793	श्री पद्म कृष्णमोहन हिमानंद रक्षा परामर्श, फ्लैट नं. 4 106, वीलर्स रोड, फॉक्स टाऊन सर्कल बंगलौर-560005	279. 055378	श्री श्रीनिवासन श्रीराम जनरल मैनेजर-बैंकिंग विप्रो टेक्नोलॉजिज टॉवर 8, 3 फ्लोर, ए विंग प्लॉट 72, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बंगलौर-560100
272. 050374	श्री मार्कस जे मेनेजिस 220 कुम्भर एवेन्यू विलेज्डेन, टोरोंटो, ओन्टेरियो-एम2एम 2ई/ कनाडा	280. 055614	श्री देसाई देवेश फार्मैस कन्ट्रोलर, एयर डिक्ने (एयरलाइन्स डिवीजन ऑफ डिक्ने एविएशन प्रा. लि.) 35 कनिंगहम रोड, वसंत नगर बंगलौर-560052
273. 050828	श्री सुरेश चन्द्र सेनापति कोरपोरेट एक्जीक्यूटिव वार्डन प्रेमीडेंट फार्मैस विप्रो कोरपोरेसन, 10 फ्लोर, डीयू पार्क त्रिनिटी 17 एम जी रोड बंगलौर-560001	281. 056929	श्री साहू संदीप कुमार ए-3, लिब इन स्टार्स 12 पोर्टी रोड, रिचार्ड्स टाऊन बंगलौर-560005
274. 052882	श्री सुंदरकराजन वेंकटेश एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, कलिंग लैंग फायरफ्लाई-12120, थार्लैंड	282. 056958	मिस भुवनेश्वरी श्रीनिवासन 4 फ्लोर, पद्मा कॉम्प्लेक्स 320, अन्ना सलाई, चैन्नई-600018
275. 053005	श्री किशोर कुमार आर हिन्दुस्तान लिबर लिमिटेड एपेक्स फ्लैट 4 फ्लोर नं. 3 नैगमबकम हाई रोड चैन्नई-600034	283. 057113	श्री कृष्णन सदानंदन पुरासेरी हाऊस अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, कीरुहील्लाम-683541
276. 053658	श्री शेखर पी वी जनरल मैनेजर फार्मैस एन्ड ऑडिट एलआईड डीलर्स इंक., 180 सैन्टिनियल एवेन्यू पिसकोटोवे, न्यू जर्सी-08854, यूएसए	284. 057308	श्री रे चौधरी अरघ्या फ्लैट नं. 201 प्लॉट 18 सोनाली को-ओप. सोसायटी न्यू बाऊनपेल्ली, सिकंदराबाद-500011
277. 054004	मिस अल्लमेलु बालसुब्रमण्यन फ्लैट नं. 3 'साईराम' फ्लैट फ्लोर 6 नंदनम एक्स. 4 स्ट्रीट नंदनम, चैन्नई-600035	225. 057711	श्री बदकवीटिल फिलिप विकिंग अरेबिया एफजेडई पी ओ बक्स 17531, दुबई, यू.ए.ई.
		286. 058035	श्री बैनर्जी अबीर जी ई कैपिटल इंटरनेशनल सर्विसेज 14-45 आईडीए उपपल अपो. नम्रो हबसीगुडा उपपल, हैदराबाद-500039

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
287.	058112	मिस प्रभा संकर 2 ललिता महल, 2 जस्टिस सुंदरम रोड माएलापोर, चैन्नई-600004	296.	060398	श्री खंडेलवाल तरुण पी ओ बक्स 46611 अल नसीर हेलिफोर्स अबु धाबी, यू.ए.ई.
288.	058230	श्री पांडा देवचान 117, नैल्सन मणिक्कम रोड अमीन्जीकराई, चैन्नई-600029	297.	060466	श्री वीरज कुमार लक्शेन एन्ड ल्यूस, II फ्लोर एल बी भवन, 6-3-550, सोमबीमुख हैदराबाद-500082
289.	058773	श्री अरीन्दम मुखर्जी इंडिया एआईए ह्यूमिटी लि. नं. 13, 1 मेन रोड वस्तंतनगर, बंगलौर-560052	298.	060469	श्री भगता श्याम सुंदर इनफोसिस टेक्नोलॉजिज लि. सरवे नं. 210 मणिक्केन विलेज गाचीबोल्ली राजेन्द्र नगर मंडल रंग रेड्डी डिस्ट. हैदराबाद-500019
290.	058835	मिस सुदेस्ता बंदीयोपाध्याय फ्लैट नं. 1503, ब्लॉक बी एल एन्ड टी साऊथ सिटी ओरेकोरे मॉडर्न लेआउट बैनरघाटा रोड, बंगलौर-560076	299.	060501	श्री लक्ष्मी अरुण फेयर ऑफ श्री मेघराज हरितन 199/5 एम जी रोड, कोलकाता-700007
291.	058836	श्री दास राजीव ओरेकल इंडिया प्रा. लि. 4 फ्लोर साईबर टॉवर्स, हाई-टेक सिटी मायापुर, हैदराबाद-500033	300.	060587	श्री जगन्नाथ विक्रम सेना विहार एच 230 कम्प्लेक्सली मेन रोड, बंगलौर-560043
292.	058837	श्री अश्विन्या आनंद कुमार 6-3-581 आनंद नगर कालोनी फ्लैट नं. डी 2 5 फ्लोर केशव डेल अपार्टमेंट खैरताबाद, हैदराबाद-500004	301.	060988	श्री रे अश्विक रंजन फार्मिस कन्ट्रोलर एरिया ब्रिडज बोवरी लि. फ्लैट नं. 5 एन्ड 6 II फेज पी जी नं. 5806, पीन्थ इंडस्ट्रियल एरिया बंगलौर-560058
293.	058940	श्री चौधरी इंद्रानिला फेयर ऑफ अलफ्रेड हारबट रोड महदेवपुरा फेस्ट, बंगलौर-560048	302.	061075	श्री जिंदल अश्वीव असिस्टेंट मैनेजर-रिस्क मैनेजमेंट मेटलिफ्ट इंडिया इन्फ्रस्ट्रक्चर्स लि. ब्रिगेड रासबमल 5 चानी विल्लस रोड बालावनमुडी बंगलौर-560004
294.	059139	श्री सिंह विजय विक्रम एफएन एम 25 रॉयल पार्लमस 2 क्रॉस, एल बी शास्त्री नगर बंगलौर-560017	303.	061119	श्रीमति सेठ रुचि एसआई सुष्मा रेजीडेंसी नं. 4 फर्स्ट फेज, डिफेंस कालोनी हैदरा नगर, बंगलौर-560013
295.	059140	मिस भाविता सिंह एम 25 रॉयल पार्लमस अपार्टमेंट 2 क्रॉस, एल बी शास्त्री नगर बंगलौर-560017			

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
304. 061161	श्री श्रीवास्तव मनीष कुमार नं. 2/1 2 फ्लोर 3 मेन, गोविंदराजनगर, बंगलौर-560040	312. 077162	मिस विद्या भास्कर सुब्रमण्यन फ्लैट 3बी, न्यू 39 दिव्या अपार्टमेंट्स, 4 मेन रोड. राजा अन्नामलईपुरम चेन्नई-600028
305. 061518	मिस पूजा दिवान केयर ऑफ श्री राशि कुमार दिवान इनफोसिस टैक लि. 11 फ्लोर एमीराल्ड हाऊस 15 लैसडकने रोड क्रोएडॉन क्रो 2 बीएक्स सरे, यूनाईटेड किंगडम	313. 077433	श्री दीपक खेतान एसोसिएट मैनेजर-फाईनैस-जिंदल प्राक्सेयर ऑक्सीजन को. (पी) लि. पी बी नं. 16, बेल्लेरी डिस्ट. तोंगेगल्लू-583275
306. 061762	श्री साधुखान अमित हिंदुस्तान कोका कोला मार्किटिंगे. प्रा. लि. 61/32 1 एन्ड 2 फ्लोर श्री विद्या टॉवर्स टी टी के रोड अल्बरपेट, चेन्नई-600018	314. 078159	श्री गुप्ता संजय फाईनैस ऑफिसर, सैन्ट्रल फाईनैस आईटीआई लिमिटेड दूरवानी नगर, बंगलौर-560016
307. 070181	श्री एलैक्स जोस 28/2366, कनियनथारा पोन्नेय टैम्पल रोड-वैस्ट विका नगर, पिलानूर कोची-682020	315. 078685	श्री कृष्णन विनोद फ्लैट 'एम' विजया शांति अपार्टमेंट्स 56 कालक्षेत्र रोड थियवनमियूर, चेन्नई-600041
308. 073627	श्री राधाकृष्णन के फाईनैशियल कन्ट्रोलर एन्ड प्रोजेक्ट मैनेजर मिनकुल रॉक फाईवर्स लि. 8-2-598/ए/1/15 प्लॉट नं. 15 रोड नं. 10, बंजारा हिल्स हैदराबाद-500034	316. 079089	मिस कैथवाल पूजा 14 फ्लोर सी विंग, मित्रल टॉवर 47/6 एम जी रोड, बंगलौर-560001
309. 075743	श्री मुगारा औदी शेख रेड्डी 216-डी ब्लॉक, रेणुका अपार्टमेंट्स आनंद नगर कालोनी, खैराताबाद, हैदराबाद-500004	317. 079802	श्री गुप्ता बिमल कुमार एच नं. 6-1-94/95, साई संतोष अपार्टमेंट्स फ्लैट नं. 201, पद्मारॉव नगर सिकंदराबाद-500001
310. 076125	श्री श्रीनिवास श्रीपदा केयर ऑफ श्री पी के कृष्णन फ्लैट 204, ब्लॉक III चिरंजीवी अपार्टमेंट्स, वैस्ट मैरडपैल्ली, सिकंदराबाद-500026	318. 081568	श्री सुब्रमण्यन एस के चीफ ओपरेटिंग ऑफिसर आईडिया सेल्युलर लि. 5-9-62 खान लतीफ खान स्टेट फतेह मैदान रोड, हैदराबाद-500001
311. 076637	श्री अग्रवाल नरेश 794/ए 17 एफ2 मेन, 6 ब्लॉक, कोरामंगला बंगलौर-560095	319. 083378	श्री चौपड़ा हिरदेश केयर ऑफ अनिल अग्रवाल 11-182 फतेह नगर हैदराबाद-500018
		320. 083685	श्री नरसिंहा एस एल फाईनैशियल कन्ट्रोलर फोर्टमैन शांगरी-एलए होटल शंवाई सेंटर 1376 नागिंग एक्सटेंडर्ड एल्यू शंवाई-200040, चीन

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
321. 084472	श्री हरिविष्णु खंडेलिया ए 57 सिफ्लेट हाऊसिंग कालोनी धर्मापुरी डिस्ट. होसूर-635126	331. 098498	मिस जैन अनु बी-106, मंत्री बल्लसिक, 1 मेन 8 क्रॉस, एस टी बेड लेआउट 4 ब्लॉक, कोरामंगला बंगलौर-560034
322. 086092	श्री श्रीधर एस डी-311 पारा कोर्ट सोमनाथगुड्डा, हैदराबाद-500082	332. 098519	श्री गुलिया भारत आईटीसी इनफोटेक, 1-4 राजा राम मोहन राय रोड बंगलौर-560025
323. 086300	श्री सलीम के I फ्लोर क्लर्क कॉम्प्लेक्स चिन्नूर रोड, अर्नाकुलम-682018	333. 098793	श्री इरुलिया बालाजी ओरेकल इंडिया प्रा. लिमिटेड 4 फ्लोर साईबर टॉवर्स हाई-टेक सिटी माधापुर, हैदराबाद-500081
324. 086309	श्री अहि के थूमस फ्लेयोडथिल कल्लथिल वैल्लियूर पी ओ, वेन्नीकुलम तिरुवल्लूर-689544	334. 100322	श्री बजाज महेश राधेश्याम फ्लैट नं. 304, सौंदर्या लिंक लिंक रोड, शेराद्रीपुरम बंगलौर-560020
325. 087048	श्री राजीवा सुंदरसन टी2, कोजीस होम्स, 6ई, टीएम मैस्ट्री स्ट्रीट, कन्नुर थिरुवनमियूर, चैन्नई-600041	335. 101260	श्री इरुना मनीष ईश्वर लाल केयर ऑफ जलराम एन्ड एसोसिएट्स-2/एफ-2, पून्म अपाउर्मैट बिहाइंड होटल एमीराल्ड सी ए लेन अबीड्स हैदराबाद-500001
326. 087239	श्री विश्वनाथन के फाईनैस मैनेजर एमरिल सर्विसिज एलएलसी पी ओ बॉक्स 38083, दुबई, यू.ए.ई	336. 102357	श्री भित्तल दीपक 99/सी, 17 एच मेन 2, बी क्रॉस के एच बी कालोनी, कोरामंगला बंगलौर-560095
327. 092458	श्री अग्रवाल कुमार शोभित ए-906 पूर्वा हार्ट्स बैनरघाट रोड, बंगलौर-560076	337. 102481	मिस गुप्ते अश्लेष सुरेश 103, ब्लॉक 11, एलआईटी जीवन मित्रा अपार्टमेंट्स 25 मेन, 9 क्रॉस, जे पी नगर फेज-1, बंगलौर-560078
328. 095232	श्री नाथ सुभारीष 841/1 बिन्नामंगला, 100 फीट रोड इंदिरा नगर, बंगलौर-560038	338. 103391	श्री हरि के फाईनैशियल कंट्रोलर सन प्लॉस्टिक्स (पीटीवाई) लि प्राइवेट बैग नं. 8 लोब्याटसा, बोटस्वाना
329. 097097	श्री श्रीराम आर ए-9, आर बी आई स्टॉफ कालोनी हाज खास, न्यू दिल्ली-110016		
330. 097136	श्री बेदी रविन्द्र सिंह फाईनैस ऑफिसर आईटीआई लिमिटेड नेटवर्क सिस्टम्स यूनिट आईटीआई भवन दूरवानीनगर बंगलौर-560016		

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
339. 106595	मिस भगनगर वसंत लक्ष्मी सेन फोर ऑफ बी.एस. रॉय एमअर 24/बी आईबीएम बिल्डिंग्स बी.डी.ए. कॉम्प्लेक्स नैदिनी लेआउट, बंगलौर-560096	347. 200382	श्री रंगास्वामी एस फ्लैट नं. 1305, ब्लॉक नं. 1 जनप्रिया महानगर सीयरपेट, हैदराबाद-500079
340. 109767	श्री विजया बबुसीराम पालीवाल क्वार्टर नं. 105/बी, लक्ष्मी नारायण नगर वासवदत्त सिटी कालोनी डिस्ट. गुलबर्गा, सेदाम-585222	348. 200387	श्री रविन्द्र कुमार एस ई-44 मैजस्टिक मैशन बेगमपेट, हैदराबाद-500016
341. 111862	श्री विनय जैन रेटिंग अनालिस्ट क्रेडिट अनालिसिस एन्ड रिसर्च लि. 2 फ्लोर, काल्पटक पार्क कमानी मार्ग, सिडन (ईस्ट) मुम्बई-400022	349. 200401	श्री बालाजी जी बी 4/2 वैकाकरन स्ट्रीट वेपेरी, चेन्नई-600007
342. 112387	श्री प्रशान्त गंगाधर रॉय फोर्डवर फोर ऑफ डा. मिलिन्द एसआरटी 579, सनय नगर हैदराबाद	350. 200496	श्री अरूणगम एस फाईनैस डिपार्टमेंट, अल जवेर ग्रुप पी ओ बाक्स 6875, अबु धाबी, यू.ए.ई
343. 116054	श्रीमति अनुजा जयंत रामदासी 67/ए 1, 7 सी मेन रोड III स्टेज 2 ब्लॉक, बसेस्वरा नगर बंगलौर-560079	351. 200650	श्री सुंदर ए रोड्रीग्यूज 7, थर्ड लेन, ओल्ड कुर्यावरप्पायम मदुरई-625009
344. 200184	श्री प्रकाश रेड्डी सी श्री थिम्मारया स्वामी निल्लायम 4 क्रॉस, कनक विनायका स्ट्रीट शांति लेआउट राम मूर्ति नगर बंगलौर-560016	352. 200730	श्री थॉमस एन अब्राहम नागपुरम हाऊस, मंगानम पी ओ कोट्टायम-686018
345. 200224	श्री शिवास्वामी पी आर डायरेक्टर, साक्सन (बेनिन) एस ए आर एल सी/168, मिस्सेबो, 01, बीपी 1600 कोटानोव बेनिन, वेस्ट अफ्रीका	353. 200764	श्री सम्पत एस मैनेजर (एफ एन्ड ए), गैल (इंडिया) लि. 46-07-18, जेड्डी एवेन्यू दानवैपेटा, राजामहेन्द्रवरम-533103
346. 200244	श्री श्रीधर चलाप 236 13 क्रॉस हैदरा नगर II स्टेज बंगलौर-560038	354. 200777	श्री रमेश एस जी-5, महालक्ष्मी फ्लैट्स 26, टैंक बंद रोड, नंगामबक्कम, चेन्नई-600034
		355. 200789	श्री शिवानाथन के एफ 5, 'शेरा स्कवेयर' 156, चूलाईमेडु हाई रोड चूलाईमेडु, चेन्नई-600094
		356. 200804	श्री वैक्टरमन के फ्लॉट नं. 8, आर एन्ड डी डिफेंस कालोनी काकगुडा, करखाना सिकंदराबाद-500015

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
357.	200894	श्री मुरलीधरण के जी 15/1964(1) चामविला वज्रयाकोड, नियर रवि स्टूडियो थिरुवनंतपुरम-695014	367.	201370	श्री जेफ्रेफ इनबराज मिरांडा चीफ एकाउंटेंट मै. किंग्स स्टोर्स, पी ओ बक्स 437 दुबई, यू.ए.ई.
358.	200898	श्री बालसुब्रमण्यन एस 3ए, कंचना अपार्टमेंट्स 78 स्ट्रीट मेरीज रोड अभिरामपुरम, चैन्नई-600028	368.	201463	श्री वैक्टरमनन जी 134 ईस्ट कार स्ट्रीट चिदाम्बरम-608001
359.	200965	श्री चक्रपाणी एस मैनेजर - फाईनैस द इंडिया सिमेंट्स लि. 827, अन्ना सलाई, चैन्नई-600002	369.	201540	श्री जुडे पीटर डेमियन ई सिनीयर मैनेजर (एकाउंट्स) द इंडिया सिमेंट्स लिमिटेड 827 अन्ना सलाई, चैन्नई-600002
360.	200992	श्री नारायणन डी फ्लैट जीसी, साऊथ गेट अपार्टमेंट्स 17 कस्तूरी रंगा रोड अल्वरपेट, चैन्नई-600018	370.	201611	मिस मनोरामा साहिरल पोस्ट बक्स नं. 237 शिनास 324, सल्लनत ऑ ओमन
361.	201024	श्री परानन एन ब्लॉक 118ए जली मेम्बिन्ड # 07-137, सिंगपोर-161118	371.	201664	श्री कुमार आर मैनेजर, इटेलीग्रुप एशिया - यूएसआई प्रोजेक्ट श्रोवर कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद-500063
362.	201057	श्री श्रीनिवास शंकर आर फ्लैट 7बी सीब्रॉस रिवर हाईट्स 315 वल्लुवरकोट्टम हाई रोड नंगामबक्कम, चैन्नई-600034	372.	201783	श्री नरसिंहा एस 46, 46/2 कलेना आम्हारा # 512, विटोला, बेगुर होबली पोस्ट बैनरघाटा रोड, बंगलौर-560076
363.	201075	श्री द्वारकादास बी चंदेक 28 बारनेबी रोड किलपौक, चैन्नई-600010	373.	201811	श्री टैकसली श्यामराज हेमद्रीप्पा नं. 115 6 मेन, एम सी लेआऊट बिहाइंड गायत्री हॉस्पिटल विजयनगर, बंगलौर-560040
364.	201218	श्री पैटयला सुरेश बाबू ए/76 संतोष नगर कालोनी मेहदीपटनम, हैदराबाद-500028	374.	201833	श्री जयराम टी एस एसोसिएट फाईनैस मैनेजर हिंदुस्तान कोका कोला बीवरेजिस प्रा. लि. 44/1, कोदीगेहल्ली गेट, बेल्लरी रोड, हब्बल, बंगलौर-560024
365.	201280	श्री जयपूर्णा प्रसाद जी वाईएस प्रेजिडेंट-पोर्टफोलिओ मैनेजमेंट, बैंक ऑफ अमेरिका 5 कनाडा स्कवेयर, लंदन-ईसी4 5एक्यू यूनाइटेड किंगडम	375.	201857	श्री विन एन डिस्ले सिंहगढ़ नं. 237, I क्रॉस 5 मेन कॉफी बोर्ड लेआऊट, हिब्बल कम्पापुरा, बंगलौर-560024
366.	201359	श्री आनंदा बाबू पी फ्लॉट नं : 404 मारुति सदन अपार्टमेंट्स 6-3-1117, बेगमपेट, हैदराबाद-500016	376.	201989	श्री मुरुगन बी ए-27 सैक्रेटेरियट कालोनी 34/10 सिटी लिमिट रोड अडम्बक्कम, चैन्नई-600088

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
377. 202019	श्री मुरलीधरण अन्न सोफ्टवेयर कन्सल्टेंट, लीडसोफ्ट इंक. 2064, शेडी ग्रीव सीटी, नेपरविले आई एल-60565, यू. एस. ए.	386. 202447	श्री रत्नारमन के फ्लैट नं. 4सी, अर्चना अनक्लेव 4/31 नॉर्थ क्रैसैन्ट रोड, टी नगर चेन्नई-600017
378. 202053	श्री प्रसाद नेक्कडेपू वी एस एल प्लॉट नं 60, वैकटरॉव नगर कालोनी कुक्कटपल्ली, हैदराबाद-500072	387. 202478	श्री गोपाल सी पी रतन एस मामा एन्ड कं. पी ओ बाक्स 1171, रूवी 112 मुसकैट, सल्लनत ऑफ ओमन
379. 202131	श्री पी रामचन्द्रन सिनीयर एकाउंटेंट मसफ मिनरल वॉटर कं. एलएलसी पी बी 11035, मसफा फजैराह, यू. ए. ई.	388. 202548	श्री नारायणा बी एल 4730, एन्डक्ल्यू 102 एक्वेयू यूनिट # 108, मियामी एफ एल-33178, यू.एस.ए.
380. 202177	श्री श्रीधर एच वाईस प्रेजिडेंट, सीटीबैंक एन ए 2 क्लब हाउस रोड चेन्नई-600002	389. 202676	श्री अश्वथ ए प्लॉट नं. 13, सीब्रॉस हेरीटेज ब्लॉक 2 - सी 8 बेलाचेरी मेन रोड, चेन्नई-600042
381. 202232	मिस विद्या एन एन रमन अपार्टमेंट्स फर्स्ट मेन रोड, राजा अन्नामलाईपुरम चेन्नई-600028	390. 202781	श्री चावली चन्द्रशेखर जी7 आदर्श अपार्टमेंट्स नियर स्कैंडिगिरी टेम्पल पद्माराव नगर, सिकंदराबाद-500361
382. 202240	श्री विजया कुमार ए फाईनैशियल कन्ट्रोलर, जाम्बेजी मोटर्स (पीटीव्हाई) लि. प्लॉट नं. 22147, गैबेरोन वेस्ट इंडस्ट्रियल, गैबेरोन बोट्सवाना, अफ्रीका	391. 202953	श्री विजया कुमार ए फाईनैस मैनेजर, नासीर बिन अब्दुल्लातीफ पी ओ बाक्स 36, मुसकैट-113 सल्लनत ऑफ ओमन
383. 202271	श्री नंदूरी वी एस एस गंगारजू 110-12051 बाथ रोड रिचमंड वी सी-V6V 2बी4 कनाडा	392. 203006	श्री लक्ष्मी नारायणा प्रसाद एन वी फाईनैशियल कन्ट्रोलर सलालाह पोर्ट सर्विसिज पी ओ बाक्स 103 अल-हारथी कॉम्प्लेक्स पी सी 118, मुसकैट, सल्लनत ऑफ ओमन
384. 202358	श्री श्रीकुमार एस एवीपी एन्ड सिनीयर कमर्शियल डायरेक्टर हिंदुस्तान थॉमस एसोसिएट्स प्रा.लि. 131 रेजीडेंसी रोड देवय प्लाजा, बंगलौर-560025	393. 203008	श्री मंजूनाथ पाटिल बिलागी प्लाना II फ्लोर, नं. 11 अपो : होटल सन्मान, कॉलेज रोड बेलागीव-590001
385. 202362	श्री कृष्ण वी नं. 43 नेहरू स्ट्रीट मादीपक्कम, चेन्नई-600091	394. 203028	श्री कन्ना ब्रूपति के जी एफ-37, बालाजी गार्डन्स 29 पुनामल्ली रोड, एक्कट्टथंगल चेन्नई-600097

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
395.	203096	श्री रमाचन्द्रन एस 8/5 तामिरावरानी जगन्नाथन नगर, 2 मेन रोड अरुम्बक्कम, चैन्नई-600106	403.	203399	श्री सुरेश मेन्नन आर इंटरनल ऑडिटर, अल मूसा बोनट्रैडिंग (प्राजोनियर) पी ओ बाक्स 24775, दुबई, यू.ए.ई.
396.	203108	श्री चौकीमाथ गुरुकुमार गुरुलिंगैयाह # 72, I-फेज, I मेन वैस्ट ऑफ कोर्ड रोड मंजूनाथ नगर, बंगलौर-560010	404.	203421	श्री सरकार कौशिक छाबरिया मार्किटिंग लि. 313/बी रेणुका शक्ति अपार्टमेंट्स किंग कोटी रोड, हैदराबाद-500029
397.	203126	श्री हरिहरण वी 2-सी, ब्लॉक-5 शांति टॉवर्स 88, आरकोट रोड, वादपलानी चैन्नई-600026	405.	203428	श्री आनंद कुमार गणेश्वरम एच नं. 4-1-15, ओपानपुरा आंध्र प्रदेश, करिमनगर-505001
398.	203131	श्री अश्विन अजीला नं. 71, आरएमवी सैकंड स्टेज 4 बी क्रॉस रोड, 3 मेन रोड डेल्टा कालोनी, बंगलौर-560094	406.	203450	श्री रविचन्द्रन टी नं. 66, फर्स्ट मेन रोड फर्स्ट फ्लोर, नंगनल्लूर चैन्नई-600061
399.	203257	श्री गणेश आर मेनेजर-ईआरपी भारत पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड ए-इंस्टालेशन, सेवरी फोर्ट रोड सीवरी (ईस्ट), मुम्बई-400015	407.	203462	श्री कार्तिक एन नं. 503, ए ब्लॉक, गिरी अपार्टमेंट्स जे पी नगर II फेज बंगलौर-560078
400.	203279	श्री साईराम गी 105 साईप्रिया अपार्टमेंट्स फ्लैट नं 40 एन्ड 41 जयप्रकाश नगर बालकानीपेट (नियर सनथ नगर) हैदराबाद-500018	408.	203468	श्री हुसैनी एस एम पी ओ बाक्स 20516, सफाट-13066, कुवैत
401.	203301	मिस शारदा नागराजन कनसल्टेंट, ओरेकल फाईनैशियल कनसल्टेंट्स हाईपरलिंक आईटी पी ओ बाक्स 43178 अवुधावी, यू.ए.ई.	409.	203483	श्री जीता मित्रा जी 7-1-831 फर्स्ट फ्लोर सुमाष रोड, बुरुगु चेष्टी बाजार सिकंदराबाद-500003
402.	203302	श्री राजी जॉन जेकब 28 वॉटरडेल रोड ब्राम्पटन, ओन्टेरियो-एल/ए/एस3 कनाडा	410.	203597	श्री वैकटचलम वी फ्लैट के पार्क रॉयल अपार्टमेंट्स 58 पार्क रोड, अन्ना नगर वैस्ट एक्स. चैन्नई-600101
			411.	203615	श्री श्रीकांत एस क्वालिटी एश्युरेंस मैनेजर इनवैर कोरप. बैंक बी एस सी पी ओ बाक्स 5340, मनामा किंगडम ऑफ बहरैन
			412.	203631	श्री प्रसाद वी वी डी 609-वी बाबुखान स्टेट, बशीरबाग हैदराबाद-500001

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
413. 203661	मिस अपर्णा भास्कर रॉय सेहगार कोयर ऑफ डा. एस बी रॉय इस्वर पार्क, विल्लु नं. 10 काम्पत किन्नरा, मीरामर करान्जलेम पीओ, पांजीम करान्जलेम गोआ-403002	422. 204002	श्री राधा कृष्णा रौट पी बी नं. 8975 इपीसी 1234 काठमांडू, नेपाल
414. 203838	मिस कंचन एस बी-3, अशोक अन्वलेव, 18 फर्स्ट एवेन्यू, अशोक नगर चैन्नई-600083	423. 204067	श्री सत्यकांत ए डी नं. 6-3-582/1/1, फ्लैट नं. एफ-02 राम रत्नम रेजीडेंसी नियर जिला परीषद आनंद नगर, खैराताबाद हैदराबाद-500004
415. 203840	मिस रोशिनी मुरारी एमरिटस ग्रुप, पी बी 686 दुबई, यू. ए. ई	424. 204082	श्री अनुप कुमार चार्ड शार्प एन्ड टन्नान, स्टूट 'एच' 5 फ्लोर सूर्या टॉवर्स एस पी रोड सिकंदराबाद-500003
416. 203877	मिस तुलसी माला जी न्यू नं. 27 (ओल्ड नं. 12) रमन स्ट्रीट वित्तलपक्कम पी ओ चैन्नई-600064	425. 204093	श्री रघु कुमार चुंदी 11-3-2, ई-5, प्रियारिवीरा अपार्ट्स वैटेरिनरी हॉस्पिटल रोड रामारॉव पेठ, काकीनाडा-533004
417. 203921	श्री गुरु प्रसाद ठप्पलाप्पली 71 लीह वे, पारसीपेनी एन जे-07054, यू.एस.ए	426. 204158	श्री अब्दुल हमीद ए नं : 107 डा. बेसंत रोड रोयापीताह, चैन्नई-600014
418. 203930	श्री वैकट रॉय के कोयर ऑफ नेटप्लेन नेटवर्क टेक्नोलॉजिस (आई) प्रा. लि. नं. 189 प्रसासन नगर रोड नं. 72, जुबली हिल्स हैदराबाद-500033	427. 204173	श्री बांभी ई हैड - फाईनैस एन्ड बिजिनेस एडमिनिस्ट्रेशन डेमलर क्रिसलर, रिसर्च एन्ड टेक्नोलॉजी इंडिया प्रा. लिमिटेड 132 इनफैन्ट्री रोड, बंगलौर-560001
419. 203949	श्री नागपूषण अराध्य नं : 186 I फ्लोर, दत्त कॉम्प्लेक्स बासवनगुडी मेन रोड, गांधी बाजार बंगलौर-560004	428. 204201	श्री रामाशेषान के डि. जनरल मैनेजर फाईनैस आईबीएम इंडिया लिमिटेड प्रेस्टीज टॉवर्स लेवल 3 99 रेजीडेंसी रोड, बंगलौर-560025
420. 203971	श्री श्रीनिवास रॉय ए मार्क एकाउंटिंग एन्ड मैनेजमेंट- सर्विसिज (प्रा.) लि. पी ओ बाक्स 80196 गैबरोने, बोर्ट्सवाना	429. 204225	श्री टाटावर्ती सुरेश असिसटेंट मैनेजर - फाईनैस दमाक, पी ओ बाक्स 2195 दुबई, यू.ए.ई
421. 203986	श्री रेजी जोसफ 7 ई ओनर्स कोर्ट, मोन्टियस लेन इजीमोर, चैन्नई-600008	430. 204231	श्री सेलवारज जी 'सिल्वर ओक' 88-बी पी टी राजन रोड मदुरई-625014

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
431.	204233	श्री मैथ्यू बेरियन 4-ए, अस्थिनी अपार्ट्स एस जी पाल्या, सी बी रमन नगर बंगलौर-560093	440.	204480	श्री श्रीनिवास गोपालन एस टी प्लॉट 3 सदागोपन थिरुनगर जल्लदमपेट, मेडावक्कम चेन्नई-601302
432.	204257	मिस ज्ञाना महेश्वरी ए नं. 53, मिलेनियम प्लाजा कटपडी रोड, बैल्लोर-632006	441.	204509	मिस श्री प्रिया आर टी सी 28/2493 'सरन्गलया' ओल्ड श्रीकॉटेस्वरम रोड चेट्टीकुलंगारा, थिरुवनंतपुरम-695001
433.	204286	श्री कुमार एस सिनीयर एक्जीक्यूटिव टोयोटा पार्ट्स प्राइसिंग डिपार्ट. बहदुरान ऑटोमोटिव सेन्टर पी ओ बाक्स 3168 पी सी 112 रूवी, सल्लनत ऑफ ओमन	442.	204531	श्री मिनाक्षी सुंदरम एस नं. 33, नाचप्पा 2 स्ट्रीट ईरोड-638001
434.	204293	श्री बिजू पी एल नं. 23 फ्लैट 2 बी स्याम भूषण विजयलक्ष्मी स्ट्रीट, महारिगपुरम चेन्नई-600034	443.	204616	श्री चन्द्रशेखर ए एस 594 कोचमैन ड्राईव 2 ट्रॉए, एमआई-48083-0, यू.एस.ए
435.	204313	श्री राजेश कुमार पी बी बी-151, फर्स्ट फ्लोर सेक्टर-15, नौएडा-201301	444.	204639	श्री वैकंटेस्वरा रमा पी फ्लैट नं. 87/ए, श्रीदेवी रेजीडेंसी वैगल रोड नगर, हैदराबाद-500038
436.	204356	श्री रुक्मण्यन जी एच-113/4 18 फ्लॉस स्ट्रीट बेस्तन नगर, चेन्नई-600090	445.	204671	श्री जीराड पीटर डी नं. 2 गीतांगली, II फ्लॉस III सर्कुलर रोड, जवाहर नगर चेन्नई-600082
437.	204366	मिस पद्मावति एस फ्लैट # 02 ग्राउंड फ्लोर फ्लॉस कोर्ट अपार्टमेंट्स फ्लॉस रोड, हाई ग्राउंड्स बंगलौर-560001	446.	204675	श्री बालाजी टी आर प्रोजेक्ट इंजीनियर, थिप्रो टेक्नोलॉजिस इलेक्ट्रॉनिक सिटी-1 टीडब्ल्यूआर 4 फ्लोर 4 बंगलौर-560001
438.	204405	श्री मल्लिकार्जुन एम मैनेजर - जीएफआईसी ओरेकल इंडिया प्राइवेट लि. बैनरघाट रोड, बंगलौर-560076	447.	204743	श्री सदागोपन आर 12220 स्पेनिश ट्रेस डा., एच मेरीलैंड्स हाईट्स, एम ओ -63043 यू एस ए
439.	204479	मिस संगीता नाहर इंटरनल ऑडिटर मे. मार्कल चालहब ट्रेडिंग कं. पी ओ बाक्स नं. 60912 दुबई, यू.ए.ई.	448.	204790	श्री गोपाल के सी बी-2, चन्द्र गुप्ता अपार्टमेंट्स चाणक्यापुरी, सफीलगुडा मलकाजगिरी पीओ हैदराबाद-500047
			449.	204827	श्री रविन्द्रनाथन आर 'अरविन गार्डन', फेज II फ्लैट 1ए 53/17 वेल्सल्लर स्ट्रीट मोहम्मैयार वेस्ट, चेन्नई-600058

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
450. 204911	मिस अंजलीन एनोक ओल्ड नं. 43, पार्क रोड अन्ना नगर चैस्टर्न एक्स. चैन्नई-600101	459. 205175	मिस प्रसन्ना के नं. 20, नॉर्थ उसमान रोड बी-ब्लॉक, टी नगर चैन्नई-600017
451. 204958	मिस उमा एन बी-704 आदर्श गार्डन्स 8 ब्लॉक 47 ब्रॉस जय नगर, बंगलौर-560082	460. 205279	श्री बालसुब्रमण्यन वी विप्रो लिमिटेड, 159 कारिअप्पा प्लाजा जवकारसैनड्रा, कोरामंगला I ब्लॉक बंगलौर-560034
452. 205029	मिस लिस्सी के वी फार्निस मैनेजर क्लेरेंडन पार्कर मिडल ईस्ट पी ओ बाक्स 26359, दुबई, यू.ए.ई	461. 205290	श्री सतीष वी फ्लैट 182-ए, गैल अपार्टमेंट्स प्लॉट बी-9/1, सैक्टर 62 उत्तर प्रदेश, नोएडा-201301
453. 205036	श्री संतोष पी डनियल 801, एवलीन फोरस्ट बीएलवीडी अवेन्यु, एनजे-07001, यू.एस.ए	462. 205325	श्री चन्द्र शंकर वी नं. 9 साई भवन 1 ए मेन, 7 ब्रॉस एन एस पाल्या बैंक कालोनी मार्डको लेआउट, बीटीएम II स्टेज बंगलौर-560076
454. 205045	श्री बलराजी आर 1-2-80/1/ए सैकंड फ्लोर स्ट्रीट नं. 1, काकतियानगर हब्सीगुडा, हैदराबाद-500007	463. 205335	श्री कुमारवेल टी डि.मैनेजर - एकाउंट्स अल्ट्राटेक सिमेंट लि. अराक्कोनम सिमेंट वर्क्स, अराक्कोनम-631003
455. 205087	श्री सत्यनारायणा कैकट शिवा जिल्ला केयर इंडिया-स्टेप 6-22-1/3 ईस्ट फ्लैट कालोनी घाईना वाल्टेर, विशाखपटनम-530003	464. 205431	श्री बालाजी जी ब्लॉक 715 यूनिट नं. 10-93 (क्लीमेंटी वैस्ट स्ट्रीट II), सिंगापोर-120715
456. 205092	श्री शशीधर टी एच नं. 8-5-18, अंड ब्रिज रोड वारंगल-506002	465. 205451	श्री श्रीरामा राजू के 36-27 डिफेंस कालोनी सैनिकपुरी, सिकंदराबाद-500094
457. 205125	श्री सूर्या प्रकाश रॉय बोम्मीसेट्टी प्लॉट नं. 11, सिंडीकेट बैंक ऑफिसर्स कालोनी दुबई गेट, हस्मथपेट, ओल्ड बोवनपेल्ली सिकंदराबाद-500009	466. 205512	श्री अधिकारी मोहन रॉय सिनीयर मैनेजर-एफ एन्ड ए लैंको कॉडपली पॉवर प्रा. लि. 141, एवेन्यू # 8, रोड नं. 2 बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034
458. 205156	श्री हेमंत कुमार पी एच नं. 6-3-609/69/8 आनंदनगर, खैराताबाद हैदराबाद-500004		

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
467.	205517	श्री अरुणकुमार नाथ मैनेजर-फ़ाईनैस-इंडियन रेयॉन एन्ड इंडस्ट्रिज मद्रा गारमैन्ट्स डिवीजन 60/1 श्री नारायणा बिल्डिंग, यूनिवर्सल कम्पाउंड, कोदी थिक्कनाहल्ली रोड बोम्मनाहल्ली, बंगलौर-560068	477.	205747	श्री नंदकुमार पी एकाउंटेंट, बीजे सर्विसिज कम्पनी (आस्ट्रेलिया) प्रा. लि. 13 बी जिन्निया वे, विल्लेहून, वैस्टर्न आस्ट्रेलिया-6155
468.	205582	श्री रमोपल्ली रमेश बाबू 9-14, 2 फ्लोर, हरिकृष्णा बिल्डिंग्स अपो. कोनार्क थिएटर, दिलसुख नगर, हैदराबाद-500060	478.	205756	श्री आनंद एन आनंद निलाया नं. 12, 3 फ्लोर, 3 क्रॉस जे एम लेन, बालेपेट, बंगलौर-560053
469.	205600	श्री सुधन्द्रा एस आर 20/2, विट्ठल मालया रोड बंगलौर-560001	479.	205774	श्री सुंदराजन बी 204 समृद्धि, 12-12-7, सीताफलमंडी, सिकंदराबाद-500061
470.	205606	श्री वरधराजन के पी नं. 9/2 मुथाम्मन कोएल स्ट्रीट अयानावरम, चैन्नई-600023	480.	205799	श्री आनंद के फ्लैट डी, प्लॉट 246, 2 स्ट्रीट राम नगर, विजयानगर एक्स. वेलाचेरी, चैन्नई-600042
471.	205637	श्री सूरज आर नं. 5/43 विग्राम स्ट्रीट हैरीस पार्क, सिडनी-एनएसडब्ल्यू 2150, आस्ट्रेलिया	481.	205805	श्री महेश चड्ढा पी ओ बाक्स 70048, प्लॉट नं. 256 अलीचन रोड, उर्पागा डर एस सलाम, तनजाविया
472.	205643	श्री रामकुमार एस बीएलके 353 # 07-500 टैम्पाईन्स स्ट्रीट 33, सिंगापोर-520353	482.	205818	श्री वैकटेशन के एपी 209 9 स्ट्रीट, 1 ब्लॉक वल्लालर कुडियोरुप्पु अन्ना नगर वैस्ट, चैन्नई-600040
473.	205715	श्री भास्कर के 8ए न्यू वैस्ट थंडवरायण स्ट्रीट पुरासावाल्कम, चैन्नई-600007	483.	205849	श्री सुरेश एस 146/2 लेकव्यू रोड वैस्ट मैम्बलम, चैन्नई-600033
474.	205730	मिस शांति एम एस 45 4 मेन रोड जवाहर नगर, चैन्नई-600082	484.	205887	श्री वैकट रामन आर न्यू नं. 758 (ओल्ड नं. 627/1) पूनमल्ली हाई रोड एन एस के नगर, चैन्नई-600108
475.	205737	श्री सुब्रमण्यन एस के ओरचिड 5-1, सीब्रॉस गार्डन्स 1/2 वेमबुल्ली अम्मान कोएल स्ट्रीट वैस्ट के के नगर, चैन्नई-600078	485.	205914	श्री राम कृष्णा राजू जे डी. नं. 5-8-140, किशनपुरा वारंगल डिस्ट्रिक्ट, हनामकोंडा-506001
476.	205742	मिस मैथिली एस न्यू नं. 14 (ओल्ड नं. 15-ए) चिन्निआह रोड, माराक्नेरी एक्सटेंशन सलेम-636007			

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
486. 205917	श्री कंडवेलू सी एस 17-बी, संकरन स्ट्रीट फ्लैट बी, म्हादीपक्कम चैन्नई-600091	495. 206296	श्री अंटू जोसफ फाईनैस मैनेजर, स्काई ज्यूलरी एलएलसी पी ओ बाक्स नं. 4005 दुबई, यू.ए.ई
487. 205923	मिस हेमलता आर एकाउंटेंट, येमीनवैस्ट पी ओ बाक्स 4165 अडेन-967, रिपब्लिक ऑफ येमन	496. 206332	मिस गोंगुटाला गीता ग्राउंड फ्लोर, एमआरएल हाऊस पंजागुट्टा, हैदराबाद-500082
488. 205933	श्री पद्मसूक्त्यार पी रिलेशनशिप ऑफिसर एचएसबीसी बैंक मिडल ईस्ट (एचबीएमई) पी ओ बाक्स 242 अबु धाबी, यू.ए.ई.	497. 206335	श्री रमेश बाबू एस नं. 36 चार्ल्स कैम्पबेल रोड 3 क्रॉस कॉक्स टाऊन बंगलौर-560005
489. 205969	श्री प्रकाश के 101, 102 ब्लॉक VI स्काईलार्ड सिटी अपार्टमेंट पी ओ नगरभारी, बंगलौर-560072	498. 206372	मिस कोनेरू रेखा 14-79, फर्स्ट फ्लोर तल्लूरिस तपोवन, पटनचेरू-502319
490. 205970	श्री राजागोपालन एस अनैस्ट एन्ड यंग, पी ओ बाक्स 140, 14 फ्लोर द टॉवर, शेरेटन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मनामा, बहरैन	499. 206396	श्री महेश सी बी ए-4, सम्पूर्ण फ्लैट्स रामानुजम स्ट्रीट, टी नगर चैन्नई-600017
491. 206199	श्री रघुराज बी 501-बी, वासुकमल, 184-ए, साकी विहार रोड पोवाई, मुम्बई-400072	500. 206437	श्री राधा कृष्णा आर्यासोमयाजुला बी-201 नटराजन रेजीडेंसी 6-1-116 स्ट्रीट नं. 3, वॉकर टाऊन, पद्मारॉव नगर, सिकंदराबाद-500025
492. 206249	श्री वैक्टेस पी ए 28/1 वैक्टेप्पा रोड, टास्कर टाऊन, बंगलौर-560051	501. 206487	श्री राधाकृष्णन टी फाईनैस ऑफिसर आई टी आई लिमिटेड, दूरवानी नगर सी एन्ड ई सेल एफ-24 हैंगर I फ्लोर बंगलौर-560016
493. 206267	श्री किशन कुमार बी 10-3-14/ए/3 हुमायूँ नगर, हैदराबाद-500028	502. 206488	श्री महिधर रॉय एम बी एस एन फ्लैट नं. 101ए पंचावटी अपार्टमेंट्स स्कंदगिरी, नियर स्कंदगिरी टेम्पल पद्मारॉव नगर, सिकंदराबाद-500061
494. 206272	श्री रवि राम रेपाका मैनेजर - फाईनैस एन्ड एमआईएस जरिरी इनवैस्टमेंट पीओ बाक्स 3196 रियाध-11471, साऊदी अरेबिया	503. 206519	श्री गोपाल कृष्णन के न्यू नं. 30 (ओल्ड नं. 15) पुल्ला एवेन्यू, शेनॉए नगर, चैन्नई-600030

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
504.	206594	श्री अंजना अरुणा कुमार एम एम के जे एच. नं. 1-8-100/3/बी 1 फ्लोर विद्युत नगर, नियर ट्रांसफोर्मर न्यू दिसुखनगर, हैदराबाद-500068	513.	206858	श्री अरुण रामचन्द्रन ऑडिट सिनीयर, के पी एम जी पी ओ बाक्स 3800 दुबई, यू.ए.ई.
505.	206619	श्री श्रीहरि एस पी गोकुलम, # 64, थर्ड फ्लोर 7 एवेन्यू, अशोक नगर चेन्नई-600083	514.	206895	मिस रेवती बालाजी डी-131 ई, पी वी राजामन्नर सलाई के के नगर, चेन्नई-600078
506.	206664	मिस श्रीविद्या बी फ्लैट नं. 1 फर्स्ट फ्लोर विजय शांति अपार्टमेंट्स, 56, कालक्षेत्र रोड थिरुवनमिसूर, चेन्नई-600041	515.	206897	श्री वैकट सत्यनारायणा अकोंडी 12-2-460/19 जीवन कल्याण नगर, महदीपटनम, हैदराबाद
507.	206750	श्री जॉर्ज निनान बी-7, 69, न्यू विश्वशांति अपार्टमेंट्स एल डी बी रोड, लिटल माउंट साएण्डपेट, चेन्नई-600015	516.	206904	श्री राम कुमार आर सिनीयर एश्युरेंस एन्ड एडवाइजरी बिजिनेस सर्विसिज अर्नस्ट एन्ट यंग, 10, कोल्लयार क्वे नं. 21-01, सिंगापोर-049315
508.	206765	मिस राधा सूरज 27 ए जी एस कार्लोनी डोर नं. 2/343 फर्स्ट क्रॉस स्ट्रीट, कोटीवक्कम चेन्नई-600041	517.	206925	श्री विजया कुमार पुचा बी एन फ्लैट नं. 304 ए ब्लॉक श्री गायत्री अपार्टमेंट्स कल्याण नगर, ईस्ट आनंद बाग हैदराबाद-500047
509.	206784	श्री गोरंटला चैचू नागेश्वरा रॉय 401 अशोका अनक्लेव 32 एन्ड 34 जयंति नगर युसुफगुड्डा, बिल्डिंग लकी फंक्शन हॉल हैदराबाद-500045	518.	206963	मिस स्वपना चंडक 208 चिन्नोए ट्रेड सेंटर पार्कलेन, सिकंदराबाद-500009
510.	206802	मिस सराह मेरी जेकब 119 प्रेस्टीज ग्रीन वुड्स 849 नावरपलाया, वाराधर रोड बंगलौर-560093	519.	206970	श्री वैकटेश्वर रॉय इनामपुडी वडी चेरुकुरु (मंडल) गंतूर डिस्ट्रिक्ट, मटलूर पी ओ -522215
511.	206853	श्री हरिकुमार टी फाईनैशियल कन्ट्रोलर नाईक इंडिया प्रा. लि., 701, मिलेनिया टॉवर बी, मरफी रोड अल्सूर, बंगलौर-560008	520.	206991	श्री देशपांडे उमेश श्याम रॉय “मालटेश”, 94 विजयानगर हुबली-580032
512.	206854	श्री अरिवु अलंगाराम ए एसएन फ्लैट नं. 3सी अन्नाई अपार्टमेंट्स नं 7 के पी कोएल सन्निधी स्ट्रीट माएलापोर, चेन्नई-600004	521.	207022	श्री दिवाकर एस फाईनैस मैनेजर, आरएनए रिसोर्सिज ग्रुप लि. पी ओ बाक्स 17155, दुबई, यू.ए.ई.
			522.	207054	श्री नवीन के एम एकाउंटेंट, पेपर मून, द गिफ्ट रैप स्टोर पोस्ट बाक्स # 790, दुबई, यू.ए.ई.

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
523. 207069	मिस शीला हरिहरण आईबीएम ग्लोबल सर्विसेज इंडिया लि. एम्बेसी गेल्फ लिंकस बिजिनेस पार्क ब्लॉक-सी प्रॉडेंट फ्लोर ऑफ इंदिरानगर-कोरमंगला इंटर रिंग रोड, बंगलौर-560071	532. 207324	श्री लक्ष्मी नारायण फानी नंदुला बदेर एन्ड कं., प्राईस वॉटरहाऊस एन्ड कूपर्स पी ओ बाक्स 20174 सफाट-13062, कुवैत
524. 207084	श्री हेमा प्रकाश रेड्डी के नं. 401 1 डी मेन, डोम्लूर लेआउट, बंगलौर-560071	533. 207365	श्री कोदूरी श्रीधर 45/142-23/3ए स्ट्रीट नं. 2 रामालिंगेश्वर नगर, वेंकटरमन कालोनी, करनूल-518003
525. 207131	श्री प्रसादु नारायण एच नं. डी-114, माधुरा नगर, अपो. कोम्प्यूटिटी हॉल हैदराबाद-500038	534. 207428	मिस आरती आर 13 अशोका रोड अल्वरपेट, चैन्नई-600018
526. 207157	श्री बाबलपटल बी एन वी वार प्रसाद असिस मैनेजर - फार्मैस एन्ड एकाउंट्स सुंदरलैंड टेकनॉलॉजिस् प्रा. लि. 46 संथोम हाई रोड माएलापोर, चैन्नई-600004	535. 207469	श्री सुनील विश्वनाथ चाराणसी 1-10-81 अशोक नगर हैदराबाद-500020
527. 207195	श्री श्री राम गुप्ता कनमरलापुडी सी-4 रिजेंसी अपार्ट्स बीच रोड, कालन्कोत्र कालोनी बेसंत नगर, चैन्नई-600090	536. 207502	श्री मनीसुंदरम एस वी डी-107/सी संगीता कालोनी के के नगर, चैन्नई-600078
528. 207224	श्री हरि कृष्ण सकाला केयर ऑफ एम वी सुब्बा रॉव डी नं. 9-7-3, चीमूसुक्वारी स्लेन ब्राह्मण बाजार, कोटापेट विजयावाडा-520001	537. 207510	श्री श्रीधर पी # 3-6-194सी, स्ट्रीट नं. 16 नियर उर्दु हॉल, हिमायत नगर, हैदराबाद-500029
529. 207256	श्री श्रीनिवास रॉव बच्चू फ्लैट नं. 405, विन्ध्या -III जन भारती गार्डंस मूसापेट वाई जंक्शन, हैदराबाद-500018	538. 207542	श्री नागराजू डी एच नं. 19-1-927/28 भवानी नगर, मंदीगुमस मादुरपुरा पी ओ, हैदराबाद-500064
530. 207289	श्री विजयादुरई बी 1407 पी के एन रोड शिवाकासी-626189	539. 207551	श्री कोल्लुरी वेनु माधव केयर ऑफ श्री के टी कृष्णा 33-8-10, बंकापल्ली चारी स्ट्रीट सीतारामपुरम, विजयवाडा-52002
531. 207319	श्री मार्टिन थॉमस पी फार्मैस मैनेजर, लक्ष्मी डेवेलपमेंट को. लि. जी-406, पानमिल्ली नगर, कोची-682036	540. 207567	मिस माजू जोसफ एकाउंट्स ऑफिसर, कुवैत एन्ड मिडल ईस्ट फार्मैशियल इनवैस्टमेंट कं. कोएसएससी पी ओ बाक्स 819, सफाट-13009, कुवैत

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
541.	207569	श्री लक्ष्मी श्रीनिवास रॉय गारे हाऊस नं. 1111, फर्स्ट फ्लोर सेक्टर -12-ए हरियाणा, पंचकुला-134112	550.	208002	श्री प्रियूष अग्रवाल डोर नं. 60, न्यू रोड नं. 3 बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034
542.	207621	श्री उत्तम धीरन पी नं. 17 थाना स्ट्रीट पुरासावाकम, चैन्नई-600007	551.	208008	श्री हाराणापुरे चन्द्रशेखर कुंडा केयसर ऑफ एम वार्ड पाटिल 3328/2 गांधाली गली बेलगाँव-590002
543.	207637	श्री प्रेमसागर चाल्वा कोरपोरेट फार्मैस डा. रेड्डीज लैबोरेटरीज लि. 7-1-27 अमीरपेट हैदराबाद-500016	552.	208040	श्री श्रीराम जी 146/2, लेकव्यू रोड वैस्ट मेम्बलम, चैन्नई-600033
544.	207720	श्री विनोद वॉमस 44/2201 सी सारा 7, स्ट्रीट एन्टोनीस रोड कल्लूर, कोची-682017	553.	208042	श्री सुदर्शन के 2/1 पेरुमल कोएल स्ट्रीट (वाया) कोलीयानूर, वीआरपी डिस्ट्रिक्ट पोयापक्कम पी. ओ-605103
545.	207760	श्री अजय एम आर एसोसिएट कन्सल्टेंट, इनफोसिस टैकनॉलॉजिस लि. कल्लूर फेरी रोड, कोयट्टारा, मंगलूर-575006	554.	208067	श्री तुमारादा नरसिंहा मूर्ति 58 शांति नगर कालोनी श्रीकाकुलम-532001
546.	207790	मिस जयवित्रा आर पटनी कम्प्यूटर सिस्टम्स लि. 304/305 गुना बिल्डिंग अन्ना सल्वाई, टेनमपेट चैन्नई-600018	555.	208073	श्री रमन बी फ्लॉट नं. 43 डोर नं. 156/5 नेहरू स्ट्रीट, मादीपक्कम चैन्नई-600091
547.	207879	श्री सुब्बारमन के इंडीपेंडेंट पेट्रोलियम ग्रुप पी ओ बक्स 24027 सफाट-13101, कूवैत	556.	208105	श्री कर्तिकेयन आर अर्नस्ट एन्ड यंग 424 चर्च स्ट्रीट, स्प्रूट 1100 नशविल्ले टी एन यू एस ए-37013
548.	207963	श्री बालाजी अटिडेशन एस 25/24 फर्स्ट स्ट्रीट, नागार्जुन नगर, रंगाराजापुरम चैन्नई-600024	557.	208108	श्री नवनीता कृष्णन जी असिस. मैनेजर (फार्मैस) अरविंद क्लोथिंग लि. नं. 12, 4 क्रॉस, बोन्नासांझा इंड. एरिया होसुर रोड, बंगलूर-562158
549.	207986	श्री बिजू वी जॉर्ज इंटरनल ऑडिटर मोहम्मद बिन मासोउद एन्ड सन्स पी ओ बक्स 322, अबु धाबी, यू.ए.ई	558.	208144	श्री चिद्दीरॉय एलियास बाबू ए असिस. मैनेजर-एकाउंट्स ट्रांसवर्ल्ड गारनेट इंडिया (पी) लि. अपो : टू ट्यूटीकोरिन एयरपोर्ट कोट्टुंडकाडू, ट्यूटीकोरिन-628103

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
559. 208181	श्री गणेश बी नं. 9 साई सदन 1 ए मेन रोड 7 क्रॉस, माईको लेआऊट (II स्टेज एक्स.), बंगलौर-560076	567. 208340	मिस प्रिया चेलाप्पा ओपरेशन्स मैनेजर आईबीएम ग्लोबल सर्विसेज इंडिया प्रा. लि. एक्सप्लोरर, 4 फ्लोर आईटीपीएल, वाईटीफोल्ड रोड बंगलौर-560066
560. 208224	श्री रविन्द्रन पी 761 65 स्ट्रीट, 10 सैक्टर के के नगर, चैन्नई-600078	568. 208392	श्री वैकटेश्वरलू कारसला # 8-3-214/4, II फ्लोर श्रीनिवास नगर (वैस्ट) अमीरपेट, हैदराबाद-500038
561. 208230	श्री शंकर राम बी न्यू नं. 61 (ओल्ड नं. 54) बृन्दावन स्ट्रीट, फ्लैट नं. 9, कोठारी अपार्टमेंट्स, वैस्ट मैम्बलम, चैन्नई-600033	569. 208396	श्री पटनायक प्रशांत कुमार केयर ऑफ लवलाक एन्ड ल्यूस 6-3-550 2 फ्लोर एलबी भवन सोमजीगुडा हैदराबाद-500082
562. 208260	श्री कृष्णा नायक बी 531 एम्बव मंगलौर स्टोर्स सम्पाईज रोड, मल्लेश्वरम बंगलौर-560003	570. 208410	मिस श्रीलक्ष्मी एन केयर ऑफ श्री सी श्रीराम नं. 1, 3 क्रैसैन्ट पार्क रोड गांधीनगर, अह्मद, चैन्नई-600020
563. 208288	श्री जुडे बी 22/1, इंद्रप्रस्था अपार्ट. लेकव्यू, 14 स्ट्रीट अईयप्पानगर, पादीपक्कम पोस्ट चैन्नई-600091	571. 208437	श्री विनू थॉमस पुल्लोलिकल हाऊस पूथाकून्ही, पी ओ पैमपेडी, कोट्टायम-686752
564. 208304	मिस सुबाशिनी एस 3210 तोथियान रोड अपार्ट. 203 फेयरफैक्स वरजिनिया, (वीए)-22031 यू.एस.ए	572. 208503	श्री मिनाक्षीसुंदरम वी जय कृष्णा अपार्टमेंट 29/11 योगम्बल स्ट्रीट टी नगर, चैन्नई-600017
565. 208305	श्री सत्यनारायणन पी फ्लैट नं. सी-5, विराजा अपार्टमेंट्स 57 वल्लुवर सलाई अरुणक्कम, चैन्नई-600106	573. 208567	श्री शिवारामकृष्णा माधवाथूनी 46-डी चेन्नाला रॉव नगर हैदराबाद-500038
566. 208337	श्री चित्राकुमार एम 18/6 80 स्ट्रीट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, अशोक नगर, चैन्नई-600083	574. 208570	मिस अनुराधा डी न्यू नं. 2 (ओल्ड नं. 29) शांति नगर मेन रोड अडम्बक्कम, चैन्नई-600088
		575. 208645	श्री श्रीनिवासन आर 3ए, मईल नगर, नॉर्थ मेन स्ट्रीट पी एन्ड टी कालोनी मदुरई-625017

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
576.	208722	श्री विपुल एन छाबरा 133 6 'ए' क्रॉस, 9 मेन आर एम वी एक्स. बंगलौर-560080	585.	209092	श्री बालकृष्णा मूर्ति चौ. फ्लैट नं. 1डी पार्क, लैंड अपार्टमेंट्स नं. 3, कमलाबाई स्ट्रीट नियर वानी महल टी नगर, चैन्नई-600017
577.	208812	श्री धर्मेन्द्र आर एच नं. 3-1-326/327 निम्बोलीअद्य, अपो : ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हैदराबाद-500027	586.	209098	श्री जोषघन थॉमस पी ओ बाक्स 403462, गैबोरोन, बोट्सवाना
578.	208813	श्री सत्यनारायणा सी # 1087, I फ्लोर, ऐस्कर्या 4 मेन, विजयानगर I स्टेज मैसूर-570017	587.	209112	श्री रंजीत ए आर रैड ब्रिगेड यू के लिमिटेड 4 फ्लोर द कोलेम्बिया सैन्टर मार्किट स्ट्रीट, बगैकनेल बर्कशिर-आरजी 12 I आरएस यूनाईटेड किंगडम
579.	208876	श्री नरसिंम बी रूम नं. 2, II फ्लोर जगदीश मार्किट, विराग अलि लेन अबीदूस, हैदराबाद-500001	588.	209117	श्री युगंधार के नं. 1167 II क्रॉस, कालास्वी नगर, नियर कालिअम्मा टैम्पल, टी डसारा हल्ली, बंगलौर-560057
580.	208904	श्री सतीश बी फार्मिडियल अन्वलिस्ट मे. ह्यूलेट पैकेड इंडिया प्रा. लि. 24 सलाहपुरिया अरीना होसूर मेन रोड, अदुगोदी बंगलौर-560030	589.	208155	श्री सुरेशकुमार आर ब्लॉक 'बी', फ्लैट 'सी' शिवारंजनी अपार्टमेंट्स 57-बी, कार्तिकापुरम, मादीपक्कम, चैन्नई-600091
581.	208943	श्री शिबू निजान सिनीयर मैनेजर, के पी एम जी केपीएमजी हाउस, 20/2 विट्ठल माल्या रोड बंगलौर-560001	590.	209156	श्री सम्मीता नागरविन्द्रा डा. नं. 10-2-268/270 फ्लैट नं. 42, वेस्ट मारैडपल्ली सिकंदराबाद-500026
582.	208954	श्री नागराजन आर एफ-15, के जी प्लॉट 41, जी पी रोड, चैन्नई-600002	591.	209162	श्री प्रसाद एच एस निसागा प्लॉट नं. 64, I फ्लोर अपो : वैकटेश्वरा टैम्पल, अमरवती, बेलरी डिस्ट्रिक्ट, होसपेट-583201
583.	209015	श्री सत्या किरन अस्तापति फ्लैट नं. 402 दिव्या लाया प्लॉट नं. 48, एच नं. 8-3-168/ई/48 जयंति नगर, एडजस्टेड दू राजीव नगर युसूफगुडा, हैदराबाद-500045	592.	209167	श्री सरावनन एस 2 जौन देससीकर रोड ब्लड डायमंड फ्लैट्स, नंगनल्लूर, चैन्नई-600061
584.	209045	श्री राकेश जोशी # 683, 29 मेन, बीटीएम लेआउट, बंगलौर-560076			

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
593. 209169	श्री कार्तिकेयन एन एम/105/12 प्रेफेब हाऊस 29 क्रॉस स्ट्रीट, बेसंत नगर चेन्नई-600090	602. 209294	श्री रमननाथन एन बी 20/2, विठ्ठल मल्ल्या रोड, बंगलौर-560001
594. 209193	श्री बॉबी कुरियन 1439 युड रोड अपार्ट 1ई, ब्राक्स एन वार्ड-10462, यू.एस.ए	603. 209315	श्री बालाजी एम फ्लैट नं. 1, 46 मूर्ति स्ट्रीट एक्सटेंशन वेस्ट मेम्बलम, चेन्नई-600033
595. 209201	मिस रेखा नटराज एमएफ 3/29 बी डी ए अपार्टमेंट्स न्यू थिप्पारसैड, हल III स्टेज बंगलौर-560075	604. 209339	श्री राजेश बी 'कार्तिके', चैम्बका हाऊसिंग कालोनी बी सी रोड, बेबरे, कोल्हरीकोडे-673015
596. 209208	श्री जयसुब्बन्नी एस नं. 27/1 श्रीनिवास पेरुमल कोएल III स्ट्रीट थिरुवोट्टीयूर, चेन्नई-600019	605. 209363	श्री प्रवीन आर केयर मूग कन्ट्रोल्स लि. # 2 100 फीट रिंग रोड बीटीएम लेआउट, बंगलौर-560076
597. 209214	श्री श्रीनिवास कुमार बी बी एन 175 (ओल्ड नं. 93) ट्रिप्लीकेन हाई रोड, ट्रिप्लीकेन चेन्नई-600005	606. 209364	श्री प्रकाशन एम 22/2, ए जी एस कालोनी II क्रॉस स्ट्रीट, कोट्टीवक्कम चेन्नई-600041
598. 209216	श्री नाचीअप्पन एम प्रार्थसवेंटरहाऊस कूपर्स 02-05, एसटीओ ट्रेड सेंटर ओरविड मागु, रिपब्लिक ऑफ मादडीव्स	607. 209424	श्री हबीब मोहम्मद के ए 1 फ्लोर, 300 लिंवी चेष्टी स्ट्रीट चेन्नई-600001
599. 209241	श्री जगदीश कुमारके 3/6, बी-ब्लॉक हिलार्डन आरकेड अपार्टमेंट्स न्यू मुशीराबाद एक्स रोड हैदराबाद	608. 209563	श्री सुधाकर के रु 16-2-146/34/1 अकबर बाग, मालाकपेट हैदराबाद-500036
600. 209264	मिस उष्माशाह 8/2325 डी आईएस हाऊस अपार्टमेंट्स गुजराती रोड, कोची-682002	609. 209571	श्री चैतन्या जी प्लॉट नं. 71, 12-13-830/39/3 गोकुल नगर, टारनाका, हैदराबाद-500017
601. 209268	श्री पाकूलुरी सुब्बा रॉय एच नं. 483/एसआरटी माई, नियर बॉटर टैंक एस आर नगर हैदराबाद-500038	610. 209579	श्री रज़ारमन एस एफ-212, रॉयल पाल्मस, 3 मेन एल बी शास्त्री नगर, हल पोस्ट, बंगलौर-560017
		611. 209591	श्री वैकट दुर्गा लक्ष्मी नरसिंहा रॉय जी, आईएस-6 इरा मंजिल कालोनी पुंजगुट्टा, हैदराबाद-500082

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
612.	209624	श्री राजेश आर डी-6, एमसीएल कालोनी मद्रास सिमेंट्स लि. माथोड विलेज, होसादुर्गा-577533	621.	209844	श्री शिवकुमार बी एक्वडेंट्स एक्जीक्यूटिव अल अहलिया इन्व्हेस्ट कं. साओक पी ओ बक्स 1463, पीसी 112 सल्तनत ऑफ ओमान
613.	209663	श्री बिजू ए आर ऑडिट मैनेजर मूरस रॉलैंड, पी ओ बक्स 401805 बैबोरोन, बोर्ट्सवाना	622.	209853	श्री रामकृष्ण आदित्य के एस 210 10-2-10 मादूरु अपार्टमेंट्स ए सी गार्ड्स, हैदराबाद-500004
614.	209701	मिस कोमल एस कुमार नं. 322, 6 क्रॉस कौनरा बैंक कालोनी नामराघावी मेन रोड विजयानगर, बंगलौर-560072	623.	209875	श्री वैकट रामनन के जी नं.9, सेकंड लिंक स्ट्रीट सदरशिव नगर, मादीपक्कम चैन्नई-600091
615.	209725	मिस रश्मि गिरिया "गिरिआस", 10/12, छाबेरिया लेआउट कुमारावरुपा रोड, बंगलौर-560001	624.	209885	श्री सोनी अहमद पी ओ बक्स 26264 जेम सिटी, गैबरोन बोर्ट्सवाना
616.	209752	श्री वैकटेश्वरा प्रसाद डी फॉयर ऑफ एल डी नायडू 2 फ्लोर, वासवी चैम्बर्स नं. 21/1 लालबाग फोर्ट रोड बंगलौर-560004	625.	209973	श्री दीपक देवासिया 1 (ओ) वेस्ट विंग फन्हिल गार्डन एस एस आर लेआउट, बंगलौर-560034
617.	209781	श्री रामकृष्णारॉव आकी सन आफ सत्यनारायणा किराना भर्चेंट, कॉलेज रोड इस्ट गोदावरी डीटी अमलापुरम-533201	626.	209979	श्री जैबी मेनुअल सिनीयर एसोसिएट प्रॉक्सिमिटीरहाऊस कूपर्स पी ओ बक्स 20174 सफ़ाट 13064, कुवैत
618.	209785	मिस शेफाली एन एस 2109, पैरादीन एज राउंडरॉक, टी एक्स 78664, यूएसए	627.	209984	मिस सारथा संकर 306, II ब्लॉक, III फ्लोर कीर्ति रिजेंसी कागदासपुरा मेन रोड, बंगलौर-560075
619.	209821	श्री रवि शंकर एम नं. 26 संकल्प 1 मेन बेल 6 ब्लॉक विद्यारान्यापुरम, बंगलौर-560097	628.	210016	श्री चन्द्र शेखर रेड्डी जी 18-1-670, भवानी नगर विजूर डीटी, तिरुपति-517501
620.	209831	श्री फलानीसेल्वम आर न्यू नं.व 14, अदियाप्पन स्ट्रीट ओल्ड चॉसरमेनपेट, चैन्नई-600021	629.	210056	श्री आनंद कुमार के बिजिनेस एरिया कन्ट्रोलर पीआईपीसी एरिया ब्राउन बोवरी, लि. फ्लॉट नं. 5 एन्ड 6 II फेज पीन्या इंडस्ट्रियल एरिया पीन्या, बंगलौर-560058

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
630. 210120	श्री वैकटचलम एम एक्जीक्यूटिव-फाईनैस स्टॉक होल्डिंग कोरप. ऑफ इंडिया लि. 4 फ्लोर, कुरियन टॉवर्स, अपो : सरिता थिएटर, बैनर्जी रोड कोची-682018	639. 210345	श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल 3-6-69/4/1, बशीर बाग हैदराबाद-500029
631. 210122	श्री आशीष अर्जुन सिंह बी-517, कार्लटन टॉवर्स एयरपोर्ट रोड, बंगलौर-560008	640. 210403	श्री सुंदर राम एन फ्लैट नं. 106, गरोन्डा कनक लक्ष्मी अपार्टमेंट पद्मा रॉव नगर, सिकंदराबाद-500025
632. 210133	श्री नंद किशोर एम नं. 25/13 चित्रकूलम नॉर्थ स्ट्रीट माएलापोर, चैन्नई-600004	641. 210428	श्री सुनील कुमार धरेस्वर 817 श्री शक्ति, महादेश्वरा लेआउट चेलानाथयक्कहल्ली आर टी नगर, बंगलौर-560032
633. 210139	मिस उमा संकरी प्रकाश शिवम नं. 2 IV क्रॉस रोड आर ए पुरम, चैन्नई-600028	642. 210432	श्री सुरेश देवदत्त 37 2 एवेन्यू, इंदिरा नगर अड्यर, चैन्नई-600020
634. 210197	श्री चन्द्रकांत वैकटेश रायकर नं. 2110 फर्स्ट फ्लोर 14 मेन रोड, 9 क्रॉस एच ए एल थर्ड स्टेज कोदीहल्ली, बंगलौर-560008	643. 210433	श्री पद्मानाभन एन असिसटेड मैनेजर - फाईनैस सत्यम कंप्यूटर सर्विसिज लि. 18, सी पी रामास्वामी रोड अल्वरपेट, चैन्नई-600018
635. 210282	मिस धनलक्ष्मी एस नं. 87 बैस्ट काउंटी 3, 3 मेन हिसारघाटा रोड, बिहाइंड सांभ्रम कॉलेज विद्यारैन्नापुरा पी ओ बंगलौर-560097	644. 210475	श्री श्रीनिवास वेन्नेटी बी1, जीएफ, आशीवांद अपार्टमेंट्स चन्द्रमौलीपुरम, विजयवाडा-520010
636. 210309	श्री सत्यनारायणा बारू जी-101, श्रीसाई दत्ता अपार्टमेंट्स श्रीनिवास कार्लोनी ईस्ट अमीरपेट, हैदराबाद-500038	645. 210565	श्री कृष्ण बी एम असिसटेड मैनेजर-फाईनैसियल प्लानिंग जीई कैपिटल इंटरनेशनल सर्विसिज 99 सूर्या पार्क रिंग रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बंगलौर-561229
637. 210322	श्री कृष्ण प्रवीण कुमार वी 12-सी लोगनथन स्ट्रीट श्री कृष्णापुरम, अम्बडूर, चैन्नई-600053	646. 210566	श्री मुरली कृष्ण सी केयर ऑफ श्री पी विजया राघवन फ्लैट नं. 202 बान्का कैसले वाहट नगर, सिख विलेज सिकंदराबाद-500009
638. 210335	मिस जेनिन मुलस्कन एडम्पल्ली पी ओ कोची-682024	647. 210617	श्री रंजीत शिवाराम पी ओ बाक्स 9261, दुबई, यू.ए.ई

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
648.	210717	श्री रवि को नं. 260 5 बी-1 मेन रोड रेमको लेआउट विजयानगर, बंगलौर-560040
649.	210722	मिस बिंदु नायर मद्रास सेवा सदन # 7 हैरीटन रोड, चेटपुट चैन्नई-600031
650.	210798	श्री चक्का वैकट राजेश्वर 13 (ओल्ड नं. 12) फ्लैट नं. 'सी' धनकोडी अम्मल स्ट्रीट कोदमक्कम, चैन्नई-600024
651.	210809	श्री सोमपवन कुमार केयर ऑफ श्री एन वासुदेव रेड्डी 8-2-704/24/बी साई अन्सलेव फ्लॉट नं. 24, रोड नं. 12 बंगारा हिल्स, हैदराबाद-500018
652.	210813	श्री योगेश भंस्ली के पी एम जी, पी ओ बाक्स 7613, अबू धाबी, यू.ए.ई.
653.	210852	श्री गोपाल आर असिस्टेंट कन्ट्रोलर ट्रॉम्पारटेशन, 2901, इस्ट लेक रोड, एरी पी ए -16507, यू.ए.ई.
654.	210866	श्री बान्द्रास अथरेया टी पी फ्लॉट नं. 432, वी क्रॉस, I मेन भारतरत्ना जेम्बरडी टाटा नगर सहाकर नगर पोस्ट बंगलौर-560092
655.	210877	श्री वीरप्पन एस # 03-585, ब्लॉक 3236, सेंगकांग इस्ट वे, सिंगपोर-543323
656.	210893	श्री जो मैथ्यू चीफ एकाउंटेंट, वाल्फिना इकोम सर्विसिज एफ.जेड.एल.एल.सी पी ओ बाक्स 500310 दुबई इंटरनेट सिटी, दुबई, यू.ए.ई.

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
657.	210911	मिस नीलिमा बाला वाई 6-3-609/19 आनंद नगर खैराताबाद, हैदराबाद-500004
658.	210942	मिस पासुपुलेटी प्रेमा लक्ष्मी 14-131, पी एन्ड टी कालोनी दिल्लुमुख नगर, हैदराबाद-500060
659.	210994	श्री राज मोहन एन 38-13/9 प्लॉट नं. 37 विनोभानगर कालोनी सैनिकपुरी, सिकंदराबाद-500094
660.	211017	मिस सुधा बी 7 फ्लोर, लिंगपुर हाऊस हिमायत नगर, सिकंदराबाद
661.	211055	मिस रेवती कोव्वुरी 2 फ्लोर, एल वी चवन सोमजीगुडा, हैदराबाद-500003
662.	211056	श्री साकेत भारतिया 20/2 बिट्टल माल्या रोड बंगलौर-560001
663.	211097	श्री अंजीरेड्डी के क्वार्टर नं. 2 वी आर कॉम्प्लेक्स कासी पेट, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट वैकटगिरी-524132
664.	211150	श्री श्रिविक्रम रेड्डी चिंटाला 9/696, अल्मासपेट कुदाहपाह-516001
665.	211176	श्री जनार्धना गुप्ता एस डोर नं. 10-15-1ए कोटा कोम्पला लेआउट तिरुपति-517501
666.	211218	मिस प्रिया रामचन्द्रन सिनीयर ऑडिटर, बहल लाड एन्ड अल सयेध चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, पी ओ बाक्स 25709 दुबई, यू.ए.ई.

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
667. 211231	श्री कृष्ण किशोर मैलिसेही 102 गौरी अपार्टमेंट्स हिमनगर नगर, हैदराबाद-500029	676. 211544	श्री विष्णु भूषण बेरिक् एरिया ऑपरेटिन्स मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड आरएनएन डिवीजन I फ्लोर नं. 87-91, एल पी कॉम्प्लैक्स, सिद्धनगर नगर, पौडीचेरी-605003
668. 211282	मिस बीजी रविन्दन नं. 5 भुवनेश्वरी नगर सेलाहपुर बी ओ, चैन्नई-600073	677. 211550	श्री दीपक नाथकवाडी एस नं. जी 1545 कैम्पना स्ट्रीट सुशीला रोड, दुहा मवाली बंगलौर-560004
669. 211301	श्री देवली बाबू येन्दलुरी डी नं. 14-54, कामयमपल्ली विश्वरू डिस्ट्रिक्ट, पकालम पोस्ट-517112	678. 211596	श्री सत्कनारायण बरातम फ्लैट नं. 205, 10-216/1 एसवीएस अपार्टमेंट्स राधवेन्द्र टेम्पल लेन, श्री वैकटेश्वरा नगर मल्कमिरी, हैदराबाद-500047
670. 211343	श्री संदीप सुराना केयरऑफ एच सी हीरावट फ्लैट नं. 13, एवरैस्ट कालोनी लक्ष्म कोटी, टॉक रोड जयपुर-302015	679. 211614	मिस श्रुति गुप्ता 1624 फर्स्ट फ्लोर ईस्ट एंड मेन रोड, 9 ब्लॉक जावा नगर, बंगलौर-560069
671. 211376	श्री श्रीकंठ एन बी एस एन फ्लैट नं. 202, वैश रैजीडेन्सी रोड नं. 10, बजारा हिल्स हैदराबाद-500034	680. 211664	मिस कोमलित के 135 एम एस कोएल स्ट्रीट रोयापुरम, चैन्नई-600013
682. 211427	मिस मिन्काशी आर एसोसिएट, सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लि. ओहरी टॉवर्स न्यू नं. 9-1-154 सेबास्तिन रोड, सिकंदराबाद-500003	681. 211710	श्री हरि कृष्णा पी ए-59, रेलवे क्वार्टर्स कासबेगुडा, हैदराबाद-500027
673. 211440	श्री सत्य साई जी बी एस एस डी नं. 16-11-485 एक्व त्रिनेत्र सुपर मार्केट, प्रशांत कॉम्प्लैक्स दिलमुख नगर, हैदराबाद-500035	682. 211875	श्री जो जॉन बदरे एन्ड कं. पीडबल्यूसी पी ओ बाकस 20174, सफाट 13062, कुवैत इनवैस्टमेंट कं. बिल्डिंग कुवैत
674. 211449	श्री रत्नाकर टेंकाला क्रेडिट सपोर्ट ऑफिसर इंज व्यास बैंक लिमिटेड सुपर बाजार बिल्डिंग्स विशाखापटनम-530001	683. 211887	श्री साधु वेधा नारायणन आर न्यू नं. 11 ओल्ड नं. 9 I फ्लोर, सम्बसीकम स्ट्रीट टी नगर, चैन्नई-600017
675. 211517	मिस नीता डी शाह # 1308 I फ्लोर, 2 फ्लोर 24 मेन, के एच बी कालोनी अपो टू बैसकम ऑफिस बंगलौर-560079	684. 211940	श्री सुजयमणि पी 34, सैकंड स्ट्रीट, राजाजी नगर विल्लीक्कम, चैन्नई-600049

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
685.	212017 मिस गौरी जे 65 पी देवी अपार्टमेंट्स ब्लॉक II III फ्लोर, कृष्णास्वामी रोड कोएंबतोर-641001	694.	212266 श्री चन्दन मोहपत्रा ब्रांच क्रेडिट मैनेजर आईसीआईसीआई होम लोन आईसीआईसीआई बैंक, 3 फ्लोर एमजी स्कवेयर, पद्मा जंक्शन कोची-682035
686.	212030 श्री मोनेश डी मोहन ए-503, संगीता अपार्ट्स वी क्रॉस, मल्लेश्वरम बंगलौर-560003	695.	212326 श्री जगन के 4/8/12 शानमुगम स्ट्रीट मेदुपल्लयम-641301
687.	212102 श्री राजाशेखर गुमदापू एच नं. 1-2-593/3/ए, # ए-7 राववेन्द्र कृपा अपार्ट्स, दोमलगुडा, गगनमहल कालोनी, हैदराबाद-560029	696.	212333 श्री श्रीधर एम जी नं. 95, 4 क्रॉस, विनायका लेआउट विजयनगर, बंगलौर-560040
688.	212125 श्री केनूपाल स्वामी वाराणसी डी नं. 32-101, मेन रोड बाजार सैक्टर, डिजीआनगरम डिस्ट्रिक्ट बोम्बेली-535558	697.	212380 श्री विवेक वरदान 1302-बी-बैटवुड, हीरान्दिनी गार्डन्स शंकराचार्य मार्ग, पोवाई मुम्बई-400076
689.	212131 मिस ज्योत्सना प्रिया 23-6-851/2 शाह अलि बांद हैदराबाद-500065	698.	212385 श्री राजेश खन्ना वी मैनेजर - फाईनैस एसएचवी एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड IV फ्लोर, सुपर गैस हाउस, एसडीई सेरीन चैम्बर्स, 8-2-334, रोड नं. 7 बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034
690.	212139 मिस अर्चना डी नं. 234 'रामकृपा', 'सी' रोड कालाप्या ब्लॉक श्री नगर, बंगलौर-560050	699.	212395 श्री अमित गुलाटी मैनेजमेंट-ट्रेनी मै. बायोकोन इंडिया लि. 20 के एम, होसुर रोड इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी पी ओ बंगलौर-561229
691.	212143 मिस रमा एस एफ-01, हिमावन अपार्टमेंट्स ब्लॉक II, कोकोनट, गार्डन नगराभावी मेन रोड बंगलौर-560072	700.	212430 श्री किरन कुमार काज़ा 29 बाग्यालता, कालोनी वसंतलिपुरम, हैदराबाद-500070
692.	212239 श्री मोहन रामचन्द्रन बैंक हाउस, चित्तूर रोड एनाक्लूम डिस्ट्रिक्ट, कोची-682035	701.	212448 श्री रामकृष्ण चौधरी एम वेन्दुरु, रायावरम मंडलम इस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट रामचन्द्रपुरम-533255
693.	212247 श्री वामशिधर जी 8 फ्लोर डीबीएस व्हेस्टमिनिस्टर बिल्डिंग 108 आर के सलाई चैन्नई-600004	702.	212492 श्री रंगप्पा एस नं. 73, III फ्लोर, एजी मैशन एस जे पी रोड, बंगलौर-560002

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
703. 212562	श्री जसवंत कुमार सेठिया मै. इमामी लिमिटेड इपीआईपी कॉम्प्लैक्स अमीगाओ, गुवाहाटी-781031	711. 212756	श्री परमेश एस आर # 1173/15 सिद्धलिङ्ग निलाया बज्जाना स्लेन विष्णुवरदत्ता रोड चमराजापुरम, करनाटका, मैसूर-570005
704. 212564	श्री देविआह एम सी II फ्लोर, चैसकेयर टॉवर्स सेनाटोफ रोड, टेनमपेट चैन्नई-600018	712. 212832	मिस अनूबा सी फ्लैट 1-सी न्यू नं. 10(ओल्ड नं. 27) कोट्स रोड, 1-स्त्री गंधर्वा कोर्ट टी नगर, चैन्नई-600017
705. 212572	श्री बालमुक्कमण्यम के विस्वम्स अपार्ट्स 1 फ्लोर 25 श्रीपुरम 1 स्ट्रीट रोयापेत्ताह, चैन्नई-600014	713. 212908	श्री श्रीकान्त पी जी 3/13 वैकटापुरम कालोनी तालुक ऑफिस रोड सेदपेट, चैन्नई-600015
706. 212576	श्री रघुनाथन एस अपार्ट 1409, 115 हिल क्रैस्ट अपार्टमेंट मिस्सिसौगा ओन्टेरिओ-एलडबी 3 वाई कनाडा	714. 212928	मिस लक्ष्मी पैड्याला एच नं. 1-8-100/3/बी रोड नं. 4, विद्युत नगर हैदराबाद-500060
707. 212629	मिस रीना टकर जूनियर फार्मेशियल अनालिस्ट ग्लोबल रियलिटी आउटर्सिंग इंडिया प्रा. लि. 304 रहेजा टॉवर्स 177 अन्ना सलाई, चैन्नई-600002	715. 212950	श्री गणेश चन्द्र बानिया रू 135 श्री चक्र, पाईप लाईन रोड 11 फ्रॉस, मल्लेश्वरम (बिहाइंड कैनरा बैंक), बंगलौर-560003
708. 212649	श्री लक्ष्मी नारायणन डी 19/10, अब्बाकाल्म लिंकॉन स्ट्रीट नजीब एवेन्यू, चिटलापक्कम चैन्नई-600064	716. 212990	श्री मलिक अरूण बुलुसु 101, 6-3-596/51/ए विस्वा साई रैजीडेंसी वैकट रमना कालोनी, खैराताबाद, हैदराबाद-500004
709. 212698	श्री वैकट नरसिंहा शर्मा मुजुक्कुला 6-1-132/66, एस वी आरकेड प्लॉट नं. II ए, पद्मारॉव नगर नियर स्कंदगिरी टैम्पल सिकंदराबाद-500061	717. 213015	श्री प्रभाकर केयर ऑफ श्री एन एन शर्मा फ्लैट नं. एस 1 फर्स्ट लेन अप्पु स्ट्रीट माएलापोर, चैन्नई-600004
710. 212715	श्री सत्यनारायणा घाई वी ऑफिसर-फार्मैस एन्ड एकाउंट्स रिलाएंस इंडस्ट्रिज लि. बोडकल्यू 120, 4 फ्लोर पेट्रोलियम हाऊस, धीरूपाई अंबानी नॉलेज सिटी, कोपरखैरने नवी मुम्बई-400709	718. 213084	श्री राकेश कुमार अग्रवाल सी-307 जीवन विशाखा अपार्टमेंट्स एम एम टी सी कालोनी सीताम्माधारा, विशाखापटनम-530013
		719. 213086	श्री विशाल सिरोदिया 204 सिरी स्नेहा सम्पदा अपार्टमेंट्स 7-1-282 एस आर नगर हैदराबाद-500038

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
720.	213112	मिस हयुमेरा मुन्कर एच नं. 5-4-109 कमलनगर, वनस्पतीपुरम हैदराबाद-500070	729.	213258	श्री शेही बी बदरीनाथ एस्पूरेस कन्सल्टेंट ब्रिस्क कोरपोरेट सर्विस प्रा. लि. फ्लैट नं. 2-सी, 2 फ्लोर जे पी ग्रीनलैंड अपार्ट, नं. 5/9 5 स्ट्रीट नंदानम चेन्नई-600035
721.	213127	श्री सद्दीबकुमार तमन्ना आईयप्पा निलायम, पेरिकी विथी, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट, हरामंछलम पी ओ-532459	730.	213261	श्री चन्द्र शेखर खाजा एच नं. 9-7-84 कमान बाजार, सम्माम-507001
722.	213138	मिस पद्मवी लक्ष्मी अम्माकूर एफ-3 अग्रशा पुंज अपार्टमेंट्स # 35 हाई स्कूल रोड सेक्रेटेरियट कालोनी, अंबकूर चेन्नई-600053	731.	213332	श्री सुधीर वी एल 17/1 अपो प्रभात जैन टेम्पल रोड, वी वी पुरम बंगलौर-560004
723.	213165	श्री सुभाष कुमार तिवरेवाल जी-7, समतागिरी महारिषी विल्ड 13 मेन, 5 क्रॉस कोदीहल्ली, बंगलौर-560008	732.	213334	श्री सुरेन्द्र टादीकमल्ला केयर ऑफ श्री टी लक्ष्मी सुब्बेआह डी नं. 5/134, पत्तापी स्ट्रीट प्रकाशम डिस्ट. मार्कापुर-523316
724.	213170	श्री फिलिप टी अय्याल 97 रामकृष्ण रोड कॉक्स टाऊन, बंगलौर-560005	733.	213429	श्री शॉलम विफ्रेड डिस्सुजा 2111, बागा रोड, खोबरा वादो कैलनगुटे, बारदेज, गोआ-403516
725.	213180	श्री चलपति वी वी एस 307, सत्यासाई अपार्टमेंट्स श्रीनिवासनगर कालोनी ईस्ट अमीरपेट, हैदराबाद-500038	734.	213451	श्री श्रीकांत एम मुदलापुर हाऊस, स्टेशन रोड रानीपेट, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट होसपेट-583201
726.	213220	श्री कर्तिक टी आर एन फ्लैट नं. 304, 1-8-528 जानकीरमन अपार्टमेंट्स चिक्काडपल्ली, हैदराबाद-500020	735.	213454	श्री अनुज जैन के-56/5 2 फ्लोर श्री कृष्णा अपार्टमेंट्स अन्ना नगर ईस्ट, चेन्नई-600102
727.	213242	श्री एन्टोनी एडगर फ्लैट नं. 2, वसंत अपार्टमेंट्स नं. 2 चारी रोड, शेनॉए नगर चेन्नई-600030	736.	213523	श्रीसम्बासिवा रेड्डी गुज्जाला एच नं. 42-669/3 चंदाबाग, मौलाली हैदराबाद-500040
728.	213254	मिस चित्रा एम केयर ऑफ डा. ई नारायणन डी-2, जयनगर रेजीडेंसी 30 क्रॉस, 3 ब्लॉक, जय नगर, बंगलौर-560041	737.	213527	श्री राजकुमार शानभोग 'रामसुंदर', शेनॉए कम्पाउंड वोल्काडू, उडुपी-576101

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
738. 213616	श्री मुरली के जी2 सिलवान कौसले अपार्टमेंट्स 10/13 नेरकुन्दम रोड चिन्माया नगर, चैन्नई-600111	747. 213903	मिस लक्ष्मी के श्री हरि फ्लैट्स 22/2 ए जी एस कालोनी 11 क्रॉस स्ट्रीट, कोट्टीवक्कम चैन्नई-600041
739. 213652	मिस आरती आर महेर 847 पी एच रोड 17ए आनंद अपार्टमेंट्स किलपौक्क चैन्नई-600010	748. 213927	श्री शरथ कुमार पी # 269, फर्स्ट फ्लोर डबल स्टोरी, न्यू राजेन्द्र नगर न्यू दिल्ली-110060
740. 213731	श्री विष्णु आर अरुकोनमडु चैरुक्करम पुल्लायिला पी ओ त्रिवेन्द्रम डिस्ट्रिक्ट किलीमनूर-695601	749. 213963	श्री श्रीनिवास ए आर रू 207, "सौम्या सिग्नस" दीवान माधवा रोड बासवनागुडी, बंगलौर-560004
741. 213736	मिस रूपा एस ईआरपी कनसल्टेंट सत्यम कम्प्यूटर सर्विसिज लि. सत्यम साईबर स्पेस, सर्वे नं. 12पी कोडपुर विलेज सेरीलिंगमपल्ली मंडल आर आर डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद	750. 213995	श्री पाई संजय विष्णु 1/5, 2 क्रॉस, 2 फ्लोर कैम्ब्रिज रोड अल्सूर, बंगलौर-560008
742. 213773	श्री सुरेन्द्रनाथ नल्लूरी डी नं. 6-10-7/1 फर्स्ट फ्लोर 10/2 अरुन्डेपेट, गन्तूर-522002	751. 214044	श्री सुधीर संयापाल एस केयर ऑफ श्री एम दत्तात्री रॉव एच नं. 8-3-228/ए/1/एफ युमुफगुडा चैकपोस्ट रहमाथनगर रोड, हैदराबाद-500045
743. 213861	श्री वरुण लोधा 106 धर्मपुरम, फोर्थ स्ट्रीट, टी नगर, चैन्नई-600017	752. 214203	श्री गोकुल नाथ बी 615, 3 लिंक, 8 क्रॉस एस आई टी एक्सटेंशन टमकूर-572103
744. 213865	मिस प्रिया जे एस 6/36 पोन्नेगौडन पुडूर पी ओ एस एस कुलम बाया, कोएंबतोर-641107	753. 214228	श्री चित्ता रंजन परिदा नं. 25/2, बालाजी लेआउट 16 मेन, 5 क्रॉस, पद्मानब नगर बंगलौर-560070
745. 213876	मिस पेरी नीरजा असिसटेंट मैनेजर लवलाक एन्ड ल्यूस सर्विसिज प्रा लि. 2 फ्लोर स्ट्रीट पैट्रिक्स बिजीनेस कम्प्लेक्स 22 म्यूजियम रोड, बंगलौर	754. 214263	श्री शशिकुमार सेवाराजजी बदमेरा केयर ऑफ रामअवतारजी सोनी 23-6-918/10, शाह अलि बांदा राजा रे रेयन की दीओली हैदराबाद-500002
746. 213897	श्री विकास गोल्तवा फ्लैट नं. 502, एवरेस्ट ब्लॉक आदित्य अनक्लेव अमीरपेट, हैदराबाद-500016	755. 214277	मिस कविता एस सुषा निवास नं. 15, भारतीय स्ट्रीट सुल्ताई मा नगर, थोरईपक्कम चैन्नई-600096

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
756. 403282	श्री सेठिया विकास फार्मेशियल अनालिस्ट केयर ऑफ केएसके एनर्जी वैन्सर्स लिमिटेड 8-2-293/82/ए/431/ए रोड नं. 22, जुबली हिल्स हैदराबाद-500033	759. 501193	मिस गौड़ा दिव्या फार्मेशियल अनालिस्ट-प्राक्टीसिंग अर्ग्युमेंट्स इंडिया लिमिटेड सुब्रमण्य अवरकोड नं. 12 बैनरघाट मेन रोड बंगलूर-560029
757. 500762	श्री लक्ष्म श्रेयश जे पी रिव-वानी, टॉवेल ओईल एन्ड गैस कं. एलएलसी पी ओ बॉक्स 861, पी सी 112 रुखी, सल्लानत ऑफ ओमन	760. 502409	श्री श्रीवत्स गैबरियल इंडिया लि. 52-55, एस नं. 102/3-106 (पीटी) सिम्पकोम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लैक्स फेज-II घेरनापल्ली विलेज, होसूर-635109
758. 500979	श्री शर्मा शंतिनु एएल-169, 1 स्ट्रीट 11 मेन रोड, अन्ना नगर चेन्नई		

डा. अशोक हल्दिया
सचिव

चैन्नई-600 034, दिनांक 19 जुलाई 2006

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3एससीए(8)/2/2004-2005 : यह संस्था सूचित करती है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अधिनियम 1988 के विनियम 10 (1) के क्लॉज (iii) के द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के नाम प्रेक्टिस सर्टिफिकेट की ज़रूरत न होने के कारण उनके नाम के समक्ष दी गई तिथि से रद्द किया जाता है, क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है।

क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
1. 002451 श्री रे अनुपम चन्द्रा एफसीए फ्लैट नं. 4 लावेनिर अपार्टमेंट्स। 108 पाप्पामल कोएल स्ट्रीट कुरुचिकूपक्कम पोडीचेरी-605012	01/04/2004	7. 007031 श्री गोपीनाथन टी एफसीए मंजलिपाराम्बु एनाकुलम डिस्ट. चौवारा-683571	01/04/2004
2. 004412 श्री चन्द्रशेखरन एन एफसीए साई दीपम 61 I मेन रोड, बेसंत नगर चैन्नई-600090	18/01/2005	8. 007499 श्री थॉमस जॉर्ज एसीए फ्लॉट नं. 1080 (न्यू नं. 169) 6 एवेन्यू, अन्ना नगर चैन्नई-600040	31/03/2004
3. 004598 श्री श्रीनिवास राघवन ए एफसीए फ्लॉट नं. 80, डी नं. 29 राजेन्द्रन स्ट्रीट थिरुनगर वालासारावक्कम चैन्नई-600087	31/03/2004	9. 009208 श्री काथीरेसन एल एफसीए 22 कामाराजर रोड रामकृष्णा नगर चैन्नई-600087	31/03/2004
4. 004873 श्री तारापोरेवाला एन एम एसीए फ्लॉट नं. 16-3-39-42 सरवासुखी कालोनी, वेस्ट मेरेडफल्ली सिकंदराबाद-500026	31/03/2004	10. 009256 श्री वैकटपैया शास्त्री के एफसीए 194 फर्स्ट क्रॉस स्ट्रीट नतेसा नगर, थिरुगमबक्कम चैन्नई-600092	31/03/2004
5. 006692 श्री रहमान खान के एफसीए 200/सी, III ब्लॉक VII मेन, जयनगर बंगलौर-560011	22/05/2004	11. 009763 श्री बन्नी नारायणन एन एसीए 77/1 भीमन्ना मुदली स्ट्रीट अल्वरपेट, चैन्नई-600018	01/04/2004
6. 006926 श्री कृष्णामूर्ति आर एसीए 14 सारावना न्यू नं. 348 (ओल्ड 243) टीटीके रोड, अल्वरपेट चैन्नई-600018	31/03/2004	12. 009926 श्री गोपालकृष्णन पी वी एसीए ग्रुप इंटरनल ऑडिट मैनेजर नील कमल ग्रुप पोस्ट बाक्स 2409 दुबई, यू.ए.ई	01/04/2004
		13. 010033 श्री श्रीनिवासन एस एफसीए फ्लॉट नं. 12, (खोर नं. 18) 10 क्रॉस स्ट्रीट, एजीस कालोनी वेस्ट केलाचेरी चैन्नई-600042	01/04/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
14.	012556 श्री नरसिंहा रॉय बडी रेड्डी एसीए 81-17-1 श्री वैकटेश्वर नगर जवाहर लाल नेहरू रोड राजामहेन्द्रवरम-533103	01/04/2004	23.	019146 श्री सोम्याजुलु डी ए एफसीए 6-1-85/4 सैफाबाद हैदराबाद-500004	17/06/2004
15.	012583 श्री सेशान सी आर एसीए अभिरामी अपार्टमेंट्स फ्लैट (4) 26 (ओल्ड नं. 18) 1 स्ट्रीट अभिरामपुरम, चैन्नई-600018	31/03/2004	24.	019175 श्री राजागोपाल वी एफसीए फ्लैट नं. 2ए, पद्माश्री अपार्टमेंट डोर नं. 34 जयलक्ष्मीपुरम फर्स्ट स्ट्रीट नंगमबक्कम, चैन्नई-600034	22/03/2004
16.	012698 श्री प्रताप सतविद्युन्द नरगुंडकर एफसीए 8-2-693/2/39, धियोल्ला नगर कालोने रोड नं 12, बंजारा हिल्स हैदराबाद-500034	25/10/2004	25.	019277 श्री महाबलेश्वराप्पा आई एफसीए कैफोइडहल्ली, कैरमेलराम पोस्ट बंगलौर-560035	31/03/2004
17.	014635 श्री कल्याणसुंदरम जी एसीए जीएफ-1 बन्ना अपार्टमेंट्स बाई-पास रोड मदुरई-625010	01/04/2004	26.	019337 श्री वरधीज टी पी एफसीए 301-2339, पार्क टॉवर अवे मिसिसीसागा, ओन्टेरियो-एल्टापी8 कनाडा	23/07/2004
18.	015598 श्री बालकृष्णन पी जी एफसीए बी-10, रागमलिका अपार्टमेंट्स नं. 2, जीवरथिनम नगर अड्यर, चैन्नई-600020	14/07/2004	27.	019685 श्री रज्जु वी के एफसीए चीफ फाईनैशियल ऑफिसर रॉयल सुंदरम एलाएंस इन्श्योरेंस कं. लि. सुंदरम टॉवर्स, # 46 वाईट्स रोड चैन्नई-600014	01/04/2004
19.	016249 श्री पालनीसैमी एम एफसीए प्लॉट नं. 30 इंडेन नगर, जागीर रेड्डीपति सलेम-636302	31/03/2004	28.	019710 श्री संकरा केनू गोपाल रॉय एफसीए सिनीयर मैनेजर आंध्रा बैंक, जेन्सल ऑफिस एसवीयू कैम्पस तिरुपति-517502	07/06/2004
20.	018552 श्री कृष्णामूर्ति एस एसीए 2 सी वेस्ट माय स्ट्रीट श्रीनगर कालोने रोड सैदापेट, चैन्नई-600015	01/04/2004	29.	019729 श्री सिद्धार्थ बी एफसीए फर्स्ट फ्लोर नं. 32/2, वी मेन रोड चमारजापेट, बंगलौर-560018	01/04/2004
21.	018576 श्री उमा महेस्वर एफसीए 355 आई वी मेन 1 ब्लॉक जयनगर 7 ब्लॉक वेस्ट बंगलौर-560082	31/03/2004	30.	019750 श्री नागराज्जन आर एफसीए 'अहरबाद', 1088 एल एन रेड्डी गार्डन्स करिनयापल्लया स्ट्रीट बॉम्बे टाऊन पी ओ बंगलौर-560084	01/04/2004
22.	018989 श्री अप्पा रॉय वी एफसीए प्लॉट नं. 36 पी एन्ड टी कालोने अपो. अहरीए ऑफिसियल त्रिमुराचेरी, तिरुवन्तूर-500015	01/04/2004			

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
31.	020282 श्री लक्ष्मणन ए एन एफसीए नं. 2/14 चौक्कालिंगपुरम I स्ट्रीट पुडुक्कट्टई डिस्ट्रिक्ट रावावरम पी ओ	31/03/2004	39.	022086 श्री रमैयाह जी एफसीए 301 भास्कर अनक्लेव नागार्जुन नगर, अमीरपेट हैदराबाद-500073	31/03/2004
32.	020578 श्री नारायणन आर एफसीए फ्लैट # 14 II फ्लोर विरवा कमल अपार्टमेंट्स 245 आर के मड रोड माएलापोर, चैन्नई-600004	09/06/2004	40.	022359 श्री रवि आर एसीए न्यू नं. 84 (ओल्ड नं. 81) थर्ड स्ट्रीट, टाटाबाद कोएंबतोर-641012	01/04/2004
33.	020654 श्री जयकुमार व्हाई एफसीए नं. 20, (ओल्ड नं. 17) देवकीअम्मल स्ट्रीट चैन्नई-600030	29/06/2004	41.	022473 श्री कनकराज जगावत एफसीए 195, गोविंदप्पन्नैकन स्ट्रीट उमाजी कॉम्प्लेक्स I फ्लोर चैन्नई-600001	22/04/2004
34.	021368 श्री मनोहरन जी एफसीएडायरेक्टर (फार्मैस) रघू रामा रिन्यूएबल एनर्जी लि. फ्लॉट नं. 30-ए, रोड नं. 1 फिल्म नगर, जुबली हिल्स हैदराबाद-500033	01/05/2004	42.	022760 श्री प्रभाकर वी एसीए फ्लैट नं. 17/4 अनुराग अपार्टमेंट्स 8 क्रॉस स्ट्रीट, शास्त्री नगर, अड्यर, चैन्नई-600020	01/04/2004
35.	021612 श्री गिरीबारी एस एसीए न्यू नं. 35 (ओल्ड नं. 15) सैथोमे हाई रोड माएलापोर, चैन्नई-600004	01/04/2004	43.	022885 श्री सेडरिक रीगो एसीए 49/8 चार्ल्स कैम्पबेल रोड एक्सटेंशन कॉक्स टाऊन बंगलौर-560005	15/09/2004
36.	021946 श्री रवि कुमार आर एसीए सैक्रेटरी एन्ड फार्मैशियल कन्ट्रोलर इंसोन-एमआर टीप चेंजर्स (पी) लि. न 232 एम टी एच रोड तिरुनीनरयूर, चैन्नई-602024	01/04/2004	44.	023307 श्री सबाबायंगम जी एफसीए फ्लैट नं. 202 पैनोरामा अपार्टमेंट्स फ्लॉट नं. 1-11-252/47 एन्ड 48 मोती लाल नगर बेगमपेट हैदराबाद-500016	03/09/2004
37.	022030 श्री जैम्स जॉन एसीए ए-2, अल्ता टॉवर्स 187 पी एच रोड किलपौक, चैन्नई-600010	31/03/2004	45.	023463 श्री गोविंद राजन के एफसीए 9-4-84/52, काकातिया नगर हैदराबाद-500008	01/04/2004
38.	022033 मिस अनुराधा जे एसीए फ्लैट नं. 3 न्यू नं. 15 पोस्टल कालोनी 3 स्ट्रीट वेस्ट मैम्बलम, चैन्नई-600033	01/04/2004	46.	023630 श्री प्रसाद रॉय वी के सी एफसीए 8-3-167/07/2, लक्ष्मी नगर केयर ऑफ डा. लक्ष्मी अपो : कैनरा बैंक कल्याण नगर ब्रंच हैदराबाद-500038	01/04/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
47.	023684 श्री शेखर एन सी एफसीए 4460 ट्यूकैना कोर्ट, # 506 मिस्सीसोगा, ओन्टेरियो-एलडआर 3के9 कनाडा	01/04/2004	56.	024931 श्री प्रकाश आर एफसीए न्यू नं. 13 (ओल्ड नं.6) श्री वैकटगिरी, ट्रस्टपक्कम साऊथ स्ट्रीट आर ए पुरम, चैन्नई-600028	19/08/2004
48.	023841 श्री सुंदरा राजन वी के एफसीए 15 19 क्रॉस नैक्स्ट टू कासी मुट्ट मल्लेश्वरम, बंगलौर-560055	01/04/2004	57.	024981 श्री वैक्टरमन्न के एफसीए जी एम फार्मैस टाटा टी लि. पैकेट टी डिप्ट एम ई एस रोड पी बी नं. 2286 यशवंतपुर बंगलौर-560022	31/03/2004
49.	024441 श्री जेड्री श्रीनिवास संजय नाथ एफसीए 317 स्वप्नालोक 3 फ्लोर सरोजिनी देवी रोड सिकंदराबाद-500003	25/03/2004	58.	025008 श्री कृष्ण कुमार डी एसीए नं. 3 अम्बाल फ्लैट्स ऑफिसर्स कालोनी सत्यामूर्ति नगर नियर कृष्ण अपार्टमेंट्स मोगापैर चैन्नई-600050	11/08/2004
50.	024452 श्री शेखर आर एसीए डी-7 आशियाना अपार्टमेंट्स 9 थिन्स कालोनी II क्रॉस स्ट्रीट, अल्बरपेट चैन्नई-600018	31/03/2004	59.	025247 श्री डीसुजा त्रिवेंद्र पीटर एसीए स्ट्रीट एनक्वीण फायरी 85 होसुर रोड बंगलौर-560095	10/02/2005
51.	024509 श्री लक्ष्मीनारायणन वी एसीए पोस्ट बॉक्स नं. 2 गैबोरोन, बोर्ट्सवना	13/12/2004	60.	025515 श्री भट बलराजी वी एफसीए # 302, 2 फ्लोर एम्बेसी ऑरफिड, 8 मेन, आरएमवी एक्स. बंगलौर-560080	01/10/2004
52.	024537 श्री कलिकी विजयलू रेड्डी एफसीए 6-3-609/195 आनंद नगर खैरताबाद, हैदराबाद-500004	01/07/2004	61.	025527 मिस सवित्री वी एसीए फ्लैट 203 'कौशल रेजीडेंसी' 1854/1 1 क्रॉस 3 स्टेज राजाजी नगर, बंगलौर-560021	31/03/2004
53.	024600 श्री वैकटेश ए एन एसीए नं. 383 5 मेन, 3 स्टेज 3 फेज 2 ब्लॉक बानासंकरी बंगलौर-560085	31/03/2004	62.	025684 श्री मधुवीर चंद एफसीए न्यू नं. 54, ओल्ड नं. 137 नॉर्थ उम्मान रोड टी नगर, चैन्नई-600017	16/11/2004
54.	024620 श्री नरोत्तम रॉय पी एफसीए 6-3-655/2/4 सिविल सप्लायर्स भवन लेन सोमजीगुडा, हैदराबाद-500082	14/08/2004	63.	026015 श्री रंगनाथन आर एफसीए 19 बलराजी नगर II स्ट्रीट, रोयापेताह चैन्नई-600014	01/07/2004
55.	024668 श्री रविकुमार एस एफसीए फ्लॉट 42/18 सैकंड मेन रोड कलैमानल नगर चैन्नई-600097	17/09/2004			

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
64.	026235	श्री वैकटेश्वरा रॉव के एफसीए फ्लॉट नं. 66, अयैप्पा सोसाएटी माधापुर, जुबली हिल्स एक्स. हैदराबाद-500081	01/10/2004	72.	027460	श्री अजीतकुमार एस एफसीए मैनेजर-फाईनैस एन्ड एडमिनिस्ट्रेशन अल धाप्रन इंश्यूरेंस कम्पनी पी एस सी पी बी नं. 319 अबू धाबी-यू.ए.ई	01/04/2004
65.	026618	श्री सुंदर ए एम एफसीए 308, 26 क्रॉस, 9 मेन बानशंकरी II स्टेज बंगलौर-560070	14/07/2004	73.	027517	श्री श्रीनिवासन के आर एफसीए 1221/5 अमीथिस्ट आरकेड 20 मेन रोड, अन्ना नगर वेस्ट चेन्नई-600040	25/06/2004
66.	026643	श्री बालगुरु जे एसीए एकाउंटेंट अबू धाबी इनवेस्टमेंट ऑथोरिटी पी ओ बाक्स 3600 ओपरेशन्स डि. अबू धाबी-यू.ए.ई	20/07/2004	74.	027592	मिस चारू थाराकेश्वर एफसीए फ्लैट नं. 9, डा. वैष्णव विला 8, 15 क्रॉस स्ट्रीट शास्त्री नगर, अड्डयर चेन्नई-600020	19/08/2004
67.	026798	श्री रविशंकर बी एसीए सन ऑफ श्री पी वी बालसुब्रमण्यम न्यू नं. 14 (ओल्ड नं. 23), आदित्य फ्लैट, गोपालन मेनन रोड कोदम्बक्कम चेन्नई-600024	15/05/2004	75.	027733	श्री शिवाकुमार आर एफसीए ओल्डनं. 11, न्यू नं. 6 जे पी स्ट्रीट, वेस्ट मैम्बलम चेन्नई-600033	01/04/2004
68.	026800	श्री चन्द्रमौली जी एफसीए राज मेजर, फ्लैट नं. जी-2 25 ईस्ट रोड वेस्ट सिट नगर नंदनम, चेन्नई-600035	31/03/2004	76.	027793	श्री सुब्रमण्यन आर एसीए 2जे, चांद टॉवर्स 128, एल बी रोड तिरुवनमियूर, चेन्नई-600041	31/08/2004
69.	027092	मिस चित्रा प्रसाद एसीए 134ई टूंगाबाद्रा स्टारलिंग रोड नंगमबक्कम, चेन्नई-600034	31/03/2004	77.	027857	श्री सुभाष एम एफसीए फ्लैट #9 'कासा ग्रैंड' नं. 49, एल्लीअम्मान कोएल स्ट्रीट चेन्नई-600020	23/05/2004
70.	027232	श्री सुब्रमण्यन आर बी एफसीए फाईनैस मैनेजर सेवर स्टार ट्रेडिंग (एस) पीटीई लि. 156 सेसिल स्ट्रीट # 06-09 फार ईस्टर्न बैंक बिल्डिंग सिंगापोर-069544	01/04/2004	78.	028111	श्री कार्तिकेयन जी एफसीए 399 अल्लगेसन रोड, साईबाबा कालोनी, कोरंबतोर-641001	19/08/2004
71.	027415	श्री हरिहरन बी एसीए 185, साई नगर, सैकंड मेन रोड विरुगमबक्कम चेन्नई-600092	29/03/2004	79.	028156	श्री नरसिम्हा रेड्डी सी एफसीए नं. 6 बंगलौर डेयरी क्वाटर्स डा. एम एच मारीगोडा रोड बंगलौर-560029	01/04/2004
				80.	028157	श्री श्रीनिवासन के एसीए 11/6 बी-2 रंगनाथन फ्लैट्स नरलाप्पा स्ट्रीट, नेहरू नगर क्रोमेपेट, चेन्नई-600044	01/04/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
81.	028363	श्री सूर्या नारायणन एस एफसीए स्वामी अनुग्रहा नं. 26/62 मूर्ति स्ट्रीट वेस्ट मैम्बलम चेन्नई-600033	01/04/2004	90.	029818	श्री विजयाकुमार जी एफसीए नं. 205 सहना निलाया नं. 5 चन्द्रा रेड्डी लेआउट एस टी बेड, कोरमंगला बंगलौर-560047	01/04/2004
82.	028384	श्री प्रभाकर बी. एफसीए न्यू नं. 11 (ओल्ड नं. 6) थिरुवैगडम स्ट्रीट वेस्ट मैम्बलम, चेन्नई-600033	10/01/2004	91.	029841	श्री श्रीधर एस एसीए 20/130, रमेश्वरम रोड टी नगर, चेन्नई-600017	01/04/2004
83.	028583	श्री वगधीज पी डेवीड एफसीए इंटरनल आडिटर कतर इंश्यूरेंस कम्पनी पी ओ बाक्स 666 दोहा-कतर	26/06/2004	92.	029856	श्री संजीव कुमार पी एफसीए मैनेजर - एकाउंट्स ओमन इनवैस्टमेंट एंड फाइनेंस कं. साओग पी ओ बाक्स 2476 पी सी 112 रूबी सलतनत ऑफ ओमन	01/04/2004
84.	028774	श्री रमेश कामथ के एसीए नं. 6, 8 क्रॉस रोड प्रशांत नगर बंगलौर-560079	10/12/2004	93.	029889	श्री भास्करन पी एफसीए 2/2, संजीवी फिल्लई स्ट्रीट साईनाथापुरम, वैल्लुवर-632001	10/01/2005
85.	029030	मिस गीता ए एसीए न्यू नं. 26 नवीअम्पन स्ट्रीट महालिंगपुरम, नंमम्बलकम पी ओ चेन्नई-600034	01/04/2004	94.	029947	श्री र्मिन एस एफसीए 489 जुरांग वैस्ट एवेन्यू # 07-33 सिंगापोर-640489	25/08/2004
86.	029311	श्री कुरियन फिलिप एफसीए "सनी साईड" कम्प्यूटर पोस्ट तिरुवल्लूर-689382	31/03/2004	95.	029975	मिस वाल्मल्लु वासुदेवन एफसीए एस एम एस फ्लैट नं. 2 17-बी शांति नगर मेन रोड अडम्बलकम चेन्नई-600088	31/03/2004
87.	029662	श्री रमेश पी एसीए 4/218 सरोजिनी स्ट्रीट ई बी कालोनी, आईयर बंगलो, मदुरई-625017	03/01/2005	96.	033782	श्री सुब्रमण्यन श्रीनिवास एफसीए कोयर ऑफ श्री के एस शंकर 36 कृष्णा रेड्डी लेआउट 1 फेज, डोमलूर विलेज डोमलूर, बंगलौर-560071	31/03/2004
88.	029687	श्री गोधामन अर एस एफसीए 10 सैकंड स्ट्रीट जयलक्ष्मी नगर के के नगर पोस्ट तिरुचिरापल्ली-620021	16/07/2003	97.	037965	श्री गोपलकृष्णन नारायणन एसीए 1073 न्यू कंस्ट्रक्शन्स यूआरएस रोड टी के लेआउट (नियर कम्पिट डिपार्ट. स्टोर्स) मैसूर-570023	28/08/2004
89.	029754	श्री नेहमारन अर एफसीए ए-7 एशियन टॉवर्स 97/7 वी एवेन्यू अशोक नगर, चेन्नई-600083	30/06/2004				

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
98.	041303	मिस साबरी बी एसीए फ्लॉट नं. 23 "अक्षय" एलआईसी ऑफिसर्स कालोनी सिख विलेज, सिकंदराबाद-500009	11/08/2004	106.	058693	श्री चौधरी गोविंद कुमार एफसीए हाऊस नं. 133 बासावेश्वरा लेआऊट 4 क्रॉस, नागशेट्टीहल्ली बंगलौर-560094	12/07/2004
99.	042615	श्री श्रीनिवास राघवन एस एफसीए इंटरनैशनल रोम लिमिटेड 33 विलियम स्ट्रीट बजोरवुलु अकरा, घना	01/04/2004	107.	059666	श्री कार्तिक टी के एसीए न्यू नं. 8 (ओल्ड नं. 17) फर्स्ट स्ट्रीट नेहरू नगर अड्यर, चैन्नई-600020	01/04/2004
100.	044214	श्री वैक्टरमन अईयर बी एसीए न्यू नं. 14 (ओल्ड नं. 68) पुष्पावति अम्पाला स्ट्रीट वेस्ट मैम्बलम, चैन्नई-600033	31/03/2004	108.	062503	मिस साबू मोनिषा एसीए 323 मालप्रभा ब्लॉक बी 2 नैशनल गेम्स विलेज कोरामंगला बंगलौर-560095	31/03/2004
101.	052704	श्री दांगी राजीव कुमार एसीए 2064 16 डी मेन 1 क्रॉस हल II स्टेज इंदिरा नगर, बंगलौर-560038	01/04/2004	109.	071865	श्री कालिदास रॉव वेदूला एसीए 6-3-1200/2 अनीष रोजीडैन्सी उमा नगर, बेगमपेट, हैदराबाद-500016	01/04/2004
102.	053205	श्री विस्नाथन सुरेश एसीए मैनेजर मैनेजमेंट ऑडिट कैरा बाज़ार होलिडिंग्स (प्रा.) लि. प्रॉडक्ट बैग 115 मैबेरोन बोट्सवाना	10/01/2005	110.	075216	श्री शिवारामकृष्णन बी एफसीए मैनेजर-फाईनैस अपोलो हॉस्पिटल्स एन्टरप्राइज लिमिटेड लिंगयादीह विलेज (ऑफ) सीपट रोड बिलासपुर(सीजी)-495001	09/06/2004
103.	053208	श्री पोद्दार संजय कुमार एफसीए जनरल मैनेजर (एफ एंड सी) मै. ग्रासिम इंडस्ट्रिय लिमिटेड 1 फ्लोर अहुरा सेंटर महाकाली कैवस रोड नियर मिडल., अंबेरी ईस्ट मुम्बई-400093	01/04/2004	111.	079082	श्री मोहटा बसंत कुमार एसीए डी नं. 12 1 फ्लोर 13 क्रॉस विल्सन गार्डन नियर विल्सन मेनन अपार्टमेंट बंगलौर-560027	30/06/2003
104.	054881	श्री सुरेश शर्मा एसीए फाईनैस मैनेजर बेबी शॉप डबल्यूएलएल पोस्ट बाक्स नं. 23003 दोहा-कतार	31/03/2004	112.	092896	श्री बाजपई मनीष एफसीए फ्लैट नं. 1 फर्स्ट फ्लोर नं. 2 ए क्रॉस, एस.आर. लेआऊट मुक्ताशपाल्या, बंगलौर-560017	01/04/2004
105.	056594	श्री अरोकीयादैस ओकेएन एफसीए रेक्टर, गुड शेफर्ड सेमीनारी पोस्ट बाक्स नं. 47, नागालैण्ड दीमापुर-797112	27/09/2004	113.	093028	श्री अमिताभ एसीए 153, 5 मेन 6 क्रॉस के ई वी लेआऊट संजय नगर, बंगलौर-560094	26/08/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
114.	104317	श्री रामचन्द्र भट के एसीए कौडारे मुडू मुडू बैलूर पोस्ट, उडूपी डिस्ट्रिक्ट वाया मंगलौर कर्नाटक स्टेट करकला-574102	01/04/2004	122.	117599	श्री मनोज पीटर एसीए ऑडिटर, तल्लाबाबू-गजेलेह एन्ड कॉ. (टेगको) पी ओ बाक्स 1991 दुबई-यू.ए.ई.	16/12/2004
115.	104959	मिस राधा गोपाल कृष्णन 10/49 आशीर्वाद, रोड नं. 2, सिअन ईस्ट, मुम्बई-400022	01/04/2004	123.	200275	श्री रघुरामन वी एफसीए नं. 32 1 फ्लोर पटलाम्मा स्ट्रीट नियर साऊथ एंड सर्कल बासवन्गुडी बंगलौर-560004	01/09/2004
116.	106478	श्री वृत्त शरद श्यामसुंदर एसीए मैनेजमेंट ऑडिटर ग्रामिम इंडस्ट्रिज लि. सिमेट मार्किटिंग-बिजनेस 5 फ्लोर, इंडस्ट्री हकस 45 फेयरफील्ड लेआउट रेस कोर्स रोड बंगलौर-560001	31/03/2004	124.	200479	श्री वैक्टेस्वरन टी एस एफसीए 10-1-490 बलराम ब्लॉक्स वेस्ट मीडफ़ल्ली, सिकंदराबाद-500026	02/08/2004
117.	110170	मिस राध्या नाराजन एसीए केयर ऑफ एस वैक्टेस डबल्यू 342 चन्द्रालय अन्ना नगर वेस्ट एक्सटेंशन चैन्नई-600101	24/08/2004	125.	200540	श्री चैतन्या के के एफसीए नं. 32 1 फ्लोर पटलाम्मा स्ट्रीट नियर साऊथ एंड सर्कल बासवन्गुडी बंगलौर-560004	01/09/2004
118.	110288	मिस अनन्या घोशाल एसीए केयर ऑफ क. आर.एन. घोशाल 167, अंतरिक्ष अपार्टमेंट ब्लॉक-एच-3 विकासपुरी, न्यू दिल्ली-110018	28/04/2004	126.	200738	श्री सतीश वी एफसीए जी-4 डबल अपार्टमेंट्स नं. 11 जीवन्तरत्न नगर शास्त्री नगर अड्यर चैन्नई-600020	31/05/2004
119.	111111	श्री राजकुमार गणेशमईयर एसीए न्यू नं. 100/3, राम स्ट्रीट नंगमबक्कम, चैन्नई-600034	31/12/2004	127.	200920	श्री श्रीकान्त आर एफसीए फ्लैट नं. 12 ब्लॉक I अनन्या अशोक 5 वारेन रोड माएलापोर चैन्नई-600004	27/09/2004
120.	113031	मिस पल्लवी भास्कर कृमकृम शाह एसीए 305, पी-11 प्रेस्टीज अपार्टमेंट्स अपो : अशोक नगर पुलिस स्टेशन सहदेव मार्ग, ऑफ तिलक मार्ग सी- स्कीम, जयपुर-302005	01/04/2004	128.	200949	श्री सारानाथन पी एस एफसीए जी 2 सुभिक्षा मीरा 33/17 3 स्ट्रीट ईस्ट अबीरामापुरम चैन्नई-600004	01/08/2004
121.	114232	मिस दीपा संजीव एसीए केयर ऑफ नवीन कुमार कृष्णा 56/1 6 फ्लोर, अन्याप्पा ब्लॉक वेनसन टाऊन, बंगलौर-560046	26/08/2004	129.	201387	श्री रफीक एम ए एफसीए पी एम आर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एम सी रोड पेरम्बूर-683542	01/10/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
130.	201561	श्री निर्मल कुमार एस एम एसीए 2-बी 2 फ्लोर 'ब्लू डेन्यूब' न्यू # 82 (ओल्ड # 52) 7 एवेन्यू, अशोक नगर चैन्नई-600083	13/09/2004	138.	202677	श्री गणेशन पी एफसीए 16/एफ2 रेस व्यू कालोनी एक्सटेंशन ग्युंडी, चैन्नई-600032	30/12/2004
131.	201827	श्री जयशंकर एस एसीए मैनेजर फाईनैस एन्ड एड. केपीएमजी पी ओ बाक्स 710, मन्नामा किंगडम ऑफ बहरेन	24/08/2004	139.	202832	मिस कोटेश्वरी जे एसीए 169, वैनियर स्ट्रीट चूलाईमेडू, चैन्नई-600094	01/04/2004
132.	201919	श्री श्री जगदीश एफसीए श्री जगदीश अमृतश्री, फ्लैट नं. ई-33 राईट हाऊस अपार्टमेंट मुल्लैनगर एक्सटेंशन कोएंस्तोर-641041	30/10/2004	140.	202940	श्री नंदकुमार एस एसीए नं. 9 9 स्ट्रीट नागाम्पनि अपार्टमेंट्स नंदानम एक्सटेंशन चैन्नई-600035	31/03/2004
133.	202116	श्री साधियानारायणन के सी एसीए जी-2 'सौभाग्या' न्यू नं. 14 4 मेन रोड कस्तूरीबाई नगर अड्यर, चैन्नई-600020	31/03/2004	141.	203059	मिस देवी एस एफसीए न्यू नं. 11 (ओल्ड नं. 4) 21 स्ट्रीट, नंगनल्लूर चैन्नई-600061	01/04/2004
134.	202167	श्री गणेश ए के एसीए 'वाईड कोम्स' 21 न्यू बीच रोड थिरुवनमियूर, चैन्नई-600041	01/04/2004	142.	203093	श्री गैब्रियल गणप्रकाश बर्नार्ड एफसीए फ्लॉट नं. 44, ओंकार बिल्डिंग जादव नगर, बेलगांव-590001	26/12/2003
135.	202191	श्री मणालि चन्द्रा मल्लिकार्जुन एफसीए 41-4-15 मैटल बिल्डिंग, कृष्ण लंका विजयावड-520013	01/12/2004	143.	203240	श्री रामचन्द्र रॉय डी वी एफसीए 6-3-595/1 पद्मावति नगर खैराताबाद, हैदराबाद-500004	01/02/2004
136.	202302	मिस विनूया प्रभु एसीए बी-2सी ब्लॉक थर्ड फ्लोर पार्सन अपार्टमेंट्स 109 जी एन चेन्नी रोड टी नगर, चैन्नई-600017	01/04/2004	144.	203469	श्री रंजीत ए जी एफसीए मैनेजर (फाईनैस एन्ड एकाउंट्स) एमजेवीआई एसडीएन बीएचडी लॉट 4117 सिम्प्लिंग 133, पी ओ बाक्स 150 कोला केलेत, झुनी	01/04/2004
137.	202671	श्री संजय कारंभ के एसीए रिसर्च अनालिसिस मोंगा सिक्यूरिटीज प्रा. लि. 503/504, प्रेस्टीज मैरीडियन II एम. जी. रोड, बंगलूर-560001	14/06/2004	145.	203514	मिस निर्मला भास्कर एफसीए 5930 कपल्स स्ट्रीट मिस्सिसौगा, ओन्टेरियो-एलडवी2एक्स3 कनाडा	15/06/2004
				146.	203515	श्री भास्कर एन एसीए हैड-फाईनैस डारैक्ट ऑन पीसी लि. फ्लॉट बी, ब्लॉक-1 इनीपानू इंडस्ट्रियल एवेन्यू लागोस, नाइजीरिया	04/02/2005

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
147.	203517 श्री लक्ष्मीनारायणन आर एफसीए 9 हनुमन्तारायण कोएल स्ट्रीट ट्रिप्लीकेन, चैन्नई-600005	30/03/2004	156.	204429 श्री सुरेश एस एसीए न्यू नं. 8 (ओल्ड नं डी-प6) अपस्टेयर्स. रमन अनक्लेव नित्या फ्लैट्स लक्ष्मी नगर 2 स्ट्रीट नंगनल्लूर, चैन्नई-600061	05/01/2005
148.	203787 मिस विधी मनिहार एफसीए कॉटेज 8-2-686/डी/बी/22/1 प्लॉट नं. 22, रोड नं. 12 बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034	01/04/2004	157.	204539 श्री श्रीनिवासन विशाल एस एन एसीए मै. इम्पेटक एलएलसी 196 मीना अल फहल मकसकैट, सल्लनत ऑफ ओमन	11/05/2004
149.	203996 श्री श्री कृष्णा रॉय वी एफसीए मै. लवलॉक एन्ड ल्यूस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स 14 फ्लोर, सी विंग मिडल टॉवर्स, एम जी रोड बंगलौर-560001	04/10/2004	158.	204560 श्री प्रमोद पाई एसीए एकाउंटेंट, ई जी ग्रीन एन्ड सन्स प्रा. लि. पी ओ बाक्स 492 हारवे वैस्टर्न आस्ट्रेलिया-6220 आस्ट्रेलिया	20/06/2004
150.	204030 श्री जयकुमार पी एफसीए यूनिट 4/1ए, आईटबर्थ एवेन्यू सिमंगवेल, विक्टोरिया-3171 आस्ट्रेलिया	10/01/2005	159.	204591 श्री शिवाकुमार वी एसीए फ्लैट नं. I, ब्लॉक नं. II डोर नं. 4, अंडावर नगर 4 स्ट्रीट, कोडामबक्कम चैन्नई-600024	01/04/2004
151.	204179 श्री गिरीश के एफसीए 414 41 ब्लॉक 7 मेन 5 ब्लॉक जय नगर, बंगलौर-560041	31/03/2004	160.	204622 श्री अरुण कुमार अरुण एफसीए 328 सैकंड मेन रोड बाबा नगर, विल्लीवक्कम चैन्नई-600049	30/12/2004
152.	204346 श्री वैक्टेस रॉय वी एफसीए सी2 मधुरिमा अपार्टमेंट्स 20/21 कॉन्स्टन सिमथ रोड गोपालपुरम चैन्नई-600086	01/04/2004	161.	204831 श्री राजू गुप्ता पी एन वी एसीए 13-10-38, टैगोर स्ट्रीट टाडेफल्लीगुडेम-534102	30/11/2004
153.	204352 मिस श्रीविद्या श्रीनिवासन एसीए बी 3 67 विद्या अपार्टमेंट्स 2 मेन रोड, गांधी नगर अड्यर, चैन्नई-600020	10/12/2004	162.	204905 श्री सुंदरामूर्ति के एसीए फार्मेशियल कन्ट्रोलर डब्ल्यू एनजी लिमिटेड पी ओ बाक्स 16910 सन्ना, रिपब्लिक ऑफ येमन	31/01/2004
154.	204429 श्री बोयापति रवि शेखर एफसीए 1601, एन सैक्ले फोर्ड रोड अपार्ट # 219 लिटल रॉक एआर यू एस ए-72211	08/10/2004	163.	204997 श्री सुहैल अहमद एसीए नं. 10/47 लक्ष्मि बेगुम स्ट्रीट ट्रिप्लीकेन चैन्नई-600005	01/04/2004
155.	204443 श्री खानपुर प्रसाद सरणया एसीए फ्लैट नं. 424, 4 फ्लोर ए-5, कृष्णा, नैशनल गेम्स हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कोरामंगला, बंगलौर-560047	22/12/2004			

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
164. 204998	श्री अनिल कुमार के एसीए 403 अशोक हार्ट्स अपार्ट्स नं. 11 9 क्रॉस, श्रीकांटेस्वरा नगर महालक्ष्मी लेआउट बंगलौर-560096	10/12/2004	172. 205368	मिस भामा के एसीए नं. 94, टैम्पल स्ट्रीट आर वी नगर, चैन्नई-600118	01/04/2004
165. 205007	श्री कोमारवोलु मधुसूदन रॉय एफसीए मै. स्टीलमेकर्स लिमिटेड प्रा. लि. पी ओ बाक्स 120 रैडक्लिफ, लिम्कवे	31/12/2004	173. 205413	श्री मोहन नायडू एम एफसीए नं. 481, 15 मेन, 12 क्रॉस पद्मनाभा नगर बंगलौर-560070	16/08/2004
166. 205024	मिस शिवाग्रिया ए एफसीए कैलाश इल्लम नं. 43 वैगई स्ट्रीट कालक्षेत्र कालोनी बेसंत नगर, चैन्नई-600090	01/04/2004	174. 205566	श्री श्यामप्रसाद आचार्य एसीए 12, पर्ल गार्डन होलीडे विलेज रिसोर्ट रोड वज्रहल्ली, तालागड्डपुरा पोस्ट बंगलौर-560062	01/04/2004
167. 205026	श्री जेकब बी जे एसीए नैमपुनिल कोल्लाइड पी ओ कोट्टायम-686029	23/07/2004	175. 205589	श्री गोपाल धनवती माडाम्बी एसीए फ्लैट नं. 2बी, श्री साई अनक्लेव 2-2-155/14/ए/जी, न्यू प्लॉट नं. 1373 रामकृष्णा नगर, अम्बरपेट हैदराबाद-500013	31/03/2004
168. 205040	श्री गणेश एस एफसीए 43/6 8 मेन एडजस्टेड टू कैनरा यूनिशन मल्लेश्वरम 14 क्रॉस बंगलौर-560003	01/04/2004	176. 205613	मिस सुनीता रमन एसीए फ्लैट 55, वाईसरॉय कोर्ट नं. 36 डिंगवॉल रोड क्रोएडॉन, क्रो 2 एनजी सरेपपायू न्यू ग्यूनिया	01/04/2004
169. 205048	मिस गीता प्रभा मणिपाल एफसीए एके 23 11 मेन रोड शांति कालोनी, अन्ननगर वेस्ट चैन्नई-600040	17/08/2004	177. 205652	मिस रुक्मिणी ए आर एसीए डी 12 के पी टॉवर्स नं. 159 आरकोट रोड चैन्नई-600026	27/09/2004
170. 205187	मिस पद्मश्री अर एसीए वाईफ ऑफ प्रकाश 835-ए मेन स्ट्रीट बेल्लेक्लि एनजे 07109 यू एस ए	01/04/2004	178. 205713	श्री श्रीहरि टी एस एफसीए 417 ऐस्वरी निवास 1 फ्लोर के आर पुरम, बंगलौर-560036	19/01/2005
171. 205205	श्री शिवाराम कृष्णा एस एसीए 187 5 मेन एस टी बैड लेआउट 4 ब्लॉक कोराम्पल बंगलौर-560034	01/04/2004	179. 205935	श्री शिवाकुमार बी एसीए नं. 10/3 शांति कटोर 37/4 बालकृष्णा रोड वाल्मीकी नगर, थिरुवनमियूर चैन्नई-600041	01/12/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
180.	206281	श्री सरवानन एम एसीए न्यू नं. 8 (ओल्ड नं. 32) सुब्रमनियपुरम (नियर क्लूनी स्कूल) सलेम-636007	01/04/2004	188.	206769	श्री संतोष के बी एसीए पी ओ बाक्स 34307 दुर्गई-यू.ए.ई.	10/05/2004
181.	206285	श्री प्रकाश जे एसीए 135-डी, एचआईजी फ्लैट, फर्स्ट फ्लोर देवी इलाय राजामन्नार सलाय के के नगर, चैन्नई-600078	08/11/2004	189.	206847	श्री शिवू एकजैन्डर एसीए पुथेनपारायिल् थिपेनी, केरला तिरुवल्ला-689101	25/03/2004
182.	206360	श्री पसवापुर चन्द्राप्पा डेमाप्पा एफसीए केयर ऑफ राजू एस पाटिल बी/4, लक्कुरा शॉपिंग सेंटर दत्तापय रोड, बोरीवल्ली(ई) मुम्बई-400091	31/03/2004	190.	206866	मिस ललिता एस एफसीए फ्लैट के, श्रीमति अपार्टमेंट्स प्लॉट 4 डा. वासुदेवा नगर एक्सटेंशन थिरुवनमियूर, चैन्नई-600041	21/06/2004
183.	206391	श्री श्रीनिवासन एस एसीए केयर ऑफ जी सुब्रमन्यन न्यू नं. 243 (ओल्ड नं. 133) पोटर्स रोड, चैन्नई-600086	29/09/2004	191.	207014	मिस हरिणी नागेश्वरन एसीए फ्लैट नं. 12 15 सरावना स्ट्रीट टी नगर, चैन्नई-600017	30/09/2004
184.	206458	श्री मुथू ए एसीए 17-ए वाटीवेल मुदली स्ट्रीट वैकटपुरम, अम्बदूर, चैन्नई-600053	24/09/2004	192.	207315	श्री शिव्वा कुमार ई एसीए एच नं. 4-1125-9 गायत्री नगर, चित्तूर-517002	01/04/2004
185.	206485	श्री बिजूकुमार ए एस एसीए फार्मिस मैनेजर पी ओ बाक्स # 50957 दुर्गई-यू.ए.ई.	12/07/2004	193.	207326	श्री रामचन्द्रन एस एफसीए मैनेजर-बिजीनेस एन्ड कनसल्टिंग टिल कनसल्टेंट्स पी ओ बाक्स 36486 अल रास 24755 कुवैत-	01/04/2004
186.	206570	श्री फानी कुमार सरिराजू एफसीए 50-42-21, पी एन्ड टी कालोनी सीतम्माथारा विराट्टापट्टनम-530013	31/03/2004	194.	207581	श्री माधव रॉय एस एफसीए 32/56 सियाली मुदली स्ट्रीट पुडुचेट, चैन्नई-600002	01/04/2004
187.	206733	श्री नटराजन एस बी एसीए जी-3 श्रीसुधिया सर्वकन्य अनवलेय 5-ए कनिअप्पन स्ट्रीट कादपलानी, चैन्नई-600026	31/03/2004	195.	207624	श्री पुरण्या पुप्पाला एफसीए एच नं. 37-103/1 श्री कालोनी (अम्बिका होम्यो क्लिनिक) नेरेडमेट 'एक्स' रोड्स अर के पुरम, सिकंदराबाद-500556	23/07/2004
				196.	207632	श्री विश्वनाथन एस एसीए सन ऑफ श्री पी जी श्रीनिवासन फ्लैट नं. 4 I फ्लोर, नं. 35/16 मंडैवेली लेन मदुरापोर, चैन्नई-600004	25/10/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
197.	207635	मिस जयश्री वी एसीए ओल्ड नं. 41 न्यू नं. 14 इंस्ट मादा स्ट्रीट माएलापोर, चैन्नई-600004	16/12/2004	206.	208475	श्री किरूबामनि ए एफसीए नं. 23/11-ए, रंगनाथन रोड विल्लुपुरम-605602	01/11/2004
198.	207882	श्री चन्द्रन आर एसीए 3 एंगलाम्मान कोएल स्ट्रीट पेरूर, कोएंबतोर-641010	31/03/2003	207.	208608	श्री गोपाला एन एफसीए कनसल्टेंट प्राईस वॉटरहाऊस कूपर्स प्रा. लि. 215 सरट बोस रोड कोलकाता-700020	07/11/2004
199.	207941	श्री राजा रमन एस एसीए केयर ऑफ विजय टेलीविजन प्रा. लि. 15 जगन्नाथन रोड चैन्नई-600034	11/08/2004	208.	208614	श्री प्रभाकर के वी एसीए आई/बी इथेकाकारी स्ट्रीट लिटल कांचीपुरम कांचीपुरम-631503	28/08/2004
200.	207974	श्री रमेश आर एसीए न्यू नं. 41, (ओल्ड नं. 20) फर्स्ट फ्लोर, बज्रुल्लाह रोड नैक्स्ट टू होटल स्टार सिटी टी नगर, चैन्नई-600017	30/10/2004	209.	208677	श्री मुकुण्णन पी एल एसीए प्लॉट नं. 169, अन्ना नगर नियर कार्तिक हॉस्पिटल मदुरई-625020	01/04/2004
201.	208016	श्री विवेकानंद नायक एफसीए III, 2ए, रूम नं. 1 कलियानपुरा-संकेकड़े उडुपी-576125	08/09/2004	210.	208709	श्री अरविंदराजन ई एफसीए एकाउंट्स ऑफिसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोल्हीकोडे आईआईएमके कैम्पस पोस्ट कोल्हीकोडे-673570	31/03/2004
202.	208084	श्री वैकट रामा मोहन रूख डी एसीए फ्लैट नं. जी-6 ब्लॉक -ए कृदवन अपार्टमेंट्स, चिकोटी गार्डन्स बेगुमपेट, हैदराबाद-500016	01/04/2004	211.	208717	श्री मृदयाला पनासाया चौधरी एफसीए साईट नं. 4, अन्नई गार्डन्स जी एन मिल पोस्ट मुम्बई-400101	31/05/2004
203.	208322	श्री बाला गोपाल दुर्गीरत्न एसीए फार्मेशियल कन्ट्रोलर मै. सोमोटेक्स घना लिमिटेड 15 द्येवन रोड, पी बी नं. 9840 नॉर्थ इंडस्ट्रियल एरिया एकरा, घना	01/04/2004	212.	208723	श्री रघु रमन ए एसीए न्यू नं. 8 (ओल्ड नं. 18) सुब्बालक्ष्मी नगर, सैकंड स्ट्रीट कोरटूर, चैन्नई-600076	01/04/2004
204.	208380	श्री पल्लविअम्पन एम एसीए टारमाक जवाही एलएलसी पी ओ बक्स 314, पीसी 130, अजीआबा, सलतनत ऑफ ओमन	01/04/2004	213.	208768	श्री मुरलीधर पी शेनॉए एसीए मैनेजर (एकाउंट्स) वैजमन फोरेक्स लिमिटेड कोरपोरेट ऑफिस, सैन्टीनरी बिल्डिंग IV फ्लोर, नं. 28 एम जी रोड कांस्तोर-560001	30/07/2004
205.	208426	श्री श्रीराम एस एसीए 32/302 बीएसएनएल क्वार्टर्स ओशीवारा, जोगेश्वरी (उत्तर) मुम्बई-400102	19/01/2005				

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
214.	208796	श्री राहुल के एसीए नं. 7, के आर नायडू लेआउट वैकटपुरम, कोरंबा-641013	28/06/2004	223.	209426	श्री किशोर कुमार योजनापल्ली एसीए इंटेल्नियुप एशिया प्रा. लि. मानसरोवर कॉम्प्लैक्स सैक्रेटेरियट रोड हैदराबाद-500063	01/04/2004
215.	208888	श्री सुनील सी चेरियन एसीए पौकईल, कक्कूर, नट्टाकोम पी ओ कोट्टायम-686013	20/03/2004	224.	209835	श्री गणपति सुब्रमण्यन एमएससीए सिनीयर एक्जीक्यूटिव - फाईनैस एफए डि. मरकरी बेसमेंट-बी 24 हनीविल टैकनॉलॉजी सोल्लुशन्स लैब प्रा. लि. 151/1 डोरासेमी पलाया बैनरघाट रोड बंगलौर-560076	14/08/2004
216.	209095	श्री हेज कमलाकर शंकर एफसीए ग्राउंड फ्लोर, सुन्न बिल्डिंग 3 क्रॉस, शिवागिरी धरवाड-580007	01/04/2004	225.	209837	मिस अपर्णा काजा एसीए 1601 एन शैकलेफोर्ड रोड अपार्ट # 219, लिटल रॉक ए आर 72211 यू एस ए	09/09/2004
217.	209096	श्री राजागोपाल बी एसीए यूबीनेटिक्स इंडिया प्रा. लि. 34 अंड्री रोड शांति नगर बंगलौर-560027	31/03/2004	226.	209839	श्री सरवान्न एम एसीए नं. 26 मुथिआह नगर तिरुपुलीयूर कुडलोर-607002	31/03/2004
218.	209154	श्री सेतुरमन एस एसीए 5 पद्माम फ्लैट्स 12/121 कोटक्का चावडी स्ट्रीट साईदपेट, चैन्नई-600015	01/04/2004	227.	209924	श्री बिंदु माधव अड्डेपल्ली एसीए फाईनैस मैनेजर शिव एनर्जी प्राईवेट लि. सुपर गैस हाऊस IV फ्लोर एसडीई सीरीन चैम्बर्स 8-2-334 बंगारा हिल्स, हैदराबाद-500034	15/08/2004
219.	209239	श्री बालसुब्रमण्यम एम एफसीए नं. 22 जेठ नगर थर्ड क्रॉस स्ट्रीट आर ए पुरम, चैन्नई-600028	17/12/2004	228.	209970	श्री धीरज बोंबरा एसीए 'पंच रत्न', 7 सुब्रमण्या मुदली स्ट्रीट, चैन्नई-600001	31/03/2004
220.	209254	श्री श्रीराम एस एसीए फ्लैट नं. 209 II ब्लॉक 'बालाईल्लम' आरवीएस माधव बृन्धवन अपार्टमेंट्स नियर टेलीफोन एक्सचेंज चंद नगर, हैदराबाद-500050	31/03/2004	229.	210082	श्री बालकरन आर एसीए एकाउंट्स मैनेजर बोल्न टैक्सटार्कस प्राईवेट लिमिटेड 20 क्रापुरम रोड विल्लु नगर, तिरुपुर-641608	30/11/2004
221.	209282	मिस जूदिय रोजरी फ्रंसिस एसीए एफ-110 मैरिन्स स्क्वेयर 27 संयोग हाई रोड संयोग, चैन्नई-600004	31/03/2004				
222.	209384	श्री सुधाकर पी जे एसीए मैनेजर-एकॉउंट्स ककर के सी पी पैकेजिंग्स लिमिटेड मन्नादीपेट कोम्प्लेक्स, पोंडीचेरी-605102	01/09/2004				

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
230.	210092 श्री देवाकुमार पी एसीए 29/9 फ्लैट ए 2 सी पार्क एनक्वे कालक्षेत्र कालोनी बीच रोड बेसंत नगर चैन्नई-600090	31/03/2004	239.	210406 मिस आरती शिवानंद शेड्डर एसीए 'गुरुकृपा', चौकीमाठ सिरसी-581401	01/04/2004
231.	210143 मिस सुमति जी एसीए 563 18 स्ट्रीट कोरडूर, चैन्नई-600080	13/07/2004	240.	210456 मिस प्रिया ए मेनन एसीए सारावस, मुद्राधिल लेन कादवंथा पोस्ट कोची-682020	31/03/2004
232.	210169 मिस पवित्र जी एसीए नं. 26 न्यू नं. 53 सन्नयन चित्र स्ट्रीट श्रीरंगम तिरुविरापल्ली-620006	18/08/2004	241.	210510 श्री ब्रिजेश राय के एसीए 'बलराम' गवर्नमेंट ऑफिसर्स रैजिडेंशियल रोड बी सी रोड बंटवाल-574219	12/07/2004
233.	210238 श्री शहीर अहमद कुरुनियान एसीए 'अईश्वर्य मंगिर', ओथूक्कुंगल पीओ मल्लपुरम-676528	20/12/2004	242.	210538 श्री कृष्णा कुमार जी वी एसीए 5 श्री साई नगर आर ए पुरम चैन्नई-600028	01/04/2004
234.	210240 श्री नरहरासेही रामू एसीए जीएफ-2, श्री सिद्धी अनक्लेव 46-2-7/1, मंडावरी पेटा पेंडपारथी विशाखापत्तनम-530016	18/01/2005	243.	210563 श्री दीपक एन एसीए असिसटेंट मैनेजर-फाईनैस- मै. केबल एन्ड वायरलेस (इंडिया) लिमिटेड यूनिट 2बी क्रिएटर इंटरनेशनल टैक पार्क, वाईट फील्ड रोड बंगलौर-560066	27/08/2004
235.	210303 मिस श्रीविद्या एल एसीए 103 बीमा जोडी एलआई सी नगर वैस्ट ऑफ कोर्ड रोड बसेवेस्वरा नगर, बंगलौर-560079	01/02/2005	244.	210633 मिस लावण्या एम एसीए 4 विशाल फ्लैट्स, 21 मूर्ति स्ट्रीट वैस्ट मैम्बलम चैन्नई-600033	01/08/2004
236.	210311 श्री वैक्टरम रमा के एसीए नं. 5 फर्स्ट क्रॉस स्ट्रीट रामलिंगा नगर के. के. पुडूर कोरंबलोर-641038	10/11/2004	245.	210641 मिस यालमारथी नागदुर्गा विजया एसीए केयर ऑफ बी. पी. आर पुरनेश्वर रॉय 1-7-29/2/1बी, साई मधु कुंज अपार्ट्स गोल्डकोन्डा 'एक्स' रोड मुशीराबाद, हैदराबाद-500048	02/08/2004
237.	210360 श्री नारायण एस एसीए न्यू नं. 14/1 (अप्लैड नं. 18) साधुल्लाह स्ट्रीट टी नगर, चैन्नई-600017	31/03/2004	246.	210699 मिस रिमेजावी के एसीए नं. 30 II मेन, 12 क्रॉस विद्यारैन्यापुरम मैसूर-570008	14/07/2004
238.	210365 श्री रवि चन्द्र जैन एसीए 3-3-3994 कुटीबीगुडा हैदराबाद-500027	01/07/2004			

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूकल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूकल ता.
247.	210739	श्री कमलेश गरिकीपति एसीए डायरेक्टर (एफ एंड ए) कतूरी मैडीकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चिनकोण्डरूपावू गंतूर-522019	31/03/2004	256.	210954	मिस मिनाक्षी एस एसीए एक्ससल/161, रिटायर्ड सी जे के टी कोरबी एवेन्यू अप्पो. जजिस क्वाटर्स कोयंबी-682011	04/08/2004
248.	210789	श्री श्रीकृष्णा एसीए इंटरनल ऑडिटर विन दसम्पल ग्रुप-जन.-ट्रेडिंग कं. एलएलसी पी ओ बाक्स 5389-बर दुबई दुबई-यू.ए.ई.	25/11/2004	257.	210974	श्री मन्नेज सेबस्टियन एसीए नं. 134, IV फ्लैट रिफाको शांति निकेतन नियर एसजेईएस कॉलेज मंदाहल्ली, विरगो नगर पी ओ, को. अन्न. पुरम, बंगलौर-560049	01/04/2004
249.	210839	श्री कृष्णा कुमार यूननी सी एसीए मंजीमा, मालापुरम डिस्ट्रिक्ट अंगदीपुरम-679321	27/12/2004	258.	210993	श्री विक्कस गौर आर एसीए न्यू नं. 140 (ओल्ड नं. 261) वाम्बू चेडी स्ट्रीट, चैन्नई-600001	15/11/2004
250.	210850	श्री रंगस्वामी एस एसीए # 5 सर्वेयर स्ट्रीट गांधी नगर, बासवनगुडी बंगलौर-560004	25/10/2004	259.	211007	श्री सत्येन्द्र विठ्ठल बी आर एसीए नं. 23/2 पुलिस स्टेशन रोड बासवनगुडी, बंगलौर-560004	15/12/2004
251.	210854	श्री चन्द्रशेखर एस एसीए 'युमानी मैडम' I फ्लोर # 16 सेसाद्रीपुरम I मेन रोड केलावेरी, चैन्नई-600042	01/04/2004	260.	211013	श्री महेस पी एसीए VII/226 विनायका लक्ष्मी रोड, अल्लूबा-683101	01/04/2004
252.	210907	श्री सुनील एस मेहता एसीए 29/1 III मेन III स्टेज II ब्लॉक बासवेश्वर नगर, बंगलौर-560079	01/04/2004	261.	211048	श्री सुब्रह्म प्रभु एसीए मैनेजर-एकाउंट्स एंड एमआई एस इंस्पेन इन्फोटेक प्रा. लि. 8/52 लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स नॉर्थ बंग रोड, टी नगर चैन्नई-600017	01/04/2004
253.	210933	श्री अमित मंगल एसीए नं. 80 'घर' फर्स्ट मेन रोड, मार्को लेआउट बंगलौर-560076	06/10/2004	262.	211160	श्री लोकेश कुमार जैन एसीए 21-4-1148 चार महल हैदराबाद-500002	01/06/2004
254.	210937	श्री फेल्लु सुधीर एसीए 49-54-1/1 (1) नियर राधवेन्द्र हॉस्पिटल विश्वनाथपटनम-530016	26/09/2004	263.	211177	मिस अनुराधा एस एसीए फ्लैट डी/3 56 स्ट्रीट अन्निक नगर चैन्नई-600083	23/08/2004
255.	210945	श्री चन्द्रशेखर बी जी एसीए आईसीआईआई बैंक (रिफा ऑफिस) 3 फ्लोर, युरेका जंक्शन, टी बी रोड, हुबल्ली-580029	31/07/2004	264.	211179	श्री मोहनदास एस एसीए 'उत्ती' क्वांटा टिनीटी नं. 18 (ओल्ड नं. 34) वेस्ट रोड नंदनम, चैन्नई-600035	01/04/2004

क्र. नं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
265.	211213	श्री बिजोए प्रसाद टी एसीए प्राईवेट बैग 23 लोबटसे, बोट्सवाना	01/04/2004	273.	211441	श्री पैसेन एन डी एसीए फाईनेशियल कन्ट्रोलर यांच टूस मालडीव्स पीटीई लि. 1 फ्लोर एच विलारेस फिनिहिया गोल्ही मेल रिपब्लिक ऑफ मालडीव्स	01/04/2004
266.	211222	श्री वैकटरामी रेड्डी पी एसीए एसोसिएट कनसल्टेंट- इनफर्मेसन एश्युरेंस एंटरप्राइसिस सोल्यूशन्स-सिफी लिमिटेड 2 फ्लोर, टीडल पार्क नं. 4, कैनेल बैंक रोड, तारामणि चैन्नई-600113	18/12/2004	274.	211452	श्री मनोज कुमार जैन एन एसीए मैनेजिंग पार्टनर के के कोम्युनिकेशन्स रिलाएस वैबवल्ड द्वारकानगर, विशाखापटनम	01/04/2004
267.	211253	श्री प्रवीण कुमार डी एसीए 15/4 काजापेट स्ट्रीट तिरुचिरापल्ली-620001	01/04/2004	275.	211482	मिस रिबेका के चाको एसीए टी सी 16/1546 (211444) पीआरए 94 कृष्णा अपो : कोसमोपोलीटन हॉस्पिटल पोद्दाकुल्ली, पट्टम पी ओ थिरुवनंथापुरम-695004	15/04/2004
268.	211256	श्री सुजील एम ए एसीए भादधिपाराम्बिल नयाराम्बालम एरनाकुलम-682509	10/09/2004	276.	211500	श्री खडेलवाल अमित चन्द्रकांत एसीए आई-टाईप 56 बंगूर नगर, दंडेली-581325	12/04/2004
269.	211260	श्री प्रियारंजन एसीए नं. 39 कावेरी कैनेरा बैंक कालोनी 111 ब्लॉक ईस्ट, जय नगर बंगलौर-560011	10/02/2005	277.	211515	श्री मनोज कुमार एसीए एच नं. 20-1-501 नियर महेश्वरी फंक्शन हॉल काक्कूर खाना, हैदराबाद-500064	01/04/2004
270.	211268	श्री हरीव पी एल एसीए नं. 592 27 मेन, 2 स्टेज 1 फेज सीटीएम लेआउट बंगलौर-560076	31/12/2004	278.	211546	श्री देवेन्द्र कुमार करनावट एसीए 40 मुक्काउल स्ट्रीट प्रेस्टीज पैलेस फ्लैट नं. 204 2 फ्लोर पुरासावाल्कम चैन्नई-600007	01/04/2004
271.	211346	श्री बिजू पॉल एसीए फाईनैस मैनेजर एलिसको स्ट्रॉंग प्लॉट हाथरिंग एन्ड कन्स्ट्रक्शंस कं. पी ओ बाक्स 1564, सीपीओ 111 सीप सल्लनत ऑफ ओमन	01/10/2004	279.	211547	श्री साजु के खोवियर एसीए कोथोलिल हाऊस मालप्पुरम डिस्ट्रिक्ट माडपोक्का-679331	02/01/2005
272.	211420	श्री बालगंगाधरन एस एसीए केयर ऑफ एम एन्ड एम एकाउंटिंग नं. एम-5 यूनाइटेड बैंक बिल्डिंग बैंक स्ट्रीट, पी ओ बाक्स नं. 43711 दुबई, यू.ए.ई.	31/03/2004	280.	211583	श्री जनार्दन प्रसाद सी एसीए प्लॉट नं. 35 ग्रीनहिल्स कालोनी स्ट्रीट नं. 8, हम्सीगुडा हैदराबाद-500007	03/12/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
281.	211702 श्री पार्थसारथी ए एसीए न्यू नं. 16 (ओल्ड नं.137) वैकटरंगम स्ट्रीट ट्रिप्लीकेन चैन्नई-600005	01/04/2004	290.	211906 श्री सुधांशु कुमार मोहन्ती एसीए जूनियर एकाउंट्स ऑफिसर (प्लानिंग) ओ/ओ जीएमटीडी, बीएसएनएल द्वारका नगर 2 लाईन, विशाखापटनम	30/11/2004
282.	211703 श्री बद्रीनाथ आर. एसीए 7/5 क्लब रोड इस्ट टैम्बरम चैन्नई-600059	11/02/2005	291.	211944 मिस गौरी रामचन्द्रन एसीए #301 सुंदर रेजीडेंसी बाएसैन्ड्र मेन रोड, जी एम पालया बंगलौर-560075	31/03/2004
283.	211758 श्री चीन्ना सेशाया मोटयारथी एसीए सन ऑफ एम शिवा केशव राव वैस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट दैङ्गलूरु-534432	17/11/2004	292.	211954 श्री विजय आनंद पी एसीए 47, सिंगराचारी स्ट्रीट ट्रिप्लीकेन, चैन्नई-600005	01/08/2004
284.	211791 श्री श्रीधर राजन एसीए नं. 3, फ्लैट नं. 1, श्रुति अपार्टमेंट्स मोस्क्यू स्ट्रीट, मन्नारपुर चैन्नई-600004	01/12/2004	293.	212021 श्री श्रीराम एस एसीए नं. 4 8 क्रॉस स्ट्रीट करपागम गार्डन्स अडुयर, चैन्नई-600020	14/06/2004
285.	211813 श्री राम कुमार एस एसीए अयोध्या, फ्लॉरिडा फैलेस वाड अल्लुपुडा-688011	09/02/2004	294.	212079 मिस विद्या एस एसीए देवीकृपा प्लॉट नं. 1208 17 स्ट्रीट III सैक्टर अन्नानगर वैस्ट एकस. मोगापैर, चैन्नई-600050	01/04/2004
286.	211823 श्री हरि नारायणन एसीए केन्यूकल मिल लेन नियर श्री कृष्णविल्लासम स्कूल फल्लीमुक्कु कोची-682016	21/12/2004	295.	212103 मिस आरती राव एसीए कनसल्टेंट 12 टेकनॉलोजिस सोफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड 4 फ्लोर, 6वीं टॉवर डायमंड डिस्ट्रिक्ट, एयरपोर्ट रोड बंगलौर-560008	01/12/2004
287.	211832 मिस जयति भास्करा एसीए फ्लैट नं. 507, श्रीनिवास टॉवर्स केएमपेट, हैदराबाद-500016	01/04/2004	296.	212238 श्री विजय एच एसीए फ्लैट नं. जी-1, प्लॉट नं. 900 मुखिल अपार्टमेंट्स 11 सैक्टर, 72 स्ट्रीट के. के. नगर, चैन्नई-600078	01/04/2004
288.	211842 श्री राजीव चन्द्रन सी एसीए मैनेजर-फार्मैस किट्टेक्स गारमैन्ट्स लि. पी बी नं. 5, किङ्गडॉमकैम्पलम अल्लुप्पा-683562	01/04/2004	297.	212275 श्री जेम्स मैथ्यू एसीए 6 गोल्फ कोर्ट अपार्टमेंट II फ्लोर नं. 50 वेटेरीनरी हॉस्पिटल रोड नंदनाम (एडजसेंट टू कोसमापोलीटन गोल्फ कोर्स) चैन्नई-600035	01/08/2004
289.	211885 श्री मनेज पी अर एसीए इस्ट फिन प्रोसेसिंग प्ल एल सी पी ओ बक्स 2741, अजमान, यू.ए.ई.	31/03/2004			

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमुखल ता.
298.	212281	श्री जितेश कुमार जी एसीए बी 1 ब्लॉक II द मेरीडियन, # 71 ए क्रॉस, एस आर लेआउट, मुरुगोत्तपाल्या बंगलौर-560017	01/12/2004	306.	212512	श्री जेसल आर शाह एसीए नं. 22 एम्बेसी कोर्ट 12 ब्रेसैन्ट रोड कुमारा पार्क (इस्ट) बंगलौर-560001	26/03/2004
299.	212286	श्री कानुमुरी वैकट सूर्य नागा राज एसीए 5/1 इस्वर लेआउट 7 क्रॉस एल बी एस नगर लक्ष्मीपुरम, इंदिरानगर स्टेज II बंगलौर-560066	11/01/2004	307.	212521	श्री चन्द्राक्षस आर किनी एसीए केयर ऑफ गणेश निलय गांधी नगर, सिरसी-581403	01/04/2004
300.	212293	श्री जेम्स टी बी एसीए पैराडाईज अपार्ट. रूम नं. बी/11 रोड नं. 27, शांति नगर याने-400604	25/08/2004	308.	212525	श्री विजय रामकृष्णा आर एसीए एस-1, 'टैन डाऊनिंग' नं. 10 थर्ड मेन रोड राष्ट्रलक्ष्मी नगर, बेलाचेरी, चैन्नई-600042	01/04/2004
301.	212302	श्री अरविन्द कुमार कनकापति एसीए 41-20/3-25 मन्ना बारी स्ट्रीट, कृष्णा लंका विजयावाड़ा-520013	31/03/2004	309.	212548	श्री सदीषकुमार डी एसीए 5/3 लोक व्यू रोड एक्सटेंशन वेस्ट मैम्बलम चैन्नई-600033	20/09/2004
302.	212326	श्री जगन के एसीए 4/8/12 शानमुगम स्ट्रीट मेट्रो पल्लवम-641301	10/02/2004	310.	212602	श्री परवेज अहमद जी एसीए नं. 170/5 IV एवेन्यू शांति कालोनी अन्ना नगर वेस्ट चैन्नई-600040	29/12/2004
303.	212404	मिस राम्या दुर्गा के एसीए एफ 1 कौवेरी अन्नुग्रहा 13ए, मन्नार 2 स्ट्रीट नैरु कुंदरम पडाई बोडीपलानी चैन्नई-600026	01/04/2004	311.	212610	श्री बालमुरली कृष्णन ओ के एसीए नं. 3 II स्ट्रीट V क्रॉस गणेश नगर, पादीमक्कम, चैन्नई-600091	17/10/2004
304.	212449	श्री आनंदमल्लान पी जी एसीए पुणेनवीडु, चौराक्काकोम एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट वारपुज्हा पी ओ-683517	01/04/2004	312.	212616	श्री राज किरन अईयागारी एसीए फंक्शनल कनसल्टेंट संख्या टेकनॉलोजिस इंडिया ओपरेषन्स प्रा. लि. # 30-15-58 थर्ड फ्लोर सिल्वर विलो, दाबागार्डन्स विशाखापटनम-530020	01/04/2004
305.	212474	श्री आनंद डी सोनी एसीए 4-3-82 I फ्लोर लक्ष्मी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शिशु मंदिर रोड, करीमनगर-505001	18/09/2004	313.	212638	श्री वासुकी एच आर एसीए 11, 11/1, श्रीनिधी 19 क्रॉस, काशी भुट्ट रोड मल्लेश्वरम बंगलौर-560055	17/01/2005

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
314.	212654 श्री चन्द्र शेखर फल्लपारथी एसीए डी नं. 20-6-148 रामालिनेश्वरा पेट 4 लाईन, विजयवाड़ा-520003	08/06/2004	323.	213030 श्री वारा प्रसाद जी एन एस एसीए, एच नं. 8-4-100/बी गांधी बाजार अमरल्लपुरम-533201	01/04/2004
315.	212663 श्री अरविंद कुमार एस आर एसीए एक्जीक्यूटिव सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लि. 12 सी पी रामास्वामी रोड अल्वरपेट, चैन्नई-600018	23/06/2004	324.	213054 श्री रंजक कुमार एस एसीए 427 बेजाई चर्च रोड बेजाई मंगलौर-575004	01/04/2004
316.	212684 श्री करुणाकर जी एसीए सन ऑफ डा. जी माधव स्वामी एच नं. 25-106 संजीव नगर, करनूल डिस्ट्रिक्ट नंदयाल-518501	01/07/2004	325.	213083 श्री बालकृष्ण एन एसीए 196 एक्वेबु नगर फेज 2 9 मेन, 2 क्रॉस बीटीएम स्टेज 2 बंगलौर-560076	31/03/2004
317.	212736 श्री विश्वेश कुमार रेड्डी डी एसीए 2-70सी I फ्लोर जे पी नगर कालेनी मूसापेट, हैदराबाद-500018	01/04/2004	326.	213114 श्री सम्भित कुमार मल्लिक एसीए एफ-12 कमल अपार्टमेंट्स नं. 23 फोर्थ मेन रोड आर ए पुरम. चेन्नई-600028	16/08/2004
318.	212747 श्री साबू सी एसीए मिडल ईस्ट प्रेस्टेसिंग पी ओ बाक्स 56027 दुबई-यू.ए.ई	15/06/2004	327.	213144 मिस कार्तिका जी एसीए # 56 सी, I फ्लोर अश्विन आरकेड वैक्टरलम नगर अड्यर, चैन्नई-600020	04/03/2004
319.	212768 श्री वैक्कटेश्वरा रॉय चालूवादी एसीए केयर ऑफ चालूवादी श्रीनिवासुलू 41-3-78/1 श्रीनिवास भवन राईस शॉप्स स्ट्रीट कृष्णालंका, विजयवाड़ा-520013	01/04/2004	328.	213167 मिस दीपा के एसीए एम-593 एसस्टीसी हुडको (ओल्ड) होसूर-635109	27/04/2004
320.	212772 मिस त्रिपति अग्रवाल एसीए 5502, वेदवाथी नंद अनकलेव, बन्साखी स्टेज III बंगलौर-560085	31/03/2004	329.	213190 श्री मुरली कृष्णा वी एसीए फ्लैट नं. 2 ग्रीनफील्ड अपार्टमेंट्स 18 दिवान बहादुर वी रानमुक्कम स्ट्रीट किलपौक, चैन्नई-600010	27/05/2004
321.	212817 श्री सुंदरशन आर एसीए 5-डी इंदिरा नगर, कोरंबाकर डिस्ट्रिक्ट कारामदाई-641104	09/06/2004	330.	213218 मिस गौरी विजय दिओ एसीए 386/VI राजागिरी पीओ एस कालामासेरी कोची-683104	31/03/2004
322.	212930 श्री राजेश आर के एसीए 14 सुमित्रा अपार्टमेंट्स फ्लैट नं. 3, सीएचबीएस II लेआउट विजयानगर, बंगलौर-560040	01/04/2004	331.	213248 श्री हेज किरन महाबलेश्वर एसीए # 901/ए, 3 मेन 'डी' ब्लॉक, 2 स्टेज राजाजीनगर, बंगलौर-560010	24/11/2004

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
332. 213256	श्री रजेश कुमार जी एसीए 'वैशाक' ओल्ड थिरुमाला वार्ड अलापुहा-688011	04/10/2004	341. 213471	श्री धारिक पी एसीए 1/6 नाभिखान सूबेदार स्ट्रीट पेरियामेट, चैन्नई-600003	11/08/2004
333. 213297	श्री युथरमन चार्ज एसीए 9, थोप्पा चैयर स्ट्रीट पलानी-624601	10/06/2004	342. 213481	श्री श्रीवास टी पी स एसीए कृष्णा गिरी, पोन्नेडी लेन जवान्स क्रॉस रोड पोनेक्कारा-एडाप्पल्ली कोची-682024	24/12/2004
334. 213322	श्री निकल जॉर्ज एसीए चीरन हाऊस मिशन क्वार्टर्स फातिमा नगर, थिरुपुर-680005	16/06/2004	343. 213504	मिस प्रतिभा एस लालवानी एसीए नं. 16, सोमासुंदरम, 2 स्ट्रीट अयनावरम, चैन्नई-600023	19/10/2004
335. 213327	श्री नानी अरविन्द नल्लामोथु एसीए 8-3-231/बी/142, 143 श्री कृष्णा नगर युसुफगुडा, हैदराबाद-500045	13/12/2004	344. 213525	श्री जॉर्ज जे मैमपिल्ली एसीए मैमपिल्ली हाऊस जवाहीरकुलम रोड थिरुपुर डिस्ट्रिक्ट हरिजलाकुडा-680121	01/04/2004
336. 213386	श्री दुर्गा प्रशांत एसीए 6-66, पोचम बग, सरूर नगर हैदराबाद-500035	01/04/2004	345. 213564	श्री कृष्णा वी एल एसीए 'मेट्रूसरी', एच नं. 12-1-331/38-बी दत्तात्रेय कालोनी हैदराबाद-500028	30/11/2004
337. 213408	श्री प्रशांत पी एसीए केयर ऑफ मै. गुरुमूर्ति एन्ड एसोसिएट्स प्रोफेशनल सर्विसेज नॉर्थ (प्रा.) लि. पी ओ बाक्स 10817 फ्रांसिस टाऊन, बोर्देसवाना	01/04/2004	346. 213584	श्री लक्ष्मी नारायणा भट्ट यू एसीए नं. 1010 ई 'स्नेहा' 1 फ्लोर 4 मेन क्लियानगर 2 स्टेज बंगलौर-560040	01/11/2004
338. 213428	श्री प्रेम कुमार बी एसीए ब्लॉक एस-45 प्लॉट नं. 3977 फ्लैट 'ए' अन्नानगर 20 स्ट्रीट चैन्नई-600040	01/04/2004	347. 213595	श्री विजय कुमार डी एसीए 37/ए वैंगल राव नगर हैदराबाद-500038	01/04/2004
339. 213447	श्री आनंद प्रभु एस एसीए केयर ऑफ अर्नेस्ट एन्ड यंग पी ओ बाक्स 9267 दुबई-यू.ए.ई	11/12/2004	348. 213600	श्री सुरेश आर एसीए 6/520 श्रीलक्ष्मी वैद्यनाथपुरम अम्बिकापुरम, पालक्काड-678011	20/07/2004
340. 213467	श्री राजेन्द्र प्रसाद साप्पा एसीए 3337 III मेन जेपी नगर III फेज बंगलौर-560078	31/03/2004	349. 213607	मिस शोक्ना स्वामीनाथन एसीए फ्लैट नं. 502 महालक्ष्मी आरकोड अपोजिट दू आईओसी पेट्रोल बंक माधीनगुडा, हैदराबाद-500050	01/04/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
50.	213626 श्री सूर्या प्रकाश प्रकाश एसीए 6-1-103/113, फ्लैट नं. 201 श्री साई अपार्टमेंट्स पद्मारविनगर सिकंदराबाद-500025	01/04/2004	359.	213822 श्री सुनील शरनगौडा एसीए नं. 434, 4 मेन, आनंद नगर बंगलौर-560024	31/03/2004
51.	213631 श्री वैकट वांस्सी कृष्णा एम एसीए प्लॉट नं. 14 जे आर डी टाटा इंडस्ट्रियल स्टेट कानूरु, विजयावाड़ा-520007	31/03/2004	360.	213851 श्री रंगराज एस एम एसीए रूम नं. 117 कुमार वादीवु निलायम 46 थुलुक्काना नैकेन स्ट्रीट थिरेडी, थिरुवाट्टीयूर, चैन्नई-600019	31/03/2004
52.	213663 श्री राजेश कुमार आर एसीए पुष्टे हाऊस विन्दंगूर-686583 कोडुयम डिस्ट्रिक्ट	08/11/2003	361.	213859 मिस सविता जी एसीए 14एफ, परमहंसा अपार्टमेंट्स नैनियाप्पन स्ट्रीट स्ट्रीट मैरीस रोड मंड्यक्ली, चैन्नई-600028	01/04/2004
53.	213669 श्री मोहम्मद समीर पी एसीए पारी हाऊस, कोलमन्ना हाजीअर पल्ली पी ओ मालापुरम-676519	01/07/2004	362.	213869 श्री विक्रम अशोक सराफ एसीए 166 1 फ्लोर, 6 मेन कैब लेआउट बीटीएम स्टेज 1, बंगलौर-560076	17/01/2005
54.	213691 श्री जेफ्ट मदिआठ एसीए मदिआठ हाऊस, कन्नूम्बागम पी ओ थेक्कथुक्कल्ल कोडुयम-686519	25/02/2004	363.	213956 श्री अभिषेक गोएंका एसीए 244-ए एम एल ए कालोनी रोड नं. 12 बंजारा हिल्स हैदराबाद-500034	01/04/2004
55.	213785 मिस भवानी वी एसीए सीजी2, मारुटीस विल्ल 18, फिल्लायर कोएल स्ट्रीट, थियवनमियूर, चैन्नई-600041	01/04/2004	364.	213978 श्री आदित्या आनंद वी एसीए 3-बी, हिलक्रैस्ट अपार्ट्स 14 वैकटानारायणा रोड टी नगर, चैन्नई-600017	01/04/2004
56.	213796 मिस मिशा फ्रांसिस एसीए पेन्नगौडेन हाऊस, करीपाई लेन चेलायकोटुकारा थिरु-680005	01/04/2004	365.	213995 श्री कृष्णा मूर्ति जी एसीए 5, करुपारायर कोएल स्ट्रीट संगानूर, राठीनापुरी पी ओ कोरंबतोर-641027	15/09/2004
57.	213800 श्री अजय जोगिनीपल्ली एसीए एच नं. 2-10-1440 भागयानगर, कांसाही, कैम्बे (खाम्पट), कैम्बे-388630	21/07/2004	366.	213999 श्री पाई संजय विष्णु एसीए 1/5, 2 फ्लोर 2 फ्लोर, कैम्बेज रोड अरुप्पूर, बंगलौर-560008	31/03/2004
58.	213819 श्री चन्द्रशेखर संतोष कुमार एसीए 'गायत्री', किरलीकोडे जंक्शन पैन्थमपीट्टा डिस्ट्रिक्ट नेडुमॉन-691556	20/07/2004			

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.		
367.	214013	श्री सचिन कुमार एस एसीए नं. 52 लक्ष्मण मुत्तियर स्ट्रीट कमर्शियल स्ट्रीट II क्रॉस, शिवाजीनगर बंगलौर-560001	24/01/2005	374.	214258	श्री श्रीनाथ एन वी एसीए प्लॉट नं. 47 III फ्लोर चन्द्रमुखी रेजीडेंसी दीनदयाल नगर नेरेडमेट, सिकंदराबाद-500056	01/04/2004
368.	214027	श्री वारा वीरा वैकट प्रसाद बाबू मण्यम एसीए केयर ऑफ बी रवि शंकर नं. 7ए जगदम्बीगई स्ट्रीट थिरुवालीस्वरा नगर थिरुमंगलम चैन्नई-600040	31/03/2004	375.	214339	श्री आदित्या सिंघल एसीए सिंघल भवन #21 2 मेन 13 क्रॉस विगानाना नगर, कागगादासपुरा बंगलौर-560075	28/06/2004
369.	214054	श्री गिरीधर कुमार एस एस एसीए फार्मैस मैनेजर हुल्हुले आर्शेनल होटल एयर पोर्ट ऑफ मालाडीव पी बी नं. 20118, मेल रिपब्लिक ऑफ मालाडीव	01/04/2004	376.	214412	श्री बैकियानाथन एस एसीए ओल्ड नं. 53, अमीरजन स्ट्रीट चूलाईमेडू चैन्नई-600094	10/01/2005
370.	214110	श्री उदयाकर्मा आर एसीए मन्नूर मैथम, फोर्ट अस्लेपी डिस्ट्रिक्ट पाकेलीकरा-690101	30/03/2004	377.	214437	श्री अलॉएसियस कीथ पिंटो एसीए 51 गार्डन मॉनर, लेडीहिल अशोक नगर पोस्ट मंगलौर-575006	08/10/2004
371.	214149	श्री बालू वैकट सुब्रमण्यम चिन्नी एसीए फ्लैट नं. 106 श्रीनिवास रेजीडेंसी बिसाईड एडीगाह ओल्ड ब्येनफली सिकंदराबाद	01/08/2004	378.	214445	मिस श्रीकला के एसीए फ्लैट # 102 केटी अपार्टमेंट्स 33 10 क्रॉस, मल्लेश्वरम बंगलौर-560003	30/09/2004
372.	214156	श्री अप्पाजी कोठायली एसीए डी नं. 18-397/1 कोठायी निवास नवकार ट्रेडर्स अपार्टमेंट्स II फ्लोर मल्लिकार्जुन नगर मल्लिकार्जुनी हैदराबाद-500047	06/01/2005	379.	214617	श्री रमेश एन एसीए सारदा अपार्टमेंट्स II फ्लोर डोर नं. 9, न्यू नं. 9 पोस्टल कालोनी I स्ट्रीट वैस्ट मैम्बलम चैन्नई-600033	27/09/2004
373.	214180	श्री रौक कबीर एसीए डी नं. 8-2-70/बी1 बैरामुल्ला एक्स रोड नियर एल बी नगर एक्स रोड हैदराबाद-500074	01/04/2004	380.	214795	श्री सुरेश के एसीए एच नं. IV/1175 "स्वाति" नॉर्थ चेरलई कोची-682002	16/10/2004
				381.	214836	श्री यादव कृष्णन बी पी एसीए न्यू नं. 33, (ओल्ड नं. 131) गिल नगर एक्सटेंशन चूलाईमेडू चैन्नई-600094	02/02/2004

क्र. सं. ए.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
382. 215029 श्री विल्लकमैरी किशोर एसीए केयर ऑफ श्री सी सेशाचारयुलू 14-310 एडीपल्ली माचीलिपटनम-521001	10/02/2005	384. 215320 श्री रामबाबू आडेपू एसीए 1-1-37, अशोक नगर बंदारीगुडेम, खम्माम डिस्ट्रिक्ट मनुरू-507117	20/01/200
383. 215158 श्री हरनाथ बोन्थला एसीए 1-8-13, फर्स्ट फ्लोर स्ट्रीट नं. 13, चिक्केडपल्ली हैदराबाद-500020	01/12/2004		

डा. अशोक हल्दिया
सचिव

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3एमसीए(8)/2004-2005 : यह संस्था सूचित करती है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अधिनियम 1988 के विनियम 10(1) (iv) पाठ्य के साथ नियम 10(2)(b) के द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों का नाम प्रेक्टिस सर्टीफिकेट की वार्षिक फीस जमा न कराने के कारण 1 अक्टूबर 2004, से रद्द किया जाता है।

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
1. 005384	श्री त्यागराजन टी वी एफसीए सी'5 थर्ड फ्लोर 'प्रकृति' ओल्ड नं. 20 न्यू नं. 41 फर्स्ट मेन रोड गांधी नगर, अड्यर चैन्नई-600020	7. 018131	श्री विश्वनाथन एस एसीए 94/25, हबीबुल्लाह रोड टी नगर, चैन्नई-600017
2. 006319	श्री वादंतम जगन्नाथा शास्त्री एसीए "ओल्ड स्टॉक्स लंदन रोड ईस्ट अमेरशाम" बकिंगमशायरएचपी7 9डीटी इंग्लैण्ड-यू.के.	8. 019193	श्री कन्नूस्वामी एम एफसीए "रमनियम कल्याणी" बी-2 सैकंड फ्लोर 44 फोर्थ स्ट्रीट, अभिरामपुरम चैन्नई-600018
3. 007349	श्री रागवेन्द्रा रॉव पी एफसीए 1-2-412/4/1 गगन महल कालोनी डोमलगुडा, हैदराबाद-500029	9. 019761	श्री शेशाद्री एन एसीए 32 दीवासीगमानी स्ट्रीट (न्यू नं. 4) रोयापेताह, चैन्नई-600014
4. 007497	श्री बुल्लीचिन्नाम वी एफसीए 12-2-417/ए/26 एल आई सी कालोनी हैदराबाद-500028	10. 020047	श्री वैद्यनाथन एस एफसीए न्यू नं. 12 (ओल्ड नं. 34/1) वी कृष्णास्वामी एवेन्यू माएलापोर, चैन्नई-600004
5. 009420	श्री सुब्रमण्या पिल्ललाई पी के एफसीए नं. 1395 13 मेन 6 क्रॉस हाल III स्टेज जीवन बीमा नगर बंगलौर-560075	11. 020586	श्री प्रणेश राज माथुर एसीए एच नं. 12-13-375 लेन नं. 2 स्ट्रीट नं. 2 सिकंदराबाद-500017
6. 009609	श्री सैल्वाराजन एम सी एफसीए 54/12 रामास्वामी एवेन्यू (न्यू नं. 15) एफ-2 लोकेश होम्स एनैक्से शास्त्री नगर अड्यर चैन्नई-600020	12. 020934	श्री अंबाज्जगन आर एफसीए 39 नाटेसन स्ट्रीट II फ्लोर, टी नगर चैन्नई-600017
		13. 021375	श्री कृष्णन आर एफसीए न्यू नं. 16/3 (ओल्ड नं. 27/3) दीवा सिगमानी रोड रोयापेताह, चैन्नई-600014

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
14. 021592	श्री रंगनाथन जी एसीए फ्लैट # 202 II फ्लोर सूर्य हाईट्स, 11-5-153 रैड हिल्स लक्ष्मीकपूर, हैदराबाद-500004	23. 025389	श्री पिपीपति शिवाराम शर्मा एफसीए फाईनैशियल कन्ट्रोलर ए पी फोरस्ट डेवेलपमेंट-कोरपोरेशन लि. 3 फ्लोर यएनआई बिल्डिंग ए सी गार्ड्स हैदराबाद-500004
15. 022478	श्री जयराम जी एफसीए फ्लैट नं. 67 भास्कर रॉय नगर फेज III सैनिकपुरी सिकंदराबाद-500094	24. 025439	श्री कैलाशनाथ के एस एसीए बी-8 आशीयाना नं. 9 वीनस कालोनी 2 स्ट्रीट अल्वरपेट, चैन्नई-600018
16. 023416	श्री वैक्टरमन निखरपी के एफसीए एक्वेरियस, # 4/1 वैक्टर स्ट्रीट विवेकानंद नगर, रामपुरम चैन्नई-600078	25. 025965	श्री श्रीवात्सन सुब्रमण्यम एसीए 25, देसिका रोड, माएलापोर चैन्नई-600004
17. 023859	श्री रमेश एन एफसीए 16/18 आदित्या अपार्टमेंट्स 53 डा. रंगा रोड मन्नारपोर, चैन्नई-600004	26. 026140	श्री शेषाद्री के आर एफसीए 16 कृष्णापुरी I स्ट्रीट आर. ए पुरम, चैन्नई-600028
18. 024876	श्री उमापति ए एफसीए 41 थीनाम्माराम स्ट्रीट कोसलपल्लयम्पिक्कवननामालाई डीटी अरनी-632301	27. 026843	मिस सुधा पी एसीए केयर ऑफ श्री पी लक्ष्मणा रॉय डीनं. 38-2-2, पुन्नामाथोट (नियर पीडब्ल्यूडी ग्राउंड्स) विजयावाडा-520010
19. 025030	श्री प्रताप सिंह टी एसीए फ्लैट नं. 101 मणिसदन अपार्ट्स विद्यानगर, हैदराबाद	28. 027111	श्री मुरली कृष्णन एम एस एसोए 38, रोहिणी अपार्टमेंट्स 7-1-32/ए, लौला नगर हैदराबाद-500016
20. 025082	श्री देवेन्द्र रॉय जी एसीए फ्लैट नं. ए-201 दत्तासाई अपार्टमेंट्स मिर्साईडस यशोदा हॉस्पिटल राजमवन रोड, सोमजीगुडा हैदराबाद-500482	29. 027287	श्री गणेश एस पी एफसीए 549 III ब्लॉक 11 क्रॉस बेल लेआऊट विद्यारैन्नापुरा, बंगलौर-560020
21. 025098	श्री रामकृष्ण एन एसीए नं. 17 'अक्षय निवास' (नियर आरोग्य होम्स क्लिनिक) अप्परॉव लेआऊट राममूर्ति नगर, बंगलौर-560016	30. 027375	श्री सुरेश बी एसीए फाईनैस मैनेजर कोरप. फाईनैस-इं. ग्रुप फास्ट टेक्नाको परकासा इंजीनियरिंग सैन्ट्रल मुलिया इयूट 1001 10 फ्लोर जेआई एचआर रसुना सह्यद केएवी एक्स-6 नं. 8 जकारटा-12940 इंडोनेशिया
22. 025236	श्री गुरुदेव रेड्डी केयर ऑफ के वैक्टरमन नयडू नं. 24/128 साई नगर कालोनी विजयपुर-517001		

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
1. 027599	श्री वारादराजन एस एसीए फ्लैट नं. 201, स्वर्णि अर्पाटमेंट्स 7-1-455/1 अमरपेट हैदराबाद-500016	40. 046552	श्री चावली सतीष लक्ष्मीनारायणन एसीए फ्लैट नं. 13 (I फ्लोर) सुवासिनी अपार्टमेंट्स 7-1-27 अमीरपेट, हैदराबाद-500016
12. 027622	श्री थॉमस जोसेफ एसीए पुलिनयामक्वेल, पी.बी. नं. 12 इडुक्की डिस्ट्रिक्ट कट्टापपना	41. 046990	श्री हिरण विनोद कुमार एसीए फाईनैशियल कन्ट्रोलर एन्ड कम्पनी सैक्रेटरी ताजजीवीके होटल्स एन्ड रिजोर्ट्स लिमिटेड ताज कृष्णा, रोड नं. 1 बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034
33. 027711	श्री पियूस जॉर्ज एफसीए एलडब्ल्यूएफ/डीडब्ल्यूएस गीतांगा रोड लैकिंगटन, पोस्ट बाक्स नं. 408 70 00100 नायरोबी जीपीओ-0, केन्या	42. 047863	श्री मनमाडकर जयंत भालचन्द्रा एसीए फ्लैट नं. 209, शांति सौधा अपार्टमेंट ईरा मंजिल कालोनी, खैराताबाद हैदराबाद-500081
34. 028025	श्री गणपति संकर के एसीए 232, 13 स्ट्रीट देवसेन्ट्र लेआऊट श्रीविनायकनगर, कृष्णा राजा पुरम बंगलौर-560036	43. 051330	श्री मुरारकर देवेन्द्रा कुमार एफसीए 505 नंदनम अपार्टमेंट्स 5-8-42, फतेह सुल्तान लेन हैदराबाद-500001
35. 028350	श्री सैन्थिलकुमार एस एसीए ट्रेजरी रिस्क एमजीएमटी साऊदी अमेरिकन बैंक पी ओ बाक्स 833 रियाध 11421 साऊदी अरेबिया	44. 056615	श्री कर्न मनोज लाल एफसीए फ्लैट नं. जी2 श्री साई राम अपार्टमेंट 6/8 5 क्रॉस I मेन गोविंदराज नगर विजयानगर बंगलौर-560040
36. 028949	श्री बालाजी जे एफसीए एफ-6, II फ्लोर 204 रामास्वामी सल्लाई के के नगर, चैन्नई-600078	45. 056805	श्री दश पृथ्वीराज एसीए असिसटेंट मैनेजर फाईनैस भारत डाएनामिक्स लिमिटेड मेदाक-502305
37. 029107	मिस विजया भारती सुधाकर एसीए 399 अल्लमसेन रोड कोयंबतोर-641011	46. 057402	श्री कानोदिया अजय कुमार एफसीए ईसार अपार्टमेंट्स फ्लैट नं. जी-2 2 फ्लोर 10-2-268-270 वैस्ट मैरेडपेल्ली सिकंदराबाद-500026
38. 029693	श्री श्रीजय संकर के एसीए सी-497, 8 स्ट्रीट पेरीयर नगर, जवाहर नगर पोस्ट चैन्नई-600082	47. 094455	मिस माधवी पी एसीए 162 वायुपुरी सिकंदराबाद-500594
39. 033364	श्री सूर्यनारायण ए एफसीए 971 14 क्रॉस, 16 मेन बीएसके II स्टेज बंगलौर-560070		

क्र. सं. एम. आर. एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम. आर. एन.	सदस्य का नाम व पता
48. 094469	श्री बीगरा संदीप एफसीए फ्लैट नं. 11 2 फ्लोर सुबारावा अपार्टमेंट्स 12 शेनॉए रोड, नंगावक्कम चेन्नई-600034	55. 200364	मिस भूषा जी एसीए 51/26 फर्स्ट मेन रोड वसंत अपार्टमेंट्स आर ए पुरम, चेन्नई-600028
49. 096044	श्री सचिन कुमार एसीए फाईनैस ऑफिसर मे. आईटीआई लि. बंगलौर कॉम्प्लेक्स दूरवानी नगर बंगलौर-560016	56. 201043	मिस सारदा कल्याणी बी एफसीए 1-1-380/38, अशोक नगर एक्सटेंशन हैदराबाद-500020
50. 100042	मिस जनस्वामी घानी रवि कुमार एसीए फ्लैट नं. 508 विष्णु रेजीडेंसी ब्लॉक स्ट्रीट नं. 11, गांधी नगर हैदराबाद-500080	57. 201111	श्री साबू के एस एसीए पी ओब बाक्स 26359 दुबई-यू.ए.ई
51. 100332	श्री सुब्रमण्यन विवेक एसीए 105 विन्सपा 6 बोट क्लब रोड पूने-411001	58. 201171	श्री बालचन्द्रा चादगा पी आर एसीए नं. 125 7 मेन बीडीए लेआउट, अवलाहल्ली बीएसके III स्टेज बंगलौर-560085
52. 101569	श्री शंकर पुरुषोत्तम एसीए एफ-3 सी ब्लॉक बृंदवन अपार्ट्स धिकोटी गार्डन्स बेगम्पेट, हैदराबाद-500016	59. 201451	श्री रावेन्द्रकुमार आर एफसीए नं. 9 (ओल्ड नं. 34) शास्त्री 1 क्रॉस स्ट्रीट सालीग्रामम, चेन्नई-600093
53. 103701	श्री नवीन कुमार महेस्वरी एसीए डिप्टी जनरल मैनेजर (फाईनैस एंड एकाउंट्स) मे. रामा न्यूजप्रिन्ट एंड पेपर्स लिमिटेड नरिमन भवन, 12 फ्लोर 227 विनय के शाह, नरिमन पार्क मुम्बई-400021	60. 201537	श्री मुरली एस एसीए फ्लैट नं. 4ए सूरज टॉवर्स 128 एल बी रोड थिरुवनमियूर, चेन्नई-600041
54. 105080	श्रीमति सोहाया समीर शेही एसीए 26-बी आरएमबी II स्टेज 1 ब्लॉक 1 मेन II क्रॉस बंगलौर-560094	61. 201636	श्री सैन्थिलनाथन बालसुब्रमण्यम एसीए कोयर ऑफ श्री चन्द्रशेखर नं. 55, 10 क्रॉस, न्यू थिल्लई नगर कोयंबटूर-641041
		62. 201934	श्री अनन्त कृष्णन सी एस एफसीए फ्लैट नं. 208, ब्लॉक-बी बेलवेडेरे गार्डन्स-फेज 2 पद्मार्णव नगर सिकंदराबाद-500025
		63. 201991	मिस रेवती आर एसीए फ्लैट नं. 403 IV फ्लोर प्लीसेंट अपार्टमेंट्स 11B-4-169/1-ए सैफाबाद बाजार घाट (रैड हिल्स), हैदराबाद-500004

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
54. 202340	श्री साजू के पौल्लेस एसीए 70 बीयूमोन्ट सर्कल अपार्ट72 यौन्कर्स, न्यू यार्क 10710 यू.एस.ए	73. 204154	श्री श्रीधर आर जे एफसीए केयर ऑफ श्री टी जी रामालिंगम न्यू नं. 12 (ओल्ड नं. 34) अग्रहारम रोड, शिवालिंगपुरम 1 क्रॉस स्ट्रीट कोरटूर रेलवे स्टेशन पी ओ कोरटूर, चैन्नई-600076
55. 202388	श्री राधा श्याम गोटेटी एफसीए 1-1-782/बी/5 गांधी नगर हैदराबाद-500080	74. 204199	मिस विजयाति जी एसीए न्यू नं. 8 (ओल्ड नं. 25) धंडवरायन स्ट्रीट ट्रिप्लीकेन, चैन्नई-600005
56. 202683	श्री श्रीधर एन एसीए 19 इमरीसेट कालोनी अकबर रोड, सिकंदराबाद-500009	75. 204297	श्री श्रीराम एम आर एसीए 7-ए, चांद टॉवर 128 एल बी रोड, थिरुवनमियूर, चैन्नई-600041
57. 202795	श्री महेश आर एसीए बी। सी डीएफई वैंस अपार्टमेंट्स 33 वीजेसी। मेन रोड कोदाम्बकम, चैन्नई-600024	76. 204406	श्री माठीवनन बी एससीए नं. 9 अल्सा मेल 1 फ्लोर, 149 मोन्थिटी रोड चैन्नई-600008
68. 202867	श्री भाविकाट्टी आनंद मल्लिकार्जुन एसीए केयर ऑफ श्री आर मुद्दाप्पा 396, 7 क्रॉस I ब्लॉक, जय नगर बंगलूर-560011	77. 204579	श्री श्रीनिवासन डी एसीए नं. 30 को सु मनि स्ट्रीट पद्मानाथन नगर, चूलाईमेडु, चैन्नई-600094
69. 203460	श्री राजेश श्रीपद एसीए असिस. मैनेजर-इंटरनल ऑडिट नैशनल बैंक ऑफ फुजैराह पी ओ बाक्स 1416 शारजाह-यू.ए.ई	78. 204660	श्री माधन एन एसीए वैसकेयर टॉवर्स सेनाटाफ रोड, चैन्नई-600018
70. 203627	श्री वेंकटेश जी एसीए 27/1 I फ्लोर बैंक ऑफ इंडिया कालोनी एक्सटेंशन बिहाइंड ब्रिगेड मिलेनियम जे पी नगर VII फेज बंगलूर-560078	79. 204680	श्री श्रीधर एस एसीए 13 संताना कृष्णा स्ट्रीट नेहरू नगर, चैन्नई-600044
71. 203760	मिस लावण्या एस एसीए 13 रंजीत रोड कोट्टपुरम, चैन्नई-600085	80. 204694	मिस लक्ष्मी किरन स्वाति डी एफसीए ए-19 बी के गुड्डा, संजीव रेड्डी नगर कालोनी हैदराबाद-500038
72. 204099	श्री रवि कृष्णा पी एसीए एच नं. 6-3-1186/ए/6 बेगुमपेट, हैदराबाद-500016	81. 204700	श्री रघुनाथ रेड्डी के एसीए एच नं. 68 ज्योति नगर नियर लैंगर हाऊस हैदराबाद-500008

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
82.	204857 मिस्. गायत्री टी एसीए फ्लैट 3ए नं. 18 (न्यू नं. 38) फोर्थ मेन रोड कस्तूरबाई नगर अड्यर, चैन्नई-600020	90.	206164 मिस कला पी आर एसीए गीतांजली इंदिरा नगर कादावंथ्रा, कोची-682020
83.	204883 श्री सुनील कुमार जैन एस एसीए 18 स्वामी सन्नाथी लेन इंस्ट मासी स्ट्रीट मदुरई-625001	91.	206658 श्री राजेशबाबू आर एसीए 50 अल्वरथिरुनगर एनैक्से चैन्नई-600087
84.	204889 श्री सुभाषचन्द्रा पाई टी एसीए एफएन-5 एमआरपीएल हाऊसिंग कालोनी कृष्णपुर पीओ, वाया काटीपल्ली, मंगलौर-575030	92.	206709 श्री शॉमसें फिलिप एसीए सी-46, ईरुप्पाक्काडु एलानवाट नगर-बी-31 वैलीयेविला, थिरुमाला पीओ थिरुवन्तपुरम-695006
85.	205069 श्री सुब्रमण्यन पी एस एसीए जी-184 "मिराल", पानमफिल्ली नगर, कोची-682036	93.	206766 श्री वासुदेवन के एसीए फाईनैस कन्ट्रोलर मै. डीआरएचएल इंडिया सर्विसिज प्रा. लि. कनैक्शन पाएंट यूनिट नं. 311, 3A एन्ड 411 # 335 एयरपोर्ट एक्जिस्ट रोड कोनेना अग्रहारा, बंगलौर-560017
86.	205173 श्री रॉय मैथ्यू एफसीए द स्वदेशी बैंकर्स बिल्डिंग्स फुलीमूड जंक्शन कोडुत्तम-686001	94.	206967 श्री विकास आनंद एसीए 878 एफएफ 6 ब्लॉक 6 क्रॉस 18 मेन, कोरामंगला बंगलौर-560095
87.	205724 श्री सोमासकंदन पी एस एसीए फ्लैट 8 ठक्कस अपार्ट्स 16 मेन IV ब्लॉक जयनगर, बंगलौर-560011	95.	207003 श्री श्रीनिवास रॉय दोम्पला पुडी एसीए फ्लॉट नं. 70, स्वग्रहा अपार्टमेंट्स युसुफगुडा, हैदराबाद-500045
88.	205881 श्री टोटल प्रदीप कुमार राजेन्द्रा पीओए एसीए सिनीय मैनेजर-कोरपोरेट फाईनैस एन्ड एमआइएस मंथाना बोरनेमन प्रा. लि. 90/91 पीन्वा इंड. स्टेट III फेज बंगलौर-560058	96.	207238 श्री कंदूरी श्रीनिवासा मूर्ति एसीए 49-14-16/1, ललिता नगर, विशखापटनम-530016
89.	206002 मिस मिनाक्षी सी एसीए एफ 12 सेरा स्कवेयर 156 कूलरिमेडु हाई रोड कोदुम्बकम, चैन्नई-600094	97.	207321 श्री इंद्रजीत कौशिक पी एसीए 102 हर्षा अपार्ट्स वानी नगर, मल्कजगिरी हैदराबाद-500047
		98.	207345 श्री राजेन्द्र के एसीए 109 एनएचसीएस लेआऊट डबल्यूसीआर 3 स्टेज 4 ब्लॉक, बसेस्वरा नगर बंगलौर-560079

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
99. 207389	श्री कांवेरला बालाजी एसीए # जी 003 उज्ज्वल अपार्टमेंट्स एम जी लेआउट 33 'ए' मेन जे पी नगर 6 फेज, बंगलौर-560078	108. 207823	श्री दामोदर एस एसीए # 22 2 मेन 3 क्रॉस आईयप्पा टैम्पल रोड सुब्बाना गार्डन, बिहाइंड बीटीएस बस गैराज विजया नगर बंगलौर-560040
100. 207424	श्री विनोद आर एसीए 19 एन्ड 20 कलिंगारायन स्ट्रीट राम नगर, कोएंबटोर-641009	109. 207844	मिस संगीता पी दस एसीए एच नं. 37/3090 'संगीत' बैंक रोड, कलूर कोची-682017
101. 207485	मिस सुजाता बालाजी एसीए 13 II स्ट्रीट, सुब्रमण्या नगर कोदम्बकम, चैन्नई-600024	110. 207897	श्री रवि किरन कुमार रेड्डी पी एसीए प्लॉट नं. 66, ब्लॉक-ए सेक्टर II, अल्कपुर टाऊनशिप पुप्पालागुड, हैदराबाद-500075
102. 207531	श्री मुकुंद जे एन एसीए 113 लक्ष्मण रॉय रोड बी बी के आईएन रोड क्रॉस बंगलौर-560053	111. 208031	श्री जिलिल कुमार एम जे एफसीए एमवाई-3 मुदवंकटिल हाऊस कोट्टापुम, पुथोले (पीओ) थ्रिसुर-680004
103. 207583	श्री राम मनोज कुमार एस एस एफसीए मैनेजर-क्रेडिट एन्ड एडमिनिस्ट्रेशन आईडीबीआई लिमिटेड 3 वाई. पी.एम टॉवर्स ग्रीन्स रोड, चैन्नई-600006	112. 208086	श्री रादेश कृष्ण एस एसीए 32 फर्स्ट क्रॉस स्ट्रीट एलआईसी कालोनी थांजावुर-613007
104. 207676	मिस गीता हनुंता रॉय एसीए न्यू नं. 24 (ओल्ड नं. 56) मोन्टिथ रोड, एगमोरे चैन्नई-600008	113. 208203	श्री सासी कुमार पी एफसीए नं. 45/ए I फ्लोर नैल्सन मणिकम रोड चूलाईमेडु, चैन्नई-600094
105. 207724	श्री चन्द्रशेखरन एन एम एफसीए 106/2862 रामान्धन कॉम्प्लेक्स मैरीज कॉर्नर, थांजावुर-613001	114. 208286	मिस लाजू एलीजाबेथ चेरियन एसीए पल्लारीयारा हाऊस एरीकाडु, पुथूपल्ली पीओ कोट्टायम-686011
106. 207791	मिस राजश्री आर एसीए सिनीयर सपोर्ट इंजीनियर आरेकल स्टेपटवेयर ओरेकल टेक्नॉलॉजी पार्क 3 बैनरघाट रोड बंगलौर-560029	115. 208328	मिस शेबा सोरुबा रानी एसीए केयरऑफ गुल्फ एजेंसी कम्पनी पी ओ बाक्स 2404, बुर दुबई दुबई-यू.ए.ई
107. 207814	मिस ललिता मिठीपति एसीए 3-1-163बी सुदर्शन नारायणपेट रोड, अमलापुरम-533201		

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
116.	208378	श्री सैम्यूल कुट्टी वी ओ एसीए शेबा रानी केयरऑफ गुरुफ एजेन्सी कम्पनी पी ओ बक्स 2404, बुर दुबई, दुबई-यू.ए.ई	124.	210485	श्री स्वामी ए एम एसीए एच नं. 29-186/1 न्यू विद्या नगर कालोनी आर के पुरम, नेरेडमेट सिकंदराबाद-500056
117.	208476	श्री कल्याणरमन वी एफसीए न्यू नं. 44 (ओल्ड नं 23) नाथमुनि स्ट्रीट, II फ्लोर, टी नगर चैन्नई-600017	125.	210491	श्री अशोक के के एसीए एसोसिएट स्कोप इंटरनैशनल प्रा. लि. 1 हड्डोज रोड, चैन्नई-600006
118.	208531	श्री मोहम्मद अल्लि एसीए एकाउंटेंट-ब्रांच सपोर्ट अलफुत्ताम मोटर्स फार्मिस डिपार्टमेंट पी ओ बक्स 11052 दुबई-यू.ए.ई	126.	210503	श्री हरि प्रसाद के एसीए ओल्ड नं. 20 न्यू नं. 6 रुक्मणी स्ट्रीट वेस्ट मेम्बलम, चैन्नई-600033
119.	208611	श्री दिनेश पी पई एसीए आथिरा, टीसी नं. 15/417-(1) अल्थारा नगर केल्लयैम्बलम वट्टमंगलम पीओ थिरुवनंतपुरम-695010	127.	210514	श्री अविनाश पार्थ एसीए नं. 225/सी 1 सी क्रॉस 18 मेन, हल 2 स्टेज इंदिरानगर, बंगलौर-560008
120.	208832	मिस अनुराध वी एसीए पी-1 बी-76 प्रिन्स्टन स्टेट (अप्पे. गेल्फ कोस) डीएलएफ फेज V, गुड्डाव	128.	210548	श्री विजया के वी एसीए ई-10 संगथ, एम जी आर नगर 2 स्ट्रीट, वेलावेरी चैन्नई-600042
121.	208961	श्री आर्मास्ट्रॉंग एस ए एसीए आर एस एम एन्ड कं. पी ओ बक्स 1171 पोस्टल कोड 112 रुवी-सलतना ऑफ ओमन	129.	210716	श्री कल्पेश आर मारू एसीए 451, I ब्लॉक, 3 स्टेज बसवेस्वर नगर नियर कादम्बी स्कूल, बंगलौर-560079
122.	209423	मिस श्रीविद्या एस एसीए नं. 29, पेकमल कोएल स्ट्रीट ईरोड डिस्ट. गोबीचेट्टीपल्लयम-638452	130.	210749	श्री विमानेनी सुधीर एसीए केयर ऑफ कोगांटी गौरिआह डोर नं. 11-3-23 चैम्पूट, तेनाली-522202
123.	210182	श्री राजी सी जे एसीए केयर ऑफ स्ट्रीट एन्टीस चर्च नं. 2 कोल्लंदई स्ट्रीट पार्क टाउन, चैन्नई-600003	131.	210888	मिस वर्षा वी काकाटी एसीए सपोर्ट अनालिसट ओरेकल इंडिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लि. हाईटेक सिटी, माघापुर हैदराबाद-500081
			132.	210985	श्री रवि सिम्बेवाल एसीए 424 8 मेन 7 क्रॉस बीटीएम II स्टेज, मार्कणे लेआउट बंगलौर-560076

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
133. 211076	मिस पर्वतावरधिनी एन एसीए 24 नल्लाप्पन स्ट्रीट माएल्लपोर, चैन्नई-600004	142. 212156	मिस दीपा एस एसीए वाईफ ऑफ श्री एस राजेश प्लॉट नं. 497 सेक्टर 25 पीसीएनडीटीए-प्राधी करन निगदी, पूने-411044
134. 211162	श्री विजया कुमार कोंडुगुंडा एसीए सन ऑफ के वी रामनैयाह कामेफल्ली वाया प्रकाशम डिस्ट. उप्पलदिन्ने पी ओ-523271	143. 212163	मिस राजा राजेश्वरी एस एसीए ईई6 फर्न लैंड अपार्टमेंट्स 103 एरीकरी स्ट्रीट पेरुनगुडी, चैन्नई-600096
135. 211235	श्री मधु गोगुला एसीए डी नं. 11-7-1 मल्लवारपुवारी स्ट्रीट अनाकफल्ली-531001	144. 212164	श्री विजेक राजागोपालन डी एसीए नं. 1 जज कालोनी सेकंड स्ट्रीट टैम्बरम सैनाटोरियम चैन्नई-600047
136. 211366	श्री श्रीवत्सन एन एसीए 33 एडुमेन रोड कस्तूरिबा नगर अड्यार, चैन्नई-600020	145. 212174	श्री वैकट ब्रह्मानंद रॉब गुंडा एसीए लक्ष्मीपुरम 4 लाईन डोर नं. 5-91-12 गंतूर-522007
137. 211487	श्री पुष्प वैकटेशरलु एसीए 17-1-388/10/ए लक्ष्मीनगर कालोनी साईदपट्टाद हैदराबाद-500059	146. 212193	श्री राजागोपालन के एसीए 18 श्रीनगर कालोनी कुरुम्बापलायम वेदपति पोस्ट कोएंबतोर-641007
138. 211700	श्री नरसिंह राक्कन अर एसीए नं. 18 वीया नगर 2 स्ट्रीट वेस्ट टैम्बरम चैन्नई-600045	147. 212207	श्री विजया किशोर मिश्रा एसीए हाऊस नं. 5-5-1019 गोशामहल, हैदराबाद-500012
139. 211904	श्री श्रीगीता के एसीए कुनिप्पिल हाऊस फनूर वाया, कन्नूर डिस्ट. चेंडयाड पी ओ-670692	148. 212369	श्री अक्केला श्री राम वामसी एसीए 50-50-38/13 टी पी टी कालोनी सीताम्माधारा, विशाखापटनम-530013
140. 211937	श्री अजाक्स सी जे एसीए XXXIX/352 मंगलठ विलिडिंग मोनेस्ट्री रोड, कसराकपुरी, कोची-682011	149. 212429	मिस सूर्याग्रभा रेनु एस एसीए एच नं. 29-186/1 न्यू विद्या नगर कालोनी आर के पुरम, नेरेडमेट सिकंदराबाद-500056
141. 212104	श्री नटराजन एस एसीए 90 ईस्ट लोकम्माय स्ट्रीट आर एस पुरम, कोएंबतोर-641002	150. 212466	श्री पाई बीटल राक्केन्द्रा ए एसीए श्री शांतेरी, रामनबेल उत्तरा कन्नड, सिरसी-581401

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
151. 212517	श्री सुनील कुमार सियाल एम एसीए 18/8, इन्फैन्ट्री रोड क्रॉस बंगलौर-560001	160. 213153	श्री राजू एम पल्लान एसीए चीफ एकाउंटेंट मन्नाई ट्रेडिंग एंड कोन्ट्रेक्टिंग ऐस्ट पी ओ बाक्स 5664 मनामा, बहरैन
152. 212526	श्री महावीर चांद बगरेचा एसीए 610 आकाश गंगा अपार्टमेंट्स 24/10 फ्लोवर्स रोड चेन्नई-600010	161. 213159	मिस स्वप्ना नडेल्ला एसीए बीएस-5, साई मॉडल विलेज रामावाराप्पाडू, विजयावाडा-521108
153. 212558	श्री वैकट सत्या पवन कुमारिया एसीए 4-4-214, इंदर बाग सुल्तान बाजार, हैदराबाद-500095	162. 213212	मिस ज्योति राठी एसीए 3-5-141/2/1 एडेनगार्डन्स, हैदराबाद-500001
154. 212583	मिस महलक्ष्मी बी एस स एसीए टी-1 थर्ड फ्लोर रॉक्स बल्डिग अपार्ट्स भारद्वाज स्ट्रीट इस्ट टैम्बरम, चेन्नई-600059	163. 213250	श्री गोपीनाथ मिश्रा एसीए इंटरनल ऑडिट, कोरपोरेट फाईनैस डिवाइजन थिरेमैक्स हाऊस, थिरेमैक्स लि. 4 पूने-मुम्बई रोड शिवाजी नगर पूने
155. 212685	श्री राघवेन्द्रराव एम एसीए सिनीयर एक्जीक्यूटिव-फाईनैस- अबन पॉवर कम्पनी लिमिटेड नं. 9 करुप्पुर विलेज पंडनल्लूर (वाया) तिरुविदईमुरुदूर-609807	164. 213341	श्री गुडापुरेडी श्रीदर रेड्डी एसीए ए-2, नीलम अपार्टमेंट्स फिनो जूडा सिकंदराबाद-500011
156. 212758	श्री विजय बी एसीए नं. 54 'ए' ब्लॉक अदिवुनचुनगिरी रोड कुवैम्पुनगर, मैसूर-570023	165. 213422	श्री फानी कुमार गणपवारापू एसीए डी नं. 16-23-10/बी नियर ओल्ड शिवालयम ओल्ड गंतूर, गंतूर-522001
157. 212776	मिस मीता शेठ्टी एसीए # 002 'ए' ब्लॉक स्टारलिंग पार्क अपार्टमेंट्स संजीविनी नगर, बंगलौर-560092	166. 213644	श्री जॉर्ज जैकब एसीए फाईनैसियल कन्ट्रोलर क्रैस्टवुड इंटिरियर्स एलएलसी पी ओ बाक्स 30393 दुबई-यू.ए.ई
158. 213028	श्री वैकटेश्वरलू बादवेटी एसीए मैनेजर-एकाउंटेंट्स विप्रो लि. -(लाईटिंग डिवाइजन) नं. 105 हटागल्ली इंडस्ट्रियल एरिया मैसूर-570018	167. 213962	श्री कला मुरली कृष्णा एसीए सन ऑफ श्री के पेड्डी राजू बी सी कालोनी बालसुमुडी वैस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट मीमावरम-534202
159. 213059	श्री सुनील कुमार चैबरलू एसीए टी एफ-4 रत्ना टॉवर्स 18/1 अरुण्डेल्फेट गंतूर-522002		

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
168. 213979	मिस हरीणी आर एसीए ए-004, स्पार्टेक्स अपार्टमेंट्स 30 क्रॉस, 4 'टी' ब्लॉक जयनगर, बंगलौर-560041	170. 402038	श्री अगीवाल जय प्रकाश एसीए हाऊस नं. 148/1, 11 मेन 9 क्रॉस, हाल, II स्टेज ओल्ड थिप्पासैन्ड्रा बंगलौर-560008
169. 214259	श्री केतन सावला एसीए फ्लैट नं. 15 कालपटारु अपार्टमेंट्स एडन बाग, हैदराबाद-500001	171. 502045	श्री सराफ अभिषेक एसीए 166, 6 मेन, बी टी एम स्टेज के ई बी लेआउट बंगलौर-560076

डा. अशोक हल्दिया
सचिव

नई दिल्ली-110002, दिनांक 4 अगस्त 2006

नं० 13 — सी० ए० (परीक्षा)/आई.एस.ए./एस/2006 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगूलेशन 1988 (जो अधिसूचना संख्या-1सी.ए.(7)/59/2001 दिनांक 28 सितम्बर 2001 के द्वारा संशोधित किया गया) के नियम-7, अनुसूची 'एफ' के रेगूलेशन 204 के अनुसार दि कांसिल ऑफ ईस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि इनफोरमेशन सिस्टमस आडिट (आई०एस०ए०) कोर्स की निर्धारित परीक्षा (असेसमेन्ट टेस्ट) दिनांक 23.09.2006 की सत्र 8 बजे प्रातः से 12 बजे दोपहर, को निम्नलिखित केन्द्रों में जिनको कि दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं ।

श्रेणी-I (प्रथम) (परीक्षा केन्द्र जिनमें आई०एस०ए० परीक्षा होगी)

परीक्षा केन्द्र:-

1. अहमदाबाद	16. कानपुर
2. औरंगाबाद	17. कोलकाता
3. बैंगलौर	18. लखनऊ
4. भुवनेश्वर	19. लुधियाना
5. चंडीगढ़	20. मेरठ
6. चेन्नई	21. मुम्बई
7. कोयम्बटार	22. नागपुर
8. दिल्ली/न्यू दिल्ली	23. पटना
9. ईरनाकुलम	24. पूना
10. गुडगांव	25. रायपुर
11. गुवाहटी	26. राजकोट
12. हैदराबाद	27. रांची
13. इंदौर	28. सहारनपुर
14. जयपुर	29. सूरत
15. जलगांव	

श्रेणी-II (द्वितीय) (परीक्षा केन्द्र जिनमें आई०एस०ए० की परीक्षा होगी बशर्ते कि इस परीक्षा केन्द्र में कम से कम 25 परीक्षार्थी निवेदन करते हैं ।)

परीक्षा केन्द्र:-1. सतना

परीक्षा जो कि श्रेणी-II (द्वितीय) के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्र के लिये निवेदन करते हैं को श्रेणी-I प्रथम के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्रों में से एक या दो वैकल्पिक परीक्षा केन्द्रों को प्राथमिकता के अनुसार भी चुनना है यदि श्रेणी-II (द्वितीय) के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र में 25 से कम विद्यार्थी आवेदन करते हैं तो परीक्षार्थियों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार जो कि उन्होंने पत्र श्रेणी-I (प्रथम) के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्र को भरा होगा, आवंटन किया जायेगा ।

यदि कि परीक्षार्थी ने जिसको कि श्रेणी-II (द्वितीय) के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्र के लिये आवेदन किया है और परीक्षा केन्द्र श्रेणी-I (प्रथम) के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र के लिये प्राथमिकता के आधार पर नहीं चुना है, कि किसी भी नजदीकी परीक्षा केन्द्र श्रेणी-I (प्रथम) के अन्तर्गत आवंटन किया जायेगा ।

यह भी निर्णय लिया गया है कि जो भी सदस्य ने पाठ्यक्रम जो कि जनवरी 2006 से शुरू हुआ है से पहले पंजीकृत है उनको यह विकल्प दिया गया है कि आई0एस0ए0 की परीक्षा जो कि सितम्बर 2006 में होनी है में या तो नये पाठ्यक्रम के अनुसार जो कि जनवरी 2006 से शुरू हुआ है में बैठ सकते हैं या फिर पाठ्यक्रम जो कि दिसम्बर 2005 पर विद्यमान था के अनुसार परीक्षा में बैठ सकते हैं परन्तु सदस्य जो कि जनवरी 2006 के बाद पंजीकृत हुये हैं को केवल नये पाठ्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा में बैठना है ।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि आई0एस0ए0 की परीक्षा जो कि सितम्बर 2006 में होनी है, पुराने आई0एस0ए0 पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों के लिये अन्तिम परीक्षा होगी तथा इसके बाद दिसम्बर 2006 व उससे आगे की आई0एस0ए0 की परीक्षा केवल नये पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगी ।

परिषद अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिये रद्द कर सकती है । यह परीक्षा इंस्टीट्यूट के केवल पात्र सदस्य जो कि पहले से ही पंजीकृत हैं के लिये है । इस परीक्षा (असेसमेन्ट टैस्ट) के लिये परीक्षा शुल्क 1000/- (एक हजार रुपये) मात्र है ।

परीक्षा शुल्क की राशि का भुगतान केवल डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जो कि किसी भी अनुसूचित बैंक का हो होना चाहिये । डिमांड ड्राफ्ट 'सचिव' दि ईस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आफ इंडिया के पक्ष में होना चाहिये और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो । आवेदन पत्र उपयुक्त शुल्क के साथ इस प्रकार भेजा जाना चाहिये कि वह संयुक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में दिनांक 01.09.2006 तक पहुंच जायें ।

इस परीक्षा के लिये आवेदन निर्धारित आवेदन पत्रों पर ही किया जाना चाहिये जो कि दि ईस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आफ इंडिया के संयुक्त सचिव (परीक्षा) के नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 25/- रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है । आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालय में भी उपलब्ध है और नकद भुगतान करने पर 11 अगस्त 2006 से प्राप्त किये जा सकते हैं । आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट की वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्लु.आईसीएआई.ओआरजी से प्रिन्ट करके परीक्षा शुल्क 1025/- रुपये के साथ भी भेजा जा सकता है । आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 01.09.2006 है ।

वी. सागर
उप-सचिव (परीक्षा)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2006

संख्या: एन-15/13/6/22/2006-यो.एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने **01 जुलाई, 2006** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **केरल** कर्मचारी राज्य बीमा नियम-**1957** में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **केरल** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात :-

“जिला मलपुरम के तिरूर तालुक में माराक्करा ।”

एम. सुन्दररामन
निदेशक (यो. एवं वि.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिये न्यूनतम योग्यता - द्वितीय संशोधन) विनियम 2006

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई दिल्ली-110002, दिनांक 14 जून 2006

मि०सं० 1-1/2002(पी.एस.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) की धारा 26 की उपधारा (1) के प्राविधान (इ) और (जी) में प्रदत्त शक्तियों, जो कि धारा 14 के साथ पठनीय हैं और वि०वि०अ० आयोग के पत्र सं० एफ.1-93/74(सी.पी.पी.) खण्ड फाइल(5) दिनांक 13-6-83, सं०एफ. 1-11/87(सी.पी.पी.-2) दिनांक 19-9-1991, सं०एफ.1-11/87(सी.पी.पी.) दिनांक 21-6-1995, और अधिसूचना सं०एफ.1-93/74(सी.पी.) दिनांक 19-2-1985, 26-11-1985 और सं०एफ. 3-1/94(पी.एस.) दिनांक 24-12-1998 द्वारा जारी विनियमों के अधिक्रमण करते हुए से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस अधिसूचना के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिये न्यूनतम योग्यता) विनियम 2000 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम तैयार किये हैं :

1. लघु शीर्षक प्रायोज्यता और प्रारंभ:

(।) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिये न्यूनतम योग्यता - द्वितीय संशोधन) विनियम 2006 कहलायेंगे।

(।।) ये विनियम वि०अ०आ० की धारा 2 की उपधारा (एफ) के अन्तर्गत केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित प्रत्येक विश्वविद्यालय, संबद्ध कालेज समेत प्रत्येक संस्थान जिसे आयोग ने संबधित विश्वविद्यालय से परामर्श कर मान्यता प्रदान की हो, पर लागू होंगे

(।।।) ये विनियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिये न्यूनतम योग्यता) विनियम 2000 में जहां जहां भी निम्नलिखित पैरा होगा :

लैक्चरर के रूप में नियुक्ति के लिये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उन आवेदकों के लिये भी अनिवार्य आवश्यकता बनी रहेगी जिनके पास पी. एच. डी की डिग्री है। किंतु जिन आवेदकों ने 31 दिसंबर, 1993 तक एम फिल की डिग्री पूरी कर ली है या पीएचडी का शोधग्रंथ प्रस्तुत कर दिया है उन्हें में सम्मिलित होने से छूट दी जाती है।

की जगह पर निम्नलिखित पैरा माना जायेगा

जिन आवेदकों के पास स्नातकोत्तर डिग्री है उनकी लैक्चरर के रूप में नियुक्ति के लिये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अनिवार्य आवश्यकता बनी रहेगी। किंतु जिन आवेदकों के पास संबंधित विषय में पीएचडी हैं उन्हें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के अध्यापन के लिये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से छूट दी जाती है और जिन आवेदकों के पास एम फिल की डिग्री है उन्हें स्नातक स्तर के अध्यापन के लिये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से छूट दी जाती है।

प्रोफेसर मूलचंद शर्मा
सचिव

भारतीय उपचर्या परिषद

नई दिल्ली-110 002, दिनांक 11 जुलाई 2006

संख्या 11-1/2006-भा.उ.प. भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 (1947 का 48वाँ) के खण्ड 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद एतद्वारा निम्न विनियम बनाती है :-

1. लघु शीर्ष तथा प्रवर्तन : इन विनियमों को 'सामान्य उपचर्या और मिडवाइफरी में डिप्लोमा के लिए पाठ्यक्रम और विनियम - संशोधित 2001' कहा जाएगा ।
2. ये विनियम 22.12.2001 से प्रभावी होंगे ।

टी. दिलीप कुमार
अध्यक्ष
भारतीय उपचर्या परिषद

भारतीय परिचर्या परिषद
कम्बाइन्ड काउन्सिल्स बिल्डिंग, कोटला रोड,
टेम्पल लेन, नई दिल्ली-110 002

पाठ्यक्रम और विनियम
सामान्य परिचर्या और प्रसूति-विद्या
में डिप्लोमा

संशोधन 2001

परिचर्या स्कूल खोलने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त और न्यूनतम अपेक्षाएं

मार्गदर्शी सिद्धान्त

सामान्य परिचर्या और प्रसूति-विद्या कार्यक्रम में डिप्लोमा की पेशकश करने वाले परिचर्या स्कूल की मान्यता के लिए न्यूनतम पूर्वपेक्षाएं नीचे दी गई हैं।

परिचर्या स्कूल खोलने के इच्छुक प्राधिकरण को भारतीय परिचर्या परिषद के समक्ष निम्न दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे और नीचे बताई गई शर्तों का पालन करना होगा:

1. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय अथवा निजी या सार्वजनिक न्यास, मिशन, स्वैच्छिक के अधीन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत कोई पंजीकृत संगठन अथवा कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई कंपनी यदि कोई परिचर्या स्कूल/कालेज खोलने के इच्छुक है, तो उसे राज्य सरकार से अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।
2. परिचर्या कार्यक्रम (स्कूल/कालेज) शुरू करने के लिए संस्थान से प्रस्ताव प्राप्त होने पर भारतीय परिचर्या परिषद भौतिक आधारिक तंत्र, नैदानिक सुविधा और शिक्षण संकाय से संबंधित उपयुक्तता का जायजा लेने के लिए प्रथम निरीक्षण करेगी ताकि कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान की जा सके।
3. परिचर्या कार्यक्रम शुरू किए जाने के संबंध में भारतीय परिचर्या परिषद से अनुमति प्राप्त होने के बाद ऐसा संस्थान राज्य परिचर्या परिषद और परीक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करेगा।
4. ऐसा संस्थान केवल राज्य परिचर्या परिषद तथा परीक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से अनुमोदन मिलने के बाद ही छात्रों को दाखिला देगा।
5. जब तक पहला बैच अपना कार्यक्रम पूरा नहीं कर लेता तब तक भारतीय परिचर्या परिषद प्रतिवर्ष एक निरीक्षण आयोजित करेगी। पहले बैच के पाठ्यक्रम पूरा कर लेने तक अनुमति वर्ष दर वर्ष आधार पर प्रदान की जाएगी।

शिक्षण सुविधा

प्रिंसीपल स्कूल का प्रशासनिक अध्यक्ष होगा। उसके पास आईएनसी द्वारा निर्धारित अर्हताएं होनी चाहिए। प्रिंसीपल स्कूल के बजट का नियंत्रक अधिकारी होगा और साथ ही वह आहरण और संवितरण अधिकारी की भूमिका भी निभाएगा। प्रिंसीपल और उप-प्रिंसीपल सरकारी स्कूलों में राजपत्रित अधिकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में समतुल्य (यद्यपि अराजपत्रित) अधिकारी होंगे।

- ए. 150 छात्रों (अर्थात् प्रतिवर्ष 50 छात्रों के दाखिले सहित) वाले परिचर्या स्कूल के लिए निम्न संकाय की जरूरत होगी:

शिक्षण संकाय	अपेक्षित संख्या
प्रिंसीपल	1
उप-प्रिंसीपल	1
वरिष्ठ ट्यूटर	3
ट्यूटर	12
स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थियों के लिए अतिरिक्त ट्यूटर	1

ट्यूटर के प्रति वरिष्ठ ट्यूटर का अनुपात 1:4 रखा जाना होगा।

- बी. 60 छात्रों (अर्थात् प्रतिवर्ष 20 छात्रों के दाखिले सहित) वाले परिचर्या स्कूल के लिए निम्न संकाय की जरूरत होगी:

शिक्षण संकाय	अपेक्षित संख्या
प्रिंसीपल	1
उप-प्रिंसीपल	1
वरिष्ठ ट्यूटर	1
ट्यूटर	5
स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थियों के लिए अतिरिक्त ट्यूटर	1

टिप्पणियां

1. अध्यापक छात्र अनुपात 1:10 होना चाहिए।
2. यदि वार्षिक आधार पर दाखिल छात्रों की संख्या 20 से कम है तो परिचर्या स्कूल यह पाठ्यक्रम शुरू नहीं कर सकता।
3. एक ट्यूटर को बारी-बारी से सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्र में रहना होगा।
4. निजी परिचर्या स्कूलों के शिक्षण संकाय का वेतन ढांचा राज्य/केन्द्रीय सरकार के अधीन परिचर्या स्कूलों में मिलने वाले वेतन ढांचे से कम नहीं होगा।

5. परिचर्यात्मक सेवा कार्मिकों को नैदानिक और क्षेत्र/सामुदायिक व्यवहार क्षेत्रों में छात्रों के अनुदेशन, पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और मूल्यांकन में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। परिचर्या स्कूल के शिक्षण संकाय को परिचर्यात्मक सेवा कार्मिकों के गहरे तालमेल के साथ काम करना चाहिए।
6. स्कूल के शिक्षण संकाय और परिचर्यात्मक सेवा कार्मिकों को अपने ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए अल्पकालीन शैक्षिक पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में भाग लेना चाहिए। शिक्षण संकाय के प्रत्येक सदस्य को दो वर्षों में कम से कम एक बार ऐसे पाठ्यक्रमों में अवश्य भाग लेना चाहिए।
7. यदि शिक्षण संकाय को परिषद द्वारा परीक्षा अथवा निरीक्षण के प्रयोजन के लिए नामित/चुना गया हो तो स्कूल प्राधिकारियों के लिए यह जरूरी है कि वे ऐसे शिक्षण स्टाफ को इयूटी पर मानें।
8. वरिष्ठ ट्यूटर और ट्यूटर्स को नैदानिक शिक्षण तथा/अथवा छात्रों द्वारा देखभाल के पर्यवेक्षण के निमित्त नैदानिक क्षेत्र में प्रतिदिन कम से कम चार घंटे का समय लगाना चाहिए।
9. आईएनसी प्रत्येक बैठ के लिए 60 से अधिक छात्रों के दाखिले की अनुमति नहीं देगी।

शिक्षण स्टाफ की अर्हता

1. प्रिंसीपल : 6 वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित एम.एससी. नर्सिंग अथवा 8 वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित बी.एससी. नर्सिंग (बेसिक)/ पोस्ट बेसिक।
2. उप-प्रिंसीपल : 4 वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित एम.एससी. नर्सिंग अथवा 6 वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित बी.एससी. नर्सिंग (बेसिक)/पोस्ट बेसिक।
3. वरिष्ठ ट्यूटर : 2 वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित एम.एससी. नर्सिंग अथवा 4 वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित बी.एससी.।
4. ट्यूटर : एम.एससी. नर्सिंग अथवा बी.एससी. नर्सिंग (बेसिक/पोस्ट बेसिक) अथवा परिचर्या शिक्षा और प्रशासन में डिप्लोमा अथवा स्नातक के पश्चात 2 वर्ष के व्यावसायिक अनुभव सहित इसके समतुल्य।

बाह्य लेक्चरर

परिचर्या स्कूल में नियमित शिक्षण संकाय के अलावा छात्रों के शिक्षण के लिए बाह्य लेक्चररों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसे बाह्य लेक्चररों के पास जिन विषयों को वे पढ़ा रहे हैं उनमें वांछित अर्हता होनी चाहिए। ऐसे बाह्य लेक्चररों को संस्थान/सरकार की नीति के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। ऐसे बाह्य लेक्चररों में शामिल व्यक्ति

इस प्रकार हो सकते हैं: परिचर्या विशेषज्ञ, चिकित्सीय संकाय और वैज्ञानिक, अंग्रेजी, कंप्यूटर शिक्षा, शारीरिक शिक्षा/योग में पढ़ाने वाले विशेषज्ञों सहित सामान्य शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक, अस्पताल आहार विशेषज्ञ, संस्थान में या उससे बाहर कार्यरत परिचर्या अधीक्षक, वार्ड प्रभारी अथवा वार्ड सिस्टर, स्वास्थ्य अर्थशास्त्री/सांख्यिकीविद् आदि जैसे परिचर्यात्मक सेवा कार्मिक।

परिचर्या स्कूल के लिए अतिरिक्त स्टाफ

1. आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक	एक	} कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है
2. वरिष्ठ लिपिक एवं खजांची/लेखाकार	एक	
3. कनिष्ठ लिपिक एवं टंकक (टाइपिस्ट)	एक	
4. पुस्कालयाध्यक्ष	एक	
5. प्रयोगशाला सहायक	एक	
6. चौकीदार/वाचमैन	दो	
7. ड्राइवर	प्रत्येक वाहन के लिए एक	
8. क्लीनर	प्रत्येक वाहन के लिए एक	
9. चपरासी	तीन	
10. झाड़ूकश/सफाई कर्मचारी	दो	
11. मशीन (डुप्लीकेटिंग/जीरोक्स) आपरेटर	एक	

टिप्पणी: नियमित स्टाफ के अलावा नियमों के अनुसार एवजी स्टाफ की व्यवस्था की जानी चाहिए।

स्कूल प्रबंध समिति

स्कूल के प्रबंध बोर्ड में निम्न सदस्य शामिल होने चाहिए:

प्रिंसीपल	अध्यक्ष
उप-प्रिंसीपल	सदस्य
वरिष्ठ ट्यूटर	सदस्य
मुख्य परिचर्या अधिकारी/परिचर्या अधीक्षक	सदस्य
चिकित्सा अधीक्षक का प्रतिनिधि	सदस्य

बजट

संस्थान के समग्र बजट में एक स्वतंत्र शीर्ष के अधीन स्कूल बजट के लिए प्रावधान होना चाहिए। परिचर्या स्कूल के प्रिंसीपल आहरण और संवितरण अधिकारी होंगे।

भौतिक सुविधाएं

भवन

परिचर्या स्कूल के लिए एक स्वतंत्र भवन होना चाहिए। यदि स्कूल अस्पताल परिसर में स्थित है तो स्कूल के भवन के लिए चिन्हित क्षेत्र अस्पताल से समुचित दूरी पर होना चाहिए ताकि उस स्कूल के लिए आदर्श रूप से जिस शांत वातावरण की जरूरत होती है, वह उपलब्ध हो सके। परिचर्या स्कूल के लिए आईएनसी द्वारा अनुशंसित न्यूनतम क्षेत्र 4 एकड़ भूमि है और ऐसी भूमि प्रस्तावित परिचर्या स्कूल स्थापित करने वाले आवेदक के स्वामित्व की तथा उसके कब्जे में होनी चाहिए। जिस स्कूल में प्रतिवर्ष 20 छात्र दाखिल किए जाने की व्यवस्था है उस स्कूल का विनिर्मित क्षेत्र 4000 वर्गफुट होना चाहिए। दाखिल किए जाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त 10 छात्रों के लिए 2000 वर्गफुट के अतिरिक्त विनिर्मित क्षेत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए। विनिर्मित क्षेत्र पहले और दूसरे वर्ष के बीच चरणबद्ध रूप में बढ़ाया जा सकता है।

स्कूल में जरूरी न्यूनतम भौतिक सुविधाएं निम्नानुसार हैं:

1. क्लासरूम: कम से कम चार क्लासरूम होने चाहिए जिनमें प्रत्येक कक्षा में दाखिल छात्रों के बैठने की क्षमता हो। ये कमरे समुचित प्रकाश व्यवस्था सहित खूब हवादार होने चाहिए। कमरों में अन्तःनिर्मित काले/हरे/सफेद बोर्ड होने चाहिए। साथ ही डेस्क/मंच रखे जाने के लिए भी स्थान होना चाहिए। अध्यापक के लिए एक बड़ी मेज और कुर्सी के अलावा शिक्षण सामग्री अथवा कक्षाएं पढ़ाने के लिए जरूरी अन्य उपकरण रखने के वास्ते रैक/आलमारियां भी होनी चाहिए। कक्षा में छात्रों के बैठने के लिए समुचित और पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काफी स्थान होना चाहिए।

2. प्रयोगशालाएं: नीचे बताए अनुसार कम से कम चार प्रयोगशालाएं होनी चाहिए:

(क) परिचर्या अभ्यास प्रयोगशाला: किसी एक समय बिन्दु पर किसी परिचर्या क्रियाविधि का अभ्यास करने वाले छात्रों के अनुपात में निदर्शन बेड होने चाहिए (वांछित अनुपात है एक बेड: अभ्यास करने वाले छः छात्र)।

ऐसी प्रयोगशाला अन्तःनिर्मित आलमारियों और रैकों से पूर्णतः सुसज्जित होनी चाहिए। ऐसे वाशबेसिन होने चाहिए जिनमें पानी उपलब्ध हो तथा मेज, कुर्सियाँ, बिजली की फिटिंग आदि जैसी फर्नीचर की समुचित मर्दें उपलब्ध रहनी चाहिए। सामान-सूची मर्दें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होनी चाहिए अर्थात् छात्रों द्वारा परिचर्या की जिस क्रियाविधि का अभ्यास किया जा रहा है, उसके लिए जरूरी कम से कम 10-12 सेट उपलब्ध होने चाहिए।

- (ख) **सामुदायिक अभ्यास प्रयोगशाला:** ऐसी प्रयोगशाला में सामुदायिक तंत्र के भीतर परिचर्या क्रियाविधियों का अभ्यास करने के लिए जरूरी सभी वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए।
- (ग) **पोषण प्रयोगशाला:** इस प्रयोगशाला में भोजन के संबंध में बुनियादी जानकारी प्रदान करने और स्वस्थ एवं रोगी—दोनों के लिए खाना पकाने का अभ्यास करने की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। साज-सज्जा और उपकरणों में ये शामिल होने चाहिए: कामकाजी मेजें, कुकिंग स्टोव, गैस कनेक्शन/फिटिंग, वाशबेसिन जिसमें पानी की सप्लाई मौजूद हो, छुरी-कांटे, ट्रे, प्लेटें, आहार-पैमाने, खाना बनाने के बर्तन, रैक/शैल्फ, रेफ्रीजरेटर, प्रेशर कुकर, मिक्सी तथा खाद्य मर्दे संचित करने के लिए आलमारियां। प्रायोगिक कक्षाएं संचालित करने के लिए खाद्य मर्दे जब भी जरूरी होगा, खरीदी जाएंगी। भोजन तैयार करने, परोसने और प्रदर्शन के लिए जरूरी चीनी के बर्तनों तथा छुरी कांटों के सेट भी उपलब्ध रहने चाहिए।
- (घ) **कंप्यूटर प्रयोगशाला:** इस तरह की प्रयोगशाला अन्य विभागों के साथ साझे में स्थापित की जा सकती है।

3. **सभागार:** सभागार इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके भीतर छात्रों की स्वीकृत/वास्तविक संख्या से कम से कम दुगुने छात्र समा सकें, ताकि इसका प्रयोग स्कूल के समारोह, शैक्षिक सम्मेलन/कार्यशालाएं, परीक्षाएं आदि आयोजित करने के लिए किया जा सके। सभागार में ग्रीन रूम सुविधाओं सहित उपयुक्त मंच भी होना चाहिए। सभागार समुचित प्रकाश व्यवस्था सहित खूब हवादार होना चाहिए। इसमें सभी प्रकार की आधारिक और उन्नत श्रव्य-दृश्य सामग्री के प्रयोग की व्यवस्था होनी चाहिए।

4. **बहुद्देशीय हाल:** यदि स्कूल में कोई सभागार नहीं है तो एक बहुद्देशीय हाल होना चाहिए।

5. **पुस्तकालय:** स्कूल में एक स्वतंत्र पुस्तकालय होना चाहिए। यह पुस्तकालय शिक्षण संकाय और छात्रों के लिए सहज सुलभ होना चाहिए। पुस्तकालय में स्कूल में मौजूद छात्रों और अध्यापकों की कुल संख्या में से आधे व्यक्तियों के बैठने के लिए सुविधापूर्ण स्थान होना चाहिए।

पुस्तकालय के लिए एक स्वतंत्र बजट होना चाहिए। पुस्तकालय में सामयिक पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा अन्य साहित्य रख कर उसे अद्यतन बनाए रखने के उद्देश्य से पुस्तकालय समिति को अपनी बैठकें नियमित रूप से आयोजित करनी चाहिए। पुस्तकालय में समुचित प्रकाश व्यवस्था होने के साथ-साथ उसे खूब हवादार भी होना चाहिए। इसमें पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए इन्टरकाम फोन सुविधा सहित एक केबिन मौजूद होना चाहिए।

पुस्तकालय में समुचित संख्या में आलमारियां और शीशे के दरवाजे लगे पुस्तक शेल्फ तथा रैक होने चाहिए ताकि पुस्तकें, मैगजीन, पत्रिकाएं, समाचारपत्र तथा अन्य साहित्य हिफाजत से रखा जा सके। पुस्तकालय में सूचीपत्र-कैबिनेट, पुस्तक प्रदर्शन रैक, बुलेटिन बोर्ड तथा इन्डेक्स कार्डों, बारोअर कार्डों, लेबलों और रजिस्ट्रों जैसी लेखन-सामग्री मर्दे। पुस्तकालय में सामयिक पुस्तकें, मैगजीन, पत्रिकाएं, समाचारपत्र तथा अन्य साहित्य उपलब्ध होना चाहिए। पुस्तकालय में परिचर्या संबंधी कम से कम 500 पुस्तकें (सभी नए संस्करण), तीन प्रकार की परिचर्या पत्रिकाएं, तीन प्रकार के मैगजीन, दो प्रकार के समाचारपत्र तथा अन्य प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी सामयिक साहित्य मौजूद होना चाहिए।

6. कार्यालयी जरूरतें

- (क) *प्रिंसीपल का कार्यालय*: प्रिंसीपल के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय होना चाहिए जिसके साथ जुड़ा हुआ टयलेट होने के अलावा आने-जाने वालों के लिए एक कमरा भी होना चाहिए। प्रिंसीपल के कार्यालय के लिए एक स्वतंत्र टेलीफोन सुविधा नितान्त आवश्यक है जो कि अस्पताल और छात्रावास के साथ सम्बद्ध/जुड़ी हुई हो।
- (ख) *उप-प्रिंसीपल का कार्यालय*: उप-प्रिंसीपल के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय होना चाहिए जिसके साथ जुड़ा हुआ टयलेट होने के अलावा आने-जाने वालों के लिए एक कमरा भी होना चाहिए। उप-प्रिंसीपल के कार्यालय के लिए एक स्वतंत्र टेलीफोन सुविधा नितान्त आवश्यक है जो कि अस्पताल और छात्रावास के साथ सम्बद्ध/जुड़ी हुई हो।
- (ग) *संकाय सदस्यों का कार्यालय*: शिक्षण संकाय की संख्या के अनुपात में समुचित संख्या में कार्यालय कमरे होने चाहिए। एक कमरे में केवल दो अध्यापकों के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षण संकाय के लिए हाथ धोने की सुविधा सहित स्वतंत्र टयलेट सुविधा भी होनी चाहिए। पुरुष अध्यापकों के लिए एक स्वतंत्र टयलेट होना चाहिए।
- (घ) *कार्यालय स्टाफ के लिए उपयुक्त टयलेट सुविधा सहित एक अलग कार्यालय कमरा* होना चाहिए। यह कार्यालय इतना बड़ा होना चाहिए कि सारा स्टाफ उसमें बैठ सके और प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक अलग कैबिन की सुविधा होनी चाहिए। प्रत्येक कार्यालय कमरे में मेजों, कुर्सियों, आलमारियों, अन्तःनिर्मित रैकों और शेल्फों, फाइलिंग कैबिनेटों और पुस्तक केसों जैसी फर्नीचर मर्दे उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही ऐसे कमरों में टाइपराइटर्स, कंप्यूटर्स और टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

7. **कामन रूम:** स्कूल में कम से कम तीन कामन रूम होने चाहिए जिनमें से एक शिक्षण संकाय के लिए, एक छात्रों के लिए और एक कार्यालय स्टाफ के लिए होना चाहिए। सभी कामन रूमों में बैठने की उपयुक्त व्यवस्था के अलावा आलमारियां, लाकर, कैबिनेट, अन्तःनिर्मित शेल्फ और रैकों की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। प्रत्येक कमरे में टायलेट सुविधा के साथ-साथ हाथ धोने की सुविधा होनी चाहिए।
8. **अभिलेख कक्ष:** अभिलेखों तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजों/दस्तावेजों को हिफाजत से रखने के लिए लोहे के रैकों, अन्तःनिर्मित शेल्फों और रैकों, आलमारियों तथा फाइलिंग कैबिनेटों की सुविधा से सुसज्जित एक अलग अभिलेख कक्ष होना चाहिए।
9. **भण्डार कक्ष:** एक अलग भण्डार कक्ष होना चाहिए जिसमें स्कूल की प्रयोगशालाओं के लिए जरूरी उपकरण तथा अन्य सामान-सूची वस्तुएं रखी जा सकें। इस कमरे में इन वस्तुओं के समुचित और सुरक्षित भण्डारण की सुविधाओं के अलावा आलमारियों, अन्तःनिर्मित शेल्फों, रैकों, कैबिनेटों आदि जैसे उपकरण भी उपलब्ध होने चाहिए। इस कमरे में प्रकाश की समुचित व्यवस्था होने के साथ-साथ यह कमरा खूब हवादार भी होना चाहिए।
10. **श्रव्य-दृश्य सामग्री के लिए कमरा:** इस कमरे में श्रव्य-दृश्य सामग्री के उपयुक्त और सुरक्षित भण्डारण के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल में सभी प्रकार की बुनियादी और साथ ही उन्नत प्रशिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए जैसे कि चाक बोर्ड, ओवर हैड प्रोजेक्टर, स्लाइड और फिल्म--स्ट्रिप प्रोजेक्टर माडल्स प्रतिदर्श, चार्ट तथा पोस्टर, टीवी, वीसीआर, फोटोस्टेट मशीन, टेप रिकार्डर तथा कंप्यूटर।
11. **अन्य सुविधाएं:** स्कूल में पुरुषों और महिलाओं--दोनों के लिए सुरक्षित पेयजल तथा उपयुक्त सफाई/टायलेट सुविधाएं अलग-अलग तौर पर उपलब्ध होनी चाहिए। छात्रों के लिए टायलेट सुविधाएं, हाथ धोने की सुविधा सहित 1:25 के अनुपात में उपलब्ध होनी चाहिए। पुरुषों के लिए अलग टायलेट सुविधा होनी चाहिए।
12. **गैराज:** गैराज में 50 सीटों वाले वाहनों को रखने की सुविधा होनी चाहिए।
13. **अग्निशामक:** स्थानीय उपनियमों के अनुसार आग बुझाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।
14. **खेल का मैदान:** खेल का मैदान इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें वालीबाल, फुटबाल, बैडमिंटन जैसे आउटडोर खेल खेले जा सकें और व्यायाम किया जा सके।

नैदानिक सुविधाएं

अस्पताल

परिचर्या स्कूल में 200 शय्या वाला एक मूल/संबंधनप्राप्त अस्पताल होना चाहिए:

1. विभिन्न क्षेत्रों में शय्याओं का वितरण

चिकित्सा	40
शल्यक्रिया	40
प्रसूति तथा स्त्रीरोगविज्ञान	40
बाल चिकित्सा	20
विकलांग विज्ञान	20
नेत्र/ईएनटी	20
आईसीयू/आईसीसीयू	10
ज्वलन तथा प्लास्टिक	10
2. अस्पताल का शय्या अधिभोग कम से कम 75% होना चाहिए।
3. संबंधन प्राप्त करने के लिए अस्पताल/नर्सिंग होम में कम से कम 50 शय्याएं जरूर होनी चाहिए।
4. नैदानिक अनुभव के लिए अपेक्षित अन्य विशेषज्ञताएं/सुविधाएं निम्नानुसार हैं:
 - बृहत ओटी
 - लघु ओटी
 - दन्त चिकित्सा
 - नर्सरी सहित नवजात विज्ञान
 - संचारी रोग
 - सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या
 - हृदयरोगविज्ञान
 - अर्बुद-विद्या
 - तंत्रिका विज्ञान/तंत्रिका शल्य विज्ञान
 - वृक्कविज्ञान आदि
5. मनोविकारी अस्पताल के संबंधन के लिए शय्याओं की न्यूनतम संख्या 30-50 होनी चाहिए।
6. संबंधनप्राप्त अस्पताल में परिचर्या स्टाफ मानदण्ड आईएनसी मानदण्डों के अनुरूप होने चाहिए।
7. संबंधनप्राप्त अस्पताल को परिचर्या कार्यक्रम के अभ्यर्थियों को छात्र का दर्जा दिया जाना चाहिए।

8. संबंधनप्राप्त अस्पताल 10-15 किलोमीटर की दूरी के भीतर होने चाहिए।

शय्याओं का विभाजन

कुल शय्याओं में से कम से कम एक तिहाई शय्या चिकित्सा रोगियों के लिए और एक तिहाई शल्य (सर्जिकल) रोगियों के लिए रखे जाने चाहिए। पुरुष रोगियों के लिए शय्याओं की संख्या कुल शय्याओं में से 1/6 से कम नहीं होने चाहिए अर्थात् उनके लिए कम से कम 40 शय्याएं होने चाहिए। प्रतिवर्ष कम से कम 750 प्रसव (20 छात्रों की वार्षिक दाखिला क्षमता के लिए) होने चाहिए। मातृ क्लिनिकों, बाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं तथा निवारक सामाजिक चिकित्सा के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

क्रम संख्या	पदनाम	संख्या	शय्याओं की संख्या	अपेक्षित अर्हताएं
1.	मुख्य परिचर्या अधिकारी (सीएनओ)	1	500 अथवा उसे अधिक शय्याओं के लिए	परिचर्या स्कूल के प्रिंसीपल की भांति
2.	परिचर्या अधीक्षक (एनएस)	1	500 अथवा उसे अधिक शय्याओं के लिए	परिचर्या स्कूल के प्रिंसीपल की भांति
3.	उप-परिचर्या अधीक्षक (डीएनएस)	1	500 अथवा उसे अधिक बिस्तरों के लिए	परिचर्या स्कूल के उप-प्रिंसीपल की भांति
4.	सहायक परिचर्या अधीक्षक (एएनएस)	2	प्रत्येक अतिरिक्त 50 शय्याओं के लिए	परिचर्या स्कूल के उप-प्रिंसीपल की भांति

स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन और प्रबन्ध विषयक विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित मानदंड (परिचर्या के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के चौथे सम्मेलन 1995 का संकल्प)

श्रेणियां

अपेक्षाएं

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. परिचर्या अधीक्षक | 1:200 शय्याएं |
| 2. उप-परिचर्या अधीक्षक | 1:300 शय्याएं |
| 3. विभागीय परिचर्या पर्यवेक्षक/सिस्टर | 7:1000 (इसके अलावा प्रत्येक अतिरिक्त 100 शय्याओं के लिए एक) |

4. वार्ड परिचर्या पर्यवेक्षक/सिस्टर 8:200+30% छुट्टी रिजर्व
5. वार्डों के लिए स्टाफ परिचारिका 1:3 (अथवा प्रत्येक पारी के लिए 1:9)
+30% छुट्टी रिजर्व
6. ओपीडी, ब्लक बैंक, एक्स-रे, मधुमेह 1:100 ओपीडी रोगी (एक शय्या : 5
क्लीनिक सीएसआर आदि के लिए ओपीडी रोगी) +30% छुट्टी रिजर्व
7. गहन परिचर्या यूनिट (200 शय्याओं के 1:1 (अथवा प्रत्येक पारी के लिए 1:3)
लिए 8 शय्याओं वाला आईसीयू) +30% छुट्टी रिजर्व
8. विशेषज्ञता वाले विभागों और क्लीनिकों 8:200 +30% छुट्टी रिजर्व
के लिए जैसे ओटी, प्रसूति गृह

औचित्य

1. हर अस्पताल की जरूरतें उसके आकार और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं और प्रत्याशित से अधिक स्टाफ की जरूरत हो सकती है।
2. शाम और रात की पारियों में रोगियों की देखभाल पर नजर रखने के पर्यवेक्षण की ओर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
3. 30% छुट्टी रिजर्व पद अनिवार्य हैं।

ध्यान में रखे जाने वाली अन्य बातें

- क. मूल अस्पताल का स्टाफ डाक्टरों, परिचारिकाओं तथा अर्ध-चिकित्सीय स्टाफ के अर्थों में अनिवार्यतः आईएनसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार होना चाहिए।
- ख. वार्डों/क्षेत्रों/ओपीडी/ओटी/नैदानिक विभागों आदि में सभी पारियों में स्टाफ का समुचित कवरेज होना जरूरी है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि छत्र केवल इन क्षेत्रों में नैदानिक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और उनका प्रयोग सेवा प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा।
- ग. सभी स्टाफ परिचारिकाओं द्वारा सतत/सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेना जरूरी है जिससे कि वे अपने आपको इन क्षेत्रों में रोगियों की रोजमर्रा की देखभाल में प्रयुक्त अधुनातन प्रौद्योगिकियों और उच्च तकनीकों के बारे में अवगत रख सकें।

सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या फील्ड अभ्यास क्षेत्र

छत्रों को शहरी और साथ ही ग्रामीण फील्ड एरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या अनुभव प्राप्त करने के लिए भेजा जाना चाहिए। संस्थान को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ जोड़ा जा सकता है। एक सुगठित फील्ड शिक्षण केन्द्र की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें एक

समय में कम से कम 10-15 छात्रों और एक स्टाफ सदस्य के रहने की सुविधा उपलब्ध हो। स्वास्थ्य केन्द्र में चपरासी, रसोइया और चौकीदार उपलब्ध रहने चाहिए। प्रत्येक परिचर्या स्कूल की अपनी परिवहन सुविधाएं होनी चाहिए और ऐसी सुविधाएं सीधे प्रिंसीपल के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए। स्टाफ और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

छात्रावास

परिचर्या स्कूल के लिए ऊपर बताए गए विनिर्मित क्षेत्र के अलावा छात्रों और स्टाफ के लिए क्रमशः उपयुक्त छात्रावास/रिहायशी स्थान उपलब्ध रहना चाहिए।

छात्रावास सुविधाएं

यह कार्यक्रम आवासीय है और इसलिए पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग-अलग छात्रावास होने चाहिए जिनमें निम्न सुविधाएं उपलब्ध हों।

1. **छात्रावास कक्ष:** आदर्श रूप से इस तरह का कक्ष कम से कम दो छात्रों के लिए होना चाहिए और उसका न्यूनतम कारपेट क्षेत्र 150 वर्ग फुट होना चाहिए। कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले फर्नीचर में ये शामिल हैं: एक चारपाई, एक मेज, एक कुर्सी, एक पुस्तकों का रैक, एक आलमारी और एक कपड़े रखने का रैक।
2. **टयलेट और स्नानागार:** छात्रों के छात्रावास की प्रत्येक मंजिल पर टयलेट और स्नानागार सुविधाएं होनी चाहिए और प्रत्येक 2-6 छात्रों के लिए एक टयलेट और एक स्नानागार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। स्नानागार में गीजर और वाश-बेसिन भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
3. **मनोरंजन:** इंडोर और आउटडोर खेलों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। साथ ही टीवी, रेडियो और वीडियो कैसेट प्लेयर की व्यवस्था भी कराई जानी चाहिए।
4. **आगंतुकों का कमरा:** छात्रावास में आगंतुकों के लिए एक ऐसा कमरा होना चाहिए जिसमें वे आराम से बैठ सकें, समुचित प्रकाश व्यवस्था और टयलेट सुविधाएं उपलब्ध रहें।
5. **रसोई और डाइनिंग हाल:** एक साफसुथरी रसोई और डाइनिंग हाल होना चाहिए जिसमें एक बार में कुल छात्रों में से कम से कम 80% छात्रों के बैठने की व्यवस्था हो और साथ ही उसमें समुचित संख्या में मेजें, कुर्सियां, वाटर कूलर, रेफ्रिजरेटर तथा कमरा गरम करने वाली सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। हाथ धोने की सुविधाएं अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

6. **रसोई-भंडार:** प्रत्येक मंजिल पर एक रसोई-भंडार की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें वाटर कूलर और कमरा गरम करने की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
7. **कपड़े धोने और प्रेस करने का कमरा:** प्रत्येक मंजिल पर कपड़े धोने, सुखाने और उन पर इस्त्री करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
8. **रोगी कक्ष:** एक रोगी कक्ष में आरामदेह शय्या, लिनन, फर्नीचर और जुड़ा हुआ टयलेट होना चाहिए। कम से कम पांच शय्याओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।
9. **रात्रि इयूटी परिवारिकाओं के लिए कमरा:** इस तरह का कमरा एक शांत क्षेत्र में होना चाहिए।
10. **अतिथि कक्ष:** एक अतिथि कक्ष उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
11. **वार्डन का कमरा:** वार्डन को उसके रिहायशी आवास के अलावा एक स्वतंत्र कार्यालय कक्ष उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
12. **कैंटीन:** छात्रों, उनके अतिथियों तथा सभी अन्य स्टाफ सदस्यों के लिए कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए।
13. **परिवहन:** स्कूल में प्रिंसीपल के नियंत्रण में एक स्वतंत्र परिवहन सुविधा उपलब्ध रहनी चाहिए। बेहतर हो यदि 25 और 50 सीटों वाली बस उपलब्ध कराई जाए।

रिहायशी आवास

संकाय के सदस्यों को उनकी वैवाहिक स्थिति के अनुसार रिहायशी पारिवारिक आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रिंसीपल को उसके आवास पर एक टेलीफोन अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाना चाहिए। छात्रावास के वार्डन को सभी सुविधाओं से सुसज्जित रिहायशी आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

शिशुसदन

स्कूल परिसर में एक शिशुसदन होना चाहिए।

छात्रावास के लिए स्टाफ

1. वार्डन (महिला)-3: अर्हता-बी.एससी. होम साइंस अथवा गृह व्यवस्था/खानपान में डिप्लोमा। प्रत्येक छात्रावास में प्रातःकालीन, सायंकालीन और रात्रिकालीन पारियों के लिए कम से कम तीन वार्डन होने चाहिए। यदि छात्रों की संख्या 150 से अधिक है तो प्रत्येक अतिरिक्त 50 छात्रों के लिए एक और वार्डन/सहायक वार्डन/हाउसकीपर की व्यवस्था की जानी चाहिए।
2. रसोइया-1: प्रत्येक पारी के प्रत्येक 20 छात्रों के लिए।
3. रसोई और डाइनिंग रूम सहायक-1: प्रत्येक पारी के प्रत्येक 20 छात्रों के लिए।
4. सफाईवाला-3
5. माली-2
6. सुरक्षा गार्ड/चौकीदार-3

दाखिले की शर्तें और उपबन्ध

पात्रता और मानदंड

1. दाखिले के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्रमशः 17 और 35 वर्ष होगी। एएनएम/एलएचवी के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
2. न्यूनतम शिक्षा:
 - (क) 10+2 कक्षा अथवा इसके समकक्ष परीक्षा, बेहतर हो कि विज्ञान (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र और जीवविज्ञान) विषयों के साथ कुल 45% अंकों सहित पास की हों।
 - (ख) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने भारतीय परिचर्या परिषद द्वारा मान्यता प्रदत्त स्कूल से 10+2 व्यवसायिक एएनएम पाठ्यक्रम (2001 के बाद संशोधित) पास किया हो।
 - (ग) एएनएम प्रशिक्षण अर्थात् 10+1½ वर्षों का अनुभव लेकिन उसने भी +2 या इसके समतुल्य परीक्षा पास की हो।
3. छात्रों के दाखिले वर्ष में एक बार किए जाएंगे।
4. छात्र शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होने चाहिए।
5. उपर्युक्त के अलावा संबंधित राज्य परिचर्या परिषद/परिचर्या परीक्षा बोर्ड (एसआईबीई, एमआईबीई, सीएमएआई) द्वारा दाखिला क्रियाविधि निर्धारित की जा सकती है।

दाखिला/चयन समिति

इस समिति में निम्न व्यक्ति शामिल होंगे:

- प्रिंसीपल अध्यक्ष
- उप-प्रिंसीपल
- वरिष्ठ ट्यूटर
- मुख्य परिचर्या अधिकारी अथवा परिचर्या अधीक्षक

दाखिल किए जाने वाले छात्रों की क्षमता

एएनएम कार्यक्रम एक कौशलोन्मुखी कार्यक्रम है। इसलिए आईएनसी प्रतिवर्ष अधिक से अधिक 60 (साठ) छात्रों के दाखिले की अनुमति देगी।

प्रत्येक स्कूल में प्रभावी शिक्षण के निमित्त वार्षिक दाखिला क्षमता के संबंध में छात्र रोगी अनुपात अर्थात् 1:10 तथा अन्य अध्यापन अधिगम सुविधाओं के आधार पर भारतीय परिचर्या परिषद से पूर्व मंजूरी/अनुमति प्राप्त कर ली जानी चाहिए।

दाखिला क्षमता नीचे दी गई तालिका के अनुसार मंजूर की जाती है:

प्रतिवर्ष दाखिलों की संख्या	अस्पताल शय्या क्षमता
20	250
30	300
40	400
50	500

प्रशिक्षण अवधि और समय विभाजन

पाठ्यक्रम की अवधि

सामान्य परिचर्या और प्रसूति-विद्या में डिप्लोमा पाठ्यक्रम तीन वर्ष छः महीने की अवधि का होगा।

इस पाठ्यक्रम में 12 सप्ताह की एक प्रारम्भिक अवधि होगी। इस अवधि के दौरान प्रत्येक छात्र एएनएम/एएचवी/महिला स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए प्रत्येक छूट के दौरान अधिक से अधिक 16 घंटे के लिए वार्डों में प्रेक्षण और पर्यवेक्षित अभ्यास के लिए वार्ड में जाएगा।

निम्न को तीसरे वर्ष (प्रसूति-विद्या में) के दौरान प्रशिक्षण में छः महीने की छूट दी जाएगी।

(क) जिन्होंने आईएनसी द्वारा मान्यताप्रदत्त 18 महीने अथवा 2 वर्ष के एएनएम प्रशिक्षण में भाग लिया है।

(ख) आईएनसी द्वारा मान्यताप्रदत्त 2½ वर्ष के प्रशिक्षण वाली एलएचवी।

इसलिए प्रशिक्षण की अवधि 3 वर्ष होगी।

पाठ्यक्रम: वही जो कि जीएनएम प्रशिक्षणार्थियों के लिए सभी तीन वर्षों और स्थानबद्ध प्रशिक्षण अवधि के लिए निर्धारित किया गया है।

पाठ्यक्रम के सप्ताहों, दिनों और घंटों का वर्ष-वार विभाजन

प्रत्येक छात्र के लिए क्लास रूम शिक्षण और नैदानिक क्षेत्र अभ्यास सहित प्रति सप्ताह अधिक से अधिक 36 से 40 घंटे का समय रहेगा।

पहला वर्ष	46 सप्ताह	1656 घंटे
दूसरा वर्ष	46 सप्ताह	1656 घंटे
तीसरा वर्ष	46 सप्ताह	1656 घंटे

टिप्पणी: एक शैक्षणिक वर्ष में 52 सप्ताहों में से कुल मिलाकर 6 सप्ताह घटा दिए जाते हैं जिनमें से 4 सप्ताह छुट्टी के लिए, एक सप्ताह तैयारी करने के लिए और एक सप्ताह परीक्षाओं के लिए होता है। रविवार और राजपत्रित अवकाश छुट्टियों के रूप में माने जाते हैं।

छुट्टियां और अवकाश

वार्षिक छुट्टियां	:	30 दिन
रोग अवकाश	:	प्रति वर्ष 10 दिन
परीक्षा की तैयारी के निमित्त छुट्टी	:	प्रति वर्ष 7 दिन

रोग अवकाश को एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जोड़ा नहीं जा सकता।

शिक्षण के पाठ्यक्रम तथा पर्यवेक्षित अभ्यास

पहला वर्ष

विषय	सैद्धान्तिक अध्ययन के घंटे और पर्यवेक्षित अभ्यास
I. जीववैज्ञानिक विज्ञान	120
(i) शरीररचना विज्ञान और शरीरक्रिया विज्ञान	90
(ii) सूक्ष्मजीव विज्ञान	30
II. व्यवहारपरक विज्ञान	60
(i) मनोविज्ञान	40
(ii) समाज विज्ञान	20
III. परिचर्या के मूल सिद्धान्त	215
(i) परिचर्या के मूल सिद्धान्त	175
(ii) प्राथमिक उपचार	20
(iii) वैयक्तिक स्वास्थ्य	20
IV. सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या	150
(i) सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या I	80
(ii) पर्यावरणात्मक स्वास्थ्य	20
(iii) स्वास्थ्य शिक्षा और अभिव्यक्ति कौशल	20
(iv) पोषण	30
V. अंग्रेजी (भाषा)	30
पहले वर्ष के कुल घंटे	575

दूसरा वर्ष

विषय	घंटे
I. चिकित्सीय शल्य-चिकित्सीय परिचर्या I (फार्माकोलोजी सहित)	140
II. चिकित्सीय शल्य-चिकित्सीय परिचर्या II (विशेषज्ञताएं)	120
III. मानसिक स्वास्थ्य और मनोविकारी परिचर्या	70
IV. कंप्यूटर शिक्षा	30
दूसरे वर्ष के कुल घंटे	360

तीसरा वर्ष

विषय	घंटे
I. प्रसूति-विद्या और स्त्रीरोग विज्ञान	120
II. सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या II	100
III. बालचिकित्सीय परिचर्या	70
तीसरे वर्ष के कुल घंटे	

स्थानबद्ध प्रशिक्षण की अवधि

विषय	घंटे
I. परिचर्या के व्यावहारिक शिक्षण के लिए शैक्षिक विधियां और माध्यम	45
II. अनुसंधान का परिचय	40
III. व्यावसायिक प्रवृत्तियां और समायोजन	40
IV. प्रशासन और वार्ड प्रबंध	45
V. स्वास्थ्य अर्थशास्त्र	20
स्थानबद्ध प्रशिक्षण के कुल घंटे	190

नैदानिक क्षेत्रों में छात्रों का पर्यवेक्षण

नैदानिक क्षेत्रों में तैनात किए गए छात्रों के साथ स्कूल का शिक्षण संकाय रहना चाहिए। जब छात्रों को संबंधनप्राप्त अस्पताल/एजेंसी/संस्थान में अपेक्षित नैदानिक अनुभव प्राप्त करने के लिए तैनात किया जाए, तो भी यही परिपाटी अपनाई जानी चाहिए। परिचर्या सेवा कर्मिकों के लिए यह जरूरी है कि वे अस्पताल वार्डों, स्वास्थ्य केन्द्रों और समुदाय में छात्रों के पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और मूल्यांकन में सक्रिय रूप से भाग लें।

रिकार्ड

स्कूल में कम से कम निम्न रिकार्ड अवश्य रखे जाने चाहिए।

(क) छात्रों के लिए

1. दाखिले का रिकार्ड।
2. स्वास्थ्य रिकार्ड।
3. कक्षा में हाजिरी का रिकार्ड।
4. नैदानिक और क्षेत्र अनुभव रिकार्ड।
5. सैद्धान्तिक और व्यावहारिक-दोनों के लिए आंतरिक मूल्यांकन रिकार्ड।

6. अंक तालिकाएं (राज्य परिषद/बोर्ड परिणाम)।
7. छात्र के पाठ्यचर्येतर क्रियाकलापों का रिकार्ड (स्कूल में और बाहर—दोनों जगह)।
8. छुट्टी का रिकार्ड।
9. प्रायोगिक रिकार्ड पुस्तिकाएं—आईएनसी द्वारा यथानिर्धारित क्रियाविधि पुस्तिका और प्रसूति-विद्या रिकार्ड बुक रखी जानी चाहिए।
10. संचयी रिकार्ड।

(ख) प्रत्येक कक्षा/बैंच के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के संबंध में

1. पाठ्यक्रम सामग्री रिकार्ड (प्रत्येक विषय के लिए)।
2. शैक्षणिक निष्पादन का रिकार्ड।
3. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए आवर्तन (रोटेशन) योजनाएं।
4. समिति की बैठकों का रिकार्ड।
5. स्कूल के स्टॉक का रिकार्ड।
6. संबंधन रिकार्ड।
7. सहायता अनुदान रिकार्ड (यदि स्कूल को राज्य सरकार आदि जैसे किसी स्रोत से कोई सहायता अनुदान मिल रहा हो)।

शिक्षण संकाय और छात्रों के लिए स्कूल में तथा स्कूल से बाहर—दोनों जगह आयोजित शैक्षिक कार्यक्रमों का रिकार्ड।

वार्षिक रिपोर्टें (स्कूल की उपलब्धियों का प्रतिवर्ष तैयार किया जाने वाला रिकार्ड)।

परिचर्या स्कूल के पास स्कूल में किए गए प्रत्येक क्रियाकलाप का विस्तृत और अद्यतन रिकार्ड उपलब्ध रहना चाहिए।

स्वास्थ्य सेवाएं

छात्रों के लिए निम्न स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए:

- (क) वार्षिक डाक्टरी जांच।
- (ख) टिटनेस, हेपाटाइटिस बी अथवा किसी अन्य संचारी रोग के लिए टीकाकरण बशर्ते कि ऐसा टीकाकरण जरूरी समझा गया हो।
- (ग) बीमारी के दौरान निःशुल्क चिकित्सीय देखभाल।
- (घ) प्रत्येक छात्र के संबंध में एक पूर्ण स्वास्थ्य रिकार्ड उपलब्ध रहना चाहिए। किसी दीर्घकालीन पुरानी बीमारी से ग्रस्त किसी छात्र के प्रशिक्षण जारी रखने के सवाल के बारे में अलग-अलग स्कूल द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

नैदानिक अनुभव

छात्र जो कुछ नैदानिक क्षेत्र में पर्यवेक्षण के अधीन सीख रहे हैं उसे प्रेरित करने और उसका अभ्यास करने के लिए निर्धारित किए जाने चाहिए। अपेक्षित न्यूनतम नैदानिक क्षेत्र अनुभव और इसका अनुशंसित स्थानन निम्नानुसार है:

नैदानिक अनुभव का विभाजन

वर्ष	पहला वर्ष		दूसरा वर्ष		तीसरा वर्ष		स्थानबद्ध प्रशिक्षण		कुल 3 वर्ष महीने	
	घंटे	सप्ताह	घंटे	सप्ताह	घंटे	सप्ताह	घंटे	सप्ताह	घंटे	सप्ताह
नैदानिक क्षेत्र	612	17	-	-	-	-	-	-	612	17
परिचर्या विज्ञान	-	-	828	23	-	-	252	6	1080	29
चिकित्सीय स्वास्थ्य परिचर्या I तथा II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या	288	8	2	2	216	6	168	4	744	20
मनोविकारी परिचर्या	-	-	216	6	-	-	126	3	342	9
बाल चिकित्सा परिचर्या	-	-	-	-	288	8	126	3	414	11
प्रसूति-विद्या तथा स्त्रीरोग वैज्ञानिक परिचर्या	-	-	-	-	756	21	168	4	924	25
स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थी की रुचि का विषय	-	-	-	-	-	-	84	2	84	2
स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थियों के लिए रात्रि इयूटी अनुभव	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
योग	900	25	1116	31	1260	35	924	24	4200	115

टिप्पणी:

1. पहले वर्ष के छात्र को बुनियादी परिचर्या अनुभव में कौशल विकसित करने के लिए सामान्य चिकित्सीय, शल्यक्रिया वार्ड में तैनात किया जाएगा और इसका प्रयोग इन क्षेत्रों में विशेषज्ञतापूर्ण कौशल विकसित करने के लिए नहीं किया जाएगा।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य अनुभव दूसरे वर्ष में (दो सप्ताह का)। सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या अनुभव दूसरे वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है ताकि वांछित अधिगम अनुभव प्राप्त किया जा सके और सांत्व्य बनाए रखा जा सके। सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या अनुभव में चिकित्सीय, शल्यक्रियात्मक तथा मनोविकारी परिचर्या की अवधारणाएं भी लागू की जा सकती हैं।
3. पहले साल में रात्रि इयूटी का कोई अनुभव नहीं प्राप्त किया जाएगा। समूची प्रशिक्षण अवधि में केवल 8 सप्ताह का रात्रि इयूटी अनुभव प्रदान किया जाएगा।
4. जिन अतिरिक्त घंटों का पाठ्यक्रम में कोई हिसाब-किताब प्रस्तुत नहीं किया गया है उनकी योजना और उनका प्रयोग अलग-अलग स्कूलों द्वारा अपनी-अपनी जरूरतों के अनुसार किया जा सकता है।

मूल्यांकन

आन्तरिक मूल्यांकन

1. सभी सैद्धान्तिक प्रश्न पत्रों के लिए 25% आन्तरिक मूल्यांकन होगा।
2. प्रत्येक विषय और नैदानिक/क्षेत्र अनुभव का एक नियमित तथा नियतकालिक मूल्यांकन किया जाना होगा।
3. आन्तरिक मूल्यांकन प्रयोजन के लिए संबंधित अध्यापक द्वारा प्रत्येक विषय में प्रतिमाह एक लिखित परीक्षा ली जाएगी।

छात्र को प्रायोगिक रिकार्ड बुक तथा प्रेक्षण दौरों की रिपोर्ट तथा संबंधित अध्यापकों द्वारा मूल्यांकन की डायरी जरूरी रखनी होगी, मूल्यांकन के विभिन्न अन्य तकनीकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। निम्न में से प्रत्येक के लिए अंक दिए जाएंगे:

- (क) स्थिति विषयक अध्ययन
 - (ख) मामला प्रस्तुति
 - (ग) परिचर्या देखभाल योजना
 - (घ) रिकार्ड पुस्तिकाओं (क्रियाविधि पुस्तिका और प्रसूति-विद्या रिकार्ड बुक) का रखरखाव
 - (ङ.) दैनिक डायरी
 - (च) क्षेत्र-वार नैदानिक मूल्यांकन किया जाना है। प्रत्येक नैदानिक क्षेत्र में कम से कम दो मूल्यांकन किए जाने चाहिए।
4. सैद्धान्तिक और प्रायोगिक का नियमित रिकार्ड रखा जाना है। कार्यान्मुखी मूल्यांकन किया जाना है। अध्यापक द्वारा प्रत्येक छात्र के लिए प्रतिमाह मूल्यांकन किया जाना है। परिषद/बोर्ड द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। परीक्षा के सभी रिकार्डों पर प्रिंसीपल हस्ताक्षर करेंगे। इसे छात्रों की जानकारी के लिए सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
 5. प्रत्येक छात्र को सिद्धान्त और प्रायोगिक में से प्रत्येक में आन्तरिक मूल्यांकन में से कम से कम 50% अंक अवश्य प्राप्त करने होंगे। सफल होने के लिए छात्र को प्रतिवर्ष आन्तरिक मूल्यांकन में और साथ ही परिषद अथवा बोर्ड की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने होंगे।

6. पूरक परीक्षा में बैठने वाले छात्र के मामले में जिस/जिन विषय (विषयों)/प्रयोग (प्रयोगों) में वह असफल हुआ/हुई था/थी, उससे संबंधित नया आन्तरिक मूल्यांकन परिषद/बोर्ड को भेजा जाएगा।
7. राज्य परिचर्या परिषद/बोर्ड को प्रत्येक नैदानिक क्षेत्र के लिए निष्पादन मूल्यांकन के वास्ते एक आदर्श प्रपत्र तैयार करना चाहिए और उसे सभी परिचर्या स्कूलों के बीच परिचालित करना चाहिए ताकि एकरूपता बनाए रखी जा सके।

प्रत्येक छात्र को प्रतिवर्ष नैदानिक क्षेत्र में निम्न नियत कार्य का रिकार्ड रखना होगा:

पहला वर्ष

(क) परिचर्यात्मक देखभाल योजना	---	चिकित्सा/शल्यक्रियात्मक वार्डों में 4
(ख) दैनिक डायरी		
(ग) स्वास्थ्य-वार्ता	---	शहरी तथा ग्रामीण समुदाय क्षेत्र में से प्रत्येक में एक-एक
परिवार कल्याण योजना सहित	---	शहरी तथा ग्रामीण समुदाय क्षेत्र में से प्रत्येक में एक-एक
परिवार अध्ययन		
परिवार में व्यक्ति का स्वास्थ्य मूल्यांकन	---	शहरी तथा ग्रामीण समुदाय क्षेत्र में से प्रत्येक में एक-एक
सामुदायिक रूपरेखा	---	शहरी तथा ग्रामीण समुदाय क्षेत्र में से प्रत्येक में एक-एक

दूसरा वर्ष

(क) चिकित्सा वार्ड

परिचर्यात्मक देखभाल योजना	2
स्थिति विषयक अध्ययन	1
मामला प्रस्तुति	1
औषधि अध्ययन	1

(ख) शल्यक्रियात्मक वार्ड

परिचर्यात्मक देखभाल योजना	2
स्थिति विषयक अध्ययन	1
मामला प्रस्तुति	1
औषधि अध्ययन	1

(ग) मनोविकारी वार्ड

परिचर्यात्मक देखभाल योजना	1
स्थिति विषयक अध्ययन	1
मामला प्रस्तुति	1
औषधि अध्ययन	1
प्रक्रिया रिकार्डिंग	2
मानसिक स्थिति परीक्षण	4

तीसरा वर्ष**(क) बाल चिकित्सा वार्ड**

परिचर्यात्मक देखभाल योजना	2
स्थिति विषयक अध्ययन	1
मामला प्रस्तुति	1
औषधि अध्ययन	1
प्रेक्षण रिपोर्ट (नवजात)	2

(ख) प्रसूति तथा स्त्रीरोग वार्ड

परिचर्यात्मक देखभाल योजना	2+1
स्थिति विषयक अध्ययन	1+1
मामला प्रस्तुति	1+1
औषधि अध्ययन	1+1

(ग) दैनिक डायरी**शहरी और ग्रामीण समुदाय क्षेत्र**

स्वास्थ्य वार्ता	प्रत्येक में दो-दो
पारिवारिक स्वास्थ्य परिचर्यात्मक देखभाल योजना	प्रत्येक में दो-दो
समूह परियोजना	प्रत्येक में एक-एक

प्रत्येक छात्र, उपर्युक्त के अलावा संबंधित अध्यापक/पर्यवेक्षक तथा प्रिंसीपल द्वारा हस्ताक्षरित क्रियाविधि पुस्तिका और प्रसूति-विद्या मामला पुस्तिका रखेगा और ये पुस्तिकाएं प्रतिवर्ष परीक्षक के सामने प्रस्तुत की जाएंगी।

आन्तरिक मूल्यांकन की दृष्टि से उपर्युक्त प्रदत्त कार्य का मूल्यांकन संबंधित अध्यापकों द्वारा किया जाएगा और उसे एक संकलित रूप में बाह्य परीक्षक के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तथा इस पर छात्र द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और प्रायोगिक परीक्षा के बाद इस पर 'रद्द कर दिया गया' की मोहर लगा दी जानी चाहिए।

परीक्षा की योजना

ए. परीक्षा

पहला वर्ष

प्रश्न पत्र	विषय	कुल अंक	आन्तरिक मूल्यांकन	परिषद/बोर्ड परीक्षा	परीक्षा की अवधि (घण्टों में)
I.	जीवविज्ञान शरीररचनाविज्ञान और शरीरक्रिया विज्ञान सूक्ष्म विज्ञान	100	25	75	3
II.	व्यवहारपरक विज्ञान मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान	100	25	75	3
III.	परिचर्या के मूल सिद्धान्त परिचर्या के मूल सिद्धान्त प्राथमिक उपचार वैयक्तिक स्वास्थ्य	100	25	75	3
IV.	सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या-I सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या पर्यावरणात्मक स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा और अभिव्यक्ति कौशल पोषण	100	25	75	3
	प्रायोगिक-I: परिचर्या के मूल सिद्धान्त	100	50	50	

दूसरा वर्ष

प्रश्न पत्र	विषय	कुल अंक	आन्तरिक मूल्यांकन	परिषद/बोर्ड परीक्षा	परीक्षा की अवधि (घण्टों में)
I.	चिकित्सा शल्यक्रियात्मक परिचर्या-I (फार्माकालोजी)	100	25	75	3
II.	चिकित्सा शल्यक्रियात्मक परिचर्या-II (विशेषज्ञताएं)	100	25	75	3
III.	मानसिक स्वास्थ्य और मनोविकारी परिचर्या	100	25	75	3

	प्रायोगिक-I: चिकित्सा शल्यक्रियात्मक परिचर्या	100	25	75	3
	प्रायोगिक- II: मनोविकारी परिचर्या	100	(केवल स्कूल परीक्षा होगी, परिषद/बोर्ड की कोई परीक्षा नहीं होगी)		

मनोविकारी परिचर्या के लिए प्रायोगिक परीक्षा स्वयं स्कूल द्वारा नैदानिक शिक्षण के अन्त में नैदानिक अनुभव स्थल पर ही आयोजित की जाएगी और आन्तरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंक परिषद/बोर्ड को भेज दिए जाने चाहिए।

तीसरा वर्ष

प्रश्न पत्र	विषय	कुल अंक	आन्तरिक मूल्यांकन	परिषद/बोर्ड परीक्षा	परीक्षा की अवधि (घण्टों में)
I.	प्रसूति-विद्या और स्त्रीरोगविज्ञान	100	25	75	3
II.	बालचिकित्सा परिचर्या	100	25	75	3
III.	सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या-II	100	25	75	3
	प्रायोगिक- I: प्रसूति-विद्या	100	50	50	
	प्रायोगिक- II: बालचिकित्सा परिचर्या	100	50	50	
	प्रायोगिक- III: सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या	100	50	50	

एएनएम/एलएचवी/एफएचडब्ल्यू के लिए परीक्षाएं

इस तरह के अभ्यर्थी, दूसरे अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की योजना के अनुसार सैद्धान्तिक और प्रायोगिक में सभी परीक्षाओं में बैठेंगे।

बी. परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता

छात्र राज्य परिषद/बोर्ड की परीक्षा में बैठने का पात्र होगा यदि स्कूल के प्रिन्सीपल यह प्रमाणित करते हैं कि

- उसने कम से कम ग्यारह महीने का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है।
- वह शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रत्येक विषय पर औपचारिक शिक्षण के 75% शिक्षण में तथा प्रत्येक क्षेत्र/विषय में नैदानिक क्षेत्र अनुभव के 75% अनुभव में अलग-अलग उपस्थित रहा/रही है। तथापि यह जरूरी है कि परिषद/बोर्ड की

- अन्तिम परीक्षाओं और डिप्लोमा जारी किए जाने से पूर्व निर्धारित कुल नैदानिक/क्षेत्र अनुभव प्राप्त कर लिया गया हो।
- (छात्र को डिप्लोमा तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने नैदानिक/क्षेत्र अनुभव संबंधी अपेक्षाएं पूरी न कर ली हों)
- (ग) समूचे शैक्षणिक वर्ष के दौरान छात्र का समग्र निष्पादन और आचरण सन्तोषपूर्ण रहा है।
- (घ) छात्र ने प्रत्येक सैद्धान्तिक और प्रायोगिक में अलग-अलग 50% प्राप्त करके प्रत्येक विषय अर्थात् शिक्षण और प्रायोगिक—दोनों में आन्तरिक मूल्यांकन में सफलता प्राप्त की है।
- (ङ.) प्रायोगिक अनुभव का रिकार्ड पूरा है।
- (प्रिंसीपल परीक्षा शुरू होने से पूर्व परीक्षा फार्म के साथ प्रत्येक विषय अर्थात् सैद्धान्तिक और प्रायोगिक से संबंधित आन्तरिक मूल्यांकन परिषद/बोर्ड को भेज देगा)।
- (च) जिन एनएम/एलएचवी/एफएचडब्ल्यू को तीसरे वर्ष के दौरान छः महीने के लिए छूट दी गई है, वे छः महीने का प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद तीसरे वर्ष की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

सी. पूरक परीक्षा

परिषद वार्षिक परीक्षा के छः महीने के भीतर पूरक परीक्षा आयोजित करेगी:

- (क) यदि कोई छात्र सिद्धान्त के प्रश्न पत्र/प्रायोगिक में फेल हो जाता है तो उसे अगले वर्ष की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी जाएगी। जिस विषय/प्रायोगिक में वह फेल हुआ/हुई है, उसे उसमें एक पूरक परीक्षा में बैठना होगा। यदि वह पूरक परीक्षा पास नहीं कर पाता/पाती तो उसे अपने अगले वर्ष की वार्षिक परीक्षा के साथ पुनः परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
- (ख) यदि कोई छात्र दो या दो से अधिक प्रश्न पत्रों अथवा प्रायोगिक में फेल हो जाता है तो उसे अगले वर्ष की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन विषयों/प्रायोगिकों में वह फेल हुआ/हुई है, उसे उनमें बैठना होगा लेकिन अगले वर्ष की परीक्षा में बैठने के लिए वह पिछली परीक्षा पास कर लेने की तारीख से एक शैक्षणिक वर्ष के बाद ही पात्र होगा/होगी।
- (ग) उपर्युक्त (क) वर्ग के किसी भी छात्र को तीसरे वर्ष (उच्चतर कक्षा) में जाने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उसने पिछले वर्ष के विषयों को (दूसरे वर्ष तक के बकाया विषय) पास न कर लिया हो।

- (घ) यदि कोई छात्र तीसरे वर्ष के किसी सिद्धान्त प्रश्न पत्र/प्रायोगिक परीक्षा में फेल हो गया/गई है तो उसे स्थानबद्ध प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह केवल उन विषयों/प्रायोगिक में पूरक परीक्षा में बैठेगा/बैठेगी जिसमें वह फेल हुआ/हुई है। छात्र को स्थानबद्ध प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उसने तीसरे वर्ष की परीक्षा पास न कर ली हो।
- (ङ.) यदि कोई छात्र दो या दो से अधिक प्रश्न पत्रों/प्रयोगों में फेल हो जाता है तो उसे स्थानबद्ध प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसे केवल उन्हीं विषयों/प्रयोगों में पूरक परीक्षा में बैठना होगा जिनमें वह फेल हुआ है। छात्र को तीसरे वर्ष की परीक्षा पास किए बिना, स्थानबद्ध प्रशिक्षण में नहीं जाने दिया जाएगा।

डी. परीक्षा का योग्यताक्रम निर्धारण

परीक्षा का योग्यताक्रम निर्धारण प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरे साढ़े तीन वर्ष की अवधि में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा:

विशेष योग्यता	--	80% तथा उसे अधिक
पहली श्रेणी	--	70% से 79%
दूसरी श्रेणी	--	60% से 69%
पास	--	50% से 59%

ई. सैद्धान्तिक परीक्षा

1. किसी एक विशिष्ट विषय में कम से कम पांच वर्ष (हाल के) के अध्यापन अनुभव सहित परिचर्या अध्यापक को केवल उसी विशिष्ट विषय के लिए प्रश्न पत्र बनाने वालों तथा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
2. प्रश्न पत्र में निबन्ध, लघु प्रश्नों और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (स्थिति आधारित प्रश्न) का मिश्रण होना चाहिए।
3. विषय और उप-विषय के सभी यूनिटों को शिक्षण के निर्धारित घण्टों के अनुसार भारित दी जानी चाहिए।

एफ. प्रायोगिक परीक्षा

1. संबंधित नैदानिक क्षेत्र में प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी।
2. किसी एक विशिष्ट विषय/नैदानिक क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष के शिक्षण/नैदानिक शिक्षण अनुभव (हाल के) वाले परिचर्या अध्यापक को प्रायोगिक परीक्षक नियुक्त किया जा सकता है।
3. एक दिन में अधिक से अधिक 10-15 छात्रों की परीक्षा ली जानी चाहिए।
4. प्रायोगिक परीक्षा के लिए आन्तरिक और बाह्य परीक्षक मिल कर प्रत्येक छात्र की परीक्षा लेंगे।

स्थानबद्ध प्रशिक्षण की अवधि

सामान्य लक्ष्य

स्थानबद्ध प्रशिक्षण अवधि पूरी कर लेने के बाद छात्र को निम्न कार्यों में समर्थ होना चाहिए:

1. व्यावसायिक दायित्वों का स्वतंत्र रूप से तथा कारगर ढंग से निर्वह करने के कौशलों का परिचय देना।
2. स्वास्थ्य देखभाल स्थितियों में रोगियों/ग्राहकों को तथा नैदानिक स्थितियों में परिचर्या छात्र को सिखाने के प्रारम्भिक कौशलों का परिचय देना।
3. परिचर्या यूनिटों, स्वास्थ्य क्लीनिकों और स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रशासन और प्रबंध में प्रारम्भिक कौशलों का परिचय देना।
4. विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल स्थितियों में संस्थान/संगठन के अनुसंधान क्रियाकलापों में सहायता देना/भाग लेना।
5. परिचर्या के व्यवहार में सतत और सेवाकालीन शिक्षा की जरूरतें पता लगाना और उनका महत्व स्वीकार करना।

स्थानबद्ध प्रशिक्षण अवधि के विवरण

कुल अवधि	-	26 सप्ताह/छः महीने
छुट्टियां	-	1 सप्ताह
परीक्षा	-	1 सप्ताह

बाकी 24 सप्ताहों के लिए छात्रों को विभिन्न नैदानिक क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा और वे औपचारिक क्लासरूम शिक्षण में भी भाग लेंगे।

प्रतिदिन काम के कुल घण्टे	-	8
प्रति सप्ताह घण्टे	-	$8 \times 6 = 48$
स्थानबद्ध प्रशिक्षण अवधि के कुल घण्टे	-	$48 \times 24 = 1152$
सैद्धान्तिक शिक्षण के कुल घण्टे	-	190
नैदानिक तैनाती के कुल घण्टे	-	$1152 - 190 = 962$

छात्र प्रतिदिन एक घण्टे की कक्षा तथा नैदानिक अनुभव के लिए 7 घण्टे अथवा एक दिन सैद्धान्तिक के लिए और पांच दिन नैदानिक अनुभव प्राप्त करने में लगाएंगे जिसकी योजना

संस्थानों द्वारा उनकी उपयुक्तता के अनुसार बनाई जाएगी जो कि नैदानिक के लिए प्रति सप्ताह 40 घण्टे और सिद्धान्त के लिए 8 घण्टे बैठेगी।

नैदानिक अनुभव का विभाजन

1. चिकित्सा परिचर्या	- 3 सप्ताह
2. शल्यक्रियात्मक परिचर्या	- 3 सप्ताह
3. बाल चिकित्सा परिचर्या	- 3 सप्ताह
4. मनोविकारी परिचर्या	- 3 सप्ताह
5. सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या	- 4 सप्ताह
6. प्रसूति-विद्या	- 4 सप्ताह
7. छात्र की रुचि का विषय	- 2 सप्ताह
8. इस अवधि के दौरान रात्रि पर्यवेक्षक के साथ दो सप्ताह का रात्रि नैदानिक अनुभव प्रदान किया जाना है।	

योग

- 24 सप्ताह

मूल्यांकन की योजना—स्थानबद्ध प्रशिक्षण अवधि (स्कूल परीक्षा) सैद्धान्तिक परीक्षा

विषय	छः महीने की अवधि का मूल्यांकन	स्कूल परीक्षा	कुल अंक
1. परिचर्या में अभ्यास शिक्षण के लिए शैक्षिक विधियाँ और माध्यम तथा परिचर्या में अनुसंधान	50	50	100
2. व्यावसायिक अभिवृत्तियाँ और समायोजन, प्रशासन और वार्ड प्रबन्ध तथा स्वास्थ्य अर्थशास्त्र	50	50	100
योग	100	100	200

प्रायोगिक मूल्यांकन: स्कूल मूल्यांकन

	अंक
चिकित्सा और शल्यक्रियात्मक परिचर्या	20
बाल चिकित्सा परिचर्या	20
सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या	20
प्रसूति-विद्या	20
योग	100

नैदानिक कौशलों, वार्ड प्रबन्ध तथा व्यावसायिक अभिवृत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए छः महीने के अन्त में स्कूल द्वारा स्वयं अपने स्तर पर प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

मूल्यांकन में प्राप्त अंक परिषद को सूचित किए जाएंगे ताकि समग्र परिणाम में उन्हें जोड़ा जा सके।

परिषद/बोर्ड द्वारा स्थानबद्ध प्रशिक्षण की सफल पूर्ति के बाद ही डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।

पाठ्यचर्या

शरीररचना-विज्ञान और शरीरक्रिया-विज्ञान घण्टे-90

पाठ्यक्रम विवरण

यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे छात्रों को मानव शरीर की रचना और कार्य को समझने में तथा सामान्य स्वास्थ्य से किसी प्रकार के विचलन की पहचान करने में मदद की जाए ताकि प्रभावी परिचर्यात्मक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

सामान्य लक्ष्य

इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्रों को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ मानव शरीर की बनावट और कार्यों की बाबत सामान्यतः वर्णन करना।
- ✓ मानव शरीर में विभिन्न अंगों और तंत्रों की बनावट और कार्यों की बाबत विस्तार से वर्णन करना।
- ✓ परिचर्या के व्यवसाय में शरीररचना वैज्ञानिक तथा शरीरक्रिया वैज्ञानिक सिद्धान्त लागू करना।

पाठ्यक्रम सामग्री

यूनिट-I शरीररचना वैज्ञानिक शब्दों का परिचय

यूनिट-II शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों, तंत्रों, कलाओं और ग्रंथियों का परिचय

यूनिट-III कंकाल तंत्र

- अस्थियां : प्रकार, बनावट, कार्य
- अक्षीय कंकाल
- उंडुकपुच्छ कंकाल
- संधियां : वर्गीकरण, बनावट और कार्य

यूनिट-IV पेशी तंत्र

- कोटि, बनावट और कार्य
- शरीर की प्रमुख पेशियों की स्थिति और कार्य

यूनिट-V हृदयवाहिका तंत्र

- रुधिर: संघटन, स्कन्दन तथा रुधिर वर्ग, अन्योन्य सुमेलन, रुधिर उत्पाद तथा उनका प्रयोग।
- हृदय: स्थिति, बनावट, चालन तंत्र, कार्य तथा हृदय चक्र।

- रक्त कोशिकाएं: संरचनात्मक भिन्नताएं और प्रमुख कोशिकाओं की स्थिति।
- रक्त परिसंचरण: दैहिक, फुफ्फुसी तथा प्रतिहार परिसंचरण।
- रक्तदाब तथा नाड़ी
- लसीका तंत्र: शरीर में लसीका कोशिकाएं, ग्रंथियां, वाहिनी तथा लसीका ऊतक, तिल्ली।

यूनिट-VI श्वसन तंत्र

- श्वसन अंगों की बनावट और कार्य।
- श्वसन का शरीरक्रियाविज्ञान।
- सामान्य श्वसन की विशेषताएं तथा इसके विचलन।

यूनिट-VII पाचक तंत्र

- पाचन के अंगों तथा सहायक अंगों की बनावट और कार्य।
- पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया।
- चयापचय: खाद्य घटकों का अर्थ और चयापचय।

यूनिट-VIII उत्सर्गी तंत्र

- मूत्रीय तंत्र के अंगों की बनावट और कार्य।
- त्वचा की बनावट और कार्य।
- शरीर के तापमान का विनियमन।
- तरल और विद्युत-अपघट्य संतुलन।

यूनिट-IX तंत्रिका तंत्र

- तंत्रिका कोशिका की कोटि, बनावट और कार्य।
- केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र : बनावट और कार्य।
- स्वचालित तंत्रिका तंत्र : बनावट और कार्य।

यूनिट-X अन्तःस्रावी तंत्र

- पीयूष, अग्न्याशय, अवटु, परावटु, थाइमस तथा अधिवृक्क ग्रंथियों की बनावट और कार्य।

यूनिट-XI ज्ञानेन्द्रियां

- आंख, कान, नाक और जीभ की बनावट तथा कार्य।
- दृष्टि, श्रवण और संतुलन का शरीरक्रियाविज्ञान।

यूनिट-XII प्रजनन तंत्र

- प्रजनन और सहायक अंगों की बनावट और कार्य।
- प्रजनन की प्रक्रिया, आर्तवचक्र तथा रजोनिवृत्ति।
- प्रजनन स्वास्थ्य।
- पुरुष के प्रजनन तंत्र की बनावट और कार्य।

टिप्पणी: जहां कहीं संभव हो प्रत्येक यूनिट में संबंधित नैदानिक अनुप्रयोग शामिल कर लिया जाए।

सूक्ष्मजीवविज्ञान घण्टे 30

पाठ्यक्रम विवरण

यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है कि सूक्ष्मजीवों की विशेषताओं और क्रियाकलापों के बारे में जानने और समझने में छात्रों की मदद की जाए, उन्हें यह समझाया जाए कि विभिन्न स्थितियों में ये सूक्ष्मजीव कैसे अभिक्रिया करते हैं और वे किस प्रकार विभिन्न विकार तथा रोग पैदा करते हैं। इन सिद्धान्तों की जानकारी होने से छात्र निवारक और वर्धक स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी परिपाटियां समझ और अपना सकेंगे।

सामान्य लक्ष्य

इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्रों को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

1. सूक्ष्मजीवों के वर्गीकरणों तथा विशेषताओं का वर्णन करना।
2. रोग उत्पन्न करने वाले सामान्य सूक्ष्मजीवों तथा उनकी विशेषताओं की सूची तैयार करना।
3. पर्यावरण और मानव शरीर के सन्दर्भ में सूक्ष्मजीवों के क्रियाकलाप समझाना।
4. सूक्ष्मजीवों के नियंत्रण और विनाश के मूल सिद्धान्त गिनाना।
5. परिचर्या व्यवहार में सूक्ष्मजीवविज्ञान का सिद्धान्त लागू करना।

पाठ्यक्रम सामग्री

यूनिट-I परिचय

- जीवाणुविज्ञान और सूक्ष्मजीवविज्ञान की संक्षिप्त ऐतिहासिक समीक्षा।
- परिचर्या में सूक्ष्मजीवविज्ञान के ज्ञान की संभावना और उपयोगिता।

यूनिट-II सूक्ष्मजीव

- वर्गीकरण, बनावट, आकार, प्रजनन की विधि और दर।
- वृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व।
- विकृतिजनक तथा अविकारी जीव।
- शरीर के सामान्य फ्लोरा।
- विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों से उत्पन्न होने वाले सामान्य रोग।

यूनिट-III संक्रमण और इसका संचरण

- संक्रमण के स्रोत।

- सूक्ष्मजीवों की वृद्धि।
- सूक्ष्मजीवों के प्रवेश और निकास के द्वार।
- संक्रमण का संचरण।
- नमूनों का संग्रहण।

यूनिट-IV प्रतिरक्षा

- प्रतिरक्षा की कोटियां।
- अतिसुग्राहिता तथा स्व-प्रतिरक्षा।
- प्रतिरक्षा करने वाले एजेंट।

यूनिट-V सूक्ष्मजीवों का नियंत्रण और विनाश

- सूक्ष्मजीवीय नियंत्रण का सिद्धान्त और विधियां।
- निर्जीवाणूकरण: शुष्क ऊष्मा, आर्द्र ऊष्मा, रसायन और विकिरण।
- विसंक्रमण: प्रयुक्त भौतिक, प्राकृतिक गैसों, रसायन तथा लोशन तैयार करना।
- रसायन चिकित्सा और प्रतिजीवी।
- चिकित्सीय तथा शल्यक्रियात्मक अपूति, अन्योन्य संक्रमण।
- संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण।
- पास्चुरीकरण।
- जैव-सुरक्षा और अपशिष्ट प्रबन्ध।

यूनिट-VI प्रयोगशाला तकनीकों का परिचय

- माइक्रोस्कोप: हिस्से और प्रयोग। माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना और उसकी देखभाल करना।
- सम्बन्ध मीडिया का रोपण (इनाकुलेशन)।
- स्लाइडों का अभिरंजन और परीक्षण।
- लेप तैयार करना और उनकी जांच करना।

मनोविज्ञान घण्टे 40

पाठ्यक्रम विवरण

यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे कि मानव व्यवहार की परिवर्तनात्मकताओं और मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा समझने में छात्रों की मदद की जा सके। इससे वे एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने तथा सभी प्रकार की स्वास्थ्य स्थितियों में परिचर्या के व्यवसाय में उत्तम अन्तर्वैयक्तिक संबंध स्थापित कर सकने की स्थिति में हो जाएंगे।

सामान्य लक्ष्य

इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्रों को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ मानसिक स्वास्थ्य और मनोविज्ञान की अवधारणा का वर्णन करना।
- ✓ मानवीय व्यवहार, व्यक्तित्व तथा अधिगम की परिवर्तनात्मकता समझना।
- ✓ स्वास्थ्य और बीमारी में समायोजन तंत्रों और संवेगों की भूमिका पर चर्चा करना।
- ✓ सभी प्रकार की स्वास्थ्य स्थितियों में परिचर्या व्यवहार में मनोविज्ञान के सिद्धान्त के प्रयोग में कौशलों का परिचय देना।

यूनिट-I परिचय

- मनोविज्ञान की परिभाषाएं, क्षेत्र तथा परिचर्या व्यवहार में इसका महत्व।

यूनिट-II मानव व्यवहार का मनोविज्ञान

- व्यवहार, अभिप्रेरण की परिवर्तनात्मकता तथा समायोजन की व्यवहारपरक प्रक्रिया, समायोजन तथा कु-समायोजन, अचेतन व्यवहार।
- नैराश्य: नैराश्य के स्रोत और प्रकृति, नैराश्य पर काबू पाने के उपाय।
- संघर्ष: कोटियां, अचेतन संघर्ष, संकल्प, संघर्ष और परिचर्या।
- समायोजन तंत्र: अर्थ, कोटियां और महत्व।
- संवेग: स्वास्थ्य और रोग में, संवेगात्मक स्थितियां, संवेगों पर नियंत्रण, संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं का स्वास्थ्य पर प्रभाव।
- अभिवृत्तियां: अर्थ, विकास, अभिवृत्ति में परिवर्तन, अभिवृत्ति और परिचर्या।
- आदतें: निर्माण, प्रकार, प्रभावी आदत निर्माण, आदत निर्माण के लाभ तथा हानियां।

यूनिट-III अधिगम

- अधिगम की प्रकृति, अधिगम के नियम और प्रकार, प्रभावी अधिगम को बढ़ावा देने वाले तत्व, स्मृति और भुलक्कड़पन।
- विचारणा और विवेचन।
- विचारणा की प्रकृति और प्रकार।
- समस्या समाधान और विवेचन।

यूनिट-IV प्रेक्षण

- ध्यान और बोध, ध्यान और प्रेक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व तथा बोध में त्रुटियां।

यूनिट-V बुद्धिमत्ता

- परिभाषा, बुद्धिमत्ता में वैयक्तिक भिन्नताएं।
- मानसिक योग्यता और बुद्धिमत्ता की प्रकृति।
- बुद्धिमत्ता का मापन।
- बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार का विकास।

यूनिट-VI व्यक्तित्व

- अर्थ, प्रकार, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व।
- विभिन्न आयुवर्गों की विशेषताएं: बच्चा, किशोर, वयस्क और वृद्ध।
- संकल्प और चरित्र।

समाजविज्ञान**घण्टे 20****पाठ्यक्रम विवरण**

यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे कि छात्र परिचर्या व्यवहार की प्रासंगिकता के सन्दर्भ में समाजविज्ञान की जानकारी प्राप्त कर सकें।

सामान्य लक्ष्य

इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्रों को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ एक सामाजिक इकाई के रूप में परिवार की अवधारणा और परिवार में व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करना।
- ✓ समाज की परिवर्तनात्मकता समझना और सामान्य सामाजिक समस्याओं की पहचान करना।
- ✓ समुदाय के सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक पक्षों का स्वास्थ्य और बीमारी पर जो प्रभाव पड़ते हैं, उनके प्रकाश में उन्हें समझने की योग्यता का परिचय देना।
- ✓ समाजविज्ञान के ज्ञान और बोध का परिचर्या व्यवसाय में प्रयोग करना।

पाठ्यक्रम सामग्री**यूनिट-I परिचय**

- समाजविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र, प्रकृति और परिचर्या में उसका महत्व।
- समुदाय के सामाजिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक पक्ष और स्वास्थ्य तथा बीमारी पर उनके प्रभाव।

यूनिट-II व्यक्ति

- मानवीय उन्नति और विकास की संक्षिप्त समीक्षा।
- पर्यावरण का बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था और वृद्धावस्था पर प्रभाव।
- एक लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति के अधिकार तथा दायित्व।

यूनिट-III परिवार

- एक सामाजिक संस्थान तथा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बुनियादी यूनिट के रूप में परिवार।
- परिवार की बुनियादी जरूरतें, इसका गठन और संबंध।
- पारिवारिक जीवन शिक्षा: विवाह-पूर्व, विवाह और पितृत्व।

यूनिट-IV समाज

- अवधारणा।
- समूह: प्रकार, गठन, समूहों के बीच संबंध, समूह चक्र, सामूहिक व्यवहार तथा सामूहिक मनोबल।
- सामाजिक बदलाव, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्तरीकरण।
- ग्रामीण और शहरी समाज।
- सामाजिक समस्याएं: अविवाहित माताएं, दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति, नशीली दवाओं का व्यसन, मद्यपान, अपराध, विकलांग, बाल दुरुपयोग, महिला दुरुपयोग।
- सामाजिक एजेंसियां और उपचारी उपाय।

यूनिट-V समुदाय

- परिभाषा, विशेषताएं और संस्कृति।

यूनिट-VI अर्थव्यवस्था

- देश के संसाधन: प्राकृतिक, व्यावसायिक, कृषिक, औद्योगिक आदि।
- सामाजिक सुरक्षा।
- जनसंख्या विस्फोट: अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव और जनसंख्या पर काबू पाने की जरूरत।
- परिवार के लिए बजट निर्माण, प्रति व्यक्ति आय तथा स्वास्थ्य और बीमारी पर इसका प्रभाव।

परिचर्या के मूल सिद्धान्त

घण्टे 174

पाठ्यक्रम विवरण

यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है कि परिचर्यात्मक देखभाल को लेकर रोगियों की बुनियादी स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करने और प्रभावी रोगी देखभाल प्रदान करने के लिए अपेक्षित क्षमताएं विकसित करने में छात्रों की मदद की जा सके।

सामान्य लक्ष्य

इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्रों को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ एक रोगी और उसके परिवार के लिए जरूरी भौतिक, मानसिक और सामाजिक समायोजन का वर्णन करना।
- ✓ मूल परिचर्यात्मक तकनीकों और देखभाल को वेस वैज्ञानिक सिद्धान्तों के साथ लागू करना।
- ✓ व्यापक परिचर्यात्मक देखभाल की अवधारणा स्पष्ट करना।
- ✓ रोगियों को प्रदत्त परिचर्यात्मक देखभाल के निर्धारण, आयोजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के कौशल विकसित करना।
- ✓ रोगियों, उनके संबंधियों तथा स्वास्थ्य दल सदस्यों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करना और उनके साथ अच्छे अन्तर्वैयक्तिक संबंध स्थापित करना।
- ✓ प्रेक्षण, रिकार्डिंग तथा रिपोर्टिंग में कौशलों का परिचय देना।
- ✓ व्यक्तियों, समूहों, परिवारों तथा समुदायों के लिए आवश्यकता-आधारित स्वास्थ्य शिक्षण कार्यक्रम (कार्यक्रमों) के योजना-निर्माण और कार्यान्वयन के लिए अवसरों की पहचान करना और उनका प्रयोग करना।

पाठ्यक्रम सामग्री

यूनिट-I परिचर्या का परिचय

- परिचर्या: परिभाषा, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, सिद्धान्त और परिचर्या का इतिहास।
- परिचारिका: परिभाषा और अर्थ, एक परिचारिका के गुण तैयार करना-वैयक्तिक, व्यावसायिक।
- परिचर्या में नैतिकता, एक परिचारिका की भूमिका और दायित्व।

- स्वास्थ्य देखभाल एजेंसियां: अस्पताल और समुदाय, अस्पतालों की किस्में तथा उनके कार्य।
- परिचर्या के प्रति समग्र दृष्टिकोण।
- समग्र परिचर्यात्मक देखभाल।

यूनिट-II रोगी/ग्राहक की परिचर्यात्मक देखभाल

- रोगी और स्वस्थ व्यक्ति का परिचय।
- स्वास्थ्य स्थिति के निर्धारक तत्व।
- रोगी/ग्राहक: एक व्यक्ति, परिवार, समाज के एक सदस्य के रूप में, बीमारी और अस्पताल में रहकर इलाज कराने का रोगी और उसके परिवार पर प्रभाव।
- रोगी का दाखिला: रोगी का यूनिट, व्यवस्था और देखभाल, दाखिले की विधि, रोगी का स्वागत, रोगी के असबाब की देखभाल।

शय्या और बिस्तर लगाना

- बिस्तर लगाने का सिद्धान्त, बिस्तर का चयन करने और बिस्तर लगाने में विचार किए जाने योग्य तत्व, विभिन्न प्रकार की शय्याएं और उनका प्रयोग।

चिकित्सीय वातावरण बनाए रखना

- तापमान, प्रकाश, शोर और नमी।

मनोसामाजिक वातावरण

- अर्थ और इसका महत्व, पर्यावरण, वर्ण योजना, सौन्दर्य और पुष्प सज्जा में सौन्दर्यशास्त्रीय विचार।

परिचर्या प्रक्रिया और परिचर्यात्मक देखभाल योजना

- अर्थ, महत्व और इसके विकास में किए जाने वाले उपाय।

रिकार्डिंग और रिपोर्टिंग

- महत्व, प्रकार और परिचारिकाओं के दायित्व।

रोगी की अस्पताल से छुट्टी करना

- रोगी को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना, छुट्टी देने की प्रक्रिया, अस्पताल नीतियां, रोगी को छुट्टी देने के लिए उसके संबंधियों को तैयार करना।
- अनुवर्ती कार्यवाई और पुनर्वास के निमित्त पुनः दौरा, उपचार का पालन और रेफरल।

यूनिट-III बुनियादी परिचर्यात्मक देखभाल और रोगी की जरूरतें

स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें और शारीरिक जरूरतें

- स्वस्थ और रोग की स्थिति में उत्तम वैयक्तिक और पर्यावरणात्मक स्वास्थ्य बनाए रखने का महत्व।
- उत्तम वैयक्तिक और पर्यावरणात्मक स्वास्थ्य बनाए रखने में परिचारिका की भूमिका।
- त्वचा और श्लेष्मल कला की देखभाल।
- बिस्तर में शरीर की सफाई, बालों, आंखों, नाक, कानों, दांत, जननांगों, हाथों और पैरों की देखभाल। पोषणिक जरूरतें।
- स्वस्थ और बीमारी की स्थिति में आहार का महत्व, बीमारी में सामान्य पोषण को प्रभावित करने वाले तत्व, उत्तम पोषण बनाए रखने में परिचारिका की भूमिका, असहाय रोगियों को आहार खिलाना, अंतर्ग्रहण और उत्सर्जन का रिकार्ड रखना।

निष्कासन संबंधी जरूरतें

- बीमारी में समस्या: कब्ज और अतिसार, पेशाब का रुक जाना तथा उस पर काबू न रहना।
- निष्कासन संबंधी जरूरतों को पूरा करने में परिचारिका की भूमिका।

सुरक्षा संबंधी जरूरतें

- पर्यावरणात्मक जोखिम, स्वास्थ्य जोखिमों की रोकथाम में परिचारिकाओं की भूमिका।
- अंतर्वैयक्तिक संबंध, सांस्कृतिक/आध्यात्मिक/धार्मिक जरूरतें।

क्रियाकलाप और व्यायाम

- स्वस्थ और रोग की स्थिति में क्रियाकलाप और व्यायाम का महत्व, सक्रिय और निष्क्रिय व्यायाम।

भौतिक आराम

- आराम: इसका अर्थ तथा स्वस्थ और रोग की स्थिति में इसका महत्व, भौतिक आराम को बढ़ावा देने वाले और उन्हें बाधित करने वाले तत्व, आरामदेह युक्तियां और उनका प्रयोग, शारीरिक प्रक्रिया, स्थितियां।

रोगी को ले जाना, उसका स्थान बदलना और उसे उठाना

- दाब बिन्दुओं और शय्या ढ्रणों की देखभाल: कारण, संकेत, लक्षण, रोकथाम और परिचर्यात्मक देखभाल।
- रोगी की करवट बदलना, उसे शय्या से व्हील चेयर पर और शय्या से स्ट्रेचर पर ले जाना।

यूनिट-IV रोगी/ग्राहक का मूल्यांकन

- मूल्यांकन के सिद्धान्त और महत्व, मूल्यांकन की विधियां: प्रेक्षण, परिस्पर्शन (पलपेशन), परिश्रवण (आस्व्युलेशन), परिताइन (परकशन), प्रेक्षण में कौशलों का विकास।

शारीरिक मूल्यांकन

- लम्बाई, भार, स्थिति, वाणी

शरीरक्रियात्मक मूल्यांकन

- तापमान, नाड़ी, श्वसन और रक्तदाब।
- सामान्य और असामान्य (टीपीआर तथा बीपी) की विशेषताएं और उनमें भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व।
- मूत्र मल, उल्टी, थूक, सामान्य और असामान्य व्यवहार तथा इसका विचलन।

यूनिट-V चिकित्सीय परिचर्यात्मक देखभाल तथा क्रियाविधियां अपूर्ति

- हाथ धोना, हाथों को मसलकर धोना, मास्क, गाउन, दस्तानों का प्रयोग।
- विसंक्रमण तकनीक, निर्जिवाणूकरण के तकनीक।
- आटोक्लेविंग, उबालना, धधकाना, पराबैगनी किरणें।

निम्न की देखभाल और निर्जिवाणूकरण

- लिनन, बिस्तर, गद्दा, फर्श, दीवारें, आलमारियां तथा अन्य वस्तुएं।
- रबड़ का सामान, मरहमपट्टी, सुइयां, सिरीजें, तामचीनी के पदार्थ।
- रोध परिचर्या और अलगाव।

श्वसन तंत्र की देखभाल

- अभिश्वसन: शुष्क अभिश्वसन, आर्द्र अभिश्वसन, जग, नेल्सन इन्हेलर, वाष्प टेन्ट, बिजली के इन्हेलर, सक्शन ओरो-नेजल।
- जांच के लिए थूक के नमूनों का संग्रहण।

जठर आन्त्र मार्ग की देखभाल

- एनीमा तैयार करना और देना: धारण एनीमा, उत्सारक एनीमा, वर्तिका, आंत्रवायु (फ्लैटस) नलिका डालना।

जनन-मूत्र तंत्र की देखभाल

- मरणासन्न रोगी और मूत्री कैथीटर वाले रोगी की शारीरिक देखभाल।
- नेमी और सम्बर्ध (क्लचर) परीक्षण के लिए मूत्र और मल के नमूनों का संग्रहण।

त्वचा और श्लेष्मा कला की देखभाल

- शीत अनुप्रयोग: बर्फ की टोपी, शीत बैलियां, वाष्पशील लोशन का प्रयोग।
- ऊष्मा अनुप्रयोग: गर्म पानी की बोतल का प्रयोग, सूखी सिकाई आर्द्र सिकाई, औषधियुक्त सिकाई।

यूनिट-VI विशेष स्थितियों में बुनियादी जरूरतें और देखभाल

- बुखार से पीड़ित रोगी, बेहोश रोगी, तरल असंतुलन से युक्त रोगी, कष्ट श्वास के रोगी की देखभाल।
- मरणासन्न रोगी की देखभाल।
- शारीरिक दृष्टि से विकलांग की देखभाल।

मरणासन्न रोगी

- आसन्न मृत्यु के संकेत और लक्षण, मरणासन्न रोगी और उसके संबंधियों की जरूरतें, मरणासन्न रोगी की देखभाल, अंतिम कार्य, संचारी और गैर-संचारी रोगों में शवों को लपेटना।

यूनिट-VII फार्माकालोजी का परिचय

- फार्माकालोजी की अवधारणा।
- औषधियों का वर्गीकरण।
- रोगियों को औषधियां देना।
- औषधियों की सामान्य क्रिया।
- औषधियां देने में परिचर्यात्मक प्रभाव।

प्राथमिक उपचार

घंटे: 20

पाठ्यक्रम विवरण

यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे कि सामुदायिक आपातिक स्थितियों की समझ विकसित करने और जब कभी जरूरत पेश आए तो प्राथमिक उपचार सेवाएं उपलब्ध कराने के योग्य बनने में छात्रों की सहायता की जा सके।

सामान्य लक्ष्य

इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्र को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ प्राथमिक उपचार के नियमों का वर्णन करना।
- ✓ आपातिक स्थितियों में प्राथमिक उपचार प्रदान करने के कौशलों का परिचय देना।

पाठ्यक्रम सामग्री

यूनिट-I परिचय

- प्राथमिक उपचार का महत्व और प्राथमिक उपचार के नियम।
- आपातिक स्थिति की अवधारणा।

यूनिट-II आपातिक स्थितियों में प्राथमिक उपचार

- आग, ज्वलन, हड्डियों का टूटना, दुर्घटनाएं, विषाक्तता, पानी में डूबना, रक्तस्राव, कीड़ों का काटना, बाह्य प्राणी।
- घायलों को वाहनों के जरिये ले जाना।
- पट्टियां बांधना और स्प्लिन्टिंग।

यूनिट-III सामुदायिक आपातिक स्थितियां और संसाधन, समुदाय आपातिक स्थितियां

- आग, विस्फोट, बाढ़, भूकंप, अकाल।
- परिवारिकाओं की तात्कालिक और बाद की भूमिका।
- पुनर्वास के लिए जरूरत।

सामुदायिक संसाधन

- पुलिस सहायता।
- स्वैच्छिक एजेंसियां: स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां।
- एंबुलेंस सेवाएं: आपातिक स्थितियों के संदर्भ में उनके कार्य।

वैयक्तिक स्वास्थ्य**घंटे: 20****पाठ्यक्रम विवरण**

यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है ताकि स्वास्थ्य की अवधारणा समझने, वैयक्तिक स्वास्थ्य के सिद्धान्तों और स्वस्थ तथा रोग की स्थिति में परिचर्या के संदर्भ में उसके संबंध को समझने में छात्रों की मदद की जा सके।

सामान्य लक्ष्य

इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्र को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ स्वास्थ्य और हाइजीन की अवधारणा स्पष्ट करना।
- ✓ वैयक्तिक स्वास्थ्य के सिद्धान्त गिनाना।
- ✓ रोगियों/ग्राहकों और साथ ही स्वयं अपने स्वस्थ जीवन-यापन में प्रभावी परिचर्यात्मक देखभाल में इन सिद्धान्तों को लागू करने के कौशलों का परिचय देना।

पाठ्यक्रम सामग्री**यूनिट-I परिचय**

- स्वास्थ्य की अवधारणा और सफल जीवन-यापन के साथ इसका संबंध।

यूनिट-II स्वास्थ्य बनाए रखना

- स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, उत्तम स्वास्थ्य आदतें निर्मित करना, प्रतिरक्षीकरण, त्रुटियों का सुधार, स्वास्थ्य रिकार्ड बनाए रखना।

यूनिट-III शारीरिक स्वास्थ्य

- त्वचा, बाल, दांतों, आंखों, कानों, हाथों और पैरों की देखभाल। आराम और नींद, व्यायाम, क्रियाकलाप, मनोरंजन, स्थिति, पोषण, निष्कासन, आर्तवकालीन सफाई।

यूनिट-IV मानसिक स्वास्थ्य

- मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं।
- अन्तर्गर्भाशय, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता तथा वृद्धावस्था में मानसिक स्वास्थ्य।

सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या-I

घंटे 80

पाठ्यक्रम विवरण

यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है ताकि सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणा समझने में छात्रों की मदद की जा सके ताकि उन्हें शहरी और ग्रामीण—दोनों क्षेत्रों में सामुदायिक तंत्र के भीतर परिचर्यात्मक सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यापक सीमाओं से परिचित कराया जा सके।

सामान्य लक्ष्य

इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्र को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य तथा सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या की अवधारणा का वर्णन करना।
- ✓ जानपदिकरोगविज्ञान के सिद्धान्तों और सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसाय की जानपदिकरोगवैज्ञानिक विधियों का वर्णन करना।
- ✓ समुदाय को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं और परिचारिका की भूमिका का वर्णन करना।
- ✓ व्यक्तियों और परिवारों की क्लिनिकों में और साथ ही उनके घरों में वैज्ञानिक सिद्धान्तों का प्रयोग करते हुए प्रभावी परिचर्यात्मक देखभाल मुहैया कराने के कौशलों का परिचय देना।

पाठ्यक्रम सामग्री

यूनिट-I सामुदायिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या का परिचय

- स्वास्थ्य और रोग की स्थिति।
- समुदाय, सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या।
- स्वास्थ्य के आयाम।
- स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व।
- स्वास्थ्य के सूचक।
- स्वास्थ्य देखभाल के स्तर।
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल: तत्व और सिद्धान्त, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में परिचारिका की भूमिका।
- सन 2000 तक (सभी के लिए स्वास्थ्य)।

- भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या की उत्पत्ति और विकास तथा उसकी मौजूदा अवधारणा।
- संस्थानगत और सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या में भिन्नताएं।
- सामुदायिक स्वास्थ्य दल का कार्यकरण।
- सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या व्यवहार का दर्शन, लक्ष्य, उद्देश्य और सिद्धान्त।
- एक सामुदायिक स्वास्थ्य परिचारिका के गुण तथा कार्य।

यूनिट-II सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रक्रिया

- अवधारणाएं और परिभाषा।
- सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रक्रिया का महत्व।
- प्रक्रिया के उपाय: समुदाय की पहचान, आबादी का गठन, स्वास्थ्य और संबद्ध संसाधन, सामुदायिक मूल्यांकन, आयोजना तथा सामुदायिक स्वास्थ्य, परिचर्यात्मक देखभाल सेवाएं आयोजित करना।

यूनिट-III स्वास्थ्य निर्धारण

- स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं।
- सामान्य स्वास्थ्य से विचलन की पहचान।

यूनिट-IV जानपदिकरोगविज्ञान के सिद्धान्त और जानपदिकरोगविज्ञान विधियां

- जानपदिकरोगविज्ञान की परिभाषा और लक्ष्य।
- जानपदिकरोगविज्ञान में मापन के बुनियादी साधन।
- जानपदिकरोगविज्ञान के लाभ।
- रोग चक्र।
- रोग का स्पेक्ट्रम।
- रोग की रोकथाम के स्तर।
- रोग संचरण--प्रत्यक्ष और परोक्ष।
- प्रतिरक्षा।
- प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले एजेंट तथा प्रतिरक्षीकरण समयसूची।
- संचारी रोगों का नियंत्रण।
- विसंक्रमण।

यूनिट-V पारिवारिक स्वास्थ्य परिचर्यात्मक देखभाल

- अवधारणा, लक्ष्य, उद्देश्य, पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के एक यूनिट के रूप में परिवार।

- पारिवारिक स्वास्थ्य और परिचर्यात्मक देखभाल प्रक्रिया—पारिवारिक स्वास्थ्य मूल्यांकन, पारिवारिक देखभाल योजना।
- पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाएं, मातृ, बाल देखभाल और परिवार कल्याण सेवाएं।
- पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं में सामुदायिक स्वास्थ्य परिचारिका की भूमिकाएं और कार्य।
- पारिवारिक स्वास्थ्य रिकार्ड।

यूनिट-VI पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल स्थितियां

रोगी को घर जाकर देखना

- प्रयोजन
- सिद्धान्त
- आयोजना और मूल्यांकन
- थैला तकनीक

क्लीनिक

- प्रयोजन
- क्लीनिकों के प्रकार और उनके कार्य।
- विभिन्न क्लीनिकों की स्थापना।
- इन क्लीनिकों में स्वास्थ्य कार्मिकों के कार्य।

यूनिट-VII रेफरल प्रणालियां

यूनिट-VIII रिकार्ड और रिपोर्टें

- रिकार्डों के प्रकार।
- रिकार्डों के लाभ।
- रिकार्डों की अनिवार्य अपेक्षाएं।
- संचयी रिकार्ड।
- कार्डों/रिकार्डों का डिजाइन।

यूनिट-IX छिटपुट बीमारी

- वर्गीकरण
- शीघ्र पहचान और प्रबंध।
- स्थायी अनुदेश/आदेश।

पर्यावरणात्मक स्वास्थ्य

घण्टे 20

पाठ्यक्रम विवरण

यह पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किया गया है जिससे कि स्वास्थ्य की अवधारणा, पर्यावरणात्मक स्वास्थ्य के सिद्धान्तों और स्वस्थ तथा रोग की स्थिति में परिचर्या के साथ इसके संबंधों को जानने में छात्रों की मदद की जा सके।

सामान्य लक्ष्य

यह पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्रों को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ पर्यावरणात्मक स्वास्थ्य की अवधारणा का वर्णन करना।
- ✓ पर्यावरणात्मक स्वास्थ्य के सिद्धान्तों का वर्णन करना।
- ✓ रोगियों/ग्राहकों तथा साथ ही स्वयं अपने स्वस्थ जीवन-यापन में परिचर्यात्मक देखभाल में इन सिद्धान्तों को लागू करने के कौशलों का परिचय देना।
- ✓ पर्यावरणात्मक स्वास्थ्य जोखिमों तथा देश की स्वास्थ्य समस्याओं और इन समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध सेवाओं का वर्णन करना।

पाठ्यक्रम सामग्री

यूनिट-I परिचय

- पर्यावरण के घटक।
- पर्यावरणात्मक स्वास्थ्य का महत्व।

यूनिट-II स्वास्थ्य में योगदान देने वाले पर्यावरणात्मक तत्व-पानी

- सुरक्षित और पथ्य पानी।
- पानी के प्रयोग।
- जल प्रदूषण।
- जल संक्रामक रोग।
- जल शुद्धिकरण।

वायु

- वायु प्रदूषण।
- वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण।

अपशिष्ट

- कूड़ा-करकट।
- मल।
- मलजल।
- इन अपशिष्टों के स्वास्थ्य जोखिम।
- इन अपशिष्टों का संग्रह, इन्हें हटाना और इनका निपटन।

आवास

- स्थान।
- बुनियादी सुविधाएं।
- हवादारी के प्रकार और स्तर।
- उत्तम प्रकाश व्यवस्था की अपेक्षाएं।
- प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था।

शोर

- शोर के कारण।
- सामुदायिक शोर के स्तर।
- शोर का प्रभाव।
- शोर पर नियंत्रण।

जल स्वास्थ्य महत्व के संधिपाद (आर्थोपौइस)

- मच्छर, मक्खी, मकमक्षिका, जूं, पिस्सू आदि।
- चूहे।
- इन संधिपादों के लिए नियंत्रण उपाय।

यूनिट-III पर्यावरणात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक संघटक

- एजेंसियों के स्तर और प्रकार: राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय, सरकारी, स्वैच्छिक और सामाजिक एजेंसियां।

स्वास्थ्य शिक्षा और अभिव्यक्ति कौशल

घण्टे 20

पाठ्यक्रम विवरण

यह पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किया गया है जिससे कि स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणा जानने और स्वास्थ्य शिक्षा के आधारिक सिद्धान्तों को समझने में छात्रों की मदद की जा सके ताकि रोगियों, समुदाय, स्वास्थ्य दल सदस्यों तथा अन्य के साथ प्रभावी रूप से बातचीत करने की क्षमता विकसित की जा सके।

सामान्य लक्ष्य

यह पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्रों को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ स्वास्थ्य शिक्षा, अभिव्यक्ति कौशलों, श्रव्य-दृश्य सामग्री तथा स्वास्थ्य शिक्षा एजेंसियों की अवधारणा का वर्णन करना।
- ✓ नियोजित तथा प्रासंगिक स्वास्थ्य शिक्षा के लिए अवसर अभिज्ञात करना और उनका प्रयोग करना।
- ✓ अन्य के साथ प्रभावी रूप से बातचीत करना।

पाठ्यक्रम सामग्री

यूनिट-I परिचय

- स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणा, परिभाषा, लक्ष्य और उद्देश्य।
- स्वास्थ्य व्यवहार के बदलाव/संशोधन की प्रक्रिया।
- अस्पताल और समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए अवसर।
- स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र।
- स्वास्थ्य शिक्षा के स्तर तथा दृष्टिकोण।
- स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धान्त।
- स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में परिचारिका की भूमिका।

यूनिट-II अभिव्यक्ति कौशल

- अभिव्यक्ति की परिभाषा।
- अभिव्यक्ति के प्रयोजन।
- अभिव्यक्ति की प्रक्रिया।
- अभिव्यक्ति की बाधाएं और सफल अभिव्यक्ति की स्थापना।

- अभिव्यक्ति के प्रकार।
- अभिव्यक्ति में प्रेक्षण और सुनने का महत्व और कला।

यूनिट-III स्वास्थ्य शिक्षा की विधियाँ और माध्यम

- स्वास्थ्य शिक्षा की विधियाँ।
- माध्यमों के प्रकार (ए.वी. सामग्री)।
- प्रत्येक के लाभ और सीमाएँ।
- सामान्य सामग्री तैयार करना और उसके लाभ।

यूनिट-IV स्वास्थ्य शिक्षा एजेंसियाँ

- राष्ट्रीय
- राज्य
- जिला
- स्थानीय

पोषण घण्टे 30

पाठ्यक्रम विवरण

यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे कि छात्रों को यह समझने में मदद मिल सके कि पोषण स्वास्थ्य का एक अविभाज्य हिस्सा है क्योंकि शरीर की बढ़तेरी, विकास और उसे बनाए रखने में पोषक तत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सामान्य लक्ष्य

यह पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्रों को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ पोषण और आहार-विज्ञान के सिद्धान्तों का और स्वस्थ तथा रोग की स्थिति में मानव शरीर के साथ इसके संबंध का वर्णन करना।
- ✓ स्वस्थ और रोग की स्थिति में सामान्य आहार का वर्णन करना।
- ✓ स्वास्थ्य के संवर्धन में तथा रोगी की देखभाल में इस ज्ञान का प्रयोग करना।
- ✓ आहार के चयन, तैयार करने और उसके संरक्षण के कौशलों का परिचय देना।

पाठ्यक्रम सामग्री

यूनिट-I परिचय

- बदलती अवधारणाएं-खाने की आदतें और रिवाज।
- स्वास्थ्य के साथ पोषण का संबंध।

यूनिट-II आहार का वर्गीकरण

ए. उत्पत्ति के अनुसार वर्गीकरण

- मांसाहार
- शाकाहार

बी. रासायनिक रचना तथा स्रोतों के अनुसार वर्गीकरण

- कार्बोहाइड्रेट
- प्रोटीन
- वसाएं
- खनिज

- विटामिन

- पानी

सी. प्रभावी कार्यों के अनुसार वर्गीकरण

- शरीर का निर्माण करने वाला आहार।

- ऊर्जा प्रदान करने वाला आहार।

- सुरक्षात्मक आहार।

डी. पोषक मान के अनुसार वर्गीकरण

- अनाज और मिल्लेड्स।

- दालें (फली, शिम्ब आदि)।

- सब्जियां।

- गिरीदार फल और तेलहन।

- फल।

- पशु आहार।

- वसाएं और तेल।

- शर्करा और गुड़।

- मसाले।

- विविध प्रकार का आहार।

यूनिट-III सामान्य आहार आवश्यकताएं तथा आहार के प्रत्येक घटक की कमी के कारण होने वाले रोग

- कैलारी

- खाद्य मदों का पोषक मान तथा प्रयोग में लाई जाने वाली उनकी मात्राएं।

- संतुलित आहार।

- सामान्य आहार आवश्यकताओं की गणना करने की विधि, आयु, लैंगिक स्थिति तथा कामकाज का प्रभाव।

- आहार के चयन और उसकी योजना को प्रभावित करने वाले तत्व।

- आहार के लिए बजट निर्माण।

- कम खर्चीला आहार।

- प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिजों तथा विटामिनों की कमी के कारण उत्पन्न रोग।

यूनिट-IV आहार तैयार करना, उसका संरक्षण और भण्डारण

- आहार बनाने के सिद्धान्त।
- आहार तैयार करने की विधियां तथा आहार और आहार के घटकों पर उनके प्रभाव, प्रत्येक के लाभ तथा सीमाएं।
- आहार के संरक्षण और भण्डारण के घरेलू तरीके।
- वाणिज्यिक तौर पर तैयार किया गया आहार और इसमें मिलावट।
- आहार के चयन, उसे तैयार करने और उसके भण्डारण में सावधानियां।

यूनिट-V आहार चिकित्सा का परिचय

- घटकों को बढ़ाकर या घटाकर, कैलोरी मान की दृष्टि से आहार को संशोधित करने की विधियां।
- आहार तथा रोगी।
- रोगी द्वारा आहार स्वीकार किए जाने में पर्यावरणात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक तत्व।
- खाना परोसना।
- असहाय रोगियों को खाना खिलाना।
- शिक्षण के लिए अवसर।

यूनिट-VI सामुदायिक पोषण

- सामुदायिक पोषण की अवधारणा।
- विशेष समूहों की पोषणिक जरूरतें: शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली महिलाएं, वृद्धजन आदि।
- पोषण शिक्षा: जरूरतें और विधियां।
- मांसाहार का अनुकल्प।
- एक असंतुलित आहार को सुधारने की विधियां।
- सामुदायिक पोषण कार्यक्रम।
- आहार स्वास्थ्य तथा आहार संबंधी विधियां।

यूनिट-VII सामान्य व्यंजन/प्रयोग

- पेय पदार्थ: चाय, काफी, जौ का पानी, फलों का रस, शेक्स, लस्सी।
- अंडे से तैयार व्यंजन: अंडे को तोड़कर पकाना, अंडे को उछल कर बनाना, आमलेट, गरम पानी में तलना।
- सूप: टमाटर, हड्डी, सब्जी (सब्जियां), जिगर आदि।
- हल्के आहार: गुअल, खिचड़ी, दलिया, कांजी, उबली हुई सब्जियां, सलाद, कस्टर्ड आदि (क्षेत्रीय पसन्द के अनुसार)।

अंग्रेजी (भाषा)**घण्टे 30****पाठ्यक्रम विवरण**

यह पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किया गया है कि बोली और लिखित अंग्रेजी भाषा को समझने में छात्रों की मदद की जा सके ताकि वे इस भाषा में प्रभावी रूप से बातचीत कर सकें।

सामान्य लक्ष्य

यह पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्रों को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ अंग्रेजी पढ़ना और सही ढंग से लिखना।
- ✓ अंग्रेजी भाषा में प्रभावी रूप से बातचीत करना।
- ✓ अंग्रेजी लिखने और बोलने में कौशलों का परिचय देना।

पाठ्यक्रम सामग्री**यूनिट-I व्याकरण**

- वाक्य
- विभिन्न शब्द-भेद संक्षेप में

यूनिट-II रचना

- वाक्यों का विश्लेषण, रूपान्तरण और संश्लेषण।
- वाक्यों का शुद्ध प्रयोग।
- पठन बोध-निर्धारित लघु उत्तरों का अभ्यास।

यूनिट-III लिखित रचना

- पेरोग्राफ लेखन
- कथा लेखन
- बोध
- सार-लेखन
- शब्दावली

यूनिट-IV शब्दावली

- बातचीत
- अभिव्यक्ति कौशल

चिकित्सीय शल्यचिकित्सीय परिचर्या-I

घण्टे 140

पाठ्यक्रम विवरण

यह पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किया गया है कि रोग और रोग की प्रक्रिया की अवधारणा को समझने में छात्रों की मदद की जा सके। छात्र विभिन्न चिकित्सीय शल्यक्रियात्मक विकारों और रोगों के बारे में जानकारी और समझ प्राप्त कर सकेंगे। वे इन रोगों से ग्रस्त रोगियों को गहन परिचर्यात्मक देखभाल प्रदान कर सकेंगे।

सामान्य लक्ष्य

यह पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्रों को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ चिकित्सा शल्यक्रियात्मक रोगों के कारणों, लक्षणों, उपचार और रोकथाम का वर्णन करना।
- ✓ वैज्ञानिक सिद्धान्तों का प्रयोग करते हुए परिचर्यात्मक तकनीकों और क्रियाविधियों को कार्यरूप देने के कौशलों का परिचय देना।
- ✓ परिचर्यात्मक प्रक्रिया पर चर्चा करना और चिकित्सा शल्यक्रियात्मक/रोगों से ग्रस्त रोगियों को परिचर्यात्मक देखभाल प्रदान करना।

पाठ्यक्रम सामग्री

यूनिट-I परिचय

- आधुनिक चिकित्सा और शल्यक्रिया की उत्पत्ति तथा रोगों और उनके कारणों के सिद्धान्तों का संक्षिप्त इतिहास।
- मानवीय अनुभव के रूप में रोग।
- परिचर्या प्रक्रिया और परिचर्यात्मक देखभाल योजना।

यूनिट-II परिचर्या मूल्यांकन

- स्वास्थ्य मूल्यांकन।
- शारीरिक परीक्षण।
- सामान्य नैदानिक जाँचें।

यूनिट-III रोग का विकारी-शरीरक्रियात्मक तंत्र

- शोथ।
- दाब अनुकूलन।

- चोट से बचाव।
- पोषणिक महत्व।

यूनिट-IV परिवर्तित प्रतिरक्षित अनुक्रिया

- सामान्य प्रतिरक्षा की समीक्षा (सूक्ष्मजीवविज्ञान की समीक्षा यूनिट-IV)।
- परिवर्तित प्रतिरक्षित अनुक्रिया, अतिसुयाहिता और एलर्जी।
- प्रतिरक्षा-चिकित्सा का परिचर्यात्मक प्रबन्ध।
- स्वक्षम रोग।
- परपोषी रोग के सन्दर्भ में निरोप।

यूनिट-V नैदानिक फार्माकालोजी

- पारिभाषिक शब्दावली।
- औषधियां और विधियां।
- बुनियादी नैदानिक फार्माकालोजी।
- औषधियों, कार्य, आनुषंगिक प्रभावों के स्रोत, दवाओं की खुराक।
- विभिन्न फार्माकालोजिकल निर्मितियां।
- रोगी को दवा खिलाना।
- दवाएं खिलाने के परिचर्यात्मक प्रभाव।

यूनिट-VI द्रव, विद्युत-अपघट्य और एसिड-बेस सन्तुलन के प्रबंध में परिवारिका की भूमिका

- शरीर का जल अंश।
- समस्थिति।
- द्रव और विद्युत-अपघट्य संचलन नियंत्रित करने का समीक्षा तंत्र।
- द्रव और विद्युत-अपघट्य का समीक्षा विनियमन।
- द्रव और विद्युत-अपघट्य असन्तुलन तथा उसका चिकित्सीय प्रबन्ध।

यूनिट-VII वेदना से पीड़ित रोगियों की देखभाल

- अवधारणा।
- मूल्यांकन।
- प्रकार, स्थिति।
- परिचर्यात्मक प्रबन्ध।
- वेदनाहर दवाएं।
- वेदना के प्रति चिकित्सीय दृष्टिकोण।

यूनिट-VIII आपरेशन थियेटर तकनीक भौतिक वातावरण

- आपरेशन थियेटर: कमरों, मेजों, ट्रालियों, लाइटों तथा अन्य उपकरणों की सफाई।
- आपरेशन-पूर्व धारण क्षेत्र।

थियेटर तकनीक

- मसल कर हाथ धोना।
- गाउन पहनना।
- दस्ताने पहनना।
- विभिन्न शल्यक्रियात्मक क्रियाविधियों के लिए रोगी को हिलाना-डुलाना।

थियेटर उपकरणों की तैयारी और आपूर्ति

- सफाई।
- पैकिंग।
- निर्जीवाणूकरण।
- सुइयां, टांके-प्रकार तथा उनके प्रयोग।
- थियेटर में रोगी की देखभाल में परिचारिका की भूमिका।

यूनिट-IX शल्यक्रिया से गुजरते हुए रोगी की देखभाल

- आपरेशन-पूर्व रोगी का मूल्यांकन: शारीरिक, मनोसामाजिक तथा शरीरक्रियातन्त्रीय पक्ष।
- आपरेशन-पूर्व रोगी की परिचर्यात्मक देखभाल।

आपरेशन के दौरान देखभाल

- शल्यक्रियात्मक दल।
- आपरेशन थियेटर में परिचारिका के कार्य।
- संवेदनाहरण: वर्गीकरण, संवेदनाहारी एजेंट तथा संवेदनाहरण में परिचारिका की भूमिका।

आपरेशन के बाद की देखभाल—तात्कालिक और नेमी

- रोगी को आपरेशन थियेटर से बाहर ले जाना।
- रिकवरी रूम में रोगी।
- वेदनाहरण के बाद होश में आना।
- आपरेशन के बाद परिचर्यात्मक देखभाल।
- आपरेशन के बाद के आदेशों का क्रियान्वयन।
- आपरेशन के बाद की जटिलताएं: प्रेक्षण, रोकथाम और देखभाल।

यूनिट-X दुर्बल श्वसन क्रिया तथा गैसीय-विनिमय से ग्रस्त रोगी की परिचर्यात्मक देखभाल

- श्वसन क्रियाओं का मूल्यांकन।
- दुर्बल श्वसन क्रिया वाले रोगी की देखभाल।
- श्वसन गहन देखभाल।
- ऊपरी श्वसन मार्ग के विकारों से ग्रस्त रोगियों की देखभाल।
- वक्ष और अधः श्वसन मार्ग के विकारों से ग्रस्त रोगियों की देखभाल।

यूनिट-XI पाचक और जठर-आन्त्र विकारों से ग्रस्त रोगियों की परिचर्यात्मक देखभाल

- जठर-आन्त्र क्रियाओं का मूल्यांकन।
- ऊपरी जठर-आन्त्र विकारों की देखभाल।
- जठर-आन्त्र नलिका-प्रवेशन और विशेष पोषणिक देखभाल।
- अधः जठर-आन्त्र विकारों से ग्रस्त रोगी की देखभाल।

यूनिट-XII चयापचयी और अन्तःस्रावी विकारों से ग्रस्त रोगियों की परिचर्यात्मक देखभाल

- सकृती और पैत्तिक क्रिया का मूल्यांकन।
- सकृती और पैत्तिक विकारों में देखभाल।
- अन्तःस्रावी क्रिया का मूल्यांकन।
- अन्तःस्रावी विकारों की देखभाल।

यूनिट-XIII वृक्क और मूत्रीय विकारों से ग्रस्त रोगियों की परिचर्यात्मक देखभाल

- वृक्क और मूत्रीय क्रियाओं का मूल्यांकन।
- मूत्रीय तथा वृक्क विकारों से ग्रस्त रोगियों की देखभाल।
- वृक्क पात और विलगन (डायलिसिस)।
- वृक्क प्रतिरोपण।

यूनिट-XIV तंत्रिका वैज्ञानिक विकारों से ग्रस्त रोगियों की परिचर्यात्मक देखभाल

- तंत्रिका वैज्ञानिक क्रिया का मूल्यांकन।
- तंत्रिका वैज्ञानिक दुष्क्रिया से ग्रस्त रोगी की देखभाल।
- तंत्रिका वैज्ञानिक विकारों से ग्रस्त रोगी की देखभाल।

यूनिट-XV संयोजी ऊतक के विकारों और कोलैजन विकारों से ग्रस्त रोगियों की परिचर्यात्मक देखभाल

- मूल्यांकन।
- संयोजी ऊतक और कोलैजन विकारों से ग्रस्त रोगियों की परिचर्यात्मक देखभाल।

यूनिट-XVI वृद्धों की परिचर्यात्मक देखभाल

- वृद्धों का मूल्यांकन।
- आयुवृद्धि की प्रक्रिया।
- कल्याण और स्व-देखभाल को बढ़ावा देने में सहायता।

- वृद्धों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं।

यूनिट-XVII आपातिक स्थिति देखभाल

- चिकित्सा शल्यक्रियात्मक आपातिक स्थितियां।
- आपातिक स्थितियों में परिचारिका की भूमिका।

चिकित्सा शल्यचिकित्सीय परिचर्या-II

घण्टे 120

पाठ्यक्रम विवरण

यह पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किया गया है कि रोगों तथा रोग की प्रक्रिया की अवधारणा को समझने में छात्रों की मदद की जा सके। छात्र विभिन्न चिकित्सा शल्यक्रियात्मक विशेषज्ञता विकारों और रोगों के बारे में जानकारी तथा समझ प्राप्त कर सकेंगे। वे इन रोगों से ग्रस्त रोगियों को गहन परिचर्यात्मक देखभाल प्रदान कर सकेंगे।

सामान्य लक्ष्य

यह पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्रों को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ चिकित्सा शल्यक्रियात्मक विशेषज्ञताओं के अधीन वर्गीकृत रोगों के कारणों, लक्षणों, संकेतों, उपचार और रोकथाम का वर्णन करना।
- ✓ वैज्ञानिक सिद्धान्तों का प्रयोग करते हुए परिचर्यात्मक तकनीकों और क्रियाविधियों को कार्यरूप देने के कौशलों का परिचय देना।
- ✓ परिचर्यात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए परिचर्यात्मक देखभाल योजना तैयार करना और इन रोगों से ग्रस्त रोगियों को देखभाल प्रदान करना।

पाठ्यक्रम सामग्री

यूनिट-I अर्बुद-विद्या

- असाधारण कोशिका वृद्धि से ग्रस्त रोगी की परिचर्यात्मक देखभाल।
- मूल्यांकन।
- समस्याएं और देखभाल।
- कैंसर का वर्गीकरण।
- पहचान, रोकथाम।
- उपचार प्रविधियां।

निम्न प्राप्त कर रहे रोगी की परिचर्यात्मक देखभाल

- रसायन चिकित्सा।
- विकिरण।
- रसायन चिकित्सा और विकिरण के बाद में होने वाले प्रभाव।
- समूल शल्यक्रिया कराने वाले रोगी की परिचर्यात्मक देखभाल।

- अस्थिमज्जा प्रतिरोपण और उसकी देखभाल।
- मरणासन्न रोगी की परिचर्यात्मक देखभाल।
- कैंसर के रोगियों का पुनर्वास।

यूनिट-II पुरुष जनन-मूत्रीय मार्ग के रोगों से ग्रस्त रोगियों की परिचर्यात्मक देखभाल

- जनन-मूत्रीय क्रिया का मूल्यांकन।
- पुरुष जनन-मूत्रीय मार्ग के विकार और उनकी देखभाल।

यूनिट-III स्तन के विकारों से ग्रस्त रोगियों की परिचर्यात्मक देखभाल

- मूल्यांकन।
- स्तन के विकार और स्तन कैंसर।
- स्तन कैंसर से मुक्ति पाने के लिए आपरेशन कराने वाले रोगी की देखभाल।

यूनिट-IV त्वचा तंत्र के रोगों और विकारों से ग्रस्त रोगियों की परिचर्यात्मक देखभाल

- त्वचा और उसकी क्रियाओं का मूल्यांकन।
- शोथ तथा गैर-शोथ विकार तथा रोग और उनकी देखभाल।
- जन्तुवाधाएं, संचारी तथा असंचारी रोग और उनकी देखभाल।
- त्वचा का कैंसर।
- विशेष त्वचावैज्ञानिक चिकित्सा।
- जलन और इसकी देखभाल।

यूनिट-V नेत्र विकारों और रोगों से ग्रस्त रोगियों की परिचर्यात्मक देखभाल

- नेत्रों की क्रियाओं का मूल्यांकन।
- नेत्रों के रोग और विकार तथा उनकी देखभाल।
- अन्धता और रोहों संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम की समीक्षा।

अस्पताल कोर्निया पुनःप्राप्ति

- शोक के समय परामर्श, अस्पताल में नेत्र संग्रहण।
- नेत्रदान के लिए अभिप्रेरण।
- नेत्रदान के लिए सहमति प्राप्त करना।
- मानव शरीरांग प्रतिरोपण विधेयक और नेत्र संग्रहण।
- भारत में नेत्र कोष व्यवस्था।

यूनिट-VI कान, नाक, गले के विकारों और रोगों से ग्रस्त रोगियों की परिचर्यात्मक देखभाल

- कान, नाक और गले की क्रिया का मूल्यांकन।
- कान, नाक और गले के विकार तथा रोग।
- कान, नाक और गले के विकारों तथा रोगों की देखभाल।

यूनिट-VII हृदवाहिका, परिसंचरणात्मक तथा रुधिर-वैज्ञानिक विकारों से ग्रस्त रोगियों की परिचर्यात्मक देखभाल

- हृदवाहिका क्रियाओं का मूल्यांकन।
- हृदवाहिका रोगों से ग्रस्त रोगियों की देखभाल।
- आईसीयू और सीसीयू में रोगियों की देखभाल।
- हृदवाहिका शल्यक्रिया वाले रोगियों की देखभाल।
- परिसंचरणात्मक और रुधिर-वैज्ञानिक विकारों तथा परिधीय परिसंचरण की समस्याओं का मूल्यांकन और देखभाल।
- रक्तदान करने वालों में फ्लेबोटमी क्रियाविधि।
- नमूना तथा रक्ताधान के लिए अनुरोध।
- रक्ताधान के लिए सुरक्षा जांचें और रिकार्ड।
- प्रतिकूल रक्ताधान अनुक्रिया और उसकी देखभाल।
- ब्लड बैंक का कार्यकरण-अस्पताल रक्ताधान समिति।
- रक्तदान करने की देखभाल, रक्तदान के बाद की देखभाल, रक्तदान करने वालों को परामर्श।
- रक्ताधानों के लिए आवश्यक जरूरतों की सामान-सूची।

यूनिट-VIII संचारी रोगों से ग्रस्त रोगियों की परिचर्यात्मक देखभाल

- मूल्यांकन।
- संक्रमण की समीक्षा, यह कैसे फैलता है और इसका नियंत्रण।
- प्रतिसीरा और टीकों की तैयारी, देखभाल और उन्हें लगाना।
- अलगाव-जानपदिकरोगविज्ञान और नियंत्रक उपायों की समीक्षा।
- विभिन्न संक्रामक रोगों की देखभाल।

निम्न द्वारा उत्पन्न रोग:

- विषाणु - खसरा, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, चेचक, कनफेड़, मस्तिष्कशोथ, संक्रमी हैपाटाइटिस, पोलियो, रेबीज, एड्स।

जीवाणु - रोहिणी, कुकुरखांसी, टेडानस, टाइफाइड, पेचिश,
जठरान्नशोथ, हैजा, मस्तिष्कावरणहर्निया,
मस्तिष्कावरणशोथ, क्षयरोग।

पशुजन्म रोग - कालाजार, ताऊन, आवर्ती ज्वर।

मच्छर - मलेरिया, फाइलेरिया, पीतज्वर, डेंगुज्वर।

यूनिट-IX यौन संचरित रोगों से ग्रस्त रोगियों की परिचर्यात्मक देखभाल

- मूल्यांकन।
- यौन स्वास्थ्य तथा स्वस्थवृत्त।
- सुजाक, सिफिलिस, रतिज कणिकागुल्म, शैंकराम, वंक्षण कणिकागुल्म तथा एड्स।

यूनिट-X पेशीकंकाली विकारों और रोगों से ग्रस्त रोगियों की परिचर्यात्मक देखभाल

- पेशीकंकाली क्रियाओं का मूल्यांकन।
- अस्थि, पेशी, उपास्थि, स्नायुओं के विकार और रोग तथा उनकी देखभाल।
- पुनर्वास, भौतिक चिकित्सा और व्यावसायिक चिकित्सा।

यूनिट-XI आपातिक स्थिति और आपदा परिचर्या

- प्राकृतिक विपत्तियां।
- मानव निर्मित आपदा।
- इस तरह की विपत्तियों से निपटने के लिए उपलब्ध सामुदायिक संसाधन।
- आपदा देखभाल में परिचारिका की भूमिका।

मानसिक स्वास्थ्य और मनोविकारी परिचर्या

घण्टे 70

पाठ्यक्रम विवरण

यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे कि मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक रोग, उसके कारणों, लक्षणों, रोकथाम, उपचार प्रविधियों तथा मानसिक रोगी की परिचर्यात्मक देखभाल की अवधारणा को समझने में छात्रों की मदद की जा सके।

सामान्य लक्ष्य

यह पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्रों को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रोग की अवधारणा का तथा मनोविकारी परिचर्या में उभरती प्रवृत्तियों का वर्णन करना।
- ✓ मानसिक रोग के कारणों और तत्वों, इसकी रोकथाम और नियंत्रण के बारे में समझाना।
- ✓ सामान्य मानवीय व्यवहार की तुलना में असामान्य मानवीय व्यवहार के लक्षणों और परिवर्तनात्मकताओं की पहचान करना।
- ✓ मानसिक रोगी को गहन परिचर्यात्मक देखभाल प्रदान करने के लिए वांछनीय अभिवृत्ति और कौशलों का परिचय देना।

पाठ्यक्रम सामग्री

यूनिट-I परिचय

- मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रोग का अर्थ।
- मनोविकारचिकित्सा में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा।
- मानसिक प्रक्रियाओं (अहम प्रक्रियाएं) की समीक्षा।
- व्यक्तित्व की समीक्षा और व्यक्तित्व के प्रकार।

यूनिट-II मनोविकारचिकित्सा का इतिहास

- मनोविकारचिकित्सा में योगदान देने वाले।
- मनोविकारी परिचर्या का इतिहास।
- मनोविकारी परिचर्या में प्रवृत्तियां।

यूनिट-III मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन

- मनोविकारी इतिवृत्त लेना।
- साक्षात्कार तकनीक और मानसिक स्थिति परीक्षण।

यूनिट-IV सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य

- अवधारणा, महत्व और क्षेत्र।
- मानसिक रोगी के प्रति अभिवृत्ति और गलतफहमियां।
- बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था तथा वृद्धावस्था के दौरान मानसिक रोग की रोकथाम (निवारक मनोविकारचिकित्सा)।
- सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं
- सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में परिचारिकाओं की भूमिका।

यूनिट-V मनोविकारी परिचर्यात्मक देखभाल

- मनोविकारी परिचर्या की परिभाषा।
- मनोविकारी परिचर्या के सिद्धान्त।
- परिचर्या प्रक्रिया।
- मनोविकारी परिचर्यात्मक देखभाल प्रदान करने में परिचारिकाओं की भूमिका।
- चिकित्सीय परिचारिका—रोगी संबंध।
- अभिव्यक्ति कौशल।

यूनिट-VI मानसिक विकार और परिचर्यात्मक हस्तक्षेपणीय उपाय

- निदानशास्त्र—विभिन्न निदानशास्त्रीय सिद्धान्त (आनुवंशिकी, जैव-रासायनिक, मनोवैज्ञानिक आदि)।
- मानसिक विकारों का वर्गीकरण।
- जैव मानसिक विकार—तीक्ष्ण मस्तिष्क संलक्षण।
- चिरकालिक मस्तिष्क संलक्षण।

कार्यात्मक मानसिक विकार

- व्याप्ति, निदानशास्त्र, संकेत और लक्षण, पूर्वानुमान, चिकित्सीय और परिचर्यात्मक देखभाल।
- विखंडित मनस्कता विकार।
- भावदशा (आवेशी) विकार।
- उन्मत्त अवसादात्मक मनोविक्षिप्ति।
- चिन्तापरक स्थितियां।

निम्न की परिभाषा, निदानशास्त्र, संकेत, लक्षण, चिकित्सीय तथा परिचर्यात्मक देखभाल

- भीतिपरक विकार, मनोग्रास्तिपूर्ण बाध्यकर विकार, अवसादात्मक विक्षिप्ति, रूपान्तरण विकार, वियोजक अनुक्रिया, रोगक्षम, मनःकायिक विकार, शराब, नशीली दवाएं तथा अन्य मनोसक्रिय पदार्थों का दुरुपयोग।

यूनिट-VII जैव-मनोसामाजिक चिकित्साएं

मनो-फार्माकालोजी

- दवाओं की परिभाषा, वर्गीकरण, मनोविक्षिप्ति-विरोधी, अवसाद-विरोधी, उन्मत्त-विरोधी, चिन्ता-विरोधी एजेंट।
- मनो-फार्माकालोजी में परिचारिकाओं की भूमिका।

मनोसामाजिक चिकित्साएं

- मनोसामाजिक चिकित्साओं की परिभाषाएं।
- चिकित्साओं के प्रकार: वैयक्तिक और सामूहिक चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा।
- इन चिकित्साओं में परिचारिकाओं की भूमिका।

कायिक चिकित्सा

- विद्युत-आक्षेपी चिकित्सा (ईसीटी) का इतिहास, तकनीक, संकेत, प्रतिकूल संकेत।
- विद्युत आक्षेपी चिकित्सा (ईसीटी) से पूर्व, के दौरान, के बाद परिचारिकाओं की भूमिका।

यूनिट-VIII न्याय संबंधी मनोविकारचिकित्सा/कानूनी पहलू

- मानसिक रोगियों की देखभाल में कानूनी दायित्व।
- मानसिक अस्पताल में दाखिले तथा छुट्टी किए जाने की क्रियाविधि, गैरहाजिरी के लिए छुट्टी।
- भारतीय पागलपन अधिनियम 1912
- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987
- स्वापक दवा तथा साइकोट्रॉपिक अधिनियम 1985

यूनिट-IX मनोविकारी आपातक स्थितियां और संकट के समय हस्तक्षेप

- अतिक्रियाशील रोगी
- विनाशकारी रोगी
- आत्मघाती रोगी

परिचर्या में कंप्यूटरों का प्रयोग

घंटे 30

पाठ्यक्रम विवरण

यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है ताकि छात्रों को कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान प्राप्त करने में मदद की जा सके जिससे कि वे विभिन्न स्थितियों में प्रभावी परिचर्यात्मक देखभाल प्रदान करने में उसका उपयोग कर सकें।

सामान्य लक्ष्य

यह पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्रों को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ बुनियादी डिस्क प्रचालन प्रणाली का वर्णन करना।
- ✓ डाटा संसाधित करने के लिए कंप्यूटर प्रयोग।
- ✓ शब्द संसाधित और ग्राफिक्स के लिए कंप्यूटर प्रयोग।
- ✓ रोगी देखभाल प्रणाली में कंप्यूटर प्रयोग।
- ✓ ई-मेल और इंटरनेट का प्रयोग।

पाठ्यक्रम सामग्री

- यूनिट-I कंप्यूटरों और डिस्क प्रचालन प्रणाली का परिचय।
- यूनिट-II शब्द संसाधित करने का परिचय।
- यूनिट-III डाटा बेस का परिचय।
- यूनिट-IV ग्राफिक और सांख्यिकीय पैकेजों का प्रयोग।
- यूनिट-V विंडोज अनुप्रयोग, वर्ड, एक्सेल, पावर प्वाइंट, मल्टीमीडिया।
- यूनिट-VI इंटरनेट का परिचय और इलेक्ट्रॉनिक मेल का प्रयोग।
- यूनिट-VII कंप्यूटर सहायताप्राप्त शिक्षण और परीक्षण।

प्रसूति-विद्या और स्त्रीरोगवैज्ञानिक परिचर्या

प्रसूति-विद्या: घंटे 100

स्त्रीरोगविज्ञान: घंटे 20

पाठ्यक्रम विवरण

यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है कि गर्भावस्था, प्रसव तथा प्रसूतकाल के दौरान महिलाओं की स्वास्थ्य जरूरतों की जानकारी प्राप्त करने तथा उनकी पूर्ति करने के निमित्त कौशल अर्जित करने में छात्रों की मदद की जा सके। छात्र विभिन्न स्त्रीरोगवैज्ञानिक विकारों और रोगों की पहचान कर सकेंगे और इन विकारों तथा रोगों से ग्रस्त महिलाओं को परिचर्यात्मक देखभाल प्रदान करने के कौशल अर्जित कर सकेंगे।

सामान्य लक्ष्य

यह पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्रों को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ गर्भावस्था, प्रसव और प्रसूतकाल में महिलाओं की स्वास्थ्य जरूरतों का वर्णन करना।
- ✓ सामान्य गर्भावस्था से विचलन (विचलनों) की पहचान करना और उपयुक्त कार्रवाई करना।
- ✓ माता को और साथ ही नवजात शिशु को प्रसव-पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसवोपरान्त देखभाल प्रदान करने में कौशलों का परिचय देना।
- ✓ विभिन्न स्त्रीरोगवैज्ञानिक समस्याओं को सूचीबद्ध करना और इन विकारों तथा रोगों से ग्रस्त महिलाओं को परिचर्यात्मक देखभाल प्रदान करने में कौशलों का परिचय देना।

पाठ्यक्रम सामग्री

यूनिट-I परिचय

- परिभाषा: प्रसूति-विद्या, प्रासविक परिचर्या
- क्षेत्र
- ऐतिहासिक समीक्षा
- भारत में प्रसूति सेवाओं का विकास

यूनिट-II जनन तंत्र

- पुरुषों और महिलाओं के अंगों के जनन-मूत्र तंत्र की समीक्षा, बनावट, शरीरक्रियाविज्ञान।

- आर्तवचक्र
- प्रजनन के भीतरी और बाहरी अंग।
- महिला श्रोणि: बनावट, व्यास और प्रकार।

यूनिट-III भ्रूण विज्ञान तथा भ्रूण विकास

- डिम्ब, शुक्राणु, परिपक्वता, निषेचन तथा आरोपण।
- निषेचित डिम्ब का विकास, मोरुला, बीजपुटी, भ्रूण।
- अपरा का विकास: पूर्ण अवधि की अपरा की बनावट, क्रियाएं और असमान्यताएं, शरीररचना संबंधी भिन्नताएं।
- भ्रूण कोश, कलाओं, उत्त्व (ऐम्नीयान) तथा जरायु (कोरियान) का निर्माण और उनके कार्य।
- गर्भोदक का निर्माण, इसके कार्य तथा असमान्यताएं।
- नाल का विकास: बनावट, कार्य तथा असमान्यताएं।
- भ्रूण खोपड़ी: व्यास, फ्रंट ऐनीलीज, सीवन तथा उनका महत्व।
- भ्रूण परिसंचरण।

यूनिट-IV गर्भवती महिलाओं की परिचर्यात्मक देखभाल

- प्रजनन स्वास्थ्य।
- जीनी परामर्श।
- गर्भावस्था में शरीरक्रियावैज्ञानिक बदलाव।
- गर्भावस्था का निदान: इतिहास, संकेत और लक्षण तथा जांचें।
- हार्मोनों का प्रभाव।
- प्रसव-पूर्व देखभाल: लक्ष्य, इतिवृत्त लेना, प्रसव की संभावित तारीख की गणना, नैमी जांचें।
- स्वास्थ्य शिक्षा: स्तन देखभाल, गर्भावस्था में आहार, प्रसव-पूर्व व्यायाम।
- अस्पताल/घर में प्रसव के लिए तैयारी।
- प्रतिरक्षीकरण।
- गर्भावस्था के छिटपुट विकार और उनकी देखभाल।

यूनिट-V प्रसव-पीड़ा के दौरान महिलाओं की परिचर्यात्मक देखभाल

- परिभाषा, अवस्था और अवधि।
- प्रसव-पीड़ा प्रारम्भ होने के कारण।

- वास्तविक और आभासी प्रसव-पीड़ा।

ए. प्रसव-पीड़ा की पहली अवस्था

- प्रसव-पीड़ा प्रारम्भ होने के संकेत।
- प्रसव-पीड़ा की पहली अवस्था के दौरान शरीरक्रिया वैज्ञानिक बदलाव।
- देखभाल-प्रसव कक्ष तैयार करना।
- प्रसव-पीड़ा के दौर से गुजर रही महिलाओं को तैयार करना: शारीरिक और मनोवैज्ञानिक।
- सामान्य प्रसव के लिए उपकरण।
- देखभाल: शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, माता और भ्रूण की स्थिति पर निगाह रखना।
- योनिक जांच: संकेत, पदार्थ, तकनीक।

बी. प्रसव-पीड़ा की दूसरी अवस्था

- दूसरी अवस्था के संकेत।
- प्रसव-पीड़ा का तंत्र।
- माता और भ्रूण का मानीटरन।
- शारीरिक और मनोवैज्ञानिक देखभाल।
- सामान्य प्रसव कराने की क्रियाविधि।
- शरीर को फटने से रोकना।
- भगच्छेदन (एपिसियोटमी), टांके लगाना तथा देखभाल।

सी. प्रसवपीड़ा की तीसरी अवस्था

- संकेत, शरीरक्रियावैज्ञानिक बदलाव।
- देखभाल: तात्कालिक शिशु देखभाल, अपरा को निष्कासित करने का तकनीक, माता की स्थिति पर निगाह रखना।
- अपरा तथा इसकी कलाओं की जांच, रक्त की हानि।
- तात्कालिक प्रसवोत्तर देखभाल/प्रसव-पीड़ा की चौथी अवस्था।

डी. घर में प्रसव कराना

यूनिट-VI जन्म के समय शिशु की परिव्यात्मिक देखभाल

- मूल्यांकन
- नवजात शिशु के शरीरक्रियाविज्ञान की समीक्षा।

- अपगार गणन, दोषों के लिए जांच (सिर से पैर तक)।
- शिशु को दूध पिलाना: स्तनपान कराना, कृत्रिम तरीके से दूध पिलाना।
- त्वचा, आंखों, रज्जु (कौड़ी), नितम्बों की देखभाल।
- नवजात शिशु का मनोविज्ञान और बोध।
- नवजात शिशु में छोटे-मोटे विकार: प्रसव चिन्ह, विस्फोट, त्वचा संक्रमण, दुखते नितम्ब, आंखों का संक्रमण।
- नवजात को पीलिया।
- बड़े विकार: जन्म श्वासावरोध, पुनरुज्जीवन उपाय, रक्तसंलायी रोग (आरएच तत्व)।
- संक्रमण और प्रसव क्षतियां।

यूनिट-VII प्रसूतकाल के दौरान माता की परिचर्यात्मक देखभाल

- देखभाल की परिभाषा, लक्ष्य।
- तात्कालिक प्रसवोत्तर देखभाल (प्रसव-पीड़ा) की चौथी अवस्था के दौरान देखभाल।
- प्रसूतकाल के दौरान शरीरक्रियावैज्ञानिक बदलाव।
- देखभाल के मनोसामाजिक पक्ष।
- प्रसूतकाल के दौरान आहार।
- स्तन्य स्रवण की शुरुआत और स्तन देखभाल।
- शरीर की देखभाल।
- प्रसवोत्तर व्यायाम।
- प्रसवोत्तर जांच, अनुवर्ती कार्रवाई, परिवार कल्याण।
- छोटीमोटी बीमारियां और उनकी देखभाल।

यूनिट-VIII गर्भावस्था की जटिलताएं और उनकी देखभाल

- गर्भावस्था के शुरु में रक्तस्राव।
- गर्भावस्था के दौरान बाद में रक्तस्राव।
- गर्भावस्था प्रेरित अतिरक्तदाब, प्राक्गर्भाक्षेपक (प्रीएक्लेम्पसिया), गर्भाक्षेपक (एक्लेम्पसिया)।
- अतिउल्बोदकता, अल्पउल्बोदकता।
- हाइडेटिडरूपी मोल
- श्रोणि शोथ रोग
- अन्तर्गर्भाशय वृद्धिमन्दता, अन्तर्गर्भाशय मृत्यु।

- प्रसव की निर्धारित तारीख बीत जाना।

यूनिट-IX उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था और उसकी देखभाल

- अवधारणा, तत्व।
- अरक्तता, पीलिया, वाइरस संक्रमण।
- मूत्र मार्ग संक्रमण, हृदयरोग, मधुमेह, अस्थिमृदुता, यौन संचारित रोग, एड्स।
- किशोरावस्था में गर्भधारण, बड़ी आयु की प्रथमगर्भा, बहुप्रसवा।
- बहुगर्भ।

यूनिट-X उच्च जोखिम वाला प्रसव और उसकी देखभाल

- कुस्थितियां, कुप्रस्तुतियां: प्रसव के समय सिर पीछे की तरफ होना, मुख, माथा, कंधा तथा नालपृष्ठ प्रस्तुति।
- संकुचित श्रोणि: परिभाषा, कारण, निदान, देखभाल तथा प्रसव में तकलीफ।
- असमान्य गर्भाशय अनुक्रिया: अल्पतनाव तथा अतितनाव अनुक्रिया, बैन्डल वलय, संकुचन वलय, सहसा प्रसव।
- गर्भाशय ग्रीवा कष्ट प्रसव।
- कलाओं का शीघ्र विदारण, दीर्घ प्रसव, प्रसव का प्रेरण।
- अवरोद्ध प्रसव, गर्भाशय का विदारण।
- प्रासविक आपातिक स्थितियां: रज्जु प्रस्तुति, रज्जु भ्रंश, ऐमिनियोटिक तरल अन्तःशल्यता प्रासविक शॉक।
- तीसरी अवस्था की जटिलताएं: प्रसवोत्तर रक्तस्राव, शक्तिहीन गर्भाशय, अनिर्गत अपरा तथा कलाएं, गर्भाशय व्युत्क्रमण।

यूनिट-XI प्रसूतकाल की जटिलताएं और उनकी देखभाल

- प्रसूतज्वर, प्रसवोत्तर पूतिता, घनास-शिराशोथ, अन्तःशल्यता, प्रसूति-मनोविक्षिप्ति।
- स्तनशोथ, स्तन फोड़ा।

यूनिट-XII प्रासविक आपरेशन

- अपरा को हाथ से निकालना।
- गर्भवर्तन: आभ्यन्तर, बाह्य।
- संदंश प्रसव
- निर्वात निष्कर्षण
- सिजेरियन छेदन

- गर्भ का चिकित्सीय समापन।
- लैप्रोस्कोपिक निर्जीवाणूकरण।
- भ्रूणच्छेदन

यूनिट-XIII प्रसव में प्रयुक्त दवाएं

यूनिट-XIV प्रसूति-विद्या तथा स्त्रीरोगवैज्ञानिक परिचर्या से संबंधित नैतिक और विधिक पक्ष नैदानिक अनुभव

इस प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक छात्र निम्न कार्य करेगा:

1. तीस प्रसव-पूर्व जांचें करेगा।
2. स्वयं प्रसव कराने से पहले पन्द्रह प्रसव होते हुए देखेगा।
3. पांच योनिक परीक्षण करेगा।
4. बीस प्रसव कराएगा।
5. पांच भ्रूणच्छेदन और सीवन करेगा, पहले दर्जे के पांच चीरे लगाएगा।
6. बिस्तर में पड़ी तीस महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रसवोत्तर देखभाल प्रदान करना।
7. प्रसव-पूर्व तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए दस स्वास्थ्य शिक्षण आयोजित करेगा।
8. पांच अन्तर्गर्भाशय युक्तियों का निवेशन करेगा।

स्त्रीरोगवैज्ञानिक परिचर्या घण्टे 20

पाठ्यक्रम सामग्री

यूनिट-I परिचय

- स्त्रीरोगवैज्ञानिक परिचर्या की परिभाषा
- लैंगिकता।
- स्त्रीरोगवैज्ञानिक इतिवृत्त लेना, जांच और अन्वेषण।

यूनिट-II यौवनारम्भ

- महिलाओं में जननांगों की परिभाषा, विकास।
- आर्तव चक्र।
- आर्तव के विकार: अनार्तव, कृच्छ्रार्तव, प्रच्छन्नार्तव।

यूनिट-III प्रजननशक्ति तथा वन्यता

- परिभाषा, पुरुषों और महिलाओं—दोनों में कारण, जांच और देखभाल।

यूनिट-IV श्रोणि संक्रमण

- भग: भगशोथ, बार्थोलिन ग्रंथि शोथ।
- योनि: योनिशोथ, ट्राइकोमोनास, वैजाइनैलिस, मोनीलियता।
- गर्भाशय पेशीशोथ, डिम्बवाहिनीशोथ, डिम्बग्रन्थिशोथ, श्रोणि फोड़ा।
- चिरकालिक संक्रमण, गर्भाशयग्रीव अपरदन।

यूनिट-V गर्भाशय विस्थापन और अवरोहण

- पश्चनति, पश्चकुंचन।
- गर्भाशय का अवरोहण: पहले दर्जे का, दूसरे दर्जे का, गर्भाशयपूर्ण भ्रंश।

यूनिट-VI यौन संचरित रोग और उनकी रोकथाम

- सिफिलिस, सुजाक, वार्ट।
- एड्स/एचआईवी

यूनिट-VII स्तन के विकार

- स्तनशोथ।
- स्तन फोड़ा।
- अर्बुद।
- दुर्दमता।

यूनिट-VIII जननांगों के सुदम्य और दुर्दम्य अर्बुद

- गर्भाशय पालीपस, गर्भाशय तन्तुपेशी अर्बुद।
- कैंसर: गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय।

- डिम्बग्रंथि पुटी: सुदम्य, दुर्दम्य।
- कैसर: रसायन चिकित्सा, रेडियो चिकित्सा।
- प्रशामक देखभाल।

सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या-II

घण्टे 100

पाठ्यक्रम विवरण

यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्यात्मक सेवाओं के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त करने में छात्रों की मदद की जाए। यह पाठ्यक्रम पूरा कर लेने के बाद छात्र शहरी और ग्रामीण—दोनों क्षेत्रों में विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य स्थितियों में प्रथम स्तर पर काम कर सकेंगे।

सामान्य लक्ष्य

यह पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्रों को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ भारत में स्वास्थ्य प्रणाली और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का वर्णन करना।
- ✓ प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और विशेषज्ञतापूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं चिन्हित करना।
- ✓ स्वास्थ्य दल की अवधारणा स्पष्ट करना और स्वास्थ्य देखभाल स्थितियों के विभिन्न स्तरों पर परिचारिका की भूमिका का वर्णन करना।
- ✓ जानपदवैज्ञानिक अवधारणा और परिवार कल्याण कार्यक्रम का वर्णन करना।
- ✓ समुदाय को गर्भ नियंत्रक विधियों की बाबत समझाना और उनके प्रयोग के लिए प्रेरित करना।
- ✓ स्वास्थ्य सांख्यिकी का महत्व बताना।
- ✓ सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्यात्मक सेवाओं के लिए जरूरी रिकार्ड और रिपोर्टें बनाए रखना।
- ✓ सभी सामुदायिक स्वास्थ्य स्थितियों में प्रभावी परिचर्यात्मक देखभाल प्रदान करने में कौशलों का परिचय देना।

पाठ्यक्रम सामग्री

यूनिट-I भारत में स्वास्थ्य प्रणाली (संगठनात्मक ढांचा)

- केन्द्रीय स्तर।
- राज्य स्तर।
- जिला स्तर।
- ब्लाक और स्थानीय स्तर।

यूनिट-II भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं

- स्वास्थ्य देखभाल अवधारणा और प्रवृत्तियां।
- स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति प्रणाली।
- सरकारी क्षेत्र: ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, स्वास्थ्य बीमा योजना अन्य एजेंसियां (रक्षा, रेलवे आदि)।
- स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसियां।
- चिकित्सा की स्वदेशी पद्धति।
- स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में परिचारिका की भूमिका।

यूनिट-III भारत में स्वास्थ्य आयोजना

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोजना।
- पंचवर्षीय योजनाएं।
- स्वास्थ्य समितियां और रिपोर्टें।

यूनिट-IV विशेषज्ञतापूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं और परिचारिका की भूमिका

- आरसीएच (प्रजनन स्वास्थ्य और बाल देखभाल)।
- स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं।
- औद्योगिक परिचर्या।
- जराचिकित्सा परिचर्या।
- विकलांगों की देखभाल: शारीरिक दृष्टि से विकलांग और मानसिक मन्दता से ग्रस्त व्यक्ति।
- पुनर्वास परिचर्या।

यूनिट-V राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में परिचारिका की भूमिका

- भारत में प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं।
- राष्ट्रीय नियंत्रण और विकास कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में परिचारिका की भूमिका।

यूनिट-VI जनपदविज्ञान और परिवार कल्याण जनपद विज्ञान

- अवधारणा।
- भारत में प्रवृत्तियां तथा इसके प्रभाव।

- जननशक्ति और बन्ध्यता की अवधारणा।

- छोटा परिवार मानदण्ड।

परिवार कल्याण

- अवधारणा।

- महत्व।

- उद्देश्य तथा लक्ष्य।

- परिवार नियोजन विधियाँ।

- परिवार कल्याण नीति।

- राष्ट्रीय कार्यक्रम।

- परिवार कल्याण कार्यक्रमों में परिचारिका की भूमिका।

यूनिट-VII स्वास्थ्य दल

- अवधारणा

- गठन

- कार्य

विभिन्न स्तरों पर परिचर्या कार्मिकों की भूमिका

- बहुदेशीय स्वास्थ्य कार्मिक: पुरुष और महिला।

- महिला स्वास्थ्यचर।

- जन स्वास्थ्य परिचारिका।

- जन स्वास्थ्य परिचारिका पर्यवेक्षक।

- जिला जन स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी।

यूनिट-VIII महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आंकड़ें

- अवधारणा।

- लाभ।

- स्रोत।

- महत्वपूर्ण दरें और सूचक।

- महत्वपूर्ण स्वास्थ्य रिकार्ड और उनकी उपयोगिता।

बाल चिकित्सीय परिचर्या घण्टे 70

पाठ्यक्रम विवरण

यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे कि बाल स्वास्थ्य की अवधारणा, बाल देखभाल में प्रवृत्तियों और बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं की समझ विकसित करने में छात्रों की मदद की जा सके। इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने पर छात्र स्वास्थ्य और बीमारी की स्थिति में बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।

सामान्य लक्ष्य

यह पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्रों को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ बाल स्वास्थ्य की अवधारणा, बाल देखभाल के आधारिक सिद्धान्त और बाल चिकित्सा परिचर्या की बाबत समझाना।
- ✓ बच्चों की सामान्य बढ़ोतरी और विकास का वर्णन करना जिससे कि सामान्य स्वास्थ्य से विचलन (विचलनों) की पहचान की जा सके।
- ✓ बीमार और साथ ही रोगी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में कौशलों का परिचय देना।

पाठ्यक्रम सामग्री

यूनिट-I परिचय

- बाल स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा।
- बाल चिकित्सा परिचर्या में प्रवृत्तियां।
- बाल देखभाल में बाल चिकित्सा परिचारिका की भूमिका।
- भारत में बाल देखभाल।
- उभरती चुनौतियां, बाल चिकित्सा परिचर्या से संबंधित परिचर्या प्रक्रिया।
- निवारक बाल चिकित्सा की अवधारणा।
- महत्वपूर्ण आंकड़े।

यूनिट-II नवजात शिशु

ए. नवजात शिशु की विशेषताएं और नवजात शिशु की शरीरक्रियात्मक स्थिति

- सिर से पैर तक (शारीरिक मूल्यांकन) मूल्यांकन, तन्त्रिका वैज्ञानिक मूल्यांकन।

- सामान्य/स्वस्थ नवजात शिशु की गृह देखभाल सहित परिचर्यात्मक देखभाल।
- स्तनपान कराना-बाल अनुकूल अस्पताल पहल की अवधारणा।

बी. सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं तथा उनकी चिकित्सीय और परिचर्यात्मक देखभाल

- अतिबिलरुबिनरक्तता, रक्तसंलायी विकार, नवजात अल्पग्लूकोजरक्तता पूतिता, मुखी द्रव, इम्पेक्टियो, त्वक्विक्रमा टाक्सिकम, अल्पतप्तता, नवजात आक्षेप।
- प्रसव क्षति: पेशियों और परिधीय स्नायुओं को क्षतियां, अस्थियों को क्षति, कोमल ऊतक क्षति और तंत्रिका तंत्र।

सी. उच्च जोखिम वाले नवजात शिशु

- परिभाषा: तारीख से पूर्व, जन्म के समय न्यून भार।
- समय पूर्व, समय के बाद तथा जन्म के समय न्यून भार वाले शिशुओं की सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं तथा उनकी परिचर्यात्मक देखभाल।
- एचआईवी पाजीटिव माता, मधुमेह से पीड़ित माता का उच्च जोखिम वाला नवजात शिशु, उसकी चिकित्सीय और परिचर्यात्मक देखभाल।

यूनिट-III स्वस्थ बच्चा

- बढ़तेरी और विकास: परिभाषा, सिद्धान्त, बढ़तेरी और विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, बढ़तेरी और विकास के मूल्यांकन के तकनीक, बढ़तेरी और विकास के बारे में सीखने का महत्व।

शिशु

- शैशवावस्था के दौरान बढ़तेरी और विकास।

शैशवावस्था के दौरान स्वास्थ्य वृद्धि

- पोषण संबंधी परामर्श और मां का दूध छुड़ाना, प्रतिरक्षीकरण।
- दुर्घटनाओं, खेल, खिलौनों से रोकथाम सहित सुरक्षा और हिफाजत।

बहुत छोटे बच्चा

- बहुत छोटे बच्चे की बढ़तेरी और विकास।
- बहुत छोटे बच्चे की आयु के दौरान स्वास्थ्य बढ़तेरी, पोषण, परामर्श, टायलेट प्रशिक्षण, प्रतिरक्षण, दुर्घटनाओं से सुरक्षा और रोकथाम, बहुत छोटे बच्चे की देखभाल, खेलकूद और खिलौनों के बारे में उसके माता-पिता का मार्गदर्शन।

स्कूल-पूर्व बच्चे

- स्कूल-पूर्व वर्षों के दौरान बढ़तेरी और विकास।

- स्कूल-पूर्व वर्षों के दौरान स्वास्थ्य वृद्धि, पोषणिक मार्गदर्शन, सुरक्षा और हिफाजत, दिवा देखभाल केन्द्र/नर्सरी स्कूल, खेलकूद, बच्चे की यौन शिक्षा में माता-पिता की भूमिका।

स्कूल आयु का बच्चा

- स्कूल आयु के वर्षों के दौरान शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक उन्नति।
- स्कूल वर्षों के दौरान स्वास्थ्य वृद्धि, पोषणिक मार्गदर्शन, नींद और आराम, शारीरिक व्यायाम तथा क्रियाकलाप, दन्त स्वास्थ्य, यौन शिक्षा, खेलकूद, प्रजनन बाल स्वास्थ्य में माता-पिता की भूमिका।

किशोर

- शारीरिक परिवर्तन, शरीरक्रियात्मक और प्रजनन बदलाव, यौवनारम्भ के प्रति किशोरों की अनुक्रिया।
- किशोरावस्था के दौरान स्वास्थ्य वृद्धि।
- पोषणिक मार्गदर्शन, वैयक्तिक देखभाल, प्रजनन स्वास्थ्य/यौन शिक्षा, किशोरों की स्वास्थ्य वृद्धि में माता-पिता की भूमिका।

यूनिट-IV रोगी बच्चा

- अस्पताल में उपचार के प्रति बच्चे की प्रतिक्रिया।
- अस्पताल में उपचार का बच्चे के परिवार पर प्रभाव।
- अस्पताल में उपचार और बीमारी के दबाव से निपटने में बच्चे और उसके परिवार की सहायता करने में परिचारिका की भूमिका।

रोगी बच्चे की परिचर्यात्मक देखभाल में परिचर्यात्मक हस्तक्षेप और अनुकूलन

- परीक्षण, बाल चिकित्सा तकनीकों में अपनाए जाने वाले सुरक्षा के सिद्धान्त।
- नैदानिक परीक्षणों, नमूनों के संग्रहण के लिए बच्चे को तैयार करना।
- मुखीय और माता-पिता द्वारा खिलाई जाने वाली दवाओं की गणना और उनका प्रयोग।
- आहार संबंधी क्रियाविधियां: फार्मूला निर्माण, गैवेज, जठरछिद्रीकरण के समय आहार।
- निष्कासन से संबंधित क्रियाविधियां: एनीमा और बृहदान्त्रछिद्रीकरण धावन।
- परिचर्यात्मक हस्तक्षेप के रूप में खेलकूद का प्रयोग।
- इन्व्यूबेटर में बच्चे की देखभाल।
- आक्सीजन सांद्रण देना और उसका विश्लेषण।

- शल्यक्रियात्मक मरहम पट्टी।
- भाप टेंट अभिश्वसन।
- निश्चल किया गया बच्चा।
- फोड़े चिकित्सा।

यूनिट-V बाल्यावस्था के दौरान व्यवहारपरक विकार और सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं, उनकी रोकथाम, चिकित्सीय और परिचर्यात्मक देखभाल

शैशवावस्था

- पोषणिक गड़बड़ियां, एलर्जी, त्वक्शोथ, उल्टी आना, अतिसार, फलने-फूलने में असफलता, आहार का विरोध, उदरशूल, चिन्ता।

प्रारंभिक बाल्यावस्था

- संचारी रोग, विषाक्तता, टॉसिल, कर्णशोथ, मीडिया, मूत्रमार्ग संक्रमण, अतिसार, बाल दुरुपयोग, सांस रोकने की घड़ियां, रात को पेशाब करना, अंगूठा चूसना, नाखून कुतरना, स्वभाव की बदमिजाजी, हस्तमैथुन।

मध्य बाल्यावस्था

- कृमि उत्पीड़न, सामान्य त्वचा संक्रमण, पशुओं और कीड़ों द्वारा काटना, हकलाना, समाज विरोधी व्यवहार, असंयतमूत्रता।

बाद की बाल्यावस्था

- यौवनारम्भ संबंधी विकास की समस्याएं: काल-पूर्व यौवनारम्भ, लम्बा कद, पुंस्तनवृद्धि, मुंहासे, अनार्तव, कृच्छार्तव, यौन संचरित रोग, दुर्घटनाएं, खेलकूद, खेलकूद के कारण होने वाली क्षतियां, किशोर अपराध, अरुचि, अधैर्य, मोटापा।

यूनिट-VI जन्मजात विकारों/कुरचनाओं के साथ जन्मे बच्चे

निदानशास्त्र, चिन्ह, लक्षण, जटिलताएं, चिकित्सीय, शल्यक्रियात्मक और उनकी परिचर्यात्मक देखभाल:

- केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र की कुरचनाएं, कपाल, विरूपताएं, अयुक्त मेरुदंड के दोष, मस्तिष्कावरणहर्निया, जलशीर्ष, प्रमस्तिष्क घात, तंत्रिका नलिका का बंद होना।
- कंकाल दोष-खंडोष्ठ तथा तालु।
- जठर-आंत्र मार्ग के दोष-ग्रासनली अछिद्रिता तथा डिस्ट्यूला, एनोरेक्टल, विरूपताएं, हर्निया, सहज अतिवृद्धि जठर निर्गम संकीर्णता।

- जननमूत्र मार्ग के दोष--अधोमूत्रमार्गता, एपिकपैडिऐसिस, मूत्राशय का विवर्तन, फाइमोसिस, गुप्तवृषणता, बहुपुटी गुर्दा।
- लैंगिक असमानताएं--संदिग्ध जननांग, उभयलिंगता।
- हृदवाहिकातंत्र के दोष--जन्मजात हृदयरोग, प्रमुख ऐशियानोटिक और श्याव दोष।
- विकलांग असमान्यताएं, पांच फेरा, अग्रांगों की विकासात्मक असमान्यताएं।

यूनिट-VII विभिन्न विकारों और रोगों से ग्रस्त बच्चे

निदानशास्त्र, संकेत, लक्षण, जटिलताएं, रोकथाम तथा उनकी चिकित्सीय, शल्यक्रियात्मक और परिचर्यात्मक देखभाल:

- तरल तथा विद्युत-अपघट्य संतुलन की गड़बड़ियां: असंतुलन, ज्वलन, वृक्क क्रिया की गड़बड़ियां, तीव्र तथा चिरकालिक स्तवकवृक्कशोथ, तीव्र तथा चिरकालिक वृक्क पात।
- विक्षुब्ध श्वसन क्रियाएं: ऊर्ध्व तथा अधः श्वसन मार्ग के तीव्र संक्रमण, फेफड़ों का तीव्र शोथ।
- जठर-आन्त्र विकार: कुशोषण संलक्षण (कुक्षि रोग) तथा अवरोधी विकार (आन्त्र अवरोध, हिर्शस्पुंग रोग), शोथजस्थितियां (ऐपेण्डिसाइटिस, मेकल अपवर्ध, व्रणीय वृहदान्त्रशोथ), कृमीय उत्पीड़न।
- रक्त के उत्पादन और परिसंचरण संबंधी समस्याएं: उपार्जित हृदयरोग, रक्ताधिक्य हृदपात, संक्रमी अन्तर्हृदशोथ, रुमेटी ज्वर।
- रक्त के तत्वों से संबंधित समस्याएं: अरक्तताएं, दात्रलोहितकोशिका थैलासीमिया, रक्तस्तम्भन के दोष, हीमोफीलिया, रोगक्षमताहीनता रोग, एचआईवी संक्रमण (एड्स), श्वेतरक्तता (ल्यूकीमिया), बिम्बाणुअल्पता, परप्यूरा।
- विनियामक तंत्रों की गड़बड़ियां: प्रमस्तिष्क क्रियाओं की गड़बड़ी-संज्ञा की परिवर्तित स्थिति, कपाल प्रमस्तिष्क प्रतिघात।
- अन्तःकपाल संक्रमण: मस्तिष्कावरणशोथ, मस्तिष्कशोथ, आक्षेपी विकार।
- अन्तःस्रावी दुष्क्रिया: पीयूषिका क्रियाओं का विकार, अवटु तथा अर्धअवटु क्रिया के विकार, अधिवृक्क प्रान्तस्था के विकार, अग्न्याशय हार्मोन स्राव के विकार।
- ऐसी समस्याएं जो कि चलन को प्रभावित करती हैं: पोलियो, अस्थिमज्जाशोथ, कुब्जता, अग्रकुब्जता तथा पार्श्वकुब्जता, रुमेटाइड संधिशोथ।
- विकासात्मक समस्याओं से ग्रस्त बच्चे: विकलांग बच्चे, बहुविकलांगताओं से ग्रस्त बच्चे, मानसिक मन्दता।

- अभिव्यक्ति विकार-श्रवण, दृष्टि विकलांगता, बहरे और अन्धे बच्चे।

यूनिट-VIII बच्चों का कल्याण

- बाल कल्याण सेवाएं, एजेंसियां, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, दिवादेखभाल केन्द्र, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम।
- आपराधिक और बेसहारा बच्चों का कल्याण।
- कामकाजी बच्चों के कल्याण के कार्यक्रम तथा नीतियां।
- राष्ट्रीय बाल श्रम नीति।
- बाल अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम।
- बच्चों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत अधिकार।

स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए पाठ्यचर्या

परिचर्या के व्यावहारिक शिक्षण के लिए शैक्षिक विधियों और माध्यम घण्टे-45

पाठ्यक्रम विवरण

यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है कि छात्रों को परिचर्या के एक अविभाज्य अंग के रूप में शिक्षण की अवधारणा से, परिचर्या की प्रक्रिया के साथ इसके संबंध से और साथ ही परिचर्या में प्रभावी अभिव्यक्ति के महत्व से अवगत कराया जाए।

सामान्य लक्ष्य

इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्रों को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ ग्राहक के व्यवहार में बदलाव लाने में शिक्षण की अवधारणा स्पष्ट करना।
- ✓ ग्राहकों को शिक्षण प्रदान करने के लिए प्रयुक्त तकनीकों का वर्णन करना।
- ✓ शिक्षण तथा प्रभावी अभिव्यक्ति में विभिन्न माध्यमों के प्रयोग का वर्णन करना।

पाठ्यक्रम सामग्री

यूनिट-I परिचय

- शिक्षा का अर्थ, लक्ष्य और प्रयोजन।
- अध्यापन और अधिगम का अर्थ।
- अध्यापन और अधिगम के सिद्धान्त।
- एक परिचारिका के अध्यापन दायित्व।
- अध्यापन की विधियां, नैदानिक अध्यापन की विधियां।
- अध्यापन योजना की तैयारी

यूनिट-II माध्यम

- माध्यम की परिभाषा, प्रयोजन और प्रकार।
- श्रव्य-दृश्य सामग्री, ग्राफिक सामग्री, मुद्रित सामग्री, त्रि-आयामी सामग्री, प्रक्षेपित सामग्री की तैयारी और प्रयोग।
- विभिन्न प्रकार के माध्यमों की सीमाएं, लाभ और प्रयोग।

प्रायोगिक कार्य

छात्र, परिचर्या प्रक्रिया दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए वार्डों/क्लीनिकों में अध्यापन आयोजित करेंगे और अपने अध्यापन को वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न प्रकार की श्रव्य-दृश्य सामग्री तैयार करेंगे। साथ ही छात्र चुनिंदा नैदानिक क्षेत्र में संबंधित अध्यापक को लिखित अध्यापन योजना भी प्रस्तुत करेंगे।

अनुसंधान का परिचय

घण्टे 40

पाठ्यक्रम विवरण

यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है कि छात्रों के भीतर अन्वेषण के वैज्ञानिक तरीकों तथा शोध निष्कर्षों के प्रयोग को लेकर बुनियादी योग्यताएं और अभिवृत्ति पैदा की जाए जिससे कि परिचर्या के व्यवहार में सुधार लाया जा सके।

सामान्य लक्ष्य

यह पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्रों को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ परिचर्या के व्यवहार में अनुसंधान की जरूरत का वर्णन करना।
- ✓ परिचर्या में प्रयुक्त अन्वेषण की वैज्ञानिक विधियों का वर्णन करना।
- ✓ अस्पताल/यूनिट/वार्ड/समुदाय के लघु और विशाल अनुसंधान क्रियाकलापों में भाग लेना।

पाठ्यक्रम सामग्री

यूनिट-I परिचय

- अनुसंधान की परिभाषा/अर्थ
- वैज्ञानिक विधियों में उपाय।
- परिचर्यात्मक अनुसंधान की जरूरत।
- उत्तम अनुसंधान की विशेषताएं।

यूनिट-II अनुसंधान प्रक्रिया से परिचय

- अनुसंधान समस्या का कथन।
- प्रयोजनों और लक्ष्यों का कथन।
- अनुसंधान पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा।
- साहित्य की समीक्षा।

यूनिट-III अनुसंधान दृष्टिकोणों का परिचय

- प्रत्येक विधि के प्रकार, विधियां, लाभ तथा हानियां।

यूनिट-IV डाटा संग्रह प्रक्रिया का परिचय

- डाटा संग्रहण।

- डाटा संग्रहण के प्रपत्र।
- डाटा संग्रहण की विशेषताएं।
- डाटा संग्रहण के तकनीक।

यूनिट-IV डाटा विश्लेषण का परिचय

- सारणीकरण।
- वर्गीकरण और संक्षेपीकरण।
- वर्णनात्मक आंकड़ों का प्रयोग करते हुए डाटा की प्रस्तुति और व्याख्या।

यूनिट-V रिपोर्ट लेखन

यूनिट-VI सांख्यिकी से परिचय

यूनिट-VIII परिचर्या व्यवहार में अनुसंधान का अनुप्रयोग तथा प्रयोग

प्रायोगिक कार्य

छात्रों को स्कूल के पुस्तकालय में अनुसंधान साहित्य का अध्ययन करना होगा और अध्यापक की सहायता से किसी भी स्वास्थ्य देखभाल स्थिति में वैज्ञानिक अन्वेषण के आयोजन में हिस्सा लेना होगा अथवा सहायता करनी होगी तथा चुनिन्दा नैदानिक क्षेत्र में पांच से छः छात्रों के समूह में संबंधित अध्यापक को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

व्यावसायिक अभिवृत्तियां और समायोजन

घण्टे 40

पाठ्यक्रम विवरण

यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है कि परिचर्या में उपलब्ध जीवनवृत्ति के अवसरों, परिचर्या व्यवसाय की सीमाओं, व्यावसायिक विकास को समझने में छात्रों की मदद की जा सके।

सामान्य लक्ष्य

इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्रों को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ एक व्यवसाय के रूप में परिचर्या और एक व्यवसाय के मानदण्डों का वर्णन करना।
- ✓ एक परिचारिका के विभिन्न व्यावसायिक दायित्व चिन्हित करना।
- ✓ परिचर्या और स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न व्यावसायिक संगठनों की पहचान करना।
- ✓ परिचर्या में सेवाकालीन तथा सतत शिक्षा की जरूरत अभिज्ञात करना।
- ✓ किसी भी स्वास्थ्य देखभाल स्थिति में परिचर्या के व्यवहार में व्यावसायिक शिष्टाचार की समझ के प्रयोग में कौशलों का परिचय देना।

पाठ्यक्रम सामग्री

यूनिट-I एक व्यवसाय के रूप में परिचर्या का परिचय

- परिचर्या व्यवसाय की परिभाषा और मानदण्ड।
- भारत में परिचर्या व्यवसाय का जन्म।
- एक व्यावसायिक परिचारिका की शैक्षिक तैयारी।
- एक व्यावसायिक परिचारिका के गुण/विशेषताएं और भूमिका।

यूनिट-II व्यावसायिक नैतिकता

- व्यावसायिक नैतिकता और शिष्टाचार का अर्थ और संबंध।
- परिचारिकाओं के लिए नीति संहिता, आईसीएन नीति संहिता और नाइटिंगेल की शपथ।
- रोजगार की क्रियाविधि: रिक्ति का पता लगाना, उसके लिए प्रार्थना-पत्र भेजना तथा पद स्वीकार करना, पद से त्याग करना।

यूनिट-III कार्मिक और व्यावसायिक उन्नति/विकास**(क) सतत शिक्षा**

- सतत शिक्षा का अर्थ और महत्व।
- सतत शिक्षा का क्षेत्र।
- सतत शिक्षा के लिए आयोजना और वित्तपोषण।
- सेवाकालीन शिक्षा: परिभाषा, जरूरत, सहभागिता।

(ख) परिचर्या में जीवनवृत्ति

- अस्पताल, समुदाय, शिक्षण तथा अन्य सम्बद्ध विशेष संगठनों में उपलब्ध अवसर।
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव और सहायता।
- भविष्य में परिचर्या।

यूनिट-IV परिचर्या में कानून

- परिचर्या में विधियों का प्रयोजन और महत्व, कानूनी पारिभाषिक शब्द।
- परिचर्या में सामान्य कानूनी झंझट।
- भारत में विभिन्न स्तरों पर अर्थात् केन्द्र और राज्य में परिचारिकाओं को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य कानून और विनियम।
- मूल आचरण और सेवा नियम तथा संस्थानगत नियम।
- विनियम और आदान-प्रदान।

यूनिट-V व्यावसायिक तथा अन्य सम्बद्ध संगठन

- व्यावसायिक संगठन: ट्रेण्ड नर्सिंग एसोसिएशन आफ इंडिया (टीएनएआई), स्टुडेंट नर्सिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल काउंसिल आफ नर्सिंग (आईसीएन), इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी), स्टेट नर्सिंग काउंसिलें, कामनवेल्थ नर्सिंग फ़ाउंडेशन।
- सम्बद्ध संगठन और परिचारिका में उनका योगदान: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), रेड क्रॉस, सेंट जॉन्स एम्ब्यूलेंस, यूनिसेफ, विश्व बैंक आदि।

प्रशासन और वार्ड प्रबन्ध

घण्टे 45

पाठ्यक्रम विवरण

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य यह है कि छात्र को प्रशासन के सिद्धान्त तथा वार्ड और स्वास्थ्य यूनिट के प्रबन्ध में इसके प्रयोग की बुनियादी समझ प्रदान की जाए।

सामान्य लक्ष्य

यह पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्रों को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ प्रशासन के अर्थ और सिद्धान्त का वर्णन।
- ✓ विभिन्न स्वास्थ्य सेवा स्थितियों में परिचर्या के व्यवहार में प्रशासन के सिद्धान्त को लागू करना।
- ✓ वार्ड और सामुदायिक स्वास्थ्य स्थितियों में परिचर्या सेवा की योजना बनाना।
- ✓ विभिन्न स्वास्थ्य सेवा स्थितियों में रोजमर्रा की परिचर्या सेवा में उत्तम प्रशासन के महत्व का वर्णन करना।

पाठ्यक्रम सामग्री

यूनिट-I परिचय

- प्रशासन और प्रबन्ध का अर्थ तथा दर्शन तथा उनका महत्व।
- प्रशासन के तत्व और सिद्धान्त।

यूनिट-II आयोजना: लक्ष्य, सिद्धान्त, विधियां और कोटियां

यूनिट-III संगठन: कमान, समन्वय और नियंत्रण, प्रत्यायोजन, स्टाफ व्यवस्था और बजट निर्माण

- परिभाषा, लक्ष्य, सिद्धान्त और तकनीक।
- अस्पताल वार्ड, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप-केन्द्र का संगठनात्मक चार्ट तैयार करना।
- अस्पताल और अस्पताल के विभिन्न विभागों की नीतियां।

यूनिट-IV एक अस्पताल यूनिट तथा वार्ड का प्रशासन

- वार्ड/यूनिट/स्वास्थ्य केन्द्र का प्रशासन, भौतिक खाका, सुरक्षा उपाय, दुर्घटना और संक्रमणों की रोकथाम, परिवारिका के कानूनी दायित्व

कार्मिक प्रबन्ध

- कार्य विवरण, कार्य विशिष्टियां, कार्य विश्लेषण और कार्य संतुष्टि।
- स्टाफ विकास और स्टाफ कल्याण।
- नेतृत्व शैलियां, लोकतांत्रिक नेतृत्व।

उपकरण और आपूर्तियों का प्रबन्ध

- आपूर्तियों और उपकरण का रखरखाव।
- सामान सूची सुपुर्द करना और प्राप्त करना।
- आपूर्तियों और उपकरण मंगाना तथा उनका आर्डर करना।
- समस्या समाधान: प्रक्रिया और दृष्टिकोण, रोगियों तथा अन्य स्वास्थ्य दल सदस्यों की शिकायतों से निपटने का रवैया, उपाय और विधियां।
- रिकार्ड और रिपोर्टें: वार्ड में रखे जाने वाले रिकार्डों और रिपोर्टों का अर्थ, प्रकार। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र में रखे जाने वाले रिकार्ड तथा रिपोर्टें।

प्रायोगिक कार्य

छात्र वार्ड/स्वास्थ्य केन्द्र में वार्ड सिस्टर/जन स्वास्थ्य परिवारिका के साथ काम करेंगे, उसकी इयूटी के निर्वाह में उसकी मदद करेंगे ताकि उन्हें वार्ड सामान सूची आपूर्तियों के रखरखाव में, इयूटी रोस्टर तैयार करने और समस्या समाधान का अनुभव प्राप्त हो सके। छात्रों को छात्रावास की, रसोई, क्लीनिकों और अस्पताल द्वारा आयोजित शिविरों में भी काम करने का मौका मिलेगा।

सामूहिक परियोजना

किसी एक छात्र अथवा छात्रों के समूह द्वारा संबंधित क्षेत्रों में किसी चुनिन्दा विषय पर परियोजना अथवा समस्या हाथ में ली जानी होती है और समस्या समाधान तकनीक का प्रयोग करते हुए समस्या का समाधान करना होता है तथा उसकी एक लिखित रिपोर्ट चुनिन्दा नैदानिक क्षेत्र में संबंधित अध्यापक को प्रस्तुत की जानी होती है। इस अनुभव की योजना विभिन्न नैदानिक क्षेत्रों में अनुभव के एक अंग के रूप में बनाई जानी चाहिए तथा अनुभव का समुचित रिकार्ड रखा जाना चाहिए।

स्वास्थ्य अर्थशास्त्र घण्टे 20

पाठ्यक्रम विवरण

यह पाठ्यक्रम अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य तथा आर्थिक उन्नति, मांग और आपूर्ति के बीच संबंध, भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की लागत तथा वित्तपोषण प्रणाली की अवधारणा को समझने में छात्र की मदद करेगा। इस पाठ्यक्रम के जरिए वे स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के आर्थिक पक्ष को समझ सकने की स्थिति में हो जाएंगे।

सामान्य लक्ष्य

यह पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद छात्रों को निम्न कार्यों में समर्थ हो जाना चाहिए:

- ✓ अर्थशास्त्र और स्वास्थ्य अर्थशास्त्र का अर्थ समझाना।
- ✓ स्वास्थ्य और आर्थिक उन्नति के बीच के संबंध का विश्लेषण करना।
- ✓ मांग और आपूर्ति की अवधारणा स्पष्ट करना।
- ✓ स्वास्थ्य देखभाल उद्योग के ढांचे का तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के बाजार की विशेषताओं का वर्णन करना।
- ✓ स्वास्थ्य देखभाल में लागत की अवधारणा का विश्लेषण करना।
- ✓ भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की वित्तपोषण प्रणाली पर चर्चा करना।

पाठ्यक्रम सामग्री

यूनिट-I अर्थशास्त्र का परिचय

- अर्थशास्त्र, सकारात्मक तथा मानकीय अर्थशास्त्र की परिभाषा तथा अर्थ, आयाम।

यूनिट-II स्वास्थ्य अर्थशास्त्र का परिचय

- स्वास्थ्य अर्थशास्त्र की अवधारणा।
- स्वास्थ्य अर्थशास्त्र का बल।
- स्वास्थ्य अर्थशास्त्र के क्षेत्र।
- स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, स्वास्थ्य और आर्थिक उन्नति का अर्थशास्त्र।
- भारत में स्वास्थ्य समस्याओं के कारण।

यूनिट-III स्वास्थ्य देखभाल की लागतें

- लागत की अवधारणा, लागतों की कोटियां।
- अवसर लागत, समग्र, नियत तथा परिवर्ती लागत, औसत, सीमांत और निम्न लागत, लागत लाभ, लागत प्रभाविता।

यूनिट-IV स्वास्थ्य देखभाल में मांग और आपूर्ति

- मांग, जरूरत, आपूर्ति, निवेश, निर्गत, उत्पादन कार्य, उद्योग तथा बाजार की अवधारणा।
- स्वास्थ्य देखभाल उद्योग का ढांचा।
- स्वास्थ्य देखभाल सेवा बाजार की विशेषताएं।
- मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष।

यूनिट-V भारत में स्वास्थ्य देखभाल का वित्तपोषण करना

- वित्तपोषण प्रणाली और आबंटन।
- स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के वित्तपोषण के स्रोत।
- स्वास्थ्य योजनाएं और परिव्यय, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के वित्तपोषण में राज्य और केन्द्रीय सरकार की सापेक्ष भूमिका।
- स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का वित्तपोषण करने की राज्य की क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्व।

टी. दिलीप कुमार

अध्यक्ष

भारतीय परिवर्था परिषद और

भारत सरकार के परिवर्था सलाहकार

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Mumbai-400005, the 19th July 2006

(Chartered Accountants)

3WCA(8)/2/2004-2005 In pursuance of Regulation 10(1) (iv) read with Regulation 10(2) (b) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from, 1st October 2004, as they had not paid their annual fees for Certificate Of Practice.

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
1	002952	MR. LELE SADASHIV NARHAR FCA R K KHANNA & ASSOCIATES 402, REGENT CHAMBERS NARIMAN POINT MUMBAI-400021	11	010253	MR. GOYAL PURSHOTTAM DAS FCA OFFICE NO 303 297/299 DR CAWASJI HORMOSJI ST NEAR QUEEN ROAD CHURCH, MARINE LINES MUMBAI-400002
2	002979	MR. SHAH MAHASUKHLAL PREMCHAND FCA MAHASUKH P SHAH & CO., 96, KIKI STREET, 1ST FLOOR MUMBAI-400004	12	010588	MR. PAREKH CHANDRAKANT GOVIND ACA MATORSHREE RESIDENCY B-WING, FLAT NO 102 FIRST FLOOR, F P NO 65/TPS-V (B/H PRIYOTTAMA CHS) PRARTHANA SAMAJ ROAD VILE PARLE (EAST) MUMBAI-400057
3	003480	MR. PATEL RAOJIBHAI HARJIBHAI FCA 403 URVASHI 16 BESANT STATION SANTACRUZ (WEST) MUMBAI-400054	13	011619	MR. MITHAWALA RUSI COOVERJI FCA 405 SIBYLLE APARTMENTS PLOT NO 65 WORLI HILL ROAD MUMBAI-400018
4	004276	MR. MUNSIFF JAL RUSTOM ACA C-17, TUSHAR, 511, 15TH ROAD, KHAR MUMBAI 400052	14	011794	MR. LAXMI RATAN DAGA FCA 1505 MEGHDOOT-A LOKHANDWALA COMPLEX ANDHERI (WEST) MUMBAI-400053
5	005173	MR. KHAHKA BHUPENDRA PARMANAND ACA BHARAT LINDNER C/2/19 INDUSTRIAL ESTATE GORWA-3 VADODARA-0	15	012205	MR. SHAH SHASHIKANT P FCA SHANTI BLDG 217/11 HINGWALA LANE CHATKOPAR MUMBAI-400077
6	006023	MR. FITKARIWALA BISHWA NATH FCA SPECTRUM TEXTILE AGENCY 350 NEW CLOTH MARKET SARANGPURA AHMEDABAD-380004	16	014804	MR. BIJOOR SATISH ANAND ACA E/5 GARASWAT HSG CO OP SOC 29 LABURNAM ROAD GANDHEVI MUMBAI-400007
7	006343	MR. SHETH BIPINCHANDRA ISHVERLAL ACA JEEVAN SUDHA, 6TH FLOOR BLOCK NO 34/B SWAMI VIVEKANAND ROAD Juhu LANE, ANDHERI (WEST) MUMBAI-400058	17	015844	MR. RAMESHCHANDRA MANILAL DARJI FCA A-25 NAVRANG TOWERS OPP SARTHAK SCHOOL SATTADHAR CROSS SOLA ROAD AHMEDABAD-380061
8	007426	MR. VASANTKUMAR V FCA MAHAVIR A-7, 165 DERASAR LANE CHATKOPAR (EAST) MUMBAI-400077	18	016882	MR. ASHOK SOMESHWAR PUROHIT FCA A-42 SATELLITE PLAZA, PREMCHAND NAGAR ROAD, VASTRAPUR, AHMEDABAD-380015
9	007535	MR. THANAWALA ANIL KUMAR KANTILAL FCA 204, JYOTI APTS., VEER SAVARKAR MARG, NAUPADA, THANE-400602	19	017329	MR. MADAN KUMAR JAIN ACA 1303 TOWER NO 6 SOHAM PARK HARIOM NAGAR MULUND (EAST) MUMBAI-400080
10	009619	MR. KAPADIA MANSINH BRIJIDAS ACA 102, VENUS APARTMENT, 10TH FLOOR, CUFFE PARADE, MUMBAI-400005			

20	017783	MR. PATEL BHAGWATPRASAD MANEKLAL FCA 204, SHREYAS COMPLEX B/H DINESH HALL, INCOME TAX AHMEDABAD-380009	34	032616	MR. SHAH VIKRAM CHANDRAKANT ACA D-27/203 YOGI NAGAR, EKSAR ROAD BORIVLI (WEST) MUMBAI-400091
21	017922	MR. KULKARNI SUHAS SHANKAR ACA C-6, BALAKA CO OP HSG SCTY SWASTIK PARK CHEMBUR, MUMBAI-400071	35	032903	MR. SARAIYA NAISHAD RASIKLAL ACA 204 CHANDRARAJ CHS CHICHOLI BUNDER ROAD MALAD (WEST) MUMBAI-400064
22	023260	MR. SRINIVASAN A ACA C/O, V.S. SANTHANAM A-2, APARNA APARTMENTS 75 S.V. ROAD, ANDHERI (WEST) MUMBAI-400058	36	033076	MR. GULATI SATVINDERPAL SINGH ACA 87-C GULATI NIWAS BAZAR RD BANDRA MUMBAI-400050
23	024793	MR. THOMAS JOHN FCA 503 A RAINBOW, RAJEJA VIHAR POWAI, MUMBAI-400072	37	033107	MS. AMEETA SHAH ACA 44, BREMORE ROAD, SEVENKINGS ESSEX IG3 9NB, U.K.-0
24	025281	MR. SATHYAMURTHY M FCA 402 JAMUNA APARTMENT RAVAPAR ROAD NARASINGH SOCIETY MORBI-363642	38	033128	MR. CHAPHALKAR SANJAY VASANT ACA SHRAVAN PLOT NO 45 RAM BAG COLONY KOTHRUD PUNE-411038
25	027363	MR. ALEX K JOSHUA FCA PLANT ACCOUNT MANAGER MRF LIMITED P B NO 1 PONDA GOA-403401	39	033145	MR. MOHAN NARAYANDAS AHUJA ACA 177, KHETWADI BACK ROAD, 3RD FLOOR, DPP TULSI BUILDING, MUMBAI-400004
26	030163	MR. KANTARIA PRAVINKUMAR HARIDAS FCA 14 NEELKANTH ASHISH R B MEHTA ROAD GHATKOPAR (EAST) MUMBAI-400077	40	033260	MR. RAYGANDHI VILAS BHIKCHAND FCA 550/B RANA PETH, LAXMI ROAD PUNE-411002
27	030315	MR. AGARWAL UMANATH RAGHUNATH FCA E-21/503, CREEK VIEW, 5TH FLOOR, YOGI NAGAR, EKSAR ROAD, BORIVLI (WEST) MUMBAI-400091	41	033421	MR. DAVE SUBHASH MAHIPATRAM ACA F/65 RAMESHWAR FLATS BEHIND FATEHPURA-GARDEN FATEHPURA PALDI AHMEDABAD-380007
28	030437	MR. HARIHARAN NARAYANASWAMY ACA FLAT NO 402, ORCHID ORCHID TULIP CO OP HSG SCTY, NAVGHAR RD, MULUND (EAST) MUMBAI-400081	42	033589	MR. SHAH AJAYKUMAR CHAMPAKLAL ACA 6/A, BRINDA APARTMENTS, 24/A, BANSIDHAR SOCIETY, NEAR. JAY APARTMENTS BHATHA PALDI, AHMEDABAD-380007
29	031035	MR. KOTHANDARAMAN S FCA 708 16TH A MAIN, 38TH CROSS JAYANAGAR IV T BLOCK TALOJA-410208	43	033598	MR. KANNAN S ACA D1/101, SARANG LOK PURAM THANE (WEST) THANE-400601
30	031098	MR. PATEL HEMANT RAMANLAL FCA 6, 7, 1ST FLOOR, LANDMARK OPP HDFC, MITHAKALI SIX ROADS NAVRANGPURA AHMEDABAD-380009	44	033618	MR. ANAND VASANT DESHPANDE FCA PANDIT COMMERCIAL COMPLEX MODI LANE-3 SITABULDI NAGPUR-440012
31	031448	MR. RAVIKIRAN MADHUKAR ARBATTI ACA 2A-31 DRUG EMPLOYEES CO. OP. HSG. SOC. LTD., JEKEGRAM THANE-400606	45	033791	MR. KULKARNI SHRIKANT GANESH FCA CHETAN APARTMENTS FLAT NO 2 36/7, ERANDWANE PUNE-411038
32	032064	MR. SHAH DAKSHESH SUBODCHANDRA ACA B-3/7 SCINDIA EMPLOYEES SOC BEHIND NATRAJ STUDIOS, SIR M V ROAD ANDHERI (EAST) MUMBAI-400069	46	034079	MR. SHAH INDRAVADAN SUNDERLAL ACA 20, HATKESH SOCIETY, NAVJIVAN AHMEDABAD-380014
33	032165	MR. DESAI DILIP RATILAL FCA 804, SHAHAJANAND SHOPPING CENTRE SHAHI BAUG ROAD AHMEDABAD-380004	47	034877	MR. VENKATASUBRAMANIAN SURESH ACA FLAT NO. 7, CHARKOP JEEVAN MANGAL CHS PLOT 233, R D P-5, SECTOR-3, PART-2, CHARKOP, KANDIVLI (WEST) MUMBAI-400067
			48	034886	MR. KUMAR R ACA 401 DNS TOWER, OPP TOWN HALL COURT NAKA, THANE (WEST) THANE-400601

- | | | | | | |
|----|--------|---|----|--------|---|
| 49 | 034980 | MR. MAHESHWARI BALKISHAN JAWARILAL FCA
C-508, UPVAN TOWER, UPPER GOVIND NAGAR
MALAD - (EAST)
MUMBAI-400097 | 64 | 038035 | MR. DESAI NIKHIL BHALCHANDRA FCA
DESAI NIKHIL BHALCHANDRA
"SWASHRAYA" PALIRAM ROAD
ANDHERI (WEST)
MUMBAI-400058 |
| 50 | 035454 | MR. JOSHI PRADEEP DINANATH FCA
A14 WADALA GULMOHAR CHS LTD
BEHIND WADALA BUS DEPOT
WADALA
MUMBAI-400031 | 65 | 038086 | MR. RAJEN AMRATLAL RAVAL ACA
DF-4 PRANAV APARTMENTS
SHREYAS TEKRA
ANBAWADI
AHMEDABAD-380015 |
| 51 | 035797 | MR. DESAI SHAISHAV PRADYOTBHAI ACA
18/B, KAILASH PARK DUPLEX,
D/H, PRAMUKH SWAMY HOSPITAL,
OLD PADRA ROAD,
VADODARA-390020 | 66 | 038398 | MR. SERRAO LAWRENCE CAJETAN JOHN ACA
D/4, PEARL HOUSES
205 DR AMBEDKAR ROAD
DADAR
MUMBAI-400014 |
| 52 | 035857 | MR. JAIN SHREEPALA FCA
C-1/1 N.R.C. COLONY
POST MOHANE CINEMA
THANE-421102 | 67 | 038520 | MR. MAHADEVAN MURALI ACA
H/003 SHIMPOLI NIRANJAN
CO OP HSG SOCIETY
CHIKLIWADI, SHIMPOLI
BORIVLI (WEST)
MUMBAI-400092 |
| 53 | 036352 | MR. SRIDHAR VEMURI S ACA
C-75 FLAT NO 503
VASANT VIHAR COMPLEX
MAJIWADE POKHRAN RD II
THANE-(WEST) | 68 | 038559 | MR. HARIHARAN GANESH G ACA
FLAT NO. 14,
AJANTA COMPLEX,
501/A5 RASTA PETH,
PUNE-411011 |
| 54 | 036444 | MR. GHODGE RAMESH SITARAM ACA
C/O M/S BEIERSDORF INDIA LTD
302 SARJAN PLAZA
100 DR ANNIE BESANT ROAD
WORLI
MUMBAI-400018 | 69 | 038616 | MR. SURINDER SOMNATH GUPTA FCA
FLAT NO 14,
SOLOMON SHERLEY RAJAN RD
OFF CARTER ROAD
BANDRA
MUMBAI-400050 |
| 55 | 036449 | MR. BHIDE SANJAY DINKAR FCA
FLAT NO 4, KANCHAN APARTMENT
CHAITANYANAGAR
NEAR PROFESSOR COLONY
AHMEDNAGAR-414001 | 70 | 038817 | MR. ZAFAR FAKHRUDDIN SIAMWALA FCA
C/O O3EROI FLIGHT SERVICES,
SAHAP AIRPORT ROAD,
SAHAR, ANDHERI (EAST),
MUMBAI-400099 |
| 56 | 036498 | MR. CHAUDHARI MILIND CHINTAMAN ACA
A-2, PATIL GARDENS
NR TEJAS SOCIETY
KOTHRUD
PUNE-411029 | 71 | 038832 | MR. PATILANIL BHASKARRAO FCA
1/1 UNNAT NAGAR
PART TWO M G R
GOREGAON (WEST)
MUMBAI-400062 |
| 57 | 036512 | MR. KAPUR SANJEEV JAWAHAR FCA
505, JAMUNA MAHAL, 73,
PRABHAT COLONY
SANTACRUZ (EAST)
MUMBAI-400055 | 72 | 038879 | MR. SABNIS MAHESH PRABHAKAR ACA
FINANCE & ADMN MANAGER RAK BANK
(THE NATIONAL BANK OF RAS AL KHAIMAH)
P O BOX 5300,
RAS AL KHAIMAH
UAE-0 |
| 58 | 036516 | MR. DAVDA SUNILKUMAR POPATLAL ACA
P.O. BOX 46283, NAIROBI
KENYA-0 | 73 | 039455 | MR. SUBRAMANYAM P V ACA
7/257 HARINI RAM NARAYAN
NARAYAN ROAD,
GHATKOPAR (EAST)
MUMBAI-400077 |
| 59 | 036525 | MR. GOPIKRISHNA DHARNIDHARKA ACA
601 VIVEK APARTMENT
ASHOK CHAKRAVARTY CROSS ROAD
KANDIVALI (EAST)
MUMBAI-400101 | 74 | 039801 | MR. LODHA NARENDRA KUMAR FCA
1803, CHALLENGER TOWERS -2,
THAKUR VILAGE,
KANDIVALI - (EAST)
MUMBAI-400101 |
| 60 | 036640 | MR. SRINIVASAN SUBRAMANIAM IYER ACA
C/O EIMCO ELECON (INDIA) LTD
ANAND SOUJITRA ROAD
VALLABH VIDHYA NAGAR-0 | 75 | 040099 | MR. KRISHNAMOORTHY SUNDARAM ACA
UNIT 5 21,
CHAMP STREET
COBURG-VIC 3000 |
| 61 | 036722 | MR. DESAI BIMAL KAUSTUBH ACA
21 PEARL V P ROAD
ANDHERI (WEST)
MUMBAI-400058 | 76 | 040149 | MR. PILLUTLA GANESH ACA
101, GAYATRI ENCLAVE
90 FEET ROAD,
GOKUL NAGARI-I
OFF W E HIGHWAY
KANDIVALI-EAST
MUMBAI-400101 |
| 62 | 037361 | MR. PANWALA JITENDRAKUMAR ISHWARLAL ACA
11/2511 MATRUCHHAYA MACHHALIPITH
SURAT-395004 | | | |
| 63 | 037645 | MR. T N VENKATESWARAN ACA
353/11 18, SRINIVAS, R B MEHTA ROAD
GHATKOPAR (EAST)
MUMBAI-400077 | | | |

- | | | | | | |
|----|--------|---|-----|--------|--|
| 77 | 040150 | MR. EHTESHAMAHMED ABDULHABIB
CHATRIWALA ACA
UNITED TOWER FLAT 202
BEHIND RAM & SHAM THEATER PLOT
S V ROAD, JOGESHWARI (WEST)
MUMBAI-400102 | 91 | 042011 | MR. VEDAK VIJAY NAGESH ACA
VIJAY VEDAK & CO.,
3 HEMANT BANK OF BARODA EEMPL.
CO.OP.HSG. SOCIETY
BAMANWADA,
VILEPARLE
MUMBAI-400099 |
| 78 | 040224 | MR. ARORA YOGENDRA KUMAR ACA
202 SWATI APARTMENTS
NEW DEVLEE NAGAR
EKSAR VILLAGE
BORIVALI (WEST)
MUMBAI-400103 | 92 | 042012 | MR. KARVE GIRISH KESHAV ACA
11 SUVARNA REKHA
MAHANT ROAD
VILE PARLE (EAST)
MUMBAI-400057 |
| 79 | 040314 | MR. GABHE ANIL VASANT ACA
BLDG NO.11/FLAT 15/16
VILAS NAGARI TOWERS
GB ROAD WAGHBIL NAKA
THANE-400601 | 93 | 042032 | MR. GORE SUBODH RAMAKANT ACA
S R GORE & CO
477/B/1A PARVATI SALOKHA SOC
SHAHU COLLEGE ROAD
PUNE-411009 |
| 80 | 040376 | MR. GANDHI RAJESH NYALCHAND ACA
G-540 SAGAR PARK
AMRUT NAGAR
GHATKOPAR (WEST)
MUMBAI-400086 | 94 | 042159 | MRS. VAISHALI PRASAD KOPARKAR ACA
503 SNEHAL APARTMENTS
JAI PRAKASH NAGAR ROAD
NO 3 GOREGAON (EAST)
MUMBAI-400063 |
| 81 | 040411 | MR. BHATT PANKAJ HARI LAL FCA
14 LAXMINARAYAN CO-OP.HSG.SOC.LTD.
POWER HOUSE,M.G. ROAD
GHATKOPAR
MUMBAI-400077 | 95 | 042350 | MR. SADRUDDIN ABDULKARIM KHETANI FCA
7 BAGESHREE
KALYANINAGAR
PUNE-411006 |
| 82 | 040667 | MR. WADHWA SHYAMSUNDER VASHUMAL ACA
BUNGLOW NO 5 VAIKUNTH SOC
8TH ROAD SINDHI SOC
CHEMBUR
MUMBAI-400071 | 96 | 042441 | MR. MEWAWALA RIAZALI SULTANALI FCA
C/O M/S RINA GRANITES P LTD
PLOT NO 13, L G INDUSTRIAL ESTATE
BEHIND GARIBSHAH PIR
BHAVNAGAR -RAJKOT ROAD
SIHOR-364240 |
| 83 | 040678 | MR. JAIN PURNANDU FCA
C-306, THIRD FLOOR
CRYSTAL PLAZA, LINK ROAD
ANDHERI - (WEST)
MUMBAI-400058 | 97 | 043009 | MR. IYER S S KODUVAYUR SIVARAMAKRISHNAN ACA
8, VRINDAVAN
VISHWAKARMA NAGAR
NAHUR, MULUND (WEST)
MUMBAI-400080 |
| 84 | 040703 | MR. PAREKH MANISH DINESHCHANDRA FCA
C-311 RAMESH APARTMENTS
KASTUR PARK SHIMPOLI ROAD
BORIVALI (WEST)
MUMBAI-400092 | 98 | 043022 | MR. AKSHAY PURUSHOTTAMDAS SHAH ACA
B - 81, BUENA VISTA
NEAR KASHIRAM HALL
AMBAWADI
AHMEDABAD-380015 |
| 85 | 040806 | MR. HEMANTKUMAR SHREEKRISHNA DEHADRAY ACA
C-324 MAHINDRA NAGAR
HAJI BAPU ROAD
MALAD (EAST)
MUMBAI-400097 | 99 | 043116 | MR. LIMAYE KISHOR MADHUKAR ACA
PLOT NO A001 KESHAV DHAM
PATEL PADA,
DAHANU ROAD (EAST)
THANE-401602 |
| 86 | 041114 | MRS. DIPTI HIMANSHU MODY ACA
VELJI SHIVJI S BLDG
HINGWALA LANE
GHATKOPAR (EAST)
MUMBAI-400077 | 100 | 043224 | MR. SHAH PRANAV RASIKLAL ACA
AMARTARU, BUILDING NO 3
FLAT NO 302, PATEL WADI
OFF NEW NAGARDAS ROAD
ANDHERI - (EAST)
MUMBAI-400069 |
| 87 | 041340 | MR. BORKAR MANOJ YESHWANT ACA
1/2 GOMENTAK SOCY., MAHANT RD
VILE PARLE (EAST)
MUMBAI-400057 | 101 | 043289 | MR. PANCHOLI VIPULKUMAR KANTILAL ACA
21 ACHALESHWAR SOCIETY
NEAR BALVATIKA
MANINAGAR
AHMEDABAD-380008 |
| 88 | 041546 | MR. DALAL DIVYESH PRAVINCHANDRA ACA
25A CHACHANAGAR SOC., ADMAR MUTH RD
ANDHERI (WEST)
MUMBAI-400058 | 102 | 043321 | MR. THAKER DINESH FCA
22 GAUTAM NIWAS
OPP 78 BUNGLOWS BUS DEPOT
J P ROAD
ANDHERI (WEST)
MUMBAI-400053 |
| 89 | 041636 | MR. SESHADRI RAMCHANDRAN ACA
A4 JEEVAN KANCHAN
VEERA DESAI ROAD
ANDHERI (WEST)
MUMBAI-400058 | 103 | 043353 | MS. ACHAREKAR SUJATA SONU ACA
11, GEETANJALI
16, BANDRA RECLAMATION,
BANDRA - (WEST)
MUMBAI-400050 |
| 90 | 042010 | MR. FICHADIYA ASHVIN KANTILAL ACA
23 PRAHLAD PLOT
RAJKOT-360001 | | | |

- 104 043458 MR. RAMASWAMY ANANTHANARAYANAN FCA
6/80 SAROJ PESTOM SAGAR RD NO
1 CHEMBUR
MUMBAI-400089
- 105 043489 MS. PREMILA F M FERNANDES ACA
740 SUMMER PARK CRESCENT
MISSISSAUGA
ONTARIO-L5B 4E2
- 106 043497 MS. ANURADHA RAMAKRISHNAN ACA
B/2/4 TATA HOUSING CENTRE
LALLUBHAI PARK ROAD
ANDHERI (WEST)
MUMBAI-400058
- 107 043704 MR. GOLECHA SANJAY MILAPCHAND FCA
B/12 DHIRENDRA VILLA
S V ROAD
DAULAT NAGAR
BORIVALI EAST
MUMBAI-400066
- 108 043711 MR. CHECHANI RAMESH CHANDRA ACA
305 B, BUILDING NO 3, SAGAR
COMPLEX,
SECTOR A-2, JESAL PARK
BHAYANDAR (EAST)
BHAYANDAR-401105
- 109 043787 MR. SUBRATA MONINDRANATH MAITY FCA
RAYMOND LTD
DENIM DIVISION C-1, MIDC
LOHARA
YAVATMAL-445001
- 110 043801 MS. SHETYE SWATI SANTOSH ACA
FLAT NO.8, SAURABHYA,
PLOT NO. 1279,
EKNATH HATSKAR MARG,
PRABHADAIVI,
MUMBAI-400025
- 111 043858 MR. SUBHASH RAMACHANDRAN NAIR ACA
B-1-103 VITHOBA KRUPA
CO OP HSG SOCIETY
MASOBA MAIDAN
KALYAN (WEST)
DIST THANE
KALYAN-421301
- 112 043869 MR. SATYANARAYAN MAHESHWARI ACA
FLAT NO 101, SAPANA CHS
PLOT NO 4, RDP - 10
SECTOR - 6, CHARKOP
KANDIVALI - (WEST)
MUMBAI-400067
- 113 043884 MR. KOTHARI AKSHAY JAYANT FCA
JAY BHATRA VILLA
S V P ROAD
BORIVLI (WEST)
MUMBAI-400092
- 114 043941 MR. GOKHALE PRADEEP SHRIPAD ACA
C-80 SHATDAL AZAD ST OFF
S V ROAD, ANDHERI (WEST)
MUMBAI-400058
- 115 043942 MR. GODBOLE SHRIHARI SHANKAR ACA
1-11, DUTTA RAMANAND SOC,
HANUMAN X ROAD NO. 2,
VILE PARLE (EAST)
MUMBAI-400057
- 116 044060 MRS. SANGITA S FCA
G-1/303 MALHAR
LOKPURAM COOP HSG SCTY LTD
GLADY'S ALWARE'S ROAD
POKHARAN 2 THANE (WEST)
THANE-0
- 117 044153 MR. MEHTA ROHIT PRAJAPRAI FCA
23/25, SHERIFF DEVJI STREET
MASJID BUNDER, 2ND FLOOR
CRESCENT CHAMBERS
MUMBAI-400003
- 118 044223 MR. GANDHI JAYESH MAHENDRA ACA
42/A, JAVERI BLDG.,
DR. S. RADHAKRISHNAN ROAD,
ANDHERI (EAST)
MUMBAI-400069
- 119 044253 MR. PALLATHUSERIL KURIAN CHANDY ACA
602, MANAVSTAL II
GOKULDHAM
GOREGAON - (EAST)
MUMBAI-400063
- 120 044376 MR. DEVARAJAN VENKITASUBRAMANIAN ACA
5, PARAMJYOTHI
PESTOM SAGAR,
CHEMBUR
MUMBAI-400089
- 121 044384 MR. SUNDAR RAM GOVINDRAGHAVAN FCA
9/97, R.K. NAGAR, KHAR (WEST)
MUMBAI-400052
- 122 044459 MR. CHINNATHAMBI YADAVAR RAVI ACA
B/403 PRAVAH APARTMENTS
OPP PRINCE B/H NRI TOWERS
BODAKDEV JUDGE'S BUNGLOW AREA
SATELLITE
AHMEDABAD-380054
- 123 044578 MR. PARIKH JATINKUMAR PRABODHCHANDRA ACA
B-4, SOMNATH DUPLEX
NR GOTRI OCTROI NAKA
GOTRI-SEVASI ROAD
VADODARA-390021
- 124 044751 MR. RAJESH RAGHUNATH PRABHU ACA
102, SABLOAK APARTMENT,
CORNER OF 13TH & 16TH ROAD,
KHAR (WEST)
MUMBAI-400052
- 125 044884 MR. JAIN JAMBU KUMAR ACA
FLAT NO.19/501, 'SANSKRUTI'
OPP. ST. LAWRENCE HIGH SCHOOL,
THAKUR COMPLEX,
KANDIVLI (EAST),
MUMBAI-400101
- 126 044946 MR. RAKESH KUMAR YADPAM SINGHAL ACA
30, GUPTA BHUVAN
OPP. RLY/STATION,
MULUND (WEST)
MUMBAI-400080
- 127 045158 MR. TAWRI JITENDRA KASHINATH ACA
4 PURNA SOCIETY
STATION ROAD
NAVSARI-396445
- 128 045178 MR. SUNIL KUMAR JAIN ACA
25-B, QUEEN'S LAND, FLAT NO 206,
SHASTRI NAGAR,
LOKHANDWALA COMPL
ANDHERI (WEST)
MUMBAI-400069
- 129 045208 MR. ANUP MOHAN JOHRI ACA
28/166 ELLORA PARK
RACE COURSE
VADODARA-390007
- 130 045265 MR. CHOKSI SHRENIK ARVIND ACA
44-C GEETA BHAVAN
93, BHULABHAI DESAI ROAD
MUMBAI-400036

- | | | | | | |
|-----|--------|---|-----|--------|--|
| 131 | 045363 | MR. BAROT RAJESH JIBHAI ACA
2/2 WINSTONE ROAD
MOUNT ROSKILL
AUCKLAND | 145 | 046295 | MR. MEHTA KETAN RASIKLAL FCA
C-1, YOGESHWAR APARTMENTS
OPP JUDGES BUNGLOWS,
NEAR PREMCHAND NAGAR,
VASTRAPUR
AHMEDABAD-380015 |
| 132 | 045442 | MR. DILIP LALCHAND BHATIA FCA
FLAT NO.105/106,BLDG.NO.16
INDRA DARSHAN-1,
NEW LINK ROAD
LOKHANDWALA,
ANDHERI (WEST)
MUMBAI-400053 | 146 | 046424 | MR. SDHONI NIKHIL RAMAKRISHNA ACA
FLAT NO 6
SBI VISHWAS CO OP HSG SOC
NEXT TO VIP HOTEL
V M GANEKAR MARG
AZAD ROAD
VILE PARLE (EAST)
MUMBAI-400057 |
| 133 | 045521 | MR. THAKKER VIREN KANTILAL ACA
34 SHARANUM TWINS V
OPP KIRTI SAGAR APARTMENTS,
NEAR JDDHPUR VILLAGE
AHMEDABAD-380015 | 147 | 046492 | MS. ANJALI SUDHIR KOTHARE ACA
MOUNT VIEW, 2ND FLOOR
22, ST JOHN BAPTIST RD
BANDRA (WEST)
MUMBAI-400050 |
| 134 | 045539 | MS. MOHINI MURALIDHAR HEGDE ACA
9/178, ROHINI, SION - (EAST)
MUMBAI-400022 | 148 | 046497 | MR. PERCY KERSHASP BIRDY FCA
630 GEMFRINA CHS
A WING 4TH FLOOR
KHAREGHAT ROAD
DADAR PARSİ COLONY
MUMBAI-400014 |
| 135 | 045776 | MR. SHRIVASTAVA VIVEK KUNJBIHARILAL FCA
C-509 HIGHLAND BREEZE BUILDING
CHARKOP,
KANDIVALI (WEST)
MUMBAI-400067 | 149 | 046538 | MR. RANDER ANIL KUMAR RAMNIWAS ACA
C-208 ADARSHLOK, 17TH ROAD
SIDDHARTH NAGAR
GOREGAON (WEST)
MUMBAI-400062 |
| 136 | 045866 | MR. IYER ASHOK RAMACHANDRAN ACA
B/3 CHANAKYAPURI SOC
SAMA ROAD
VADODARA-390008 | 150 | 046545 | MR. TOTADE AMARENDRA SHASHIKANT ACA
C-1 VINDHYAGIRI, SONAWALA RD
GOREGAON-(EAST)
MUMBAI-400063 |
| 137 | 045895 | MR. FERNANDES CONRAD DAVID FCA
LITTLE FLOWER 7
FLAT 6 28TH ROAD
BANDRA
MUMBAI-400050 | 151 | 046656 | MS. GHADGE SHUBHANGI REVAN FCA
BLDG NO-1, C/702,
VINI GARDENS
NEXT TO BHAVDEVI KRIDA MANDAL
BORIVAZALI (WEST)
MUMBAI-400068 |
| 138 | 046065 | MR. BIPINCHANDRA SHIVNARAYAN KABRA ACA
26, KAKAD CORNER,
HOTEL SUN -N- SHEEL
KONDIVITA LANE,
ANDHERI (EAST)
MUMBAI-400059 | 152 | 046830 | MR. COUTINHO JIMMY EDWIN ACA
205 COMMERCE CENTRE
MAPUSA, BARDEZ
GOA-403507 |
| 139 | 046094 | MRS. JAGRUTI JAYMIN CHHAYA ACA
33 EARLS PANE
CEDAR PARK CIPPENHAM
BERKSHIRE
SLOUGH-SL 15 DJ | 153 | 046925 | MR. MANIK KAMAL PRAKASH ACA
OTIS ELEVATOR COMPANY (INDIA) LTD
SR.MANAGER-CORPORATE TAXES
9TH FLOOR MAGNUS TOWER
MIND SPACE, LINK ROAD
MALAD (WEST)
MUMBAI-400064 |
| 140 | 046097 | MR. JAYMIN HARSHAD CHHAYA ACA
33 EARLS LANE, CEDAR PARK
CIPPENHAM BERKSHIRE
SLOUGH-SL 15 DJ | 154 | 046985 | MR. BIDAYE SIDDHARTH CHANDRAKANT ACA
23/379 ADARSH NAGAR
PRABHADEVI
MUMBAI-400025 |
| 141 | 046100 | MR. MAHAMAD HANIF SAHEB ACA
ACCOUNTS DEPARTMENT
MIS SECTION
ABU DHABI INVESTMENTS AUTHORITY
P.O BOX 3600
ABU DHABI-O | 155 | 046998 | MR. SIMARIA SARJU PRAVIN ACA
SHRI SUHAS KAKODKAR
10-A LADHA HOUSE
PAPER MILL LANE, V P ROAD
MUMBAI-400004 |
| 142 | 046117 | MR. AGRAWAL AKSHAYA RADHAVINOD FCA
A/2/35 GREEN FIELDS CHS LTD
MAHAKALI ROAD
ANDHERI - (EAST)
MUMBAI-400093 | 156 | 047141 | MS. KHAKHAR ILA DINKAR ACA
C 42/TRIVENI FLAT NO B01
VASANT VIHAR POKHRAN 2
THANE-400606 |
| 143 | 046193 | MR. ANIL PETER ACA
SHIPAI DHANRAJ PAARK
KALEWADI PHATTA
WAKAD
PUNE-411027 | 157 | 047462 | MR. MAZUMDAR KETAN SUSEN ACA
A-2/14 SCINDIA SOCIETY
OFF SIR M V ROAD
ANDHERI (EAST)
MUMBAI-400069 |
| 144 | 046208 | MR. MODY DICK HOSY ACA
M/44,MERWANJI CAMA PARK
CAMA ROAD, ANDHERI (WEST)
MUMBAI-400058 | | | |

- 158 047596 MRS. VIDYA PRASAD DESHPANDE ACA
B-17 ANUBANDH COOP HSG SOCIETY
TILAK HIGHSCHOOL ROAD
TILAK NAGAR,
DOMBIVLI (EAST)
DOMBIVALI-421201
- 159 047717 MR. SINGHVI ANIL KUMAR ACA
303 SHRADHA BUILDING NO 3 B
SHRADHA COMPLEX,
ASHA NAGAR
KANDIVALI (EAST)
MUMBAI-400101
- 160 047814 MR. TAILOR SHYAM SUNDER FCA
G-4 SAISADAN VIDHYA MANDIR ROAD
DEWANMAN VASAI ROAD
THANE (WEST)
VASAI-401201
- 161 047822 MR. SIVARAMAN VENKITARAMAN FCA
33/2, ROAD NO 2, L.T.NAGAR
GOREGADN (WEST)
MUMBAI-400062
- 162 047983 MR. MIRANDA BRIAN SIMON ACA
RATAN MAMA & CO.,
P.O.BOX 13094
DUBAI-0
- 163 048216 MS. BANGARI HARSHA BHUPENDRA ACA
1102 AKRUTI ADITYA TOWERS
SLEATER ROAD
GRANT ROAD (WEST)
MUMBAI-400007
- 164 048352 MR. DOSHI RAJENDRAKUMAR PUNAMCHAND ACA
A-8 KESHAVBAUG APATMENTS
SHREYAS TEKRI
AMBAVADI
AHMEDABAD-380015
- 165 048408 MR. SAVLA VASANT MAUJI ACA
ESSAR HOUSE
11 KESHAVRAO KHADYE MARG
OPP.MAHALAXMI RACE COURSE
MAHALAXMI
MUMBAI-400034
- 166 048705 MR. BANGERA VINOD CHINNAYA ACA
BLDG NO 37 FLAT NO 403 SECTOR 2A
URANUS CHS LTD
EVERSHINES' MILLENIUM PARADISE
THAKUR VILLAGAE
KANDIVALI (EAST)
MUMBAI-400101
- 167 048721 MS. BHATT JAYSHREE KETAN ACA
4, SHANKERDEEP,
TAGORE ROAD,
SANTACRUZ (WEST)
MUMBAI-400054
- 168 049021 MR. KORGAAOKAR DHARMESH SHARAD ACA
801 MHATRE PALACE
LINK ROAD I.C COLONY
AHEAD OF SILVER COIN RESTAURANT
BORIVLI (WEST)
MUMBAI-400103
- 169 049215 MR. MALOO SANJAY HANUMAN ACA
M-2/3, HEERAMANI RATAN,
BANGUR NAGAR,
GOREGAON (WEST)
MUMBAI-400090
- 170 049244 MR. MATHEN MATHEW ACA
3 NIMBKAR HSG SOC.,
MALABAR HILL ROAD,
MULUND COLONY,
MUMBAI-400082
- 171 049379 MR. DAVE BIREN PRAVINCHANDRA ACA
C/5, SHRINATH APATMENTS
S.V.P. ROAD,BORIVLI-(WEST)
MUMBAI-400092
- 172 049407 MR. AGARWAL RAKESH NAVRANGRAI ACA
C/33, PETHE NAGAR, KEDARMAL ROAD
MALAD(EAST)
MUMBAI-400097
- 173 049408 MS. SHROFF ARMAITY NOSHIR ACA
1/C/503, SALSETE PARSI CHS
PUMP HOUSE
ANDHERI (EAST)
MUMBAI-400093
- 174 049499 MR. PARMAR YASHVANTLAL MOHANLAL ACA
3 MUKESH PARK
ON 132 RING ROAD
AHMEDABAD-380051
- 175 049525 MR. TARACHAND ASSANDAS VAZIRANI FCA
BLOCK NO A/263, ROOM NO. 525
NR. SATYA SAI NIKETAN HIGH SCHOOL
DIST. THANE
ULHASNAGAR-421004
- 176 049587 MR. KERAWALLA PHIROZ ARDESHER ACA
SLEATER HOUSE NO 2,
SLEATER ROAD,
MUMBAI-400007
- 177 049633 MRS. NISHA SUBHASH ACA
1003 A WING
ETERNIA COOP HSG SOCIETY
HIRANANDANI GARDENS
POWAI
MUMBAI-400076
- 178 049721 MR. ROONGTA PREM PRAKASH ACA
21 DOLLY APARTMENTS
CHINCHOLI ROAD, MALAD (WEST)
MUMBAI-400064
- 179 049793 MR. PRABHUDESAI ASHUTOSH VIJAY ACA
105 PRATHAMA CHS
LOKMANYA COLONY
PAUD ROAD, OPP VANAZ
KOTHRUD
PUNE-411038
- 180 049803 MR. GHOSH ADRISH MRINAL ACA
DAFFODIL B4-12
MAHINDRA GARDENS
S V ROAD, GOREGOAN (WEST)
MUMBAI-400062
- 181 051615 MR. PARAKH RAGHUVVEER KARAN FCA
TORRENT PRIVATE LTD
TORRENT HOUSE, 5TH FLOOR
NEAR DINESH HALL
OFF ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-0
- 182 051889 MR. GHATAK SUPRIO ACA
C/74/104 SECTOR 9
SHANTI NAGAR, MIRA ROAD
THANE DISTRICT
MIRA ROAD-401 107
- 183 056100 MR. SRIDHAR SIVARAM ACA
NEW PUNAM FLAT 16
29/30 PALI HILL UNION PARK
KHAR
MUMBAI-400052
- 184 057684 MR. DHOOT AVINASH ACA
C-404 BHOOMI CLASSIC
OPP. SABKUTCH SUPER MARKET
LINK ROAD, MALAD (WEST)
MUMBAI-0

135	057901	MR. SABLOK KETAN ACA NAVIN FLUORINE INDUSTRIES CHEMICAL DIVISION OF MAFATLAL IND LTD SURAT NAVSARI ROAD, BHESTAN SURAT-395023	198	079695	MR. SONI TARUN ACA SUZLON ENERGY LTD 5TH FLOOR, GODREJ MILLENNIUM BAND GARDEN PUNE-411001
136	058426	MS. SHARMILA L ACA 702 TULIP MAITRI GARDENS POKHRAN ROAD NO 2 THANE (WEST) THANE-400601	199	080081	MR. SHANTARAM DINKAR LATKAR ACA L77 MANTRI PARK II KOTHRUD PUNE-411029
137	060533	MR. AMIT KUMAR BHUWANIA ACA P/804 RAJ TILAK CO OP HSG SOC CITY LIGHT ROAD SURAT-0	200	080558	MR. SHRI NATH GUPTA FCA 12, OVERSEAS AVENUE NEAR NATUBHAI CENTRE GOTRI ROAD VADODARA-390007
138	060682	MS. MAJUMDAR MADHUMITA ACA 2/9 UMA APARTMENT NR RATNARAJ APARTMENT ADJANPATIA SURAT-0	201	081828	MR. GOVINDER SINGH FCA 703 16TH CROSS ROAD NEAR KHAR GYM KHANA CLUB KHAR (WEST) MUMBAI-400052
139	071370	MR. MAHENDRA KUMAR ACA PLDT NO 32 GULAB NAGAR DHANKAWADI PUNE-411043	202	092731	MR. NIRAJ PANDE ACA C/O. HAWKINS COOKERS LTD MAKER TOWER F 101 CUFFE PARADE MUMBAI-400005
140	072117	MR. SHASHANK CHATURVEDI FCA REMI METAL P LTD 11 CAMA INDUSTRIAL ESTATE GOREGAON (EAST) MUMBAI-400063	203	092825	MR. PADMANABHAN ANIL ACA D-1/28, SOLACE PARK 52/1, B T KAVADE ROAD GHORPADI PUNE-411036
141	074043	MR. ATUL SETH ACA PEPRICO INDIA HOLDINGS (P) LTD LOT NO 71 TO 74 NARODA INDUSTRIAL ESTATE AHMEDABAD-380001	204	094152	MS. SHAH AMISHA FCA 202, IIND FLOOR 145, ABBAS MANJIL KHAR (WEST) MUMBAI-400052
142	074146	MR. SURESH CHANDRA GATTANI ACA FLAT NO 54 B WING BUILDING PUNARVASU SRISHTI COMPLEX SECTOR-III, MIRARDAD(EAST) MIRA ROAD-401107	205	096235	MR. UMA SHANKAR ACA 704, C-41, TREVANI APARTMENT VASANT VIHAR POKHRAN RDAD NO. 2 THANE-400606
143	074323	MR. ANJANI SINHA ACA ECO MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD A 102 LAND MARK SUREN ROAD CHAKALA ANDHERI (EAST) MUMBAI-400093	206	097053	MS. VOHRA SHALINI ACA 902 TOWER - 7 SEA BREEZE TOWERS SECTOR - 16 NERUL NAVI MUMBAI-0
144	075201	MR. GAGRANI DINESH KUMAR FCA D-602 GAYATRI SATSANG COMPLEX NEAR GOKUL GAGAN TOWER OBEROI TOWER MUMBAI-400101	207	100003	MR. BARTAKKE NITIN SUHAS ACA 4, SIDHARTH SHREE, 1194/27E, GHOLE ROAD, PUNE-411005
145	077736	MR. BHANSALI BASANT ACA GRASIM INDUSTRIES LTD 9 TATA HEIGHT 5TH FLOOR WAKADEWADI MUMBAI PUNE ROAD PUNE-411003	208	100018	MR. SHAH HIMANSHU BIPIN ACA 116 MADHUBAN WORLI HILL ROAD, MUMBAI-400018
146	078114	MR. MANTRI SARWESHWAR ACA FLAT NO 502 B WING ASMITA UPAHAR I PODNAM SAGAR COMPLEX MIRA ROAD (EAST) THANE-401107	209	100027	MR. GUNDECHA NANDALAL RAMESHLAL ACA NELSON ENGINE SYSTEMS INDIA LTD PLOT NO 1 SILVER INDL ESTATE BHIMPORE DAMAN-396120
147	078721	MR. KUMBHAT ANUJ ACA 301, SUNDARAM 5B RAHEJA COMPLEX NEAR TOI PRESS MALAD EAST MUMBAI-400097	210	100036	MR. MANOHAR SATYANARAYAN MAHESHWARI ACA A-19, SIDDHARTH PARK BHUDERPURA ROAD, B/H C N VIDYALAYA AMBAWADI AHMEDABAD-380006
			211	100308	MR. BHARADIA RAJENDRA KUMAR ACA A-211 SUFLAM CO-OPERATIVE HSG SOCY LTD OPP AMIKUNJ NARANPURA POST OFFICE NEAR AMIKUNJ BUS STAND NARANPURA AHMEDABAD-380013

- 212 100441 MRS. SUDHA LOKESH CHEBIUM ACA
801 ORION B WING VASANT GALAXY
BANGUR NAGAR
GOREGOAN (WEST)
MUMBAI-400090
- 213 100524 MR. KAMATH RAJESH RAMESH ACA
301 A WING GREEN GAGAN
NEAR LOKHANDWALA
AKURLI ROAD KANDIVALI (EAST)
MUMBAI-400101
- 214 100598 MR. PERSHURAM SINGH ACA
201 VINAYAK APARTMENT
PLOT -56 SECTOR -4
DIST RAIGAD
NEW PANVEL-410206
- 215 100638 MR. SHAH KETAN SUMATILAL ACA
52, KHETAN ESTATE,
RAMCHANDRA LANE,
MALAD (WEST)
MUMBAI-400064
- 216 100736 MR. CHALKE RAJESH BHALCHANDRA ACA
SUKH SHANTI CO OP HSG SOC
R H 3 PLOT NO 8 SECTOR-8
AIROLI
NAVI MUMBAI-400708
- 217 100769 MR. PODDAR RAVIKANT VISHWANATH ACA
D-112/113
VENKATESH PLAZA
BHAYENDAR (WEST)
BHAYANDAR-401101
- 218 100791 MR. SHAH JITENDRA JAYANTILAL ACA
3A HARIKUNJ
ST. XAVIER'S STREET
PAREL
MUMBAI-400012
- 219 100822 MR. JAIN SURESH KUMAR ACA
B-38/503 UNIQUE VIHAR
SHANTI PARK
MIRA ROAD EAST
MIRA ROAD-401107
- 220 100912 MR. PANCHAL GAURAV ACA
555 OLD PDST ROAD
APARTMENTS C-2
EDISON NJ 08817
U S A-0
- 221 101042 MR. SHAH KETAN JAYANTILAL ACA
7/134, JUHU PRABHAT
NEW D N NAGAR, NEAR JUHU CIRCLE
ANDHERI (WEST)
MUMBAI-400053
- 222 101114 MR. PRAYAG SHASHIKANT GADGIL FCA
FLAT NO 20/21, 1ST FLOOR
JANAKI NIWAS, 8/10
SHENVIWADI, GIRGAUM
MUMBAI-400004
- 223 101162 MS. KASHMIRA KRISHNAKUMAR JOBANPUTRA ACA
C/O JAGSIDDH POPAT, 12 VALENTINE
5 N GAMADIA ROAD
OFF PEDDAR ROAD
MUMBAI-400026
- 224 101383 MS. JALAN REUNKA PURUSHOTTAM ACA
3/5 BHAGWATI APARTMENT
S.V. ROAD, MALAD (WEST)
MUMBAI-400064
- 225 101470 MS. GEORGINA KURIAN ACA
A 602 MANAVSTAL II, GOKULDHAM
GOREGAON (EAST)
MUMBAI-400063
- 226 101474 MRS. PURVI MEHUL SURKATHA FCA
D1/11 KHIRA NAGAR
S.V. ROAD,
SANTACRUZ (WEST)
MUMBAI-400054
- 227 101767 MS. DHIRUVA KRUTI NIRANJAN ACA
B/306, KUBER BHUVAN
BAJAJ ROAD
VILE PARLE (WEST)
MUMBAI-400056
- 228 101852 MR. ZARAPKAR PRASHANT VISHNU ACA
162/27, MOHAN BUILDING
III FLOOR, J.S.S. ROAD
GIRGAUM
MUMBAI-400004
- 229 101892 MR. PALAN MEHUL JAYANT ACA
DATAMAS P.O.BOX 10993
DIPLOMATIC AREA
MANAMA
BAHRAIN-0
- 230 101914 MR. SIKERIYA RAVI BRIJMOHAN ACA
A-301 SHAH ARCADE
NEAR WESTERN EXPRESS HIGHWAY
RAVI SATI MARG
MALAD (EAST)
MUMBAI-400097
- 231 101928 MR. VALAKATI GANESH VEERESHAM ACA
3, KAILASH 28,
SAHAKAR NAGAR
ANDHERI (WEST)
MUMBAI-400053
- 232 101941 MRS. APARNA JEETENDRA MHATRE ACA
FLAT NO 310 C WING
MUNOTH RESIDENCY
OPP HOC COLONY
BEHIND GARDEN HOTEL
THANE NAKA
PANVEL-406210
- 233 102090 MS. PENDSE SEEMA SUDHAKAR ACA
A-101, SURYODAYA APARTMENT,
SHIV VALLABH CROSS ROAD,
RAWALPADA, (301 LAST STOP),
DAHISAR (EAST),
MUMBAI-400068
- 234 102138 MR. REUBEN ABOIT MENEZES ACA
1009/4, PROMOD APARTMENTS
MODEL COLONY FLAT NO 10
PUNE-411016
- 235 102145 MR. ACHARYA ASHUTOSH KRISHNAKUMAR ACA
432, SHINGNE BUILDING
LAMINGTON ROAD,
MUMBAI-400004
- 236 102204 MS. MEHTA MANISHA JAYENDRA ACA
3/10, 34, SWAPNAGANDHA CO.OP HSG SOC.,
BHAWANI SHANKAR ROAD,
NEAR KABUTARKHANA,
DADAR (WEST)
MUMBAI-400028
- 237 102322 MR. MEHTA MEHUL RAMESHCHANDRA ACA
3 MATRUCHHAYA,
PAREKH LANE,
KANDIVLI (WEST)
MUMBAI-400067
- 238 102594 MR. SHAH NIHAR VIJAYKUMAR ACA
795A "JEEVAN SMRUTI",
2ND FLOOR,
FLAT NO.7, 3RD ROAD,
KHAR (WEST)
MUMBAI-400052

- | | | | | | |
|-----|--------|--|-----|--------|--|
| 239 | 102643 | MR. CYRUS A NARIMAN FCA
B/13, BRINDAVAN, 2ND KOLDONGRI LANE
SAHAR ROAD, ANDHERI (EAST)
MUMBAI-400069 | 254 | 103338 | MR. SACHIN VILAS SAHASRABUDDHE ACA
D-1, SHALMAR SOCIETY
477/B, PARVATI
PUNE-411009 |
| 240 | 102702 | MR. KRISHNAKUMAR ARUNKUMAR KABRA ACA
VRINDAVAN II A WING
FLAR 603 RAHAJA TOWNSHIP
MALAD (EAST)
MUMBAI-400098 | 255 | 103350 | MR. JAIDEEP KISHORE KHATAU ACA
ERNST & YOUNG EXPRESS TOWERS
18TH FLOOR NARIMAN POINT
MUMBAI-400004 |
| 241 | 102730 | MR. DEEPAK HARILAL LALWANI FCA
31/603 SHALMALI VASANT VIHAR
POKRAN ROAD 2
THANE (WEST)
THANE-400601 | 256 | 103445 | MR. CORREIA FRANCIS ANTHONY ACA
10 PRAFULLA CO OP HSG SOCIETY
COLLEGE LANE, AGAR BAZAR
DADAR
MUMBAI-400028 |
| 242 | 102777 | MR. GURUSWAMY SATHYANARAYAN ACA
401, "DNS TOWER" COURT NAKA
KELKARWADI, THANE (WEST)
THANE-400601 | 257 | 103484 | MR. KHARE RAVINDRA NARAYAN ACA
SATYA NIWAS BEHIND RATION OFFICE
DR AMBEDKAR ROAD
VISHNUNAGAR
DOMBIVALI-421202 |
| 243 | 102814 | MS. SAHASRABUDHE PRADNYA MADHUSUDAN ACA
C/12, SADHNA SOCIETY, TEJPALSAMME
VILE PARLE (EAST)
MUMBAI-400057 | 258 | 103590 | MR. DALAL DHARMESH KIRIT ACA
301 MEGHNA APARTMENTS
DIXIT CROSS ROAD NO 1
VILE PARLE (EAST)
MUMBAI-400057 |
| 244 | 102818 | MR. SHAH MANISHKUMAR KIRITKUMAR ACA
A-11, DIPIKA SOCIETY - 2
OPP. HARNI ROAD WATER TANK
VADODARA-390022 | 259 | 103702 | MS. MEHTA PURVI ARUN ACA
13/42, NAVJIVAN SOCIETY
LAMINGTON ROAD
MUMBAI-400008 |
| 245 | 102842 | MR. BAPNA PRASHANT NARENDRA ACA
401, MIDWAY APARTMENTS
A.S.M. MARG, PRABHADEVI
MUMBAI-400025 | 260 | 103713 | MR. DHOLAKIA NIKUNJ NITIN ACA
19/B, PARVATI MANSION,
ALI BHAI PREMJI MARG,
GRANT ROAD,
MUMBAI-400007 |
| 246 | 102890 | MR. GUPTA DWESH ACA
B/301 GULMOHAR POONAM COMPLEX
ASHA NAGAR KANDIVLI (EAST)
MUMBAI-400101 | 261 | 103982 | MR. JOSHI RUPESH RAMNARAIN ACA
603 USHA KUNJ
30-D JUHU TARA ROAD
KOLIWADA
MUMBAI-400049 |
| 247 | 102896 | MR. SHARMA GAUTAM GOVINDRAM ACA
A/5, FLAT NO 11 PARAG
SHANTINAGAR CHS, SECTOR 4
SHANTINAGAR, MIRA ROAD (EAST)
MIRA ROAD-401107 | 262 | 104004 | MR. SHRIKANT KUTTY SHETTY ACA
102/B, MAHESHWAR-1 CHS
B.B.MARG, DAHISAR BRIDGE,
DAHISAR (WEST)
MUMBAI-400068 |
| 248 | 102923 | MS. MONIKA MANOHAR TIKLE ACA
21 ADVAIT VIVEK SOCIETY
PADMAVATI
PUNE-411009 | 263 | 104093 | MR. ASHISH SATYAPRAKASH JAGNANI FCA
120/B, MADHUBAN APTS.,
WORLI HILL ROAD,
MUMBAI-400018 |
| 249 | 102988 | MR. SUNIL KRISHNA VARTAK FCA
"SARTHAK" BEHIND REMEDY CHURCH
MANDLA DIST: THANE
VASAI-401201 | 264 | 104102 | MR. GHOLAP ANAND ACHYUT ACA
403/3A VAIBHAVGIRI
SIDHACHAL PHASE I CHS
NR VASANT VIHAR
POKHRAN ROAD NO 2
THANE-400601 |
| 250 | 103055 | MR. LAKSHMINARAYAN PRASAD KARTHIKEYAN ACA
22, LAAVANYA, CHHEDA NAGAR
CHEMBUR
MUMBAI-400089 | 265 | 104112 | MR. SUNDARESAN THIAGARAJAN FCA
FLAT NO 4 TYPE IV QUARTERS
C T O COMPOUND, JUHU ROAD
SANTACRUZ (WEST)
MUMBAI-400054 |
| 251 | 103086 | MR. BALRAJ DUBEY ACA
D 11 EASTERN COURT
SURVEY NO 74A (CTS NO 912)
B T KAWADE ROAD
GHORPODI GAON
PUNE-411001 | 266 | 104130 | MR. KALPESH NITISH SHAH ACA
DHOTRE NIVAS,
GROUND FLOOR,
TILAK MANDIR ROAD
VILE PARLE (EAST)
MUMBAI-400057 |
| 252 | 103178 | MR. RUNGTA ALOKKUMAR ARUNKUMAR ACA
17, RIDHI SIDHI SADHAN,
TEJPAL SCHEME ROAD NO.2,
VILE PARLE (EAST)
MUMBAI-400056 | 267 | 104134 | MR. RACHCHHA KETAN RAMESHCHANDRA ACA
122/123, GULAB VATIKA SOCIETY
TANDALJIA ROAD
NR. TUBE COMPANY
VADODARA-390020 |
| 253 | 103236 | MR. SAMIR GOPALJI CHHADWA ACA
OFFICE NO 2,
RAJDEEP KASTURBA
X RD NO 1 BORIVALI-EAST
MUMBAI-400066 | | | |

- 258 104163 MR. VORA HIREN MAHENDRAKUMAR ACA
201 SAI ARMAAN
ASHOK CHAKRAVARTY MAIN ROAD
ASHOK NAGAR, KANDIVLI (EAST)
MUMBAI-400101
- 259 104198 MR. SARDHARA SANJAY KUVARJIBHAI ACA
313/6920 (1) ANAND LOK
RAM NARAYAN NARKAR ROAD
GHATKOPAR (EAST)
MUMBAI-400077
- 270 104304 MR. AWASTHI MANMOHAN PRABHASHANKER ACA
FLAT NO. 83 WING A 8TH FLOOR
TRUPATI TOWER CO OP HSG SDC LTD
THAKUR COMPLEX, KANDIVALI (EAST)
MUMBAI-400101
- 271 104343 MR. DOMADIA PRASHANT DALPATRAI ACA
2/18, KAILASH JYOT, DERASAR LANE
GHATKOPAR (EAST)
MUMBAI-400077
- 272 104349 MS. BADSHAW AVAN JAL ACA
ARTHUR ANDERSEN, 17TH FLOOR
EXPRESS TOWERS
NARIMAN POINT
MUMBAI-400021
- 273 104429 MRS. MANISHA HEMANT LAKHOTIYA ACA
L-2/503 NEELYOG RESIDENCY
GAURISHANKAR WADI, PANTNAGAR
GHATKOPAR (EAST)
MUMBAI-400075
- 274 104491 MR. SUNDAR RAMASWAMY ACA
12/159, 'SRIKRUPA'
GARODIA NAGAR,
GHATKOPAR (EAST)
MUMBAI-400077
- 275 104531 MS. LAILA ANN FERNANDES ACA
35, LOVEDALE MINDO DESAI MARG
COLABA
MUMBAI-400005
- 276 104532 MR. AMIT AVINASH NADKARNI ACA
11 VINAY, B K MARG
MUMBAI-400016
- 277 104560 MR. JAYESH HARKHCHAND DEDHIA ACA
ROOM NO. 6, GANESH CHAWL,
TULASKARWADI,
M G C R ROAD NO. 1
KANDIVALI (WEST)
MUMBAI-400067
- 278 104558 MRS. JUI AMIT NADKARNI ACA
11 VINAY B K MARG
MAHIM
MUMBAI-400016
- 279 104569 MR. RAKESH SHYAMLALJI AGRAWAL ACA
C-2, JAIPREM SOCIETY,
CAMP ROAD, SAHZBAUG
AHMEDABAD-380004
- 280 104580 MR. VINEET SARAF ACA
E-102 JYOTI ARCH
S V ROAD, KANDIVLI (WEST)
MUMBAI-400067
- 281 104586 MR. SONAR SANTOSHKUMAR RAMMURTI ACA
A-42, SHUBHAM, OPP. E S I S HOSPITAL,
AKRULI ROAD, KANDIVALI (EAST)
MUMBAI-400101
- 282 104608 MS. KAJAL SUCHIT KAMAT ACA
N2/3, SUNDER NAGAR,
S.V.ROAD, MALAD (WEST)
MUMBAI-400064
- 283 104641 MRS. ASHWINI ASHISH SHETYE ACA
B/8/2/9 DOODHSAGAR CO. OPHSG. SOCY
CIBA ROAD
NEAR AAREY CHECKNAKA
GOREGAON (EAST)
MUMBAI-400065
- 284 104779 MR. RAMAKANT PRAKASH SHEMBEKAR FCA
4 VISHNU, 74,
DAHANUKAR COLONY
LANE NO. 6, KOTHRUD,
NEAR KCL CIRCLE
PUNE-411029
- 285 104827 MR. SIOHARTHA MADANLAL GUPTA ACA
C/201, TIRUPATI ASHISH CO-OP HSG SOC.,
SHAHAD (WEST)
SHAHAD-421103
- 286 105058 MR. RAJESH MOOLCHAND BHATIA ACA
107 HASHIM BLDG,
2ND FLOOR, MOHD ALI ROAD
MUMBAI-400003
- 287 105091 MS. JYOTHI CHANDRASEKHARAN NAIR ACA
JN-4, BUILDING NO 13,
FLAT NO 4, SECTOR 10,
VASHI,
NAVI MUMBAI-400703
- 288 105103 MR. BALAJI VENKATACHALAM ACA
FLAT NO 301, BLDG 3 B
SHIV BHAGTANI MANOR
BEHIND JALVAYU VIHAR
NR S M SHETTY SCHOOL,
CHANDIVALI
MUMBAI-400072
- 289 105135 MS. PARNA KARUNA NATH BANERJEE ACA
602 PARAG, PEDDAR ROAD
MUMBAI-400026
- 290 105293 MR. AJAY HARISH LAKHANI ACA
A- 108, PREMJI NAGAR
DAULAT NAGAR
BORIVALI (EAST)
MUMBAI-400066
- 291 105365 MR. NIKHIL GHANSHYAM DAGA ACA
B-303 VAIBHAV APARTMENT
OLD PRABHADEVI LANE
OPP TATA PRESS, PRABHADEVI
MUMBAI-400025
- 292 105370 MR. ANIL BANWARILAL AGRAWAL ACA
702 SHIV DARSHAN CHS
OLD MHB COLONY GORAI ROAD
BORIVALI (WEST)
MUMBAI-400091
- 293 105446 MR. RAJESH SHASHIKANT REWATKAR ACA
PLOT NO 219,
GANDHI NAGAR
NAGPUR-440010
- 294 105447 MS. MUKTA GAUTAM ACA
SHILPA, A-8 29, RAJAWADI C H S.
RAJAWADI,
GHATKOPAR (EAST)
MUMBAI-400077
- 295 105519 MR. NIKHIL ANANDBHAI GAJJAR ACA
A/4, DESAI PARK,
NR RAILWAY LINE ROAD,
JIVRAJ PARK AREA
AHMEDABAD-380051
- 296 105528 MR. GAURAV KAMALKRISHAN CHOPRA ACA
D-203 RUNBHAL CENTRE
BSD MARG, DEONAR
MUMBAI-400088

297	105612	MRS. SEEMA VIRAL SANGHANI ACA 10/21 VERMA NAGAR, OLD NAGARDAS ROAD ANDHERI (EAST) MUMBAI-400069	312	106735	MR. AMLESH DAYANAND MASKIKAR ACA BLDG NO 2 D, FLAT NO 402 POWAI VIHAR, BLDG NO 2, CO-OP HSG SOC POWAI VIHAR COMPLEX ADJ SHANKARACHARYA MARG, POWAI MUMBAI-400076
299	105614	MR. DEVANG HASMUKHBHAI SHAH ACA C-20 & 21 SWAMINARAYAN NAGAR 1, NEAR GANDHI PARK, HARNI RDAD VADODARA-390006	313	106754	MS. MEENA KETAN SHAH ACA 7/134 JUHU PRABHAT NEW D N NAGAR NEAR JUHU CIRCLE ANDHEERI (WEST) MUMBAI-400053
299	105655	MR. SANTOSH KUMAR CHOUDHURY ACA NETWORK HOUSE, G 7 MID C ANDHERI (EAST) MUMBAI-400093	314	106803	MR. AMIT JADAVJI DHAROD ACA A-202 VISHWAMITRA, SAPTARSHI PARK NR SWAPNA NAGAR MULUND (WEST) MUMBAI-400080
300	105852	MS. NEETI KAILASH SARAF ACA E-102 JYOTI ARCH, S V ROAD, KANDIVLI (WEST) MUMBAI-400067	315	106813	MR. GOPAL BALACHANDRAN ACA 32, SWATI, TARANGAN COMPLEX, POKHARAN ROAD NO-1, THANE (WEST) THANE-400506
301	105985	MR. ANIL BHASKARAN NAIR ACA C/15, GURUKRUPA NAGAR LAVANYA SOCIETY, NAHUR VILLAGE, MULUND (WEST) MUMBAI-400080	316	107050	MR. RAVI PRAKASH AGARWAL ACA PH-4 8TH FLOOR MARUTHI TOWERS SECTOR 11 OPP SAROVAR VIHAR CBD BELAPUR NAVI MUMBAI-400614
302	106115	MR. GAJANAN PANDURANG POTE ACA FLAT NO 402 BUILDING NO 12 MILLENIUM PARK, HARI OM NAGAR MULUND(EAST) MUMBAI-400081	317	107092	MR. MUKESH SITARAM SHARMA ACA D 301 SONI PARADISE OFF RAM MANDIR ROAD VAZIR NAKA, BORIVLI (WEST) MUMBAI-400091
303	106116	MR. TAILOR SHAILESH HARKISHANDAS ACA A- 1/10 SHRI PUNIT NAGAR SOC S V ROAD, BORIVALI (WEST) MUMBAI-400092	318	107111	MS. ANITA BAL ACA 16/86, VANMALI, GARODIA NAGAR GHATKOPAR - (EAST) MUMBAI-400077
304	106217	MR. MADHAVJI MOHANLAL BHADRA ACA 12 DAMODAR NIWAS 32/34 C P TANK ROAD MUMBAI-400004	319	107128	MRS. RASIKA ATUL REGE ACA 1958, SADASHIV PETH, MADWALE COLONY, KOPARKHAIRANE PUNE-411030
305	106365	MR. SANKETKUMAR NALINCHANDRA MAVANI ACA 102, OM DIVYA APTS, TRIKAM DAS ROAD NEAR CINE STAR CINEMA KANDIVALI (WEST) MUMBAI-400067	320	107235	MR. SHASHI KANT KHEMANI ACA B-605 AHINSA ENCLAVE OPP SABKUCHH SUPER MARKET LINK ROAD, MALAD (WEST) MUMBAI-400064
306	106533	MR. VIJAY HARSUKHLAL MEHTA FCA JOSH CHAMBERS 3RD FLOOR SIR P M ROAD FORT MUMBAI-400001	321	107238	MR. AJAY MURLIDHAR PHALOD ACA A/19/20, NEMINATH APARTMENTS SHIMPOLI ROAD BORIVALI (WEST) MUMBAI-400092
307	106615	MR. VENKATKRISHNA RAJAVENKAT RAO ACA C-15, KAILASH APARTMENT SARASWAT COLONY DOMBIVALI ON - (EAST) DOMBIVALI-421201	322	107265	MR. CHANDRASHEKHAR SOMANATH KAMATH ACA DUBHASH BLDG. R N 1 GOKHALE ROAD DADAR - (WEST) MUMBAI-400028
308	106628	MR. DARSHAN ANIL SHAH ACA 5, PARIJAT, 3RD FLOOR, 54 VADILALA, PATEL MARG, GRANT ROAD, MUMBAI-400007	323	107305	MR. DINESH MOHANLAL JASRAPURIA ACA 204 IRIS A UNNATHI GARDENS POKHARAN ROAD NO 1 THANE (WEST) THANE-400606
309	106643	MR. SACHIN SHAMRAO AMONKAR ACA FLAT NO 8 NIRMALA APARTMENTS SANEWADI AUNDH PUNE-411007	324	107329	MR. KIRAN ARAVINDAKSHAN MENON ACA FLAT 402 A -1, KUMAR PRERANA SURVEY NO 158/1/1 NEW D P ROAD, AUNDH PUNE-411007
310	106668	MR. KISHOR SHANTARAM BERDE ACA 301/266-A TEMPLE AVENUE DEODHAR ROAD, MATUNGA (EAST) MUMBAI-400019			
311	106673	MS. NAMEETA SHRIKANT KAMAT ACA 132 POORNANAND, BANGANGA ROAD WALKESHWAR MUMBAI-400006			

- 325 107461 MR. SHANKAR VISHNU PAWAR ACA
4/228, BADRIKASHRAM
SECOND KHETWADI
MUMBAI-400004
- 326 107489 MRS. SUJATA SANJAY VARMA ACA
104 G WING BEHIND SUNDAR NAGAR
OPP DALMIYA COLLEGE
S V ROAD, MALAD (WEST)
MUMBAI-400054
- 327 107494 MR. VIREN NAVNEETBHAI PAREKH ACA
24-B, SUKHANAND CHAWL
KHATGERGALI, III FLOOR,
ROOM NO.46, C.P. TANK
MUMBAI-400004
- 328 107565 MR. AGNIHOTRI AKSHAY ACA
302 ABHISHEK, NEAR SPRING MILLS
DR AMBEDKAR ROAD
DADAR
MUMBAI-400014
- 329 107671 MR. BRAJENDRA B. TALESARA ACA
102 NUTAN SIDHARTH APARTMENT
ANAND NAGAR, DIST THANE
VASAI (WEST)
VASAI-0
- 330 107675 MR. ZUBIN DINSHAW MISTRY ACA
BLOCK M-2, GROUND FLOOR
CUSROW BAUG,
SHAHID BHAGAT SINGH ROAD
COLABA CAUSEWAY
MUMBAI-400001
- 331 107855 MR. HOSHI BEJAN BHARUCHA ACA
7 NIRMALA MAHAL
12 A BOMANJI PET'T ROAD
MUMBAI-400036
- 332 107912 MR. HARSHAL AVINASH SULAKHE ACA
4/67, GODAVARI PRAVARA, D N NAGAR,
ANDHERI (WEST)
MUMBAI-400053
- 333 107931 MR. PANKAJ VINODKUMAR DHANDHANIA ACA
8/68, PIRAMAL NAGAR
S V ROAD, GOREGAON - (WEST)
MUMBAI-400067
- 334 108016 MR. JITENDRA S GUPTA ACA
33, BABHA CHAWL
KHETWADI, 13TH LANE
MUMBAI-400004
- 335 108029 MR. TANMAY DHANANJAY KELKAR ACA
11/55 JAY VIJAY COOP SOC
SAHAR ROAD PARSIWADA
ANDHERI (EAST)
MUMBAI-400099
- 336 108112 MR. JAYESHKUMAR KALABHAI PATEL ACA
JAYRAJ HOUSE, NANO PATEL VAS VILLAGE
KOTESHWAR, POST MOTERA
GANDHIDHAM-382424
- 337 108125 MS. SHEETAL PRABHAKAR GHOSALKAR ACA
101 KHEMRAJ BHUVAN, 1ST FLOOR, R NO 19,
KHETWADI, 7TH LANE
MUMBAI-400004
- 338 108215 MR. MUHAMMAD ZUBAIR MEMON ACA
202 SHABNAM, 33 S V ROAD
ANDHERI (WEST)
MUMBAI-400058
- 339 108326 MR. PURSHOTTAM N SHARMA ACA
404 GREEN AVENUE, 1, RAHEJA ESTATE,
KULUPWADI, BORIVALI (EAST)
MUMBAI-400066
- 340 108340 MR. VARMA PREMSINGH ACA
12, NARENDRA BHAVAN, MURBAD ROAD
NEAR RAJASODA FACTORY
KALYAN-421301
- 341 108382 MR. MANISH SURESH MEHTA ACA
101-102, MUNISUVRAT APTS.
SARVODAY NAGAR
MULUND (WEST)
MUMBAI-400080
- 342 108413 MR. NIPUN DEEPAKKUMAR SHAH ACA
802, ADARSH TOWER
ADARSH VIHAR COMPLEX
DFF MARVE ROAD
MALAD - (WEST)
MUMBAI-400064
- 343 108416 MR. HRISHIKESH ANANT MEHENDALE ACA
AMRUT KUMBHACO OP HSG
SDC., SWATI 6A, CHITALE ROAD
DADAR
MUMBAI-400028
- 344 108450 MS. MAMTA SINGH ACA
D-108, 1ST FLOOR
SINGLETON FLOORS
SOUTH CITY-II
HARYANA
GURGAON
- 345 108488 MRS. SMITA HIMANSHU PATANGE ACA
B6 103 BRAHMAND
PHASE III, AZAD NAGAR
THANE (WEST)
THANE-400607
- 346 108491 MR. PATEL KETAN ACA
A-601, MORESHWAR KRUPA CHS LTD
PANNALAL GHOSH MARG
LIBERTY GARDEN
ROAD NO 3 EXTN
MALAD (WEST)
MUMBAI-400064
- 347 108520 MR. GAJANAN PRAKASHRAO MAMIDWAR ACA
C/O MR. PRAKASH BALAJI MAMIDWAR
AT & POST : BITARGAON
TAL : UMERKHED
PUNE-0
- 348 108549 MS. NISHITA RAMESH MODI ACA
1001 GREEN RIDGE NO II
100FT ROAD CHIKOO WADI
END OF SHIMPOLI
BORIVALI (WEST)
MUMBAI-400092
- 349 108659 MR. MURARKA ANUPAM ACA
THE ASSOCIATES CEMENT COS LTD
NAGPUR REFRACTOR WORKS
PLOT NO A-1, BUTIBORI INDUSTRIAL AREA
BUTIBORI
NAGPUR-0
- 350 108878 MR. SURESH KUMAR RAMAN NAIR ACA
217/A 13 M H B COLONY
DHYNAESHWAR NAGAR
SEWRI WADALA
MUMBAI-400031
- 351 108914 MS. JAYA HARSHAD PAREKH ACA
1-KAMALA APARTMENT
J P ROAD, ANDHERI (WEST)
MUMBAI-400058
- 352 108918 MR. UMESH OMPRAKASH BIYANI ACA
B1/301 HARASIDDH PARK
PAWAR NAGAR, POKHRAN ROAD NO 2
THANE (WEST)
THANE-400601

- 353 108937 MS. AMI SUNIL CHRISTIE ACA
ANIKIT CHAMBERS, 5TH FLOOR
CHAUTA BRIDGE
SURAT-395003
- 354 108964 MR. PRASHANT CHANDRAKANT SHAH ACA
15, KASTURI, 3RD FLOOR,
GOSHALA ROAD,
MULUND (WEST)
MUMBAI-400080
- 355 108996 MR. MANISH NAVNITRAI VORA ACA
C/502 GOKUL DEVINE
NEXT TO KALPANA GARAGE
OPP IRLA JAIN TEMPLE
VILE PARLE
MUMBAI-400056
- 356 109003 MR. GHOLAM HOSSEIN ABBAS MANSOORI ACA
ARTHUR ANDERSON
65 MAKER TOWERS F
CUFFE PARADE
MUMBAI-400005
- 357 109019 MR. SACHIN SURESH AHUJA ACA
6/10 MATUNGA NAVJIVAN CHS LTD
172 TULSI PIPE ROAD
MATUNGA (WEST)
MUMBAI-400016
- 358 109046 MS. ZINOBI MINOO MOVDAWALA FCA
G/57, VEERA DESAI ROAD,
ANDHERI (WEST)
MUMBAI-400053
- 359 109147 MR. NIKHIL GHANASHYAM DATYE ACA
8, CHANDAN APARTMNT,
PENOHARKAR COLONY,
SANE GURUJI NAGAR,
JAIL ROAD, NASIK ROAD,
NASHIK-422101
- 360 109182 MS. INGRID PRIYA JOHN DA CUNHA ACA
E THE SPECTRUM
14TH B ROAD KHAR
MUMBAI-400052
- 361 109198 MR. NILESH SUDHAKAR KHATRI ACA
217 'SHARAD', SAHAKAR NAGAR 2,
PUNE-411009
- 362 109231 MR. SWETAL MANISH SHAH ACA
MADHUKUNJ 4TH FLOOR
NAVROJI X LANE
GHATKOPAR (WEST)
MUMBAI-400086
- 363 109256 MR. TUSHAR MADHAV SARAF ACA
YAMUNA A/102, VASANT SAGAR
THAKUR VILLAGE
OFF WESTERN HIGHWAY
KANDIVALI (EAST)
MUMBAI-400101
- 364 109282 MR. ASHISH DMPRAKASH SONTALIA ACA
E 101/102 LOK SARITA, MILITARY RD
MAROL MAROSHI
ANDHERI (EAST)
MUMBAI-400059
- 365 109305 MR. HIMANSHU SUBHASHCHANDRA AGRAWAL ACA
ERNST AND YOUNG HOUSE
THE METROPOLE, F-1 1ST FLOOR
BUND GARDEN ROAD
PUNE-411001
- 366 109377 MR. MOHAN BHOJA SHETTIGAR ACA
103 SAIRAJ APARTMENT
KOPARGAON
NR NAGESHWAR TEMPLE (WEST)
AHMEDNAGAR-421202
- 367 109501 MR. MANISH MADHUSUDAN SHAH ACA
B/105 HIGHLANDHARMONY
P PLOT PANCHSHEEL
ENCLAVE MAHAVIR NAGAR
KANDIVALI (WEST)
MUMBAI-400067
- 368 109639 MR. MELWIN SEQUEIRA ACA
7/9 GAJANAN COLONY
GOREGAON (WEST)
MUMBAI-400062
- 369 109694 MR. HARSHIT MANOJ MEHTA ACA
26, SUDARSHAN BUILDING
13TH FLOOR, 22, L.D. RUPAREL MARG,
MALBAR HILL,
MUMBAI-400006
- 370 109725 MR. GURUPRASAD PARAMESHWAR MAYYA ACA
FLAT NO 201, BALAJI KRIPA
PLOT NO 36, SECTOR 19
NERUL (EAST)
NAVI MUMBAI-400706
- 371 109728 MR. JAGDISH MULCHAND THADANI ACA
DSP MERILL LYNCH LTD
MANAGER - FINANCE
10TH FLOOR, MAFATLAL CENTRE,
NARIMAN POINT
MUMBAI-400021
- 372 109746 MR. SUSHIL HARIPRASAD BUDHIA ACA
602 'B' WING SATELLITE GARDEN
AK VAIDYA MARG
GOREGAON (EAST)
MUMBAI-400063
- 373 109833 MR. ROY MELVIN GALDIN D'CUNHA ACA
22 HEATHER COOP HSG SOCIETY
BAMANWADA SAHAR P O
MUMBAI-400099
- 374 109903 MR. PRAFULLA PANNALAL SOMANI ACA
SUPRABHATAM, S B I COLONY - 7
BLOCK - 12, JATHARPETH
AKOLA-444005
- 375 109909 MR. NILAY RAJNIKANT SHAH ACA
A 4/304 VEENANAGAR
LB S ROAD, MULUND (WEST)
MUMBAI-400080
- 376 109968 MR. DIPEN CHANDRAKANT SHAH ACA
104/4, JAWAHAR NAGAR
5TH ROAD,
GOREGAON (WEST)
MUMBAI-400062
- 377 109980 MR. TEJAS ASHOKKUMAR SHAH ACA
6 CENTURY APARTMENT
ABOVE STHANAKVASHI UPASHRAY
VASANA BARRAGE ROAD
VASANA
AHMEDABAD-380007
- 378 110161 MR. SUNIL KISHANBHAI POMAL ACA
2 GOLDEN SIX APARTMENT
BHAIKAKA NAGAR
THALTEJ ROAD
AHMEDABAD-380051
- 379 110210 MR. ATUL VINAYAK PAI ACA
402 /C PANCHARATNA APARTMENT
BHAIROBA NALA
SHOLAPUR ROAD
PUNE-411013
- 380 110219 MS. SRIMATHI RAJAGOPALAN IYENGAR ACA
D/908 USHA NAGAR, VILLAGE ROAD
BHANDUP
MUMBAI-400078

- | | | | | | |
|-----|--------|---|-----|--------|--|
| 331 | 110237 | MS. RADHA J TIBREWALA ACA
'GUNJAF' - 23, PARIJAT NAGAR
OPP. BHONSALA MILITARY SCHOOL
NEAR TULSI BLDG
NASHIK-422005 | 395 | 111143 | MR. KAPIL VIJAYKUMAR AGRAWAL ACA
CHINTESHWAR WARD-95
NR. KAAL BHAVAN MANDIR
BAGADGANJ
NAGPUR-440008 |
| 332 | 110284 | MR. MAHESH KUMAR AGAL ACA
1ST MANSARI BUNGLOWS
SILVER GOLD COMPOUND
OPP UBI MANDPESHWAR ROAD
BORIVALI (WEST)
MUMBAI-400092 | 396 | 111175 | MR. VIRAL VIJAY PAREKH ACA
B/2 BLOCK NO 8, PREMJI NAGAR,
ROAD NO 10,
DAULAT NAGAR,
BORIVALI (EAST)
MUMBAI-400066 |
| 333 | 110489 | MR. SIDARTH PREDIMAN KHASHU ACA
FLAT NO.5, TYPE -IV, FILM T.V. INSTITUTE OF INDIA
STAFF QUARTERS
PUNE-411004 | 397 | 111252 | MR. CHETAN KIRANRAJ BHANDARI ACA
293/26 SOPARIWALA HOUSE
PRINCESS STREET, MARINE LINES
MUMBAI-400002 |
| 334 | 110546 | MS. SHILPA SHANTILAL VIMALA MEHTA ACA
801 SHREENATH CO OP SOCIETY
11/B, DR DESHMUKH LANE
MUMBAI-400004 | 398 | 111275 | MS. MADHU RAM VIRWANI ACA
C-15/29 NEW TENAMENTS
ULHASNAGAR-421004 |
| 335 | 110552 | MR. VISHAL JYOTINDRA GOR ACA
CADILA HEALTH CARE LTD.
SR. ECEVUTIVE MANAGEMENT AUDIT
XYZDUS TOWER, OPP. ISKCON TEMPLE,
SARKHOJ GANDHINAGAR HIGHWAY
AHMEDABAD-380015 | 399 | 111278 | MR. VIRAL JITENDRA THAKKER ACA
A/104 WAGHANI VIHAR
NARAYAN NAGAR ROAD
BHAYANDAR (WEST)
BHAYANDAR-401101 |
| 336 | 110554 | MR. LALIT PURSHOTTAM BANG ACA
403 AMEYA ARCADE, OPP BLDG NO 10,
OLD M H B COLONY
GORAI ROAD, BORIVLI (WEST)
MUMBAI-400091 | 400 | 111279 | MR. RAJESH GERIMAL PATHAI ACA
LEELA SADAN, FLAT NO 202
2ND FLOOR, B K NO 1508/1
SECTION 30A, NEAR V T C GROUND
ULHASNAGAR-421004 |
| 337 | 110613 | MR. SIMSON K V DEVASSY ACA
M H B 24/167, SHIVAI NAGAR
THANE (WEST)
THANE-400606 | 401 | 111364 | MS. AMISHA HARENDRA DOSHI ACA
PLOT NO 87, FLAT NO 5
SHANKAR VILLA CO OP HSG SOCY
GROUND FLOOR, SION (WEST)
MUMBAI-400022 |
| 338 | 110681 | MR. DEEPAK MURARILAL DALMIA ACA
A 703 SARASWATI VASANT SAGAR
THAKUR VILLAGE, KANDIVALI (EAST)
MUMBAI-400101 | 402 | 111381 | MR. KRUPAL BHUPENDRA MANIAR ACA
A/5 ARIHANT BUILDING
NEAR DAMODAR WADI
ASHOK NAGAR,
KANDIVALI (EAST)
MUMBAI-400101 |
| 339 | 110731 | MS. MISHA ARVINDKUMAR INTWALA ACA
7 JAMNAGARWALA BLDG
C.D. BARFIWALA LANE, ANDHERI (WEST)
MUMBAI-400058 | 403 | 111470 | MR. MAYANK NALIN ASHAR ACA
M/S G D APTE & CO
1202/17E DREAM PRESIDENCY
OFF APTE ROAD, SHIVAJI NAGAR
PUNE-411004 |
| 390 | 110745 | MR. RAJESH GAGRANI ACA
11-RAJASTHAN SOCIETY
NEAR JALARAM TEMPLE
KARELIBAUG
VADODARA-0 | 404 | 111491 | MS. SREEJA JAYAKUMAR PILLAI ACA
F1 - 106 GOVIND DHAM
KALWA, THANE
KALWA-400605 |
| 391 | 110919 | MS. DIPTI DEVENDRA DOSHI ACA
5/17 SAMARTH NAGAR
CHUNABHATTI, SION
MUMBAI-400022 | 405 | 111664 | MS. PUSHPA CHANDRAMANI ACA
1/61 MURALI PESTOM SAGAR
TILAK NAGAR, POST OFFICE
MUMBAI-400089 |
| 392 | 110976 | MR. KAPIL AJITKUMAR GUPTA ACA
803 REDWOOD B, EVERSHINE GREENS,
OPP TANDON GARAGE
OFF NEW LINK ROAD
OSHIWARA, JOGESHWARI (WEST)
MUMBAI-400102 | 406 | 111672 | MR. HEMAL NAVINCHANDRA ZAVERI ACA
23 B-10 AKASH SOCIETY
ASHOK NAGAR
KANDIVALI (EAST)
MUMBAI-400101 |
| 393 | 111022 | MS. DEEPA DIWAKAR SHETTY ACA
301 VISAVA, PLOT NO 10, SARASWATI BAUG
NEAR RAMESHWAR TEMPLE
JOGESHWARI (EAST)
MUMBAI-400060 | 407 | 111730 | MR. MITESH KAILASH MAHESHWARI ACA
C/O S R BATLIBOI & CO
6TH FLOOR, EXPRESS TOWERS
NARIMAN POINT
FORT
MUMBAI-400021 |
| 394 | 111039 | MR. MOHAMMED RAZA SULTANALI GHEEWALA ACA
SENIOR ACCOUNTS EXECUTIVE
AL HASSAN GROUP OF COMPANIES
P.O. BOX 1948, RUWI,
SULTANATE OF OMAN
MUSCAT-112 | 408 | 111735 | MR. MANISH SURESH TIBREWAL ACA
B-901 ROSEWOOD ESTATE, NR PRERNA TIRATH
JAIN TEMPLE JODHPUR
CROSS ROAD SATELLITE
AHMEDABAD-380015 |

- 409 111817 MR. NISHANT KUTTI SHETTY ACA
1/505 LILYA NAGAR, S V ROAD,
NEAR KAMATS CLUB, GOREGAON (WEST)
MUMBAI-400082
- 410 111874 MR. NAREN RASHMIKANT SHAH ACA
A/201 SHIVKRIPA, MODEL TOWN
ANDHERI (WEST)
MUMBAI-400053
- 411 111345 MR. MANISH PURSHOTTAM SANGHAI ACA
SHOP NO. 7, AYTUSHI APARTMENTS
NEXT TO CANARA BANK
J B NAGAR, ANDHERI (EAST)
MUMBAI-400059
- 412 112018 MR. PANKAJ LAL ACA
301-A, HAMILTON COURT
DLF CITY, PHASE IV
GURGAON-122002
- 413 112075 MR. ASHOKKUMAR JIWANLAL RATHI ACA
A1 AMOL VIHAR, RASNE NAGAR
SAVEDI NAKA
AHMEDNAGAR-414111
- 414 112140 MR. MAHESH BASER ACA
C/O WELSPUN GUJARAT STAHL ROHREN LTD
B/9 TRADE WORLD
KAMALA MILL COMPOUND
SENAPATI BAPAT MARG
LOWER PAREL
MUMBAI-400013
- 415 112170 MS. SHILPAASHOK JOSHI ACA
A/3 VINAY SOCIETY, TARUN BHARAT
ANDHERI (EAST)
MUMBAI-400099
- 416 112331 MR. DINESH VISHNU PATIL ACA
D SILVA WADI RIVER CROSSING HOUSE
SANTOSHI MATA RD, DAHISAR (WEST)
MUMBAI-400068
- 417 112446 MR. AMIT DATTARAM KHEDEKAR ACA
G-4 NEW AMBIVALI CHS
VEERA DESAI ROAD
ANDHERI (WEST)
MUMBAI-400053
- 418 112455 MR. ANKIT RASHMIKANT KINARIWALA ACA
B-7 SHANTINATH
OPP SOMESHWAR JAIN TEMPLE
132 RING ROAD, SATELLITE
AHMEDABAD-380015
- 419 112505 MR. SAMEER SUBHASH BIWALKAR ACA
A/102 ANANT VIHAR, OPP SOHAM HOSPITAL
MOHANANDA NAGAR
MANJARLI (WEST)
BADLAPUR-427503
- 420 112544 MS. JYOTI PADMAKAR PALLAVI PHADKE ACA
'ADVAIT', PLOT NO 8, PRASHANT NAGAR
OPP TAJ RESIDENCY, PATHARDI PHATA
NASHIK-422010
- 421 112597 MR. DHANANJAY KASHIRAM BHOSALE ACA
05 RAJE SOCIETY, NEAR SHIVA TEMPLE
MAJWADE
THANE-400601
- 422 112602 MS. DIKSHA MAHIPAL SINGH DHILLON ACA
61, PREM COURT, PEDDER ROAD
MUMBAI-400026
- 423 112650 MR. MANISH NARPATSINGH LUNIA ACA
240 NEW CLOTH MARKET
OTHER SIDE RAIPUR GATE
RAIPUR
AHMEDABAD-380002
- 424 112653 MR. DEVENDRA KISHORDAN GADHAVI ACA
5/41 SHRADDHA DEEP COMPLEX
NEAR ANKUR CROSS ROAD
NARANPURA
AHMEDABAD-380013
- 425 112693 MS. ZAINAB HAKIM BOOKWALA ACA
90 SARANG STREET
ALI MANSION, 3RD FLOOR
MUMBAI-400003
- 426 112700 MR. SANDEEP ARJUN RENU CHOTRANI ACA
6-B/92 SEVA SAMITI COOP HSG SOC
SION, KOLIWADA
MUMBAI-400037
- 427 112736 MS. MINAL ASHOK JOSHIRAO ACA
4 VANTAGE COURT
100 GOLDSWORTH ROAD
WOKING, UK
SURREY-GU216NP
- 428 112784 MR. DHEERAJ SATYAPAL BHATIA ACA
A-604, NARAYAN HERITAGE
NEW LINK ROAD
NEAR 240 LAST BUS STOP
KHANDARPADA,
DAHISAR (WEST)
MUMBAI-0
- 429 112785 MR. MOHAMED FAROOQ AHMED KILLEDAR ACA
11/14 KILLEDAR MANSION
KILLEDAR STREET, JACOB CIRCLE
MUMBAI-400011
- 430 112826 MR. SHESHAGIRI RAMNATH SHANBHAG ACA
SAI BHAVAN, 141 PRINCESS STREET
MUMBAI-400002
- 431 112827 MS. MONA CHANDRAKANT SHAH ACA
C/O MS RASHMI TRADING CORPORATION
91 NAGDEVI CROSS LANE
1ST FLOOR
MUMBAI-400003
- 432 112861 MR. SHEKHAR DILIPKUMAR JOSHI ACA
3/4 KHAKHAR BUILDING
N.D. ROAD, C.P. TANK
MUMBAI-400004
- 433 113130 MR. RAJESHKUMAR SHITALA PRASAD SINGH ACA
SHOP NO. 10, PREMAJI NAGAR
EVERGREEN SCHOOL, ACHOLE ROAD
NALLASOPARA (EAST), DIST THANE
NALLASOPARA-401209
- 434 113150 MS. MANALI CHITTANATH PATIL ACA
INDRAYANI, BLDG 1ST FLOOR
BLOCK NO. 6, OLD BELAPUR ROAD
KALWA-400605
- 435 113194 MR. SHEIKH YUSUF AMINA SHEIKH ACA
13 SARANGA TOWER, 3RD CROSS SWAMI
SAMARTH ROAD
LOKHANDWALA COMPLEX
ANDHERI (WEST)
MUMBAI-400053
- 436 113266 MR. ABHAY ASHOK SAWANT ACA
C/302 RADHA VIHAR
AJDE GOLWALI SHIL ROAD
B/H VENKIATESH PETROL PUMP
DOMBIVALI (EAST)
DOMBIVALI-421203
- 437 113445 MS. UMA VASHU ASWANI ACA
PARAM TOWER B WING
FLAT NO 107, RAGHUNATH NAGAR
NEAR EASTERN EXORESS HIGHWAY
THANE (WEST)
THANE-400604

438	113538	MS. JANE SYLVIA SEQUEIRA ACA 22 CHHEDA APARTMENT I.C. COLONY, CROSS ROAD NO 3 BORIVALI (WEST) MUMBAI-400103	451	114505	MRS. RASHMI PANKAJ MUNDRA ACA J 10/18 JALMANDIR CHS LTD OPP BANGUR SEVA SADAN BANGUR NAGAR GOREGAON (WEST) MUMBAI-400090
439	113561	MR. SUNILARUN RAWAL ACA A 12 INDRASUKH CHS OPP ST LOUIS SCHOOL FOUR BUNGLOWS ANDHERI (WEST) MUMBAI-400053	452	114506	MR. ANCHIT LAKHOTIYA ACA 601 MAHAVIR DARSHAN LT ROAD NO 3, OFF M G ROAD GOREGAON (WEST) MUMBAI-400062
440	113632	MR. MANISH AGARWAL ACA 106 SAURABH CO-OP HSG SOCIETY OPP APPLE HERRITAGE ABOVE ANDHARA BANK ANDHERI KURLA ROAD, ANDHERI (EAST) MUMBAI-400058	453	114514	MR. KALPESH SATISHCHANDRA SHAH ACA F 403 ANAND SAGAR SOCIETY ANAND NAGAR, M G ROAD NEAR BOHRA COLONY KANDIVALI (WEST) MUMBAI-400067
441	113699	MR. ATUL HASMUKHRAI DHOLAKI ACA B-1214 TRIMURTI APARTMENT MAMLATDAR WADI ROAD MALAD (WEST) MUMBAI-400064	454	114519	MR. ALPESH SHAILESHBHAI SUTARIA ACA 24 ASIA HOUSE, 1ST FLOOR NEAR SWASTIK CHAR RASTA NAVRANGPURA AHMEDABAD-380009
442	113742	MR. CHIRAG MADHUKANT MEHTA ACA A-401, MAHESHWAR -1, BAPU BAGWE ROAD DAHISAR (WEST) MUMBAI-400068	455	114532	MR. MAHESHKUMAR SHAMLAL WADHWANI ACA DINESH APARTMENTS FLAT NO. 4, 1ST FLOOR C-11/16 NEAR BHATIA HOSPITAL ULHASNAGAR-421005
443	113850	MS. SHIVANI RAVI KAMAL BHARGAVA ACA 602, NILAMBARI MAHARSHI KARVE ROAD, COOPERAGE OPP SAGAR SAILORS HOME MUMBAI-400021	456	114606	MR. ALPESH VINUBHAI PATEL ACA 277 SAHAKAR SADAN DATTARAM LAD MARG CHINCHPOKLI MUMBAI-400012
444	113873	MR. VINAY K BAGRI ACA UDAY NIVAS, 29-D DONGARSI ROAD MALBAR HILL MUMBAI-400006	457	114616	MR. SHASHANK VINAY SAWANT ACA A-5/201 SHIV CHHAYA CO OP HSG SOC GILBERT HILL ROAD, ANDHERI (WEST) MUMBAI-400058
445	113944	MR. VIKRANT VINAYKUMAR JAIN ACA B-502, GOKUL NAGARI -2 THAKUR VILLAGE WETERN EXPRESS HIGHWAY KANDIVALI (EAST) MUMBAI-400101	458	114672	MR. VISHAL VIJAY SARAF ACA BINDAL BROTHERS VYENKATESH PLAZA, RUIKAR ROAD MAHAL NAGPUR-440018
446	113991	MR. MANDAR JAYANT KADAM ACA 39 3RD FLOOR, SIXTH BLOCK NAWROJI SETH ST, THAKURDWAR NEAR CHARNI ROAD MUMBAI-400002	459	114711	MR. RITESH FATEHCHAND RANAWAT ACA 35/41 MANOHARDAS STREET SHIV SADAN, 4TH FLOOR FORT MUMBAI-400001
447	114012	MR. REHAN ALI MOHD MULTANI ACA 101 VARSHA COMPLEX 406 KAP KANERI, AGRA ROAD KALYAN NAKA BHIWANDI-421302	460	114724	MR. ARAVIND VENKITARAMASUBRAMANIAM ACA H4/15, JAN-KALYAN, BHANGUR NAGAR, GOREGAON (WEST) MUMBAI-400090
448	114119	MR. SOMESH DEVIDEEN CHAURASIA ACA 7/30 1ST SUTAR GALI, SANTOSH SADAN, 2ND FLOOR, ROOM NO. 30, GIRGAON MUMBAI-400004	461	114734	MR. MEHUL MANSUKHLAL GANDHI ACA 608 NEELDHARA APARTMENTS DEVIDAS LANE, BORIVALI (WEST) MUMBAI-400092
449	114337	MRS. JIGNA MEHUL PATEL ACA 16 MAYUR SOCIETY SINDHAVAIMATA ROAD PRATAPNAGAR VADOQARA-390004	462	114756	MRS. PREETI ASHISH LATH ACA 8D/201 ALICA NAGAR LOKHANDWALA COMPLEX AKURLI ROAD, KANDIVALI (EAST) MUMBAI-400101
450	114499	MR. PRASAD SURESH NAIK ACA A/603 SONAL CLASSIC, BHARDAWADI, J P ROAD, ANDHERI (WEST) MUMBAI-400058	463	114786	MR. PRABHAKAR SHANKAR SHETTY ACA 1/23 SHIVKROPA HSG SOC NEW PRABHA DEVI ROAD PRABHADEVI MUMBAI-400035
			464	114806	MS. SAKINA ABBAS UDAIPURWALA ACA 101/9-A, KAPADIA NAGAR C.S.T. ROAD, KURLA (WEST) MUMBAI-400070

455	114807	MR. NIKESH NARESH MOHNOT ACA 185/5161, TRISHUL, C.WING, PANTHAGAR, GHATKOPAR (EAST) MUMBAI-400075	479	115210	MR. SANKET MAHENDRA KALPANA SANGHAVI ACA 23/25 DIVYA DARSHAN JAGDUSHA NAGAR GHATKOPAR (WEST) MUMBAI-400086
456	114826	MS. YASHODA NARAYAN SHRIYAN ACA SHREESAI APARTMENTS A-2/9 NEAR SILVANIA APARTMENTS SAWARKAR NAGAR THANE (WEST) THANE-400606	480	115243	MR. NAINESH NAYAN SHAH ACA 12, RAHUL BLDG 34 WALKESHWAR ROAD MUMBAI-400006
457	114855	MR. SANTOSH KUMAR SINGH ACA VASANT UTSAV CO-OPRETIVE HOUSING SOCIETY RAKHI, C-BLOCK, FLAT NO-804 NEAR THAKUR CINEMA KANDIVLI (EAST) MUMBAI	481	115303	MR. BHUPESH RATNAKAR TRIPATHI ACA ROOM NO 9, LALITA SINGH CHAWL TECHNICAL AREA, MAROL PIPE LINE ANDHERI (EAST) MUMBAI-400059
468	114856	MS. PRITAM ASHOK NARSALE ACA A 402 NEW SHIVDARSHAN CHS HOLY CROSS ROAD, I C COLONY, BORIVALI (WEST) MUMBAI-400103	482	115314	MR. MIHIR PRABHAKAR MANKAD ACA F/11-12 JAWAN NAGAR BESIDE INDRAPRASTHA SHOPPING CENTRE S V ROAD, BORIVALI [WEST] MUMBAI-400092
469	114904	MR. GAURAV RAJNIKANT SHASTRI ACA H/52 MANAGEMENT ENCLAVE VASTRAPUR AHMEDABAD-380015	483	115456	MR. NARESHKUMAR SATYAPAL MITTAL ACA 71/C, GOVARDHAN PARK SOC. NO.1, NEAR. NATHIBA NAGAR HARNI ROAD, VADODARA-390022
470	114942	MR. SUHAS DINESH PATIL ACA C/32 PRAKASH CHHAPURI CHS SANT MUKTABAI RD, VILE PARLE (EAST) MUMBAI-400057	484	115521	MS. MONICA CAGITAN MASCARENHAS ACA SUBASH NAGAR, POKHRAN NO 2 BEHIND ENGLISH HIGH SCHOOL THANE (WEST) THANE-400601
471	115011	MR. MANISH HARSHAVADAN SHAH ACA 206/A RITA PALACE, HARSHA PARK, CHANDAVARKAR ROAD BORIVALI [WEST] MUMBAI-400092	485	115530	MR. MITESH KIRTIBHAI SANGHAVI ACA 703/704 SHALIBHADRA APARTMENTS PANCHESWAR TOWER JAMNAGAR-361001
472	115014	MS. NILU DILIPKUMAR DESAI ACA B/205 GAURI APARTMENTS EKSAR ROAD, BORIVLI [WEST] MUMBAI-400091	486	115725	MR. VISHAL SHANKAR KONDWILKAR ACA B-102, VENUS, SAI BABA GALAXY, OPP OSHWARA BUS DEPOT, OFF NEW LINK ROAD, GOREGAON (WEST) MUMBAI-400104
473	115040	MR. MURTUZABHAI ABBAS BHAI JAWADWALA ACA PRICE WATER HOUSE COOPERS 1104 RAHEJA CHAMBERS NARIMAN POINT MUMBAI-400021	487	115742	MR. KEDAR SHANKAR MUCHANDI ACA 18TH FLOOR, EXPRESS TOWERS NARIMAN POINT MUMBAI-400021
474	115087	MR. GAURAV SUBHASH GUPTA ACA SAHAL GOVINDPURA NEAR GURUDWARA AHMEDNAGAR-414001	488	115830	MR. PANKAJ SUNDERDAS CHANDWANI ACA 402 SHIVAM APARTMENTS SHANTI NAGAR BEHIND PRAKASH AUTO ULHASNAGAR-421003
475	115125	MS. BHARTI KAMESH SHAKUNTALA GANDHI ACA FLAT NO 5, 2ND FLOOR BEST CO-OP HSG SOCIETY SECTOR 14, KOPAR KHAIKANE NAVI MUMBAI-400709	489	115980	MR. CHIRAG KUNJUMAR SHAH ACA B-2, 507, FLORIDA ESTATE KESHAV NAGAR, MUNDHWA PUNE-411036
476	115150	MR. NEERAJ NAVEENKUMAR JAIN ACA F/81, SATELLITE CENTRE, OPP. MANAGEMENT ENCLAVE, PREMCHAND NAGAR ROAD, VASTRAPURA AHMEDABAD-380015	490	115987	MR. CHERAG SAM KARKARIA ACA MEHEERBAI WADIA BLDG 1ST FLOOR, WADIA STREET TARDEO MUMBAI-400034
477	115181	MS. KAVITA MOHANLAL JASRAPURIA ACA 204, IRIS "A" UNNATHI GARDENS POKHRAN ROAD NO-1 THANE (WEST) THANE-400606	491	116032	MRS. SUPRIYA SACHIN PENDSE ACA A/12, YASHODEEP, THAKUR NAGAR SANT RAMDAS ROAD MULUND (EAST) MUMBAI-400081
478	115203	MR. JAISHIL JATIN ALKA SHAH ACA B - 307, MANISH ROSE SOCIETY, BLDG NO. 29, MANISH NAGAR, ANDHERI (WEST) MUMBAI-400053	492	116060	MS. KINJAL AJIT THAKAR ACA A-402 MAHAVIR DARSHAN PAREKH LANE, S V ROAD KANDIVLI [WEST] MUMBAI-400067

- 453 116161 MS. SOWMYA GANESAN IYER ACA
4 SHRINIWAS APTS
JEEVAN BIMA NAGAR
OPP. A/6-10, BORIVLI (WEST)
MUMBAI-400103
- 494 116244 MR. ANIL VORA ACA
B 708 MAHESHWAR II
BAPU BAGWE ROAD
NEAR DAHISAR BRIDGE
DAHISAR (WEST)
MUMBAI-400069
- 495 116249 MR. SHAILESH SHANTI CHIPPER ACA
C/O B.S. JAIN, PIPARA BHAWAN
PIPLI CHORAYA, BIJAINAGAR
AJMER-305627
- 495 116339 MR. JATIN RAVILAL CHHEDA ACA
2/21, INDU BAUG, SUN MILL ROAD
LOWER PAREL
MUMBAI-400013
- 497 116346 MR. GAUTAM CHINIVARDHA ACA
C/O MR P V BOTRE, BANGALOW NO 3
NEXT TO SARANG SOCIETY
SAHKARNAGAR, PARVATI
PUNE-411009
- 499 116390 MR. NARENDRA DAMJI NAGDA ACA
C/16 GURUMILAN CD-OP SOC
TILAK NAGAR, DR R.P. ROAD
DOMBIVALI (EAST)
DOMBIVALI-421201
- 499 116503 MR. KUMAR SURESHKUMAR SHAH ACA
101, MAANSHREE APARTMENT
STAFF BANK COLONY, NARHARI NAGAR,
RAJAPETH
AMRAVATI-444601
- 500 116602 MR. DARPAN JAGDISH MEHTA ACA
101/B CHANDULAL PARK
OPP S.B.I., STATION ROAD
BHAYANDAR (WEST)
DIST THANE
BHAYANDAR-401101
- 501 116641 MR. NILESH RAMESH NIKAM ACA
147/58 DIGVIJAY MILL CHAWI
D.L. ROAD, KALACHOWKI
MUMBAI-400033
- 502 116751 MR. SURAJ NARAYAN SETH ACA
601, GOLD CROWN, PICNIC COTTAGE,
VERSOVA, ANDHERI (WEST)
MUMBAI-400061
- 503 200766 MR. SATHEESH KUMAR S ACA
FLAT NO 4 RAMS FLATS
NO 26-B VENKATRATNAM NAGAR
ADYAR, POKHRAN 2
THANE (WEST)
THANE-0
- 504 203074 MR. JOSEPH V A ACA
H.NO 54 - A1, 1ST MAIN
AMRUT NAGAR, GOGOL
MARGAO GOA-403602
- 505 203229 MR. THAMARAIAKKANNAN T R ACA
NEW NO.12 (OLD NO. 34)
AGRAHARAM RD, SIVALINGAPURAM,
1ST CROSS STREET, KORATTUR
CHENNAI-600076
- 506 203325 MS. DEEPA J ACA
NEW NO-21, J-FLAT, NU TECH
SWARNAM APARTMENTS
3RD MAIN RD, GANDHI NAGAR, ADYAR
CHENNAI-600020
- 507 209568 MR. BALAJI A L ACA
BLDG NO 42, FLAT NO 1555
MHB COLONY, VARTAK NAGAR
THANE (WEST)
THANE-400606
- 508 210107 MS. LALITHA JAYARAMAN ACA
A-6, DATT KRIPA APARTMENTS
BOISAR TARAPUR ROAD
NEXT TO PANCHMI HOTEL
BOISAR-401501
- 509 211087 MR. JAGANNATH SABAT ACA
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD
301-305, MAHALAXMI CHAMBERS
3RD FLOOR, 22, BHULABHAI DESAI ROAD
MUMBAI-400026
- 510 400197 MR. DEEPAK GUPTA ACA
FLAT NO 405, 4TH FLOOR
NEELKANTH APARTMENTS
OPP IFFCO MAIN GATE
GANDHIDHAM-0
- 511 400229 MS. SUSHMA TALESARAACA
A/1404 AVALON BUILDING
HIRANANDANI GARDENS
POWAI
MUMBAI-400076
- 512 401126 MR. DHANUKA GUNJAN ACA
401 4TH FLOOR, VAGLE VISION
18 JUNE ROAD, PANAJI
GOA-403001
- 513 401300 MR. NILESH CHAUDHARI ACA
A 402 R N A HEIGHTS
OPP FANTASY LAND,
J V L ROAD, ANDHERI (EAST)
MUMBAI-400093
- 514 402433 MS. SHIVRAN PRIYANKA ACA
C/O DXFAM (INDIA) TRUST (PERSONAL)
1ST FLOOR MANIKYAM BLDG
OPP SAMUDRA ANNEXE
OFF C G ROAD,
NAVRANGPURA
AHMEDABAD-380009
- 515 500738 MR. SHARMA AERIK ACA
TATA-AIG LIFE INSURANCE CO. LTD
NISHORI CORPORATION
75, ANNIE BASENT ROAD
WORLI
MUMBAI-400018
- 516 502653 MR. SEHDEV AMIT ACA
INDIAN HOTELS COMPANY LTD
CORPORATE FINANCE DEPT.
III RD FLOOR, MANDLIK HOUSE
MANDLIK ROAD, COLABA
MUMBAI-400001

DR. ASHOK HALDIA
SECRETARY

Mumbai-400005, the 21st July 2006

(Chartered Accountants)

21 JUL 2006

3WCA(8)/1/2004-2005 In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(i) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel dt	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel dt
1	001232	Mr. DESAI SHANTANU NANUBHAI FCA SHARDA FLAT NO 1 FIRST FLOOR A-ROAD, CHURCHGATE MUMBAI-400020	01/04/2004	11	006639	Mr. SHAH KANUBHAI PRANLAL ACA FLAT NO.12, SATELLITE SHOPPING PREMCHAND NAGAR ROAD AHMEDABAD-380015	01/04/2004
2	003006	Mr. KANABAR CHHABILDAS ODHAVJI FCA 170 HALLOWELL ROAD NORTHWOOD MIDDLESEX-HA6 -1DU U K	01/04/2004	12	007009	Mr. R V SRIKANTA ACA 14 MEERA OM SAI CO.OP. HSG. LTD., CHEDDA NAGAR MUMBAI-400089	30/09/2004
3	003687	Mr. GANAPATHIAGRAHARAM VENKATARAMAN SESHAGIRI ACA APOLLO BLDG, A-WING FLAT NO 1104 HIRANANDANI ESTATE PATLIPADA, OFF GHOD BUNDER RD., THANE-400607	01/04/2004	13	008610	Mr. NARENDRA KUMAR PRANSHANKAR UPADHYAY FCA 102 -KANCHENGANGA- 95 S V RD NEXT TO BAL BHARATI SCHOOL KANDIVLI-WEST, MUMBAI-400067	01/04/2004
4	003875	Mr. CHINUBHAI CHUNILAL SHAH FCA 4 B SAAHILAPTS, 4TH FLOOR, 14 ALTAMOUNT RD MUMBAI-400026	25/08/2004	14	009099	Mr. SHAH ARUNKUMAR MANILAL ACA 24 PARICHAY PARK DIWALIPURA OLD PADRA ROAD VADODARA-390015	01/04/2004
5	004075	Mr. MAYRA MOTILAL HIRALAL FCA C/24 YASHODHAM INDUSTRIAL SOCIETY B/H KAILASHPATI TEMPLE NEW SAMA ROAD VADODARA-390002	01/04/2004	15	009924	Mr. BHANDARI SUSHIL KUMAR FCA THE INDIAN SMELTING & REFINING CO LTD LAL BAHADUR, SHASTRI MARG BHANDUP, MUMBAI-400078	03/11/200
6	004989	Mr. IYER VAIDHEESWARAN NATESAN FCA 73 JUPITER APARTMENTS 41 CUFFE PARADE MUMBAI-400005	01/04/2004	16	010236	Mr. VISHWAS MANOHAR SOMAN ACA C-11 SAHAKAR NIVAS PROF AGASHE RD DADAR, MUMBAI-400028	01/04/2004
7	005154	Mr. NOWSHIR JEHANGIRJI SETNA FCA AMALFI C-1 3RD FLOOR 15 L.D. RUPAREL MARG MALABAR HILL, MUMBAI-400006	15/06/2004	17	010392	Mr. GORE ARVIND BHALCHANDRA FCA 773/6A ISH-KRIPA NEAR KAMLA NEHRU PARK PUNE-411004	15/02/2005
8	005718	Mr. KUVELKER SHRIPAD MU KUND FCA 111B, PARADISE APARTMENTS, 44, NEPEAN SEA ROAD MUMBAI-400036	15/02/2005	18	010445	Mr. SHETH RASHMIKANT PRANJIVANDAS FCA 18 CLENHURST ROAD RICHMIND HILL ONT L4B 2C8 CANADA-0, CANADA	01/04/200
9	005746	Mr. BHIKHALAL SHANTILAL TRIVEDI FCA C-603 MUNI DARSHAN BEHIND SAGAR PLAZA BUILDING NEAR BANK OF BARODA, M G RD, GHATAKOPAR- (W) MUMBAI-400086	26/07/2004	19	011222	Mr. PADH SANAT KUMAR TRIKAMAL FCA C/1, RANCHHOD BHUVAN, NEAR SAURASHTRA SCTY, WATER TANK DHUMKETU MARG, PALDI, AHMEDABAD-380007	30/03/2004
10	006158	Mr. GORADIA PRATAPRAI JIVALAL FCA B-307 NEW PUTLIBAI, KAPOL NIWAS S V ROAD, VILE PARLE(W) MUMBAI-400056	01/01/2005	20	011335	Mr. VARIAVA FURROKH MUNCHERSHAW FCA F-50, CUSROW BAUG, S. BHAGATSING ROAD, MUMBAI-400039	01/12/2004
				21	011560	Mr. TRIVEDI VIBHAKAR JAYANTILAL FCA VIBHAKAR J TRIVEDI & CO 203 R K HOUSE,BEHIND SHILP OFF C G ROAD, NAVRANGPURA AHMEDABAD-380009	07/12/2004

2.	011980	Mr. MOHANLAL SODANI FCA B2/16, 2ND FLOOR, MAHESHNAGAR, S.V. ROAD, GDREGADN (WEST) MUMBAI-400062	01/04/2004	36	017900	Mr. MEHITA BHARAT CHHOTALAL FCA BLDG NO. 12, FLAT NO. 16 4TH FLOOR, NAVJIVAN CO-OP HSG. SOC. LTD. LAMINGTON ROAD, MUMBAI-400008	13/09/2004
23	013024	Mr. DADASAHEB PRALHADRAO JACHAV FCA 106, ICHHAFURTI CO-OP HSG. SOCIETY, SECTOR 16/A, VASHI NAVI MUMBAI-400703	26/08/2004	37	020042	Mr. RAVICHANDRAN J ACA FLAT NO 21, 1-A ALTAMOUNT RD MUMBAI-400026	01/04/2004
24	014269	Mr. SHAH PRAVINCHANDRA SANKALCHAND FCA A/10 ASHIRWAD SOCIETY BEHIND SUBHASH PARK HARNI ROAD, VADODARA-390022	01/04/2004	38	020478	Mr. PHILIP THOMAS K ACA NESTLE INDIA LTD., COLGATE RESEARCH CENTRE, HIRANANDANI GARDENS POWAI, MUMBAI-400076	01/04/2004
25	014506	Mr. MIRZA NAWSHIR HOSHANG FCA 6/A, SOMERSET PLACE, 61-D, BHULABHAI DESAI ROAD, OPP. SOPHIA COLLEGE, MUMBAI-400026	01/04/2004	39	022227	Mr. T.R. GOPI KANNAN FCA C/O. ATUL PRODUCTS LTD., DIST. VALSAD (GUJ) ATUL-396020	01/04/2004
26	014962	Mr. SHAH ANIL CHAMPAKAL FCA 63, HARIBHAKTI COLONY-EXTN OPP. RAJLAXMI COMPLEX OLD PADRA ROAD VADODARA-390001	02/06/2003	40	022397	Mr. B PADMANABHAN FCA FLAT NO 306 MEHADIA BHAWAN LOKMAT SQUARE WARDHA ROAD DHANTOLI, NAGPUR-440012	03/05/2004
27	014998	Mr. HITESHKUMAR THAKORBHAI DESAI ACA 9-A NATRAJ SOCIETY NEAR DELUXE SOCIETY NIZAMPURA, CHHANI ROAD VADODARA-390002	17/01/2005	41	025138	Mr. MUKUNDAN K.V. FCA D-109 SILVER CREST RAHEJA VIHAR CHANDIVALLI FARM ROAD ANDHER (EAST) POWAI, MUMBAI-400072	03/11/2004
28	015293	Mr. DALAL JAWAHAR RAMNIKLAL ACA 7-C, JAI TOWER 1ST POKHRAN RD, KHOPAT OPP. PUNJANI INDUSTRIAL ESTATE THANE-400601	24/09/2004	42	025922	Mr. DANIEL VICTOR ACA L-463 THIRD FLOOR RAGHUNATH VIHAR SECTOR 14, KHARGHAR NAVI MUMBAI-410210	13/08/2004
29	016112	Mr. SHAH JITENDRA THAKORLAL ACA KANCHAN GAURI HOSPITAL BLDG GROUND FLOOR DR. BHAIKAR STREET PRATHANA SAMAJ, MUMBAI-400004	31/08/2004	43	026897	Mr. HORACE RODRIGUES FCA 302 BETH SHALOM APTS OPP. CIVIL HOSPITAL S. PEDNEKAR MARG THANE WEST, THANE-400601	01/04/2004
30	016313	Mr. SUDHIRCHANDRA GOEL FCA SANJEEV ENCLAVE, 301 B.J.P. ROAD 7 BUNGLOWS, ANDHERI (WEST) MUMBAI-400061	01/04/2004	44	030012	Mr. SAHU ANIL PRAKASH FCA 1402 ARCADIA, NARIMAN POINT MUMBAI-400021	01/04/2004
31	016944	Mr. SRIVASTAVA JAI PRAKASH FCA C/O. JPS ASSOCIATES 6A/2, NEW EXCELSIOR BLDG. WALLACE STREET, FORT, MUMBAI-400001	01/04/2004	45	030369	Mr. GUPTA ASHOK KUMAR FCA 52-A, GOPAL MANSION 2ND FLOOR, TURNER ROAD BANDRA(W), MUMBAI-400050	14/02/2005
32	017109	Mr. SURANA NAVRATANMAL FCA 52 KIKI ST, GULALWADI FIRST FLR, MUMBAI-400004	01/12/2004	46	030976	Mr. NAYAK PRAKASH PURUSHOTHAM ACA WELFARE MANSION PLOT NO 54 FLAT NO. 1 - SION-WEST MUMBAI-400022	01/04/2004
33	017485	Mr. MANILAL SUVALALAGRAWAL ACA B-11 NILAMBER BUNGLOWS NO 1 NEAR OCTROI NAKA VASNA ROAD VADODARA-390015	01/04/2004	47	031563	Mr. RUSHI CHANDRAHASH NARENDRA ACA FLAT NO. A-36, 9TH FLOOR, MONT VERT, SUS ROAD, PASHAN, PUNE-411021	25/08/2003
34	017723	Mr. DESAI TARUN BABUBHAI FCA A/7 PEARL QUEEN SOC NORTH AVENUE TAGORE ROAD SANTA CRUZ WEST MUMBAI-400054	01/04/2004	48	031620	Mr. MEHTA HARISH HIMATLAL FCA 402 PUSHKAR APARTMENTS JUDGES BUNGLOWS BODAKDEV, AHMEDABAD-380054	31/08/2004
35	017898	Mr. VISHNU TANAJI PAWAR FCA 6875/A MUKUNDNAGAR 1ST LANE TAPODHAM HSG SOC, ANAND APTS., FLAT NO. 2 FIRST FLR, PUNE-411037	01/04/2004	49	031679	Mr. DEEPAK NARAYAN JUVEKAR FCA 503 MOHAR APRTMENT, L.T. ROAD, BABHAI, BORIVLI (WEST), MUMBAI-400091	26/09/2004
				50	031848	Mr. MISTRY JEETENDRA CHHAGANLAL FCA FLAT NO B-304 HINDON APARTMENT VASUNDHARA ENCLAVE DELHI-110096	18/08/2004

51	032117	Mr. ABHYANKAR VIKAS DATTATRAYA FCA 602, YASHWANT CHITTARANJAN ROAD VILE PARLE (E), MUMBAI-400057	01/04/2004	55	033178	Mr. SHAH NARENDRA CHUNILAL FCA 13, MAHAGIRI, 1ST FLOOR ASHOK GRAM, CHAKRAVARTI ASHOK ROAD KANDIVALI-E, MUMBAI-400101	25/10/2004
52	032411	Mr. ASHER RAJESH HARIDAS FCA B-9 RAJESHWARI CHS LTD M G ROAD GHATKOPAR EAST MUMBAI-400077	20/12/2004	56	033499	Mr. ASHOK KUMAR JAIN FCA 1203 VASTU TOWER BUILDING T/2, LINK ROAD MALAD WEST MUMBAI-400064	14/09/2004
53	032735	Mr. POKHARNA ARUN CHANDULAL FCA 1265 SADASHIV PETH SHUBHA ASHIRWAD SOCIETY ABOVE GAMBHIR'S CLASSES NIMBALKAR TALIM CHOWK, PUNE-411030	28/02/2005	57	033829	Mr. WAGLAY RAJEEV DINKER FCA 15 PRAFULLA GOKULDAS PASTA RD DADAR, MUMBAI-400014	03/08/2004
54	032902	Mr. VIMAWALA JAYANT GUNVANTLAL FCA 3/B/1, GREAT EASTERN ROYALE 333 BELASIS BRIDGE TARDEO, MUMBAI-400034	01/04/2004	58	033858	Ms. ARCHANA ANIL JAYAWANT ACA 392A, NEELKANTH APTS NARAYAN PETH PUNE-411030	01/04/2004
55	033178	Mr. SHAH NARENDRA CHUNILAL FCA 13, MAHAGIRI, 1ST FLOOR ASHOK GRAM, CHAKRAVARTI ASHOK ROAD KANDIVALI-E, MUMBAI-400101	25/10/2004	59	034034	Mr. POL MURARI SHRIRAM FCA B/504, MADHU MILAN TOWER EKSAR ROAD, BORIVALI W) MUMBAI-400103	17/05/2004
56	033499	Mr. ASHOK KUMAR JAIN FCA 1203 VASTU TOWER BUILDING T/2, LINK ROAD MALAD WEST MUMBAI-400064	14/09/2004	60	034228	Mr. SESHADRINATHAN JAYARAMAN ACA 504 REKHA, KORES TOWERS 1ST POKHRAN ROAD THANE WEST, THANE-400606	18/06/2004
57	033829	Mr. WAGLAY RAJEEV DINKER FCA 15 PRAFULLA GOKULDAS PASTA RD DADAR, MUMBAI-400014	03/08/2004	61	034274	Mr. DOSHI RAJENDRA SIDDHARTHKUMAR FCA 1405, INDER TOWER KAKASAHEB GADGIL MARG, OFF ZANDU PHARMA, DADAR(W), MUMBAI-400025	13/01/2005
58	033858	Ms. ARCHANA ANIL JAYAWANT ACA 392A, NEELKANTH APTS NARAYAN PETH PUNE-411030	01/04/2004	62	034320	Mr. THAKAR CHANDRAKANT BHAI SHANKAR FCA M/S C.B. THAKAR & CO. 206, 2ND FLOOR, ADAMJI BUILDING, 413, NARSHI NATHA ST., KATHA BAZAR, MUMBAI-400009	01/04/2004
59	034034	Mr. POL MURARI SHRIRAM FCA B/504, MADHU MILAN TOWER EKSAR ROAD, BORIVALI W) MUMBAI-400103	17/05/2004	63	034379	Mr. MEHTA JYOTIN KANTILAL FCA 804/5 GOLDEN RAYS Y WING, SHATRI NAGAR ANDHERI WEST MUMBAI-400053	01/04/2004
60	034228	Mr. SESHADRINATHAN JAYARAMAN ACA 504 REKHA, KORES TOWERS 1ST POKHRAN ROAD THANE WEST, THANE-400606	18/06/2004	64	034424	Mr. KAJARIA PRASHANT NAVINCHANDRA ACA B-1A SHILA BINA APARTMENTS FLAT NO 202, EKSAR ROAD BORIVALI WEST, MUMBAI-400092	08/07/2004
61	034274	Mr. DOSHI RAJENDRA SIDDHARTHKUMAR FCA 1405, INDER TOWER KAKASAHEB GADGIL MARG, OFF ZANDU PHARMA, DADAR(W), MUMBAI-400025	13/01/2005	65	034679	Mr. SEQUEIRA VINCENT PAUL FCA P.D. BOX NO 230 RIYADH-11383, SAUDI ARABIA	01/04/2004
62	034320	Mr. THAKAR CHANDRAKANT BHAI SHANKAR FCA M/S C.B. THAKAR & CO. 206, 2ND FLOOR, ADAMJI BUILDING, 413, NARSHI NATHA ST., KATHA BAZAR, MUMBAI-400009	01/04/2004	66	034745	Mr. PATEL JAYESHKUMAR BHAILALBHAI FCA A/7 RAVIKRUPA SOCIETY B/H RACHNA SOCIETY SATELLITE, AHMEDABAD-380015	20/11/2004
63	034379	Mr. MEHTA JYOTIN KANTILAL FCA 804/5 GOLDEN RAYS Y WING, SHATRI NAGAR ANDHERI WEST MUMBAI-400053	01/04/2004	67	034782	Mr. AVINASH RAMCHANDRA BAPAT FCA FLAT NO 22 MAYUR HSG SCTY BANDRA RECLAMATION BANDRA WEST MUMBAI-400050	30/09/2004
64	034424	Mr. KAJARIA PRASHANT NAVINCHANDRA ACA B-1A SHILA BINA APARTMENTS FLAT NO 202, EKSAR ROAD BORIVALI WEST, MUMBAI-400092	08/07/2004	68	034914	Mr. GUPTA GIRDHARI LAL FCA 604, SONMARG E OPP BAJAJ HALL, S V RD MALAD(W), MUMBAI-400064	30/09/2004
				69	035080	Mr. DORASWAMY MAHADEVAN ACA NO-4 NATASHA AMRUT NAGAR GHATKOPAR WEST MUMBAI-400086	25/07/2004
				70	035213	Mr. VILAS MAHADEO PHULE FCA "SHREE RAMKRISHNA", PLOT NO 14/15, POOJA PARK, BHUSARI COLONY PAUD ROAD, KOTHRUD, PUNE-411029	01/04/2004
				71	035266	Mr. BHUTA ASHOK INDULAL FCA 401-B SHREERAM APTS BEHIND MILAP CINEMA S V ROAD KANDIVALI-WEST MUMBAI-400067	31/03/2004
				72	035401	Mr. AMIT AVANI ALIAS RATILAL MEHTA FCA I FLOOR, 4 SETHNA HOUSE 13 LABURNUM ROAD GAMDEVI, MUMBAI-400007	24/12/2004
				73	035627	Mr. VINOD MILIND NAGNATH FCA PLOT 195 FLAT 7 BALAJI, GARODIA NAGAR GHATKOPAR EAST MUMBAI-400077	29/07/2004
				74	035868	Mr. SOMANI PRAKASH CHANDRA FCA D-714 INDRAPRASTHA SATYA NAGAR NEXT TO SAIBABA NAGAR BORIVALI - WEST MUMBAI-400092	27/05/2004
				75	035944	Mr. MEHTA PRANAY AMBUJBHAI FCA A/802, RADHE APARTMENTS, PASHABHAI PATEL PARK, RACE COURSE CIRCLE, VAODARA-390007	01/04/2004
				76	036036	Mr. HEMENDRA RATILAL SHAH ACA 305/B, SKYWAY, SHASTRI NAGAR, OFF J.P. ROAD, ANDHERI (W) MUMBAI-400053	15/03/2005
				77	036038	Mr. MODY BHARAT NANDLAL FCA 304, AMRUT KUNJ CO OP HSG SOCIETY, ROAD NO 2 PESTAM SAGAR, PLOT NO 40, CHEMBUR MUMBAI-400089	09/08/2004
				78	036070	Mr. OAK SURYAKANT RAMACHANDRA FCA PLOT NO 3 ROAD NO 13 SECTOR NO 12 OPP CIDCO BUS STAND NEW PANVEL, RAIGAD-410206	01/04/2004

79	036178	Mr. NAHAR PRAVIN GULABCHAND ACA 5-A SANKUL CONDOMINIUM 1410 ERANDAWANE NEXT TO MANGESHKAR HOSPITAL PUNE-411004	01/04/2004	93	038168	Mr. D'SOUZA KEVIN JAMES ACA CHOCKSEY MANSION 1ST FLOOR, DR. AMBEDKAR ROAD PAREL, MUMBAI-400012	07/01/2005
80	036219	Mr. GANAPATHI RISHINARATHAMANGALAM FCA C/O K V SUBBARAYAN FLAT 302 RACHNA I-A BAPUSAHEB JUEVKAR MARG BHANDUP(E), MUMBAI-400042	01/04/2004	94	038258	Mr. GANESH SHIVA GANESH ACA 3/12 SEEMA SCTY N DATTA MARG ANDHERI WEST MUMBAI-400053	01/04/2004
81	036631	Mr. MENDDNCA GILBERT ACA A-2/C-14, PANCHVATI C.H.S. MAROL - VIJAYNAGAR, ANDHERI (EAST) MUMBAI-400059	29/03/2004	95	038597	Mr. PATEL VISPI BEHRAM ACA 16 MODY CDLONY SYNAGOGUE ST PUNE-411001	01/04/2004
82	036643	Ms. PARDHY ACHALA HEMANT ACA 302, SHOLAY SEVEN BUNGLOWS VERSOVA, MUMBAI-400061	01/04/2004	96	038653	Mr. VIJAY KUMAR FCA 15, YAMUNA C H S NAV SHREE NAGAR, P L LOKHANDE MARG CHEMBUR, MUMBAI-400089	11/05/2004
83	036697	Mr. DALAL KULIN MAHENDRABHAI FCA 503/A, RAJ ARCADE, MAHAVIR NAGAR, DHANUKAR WADO, OPP. PANCHSHEEL HIGHT, KANDIVLI (W), MUMBAI-400067	01/04/2004	97	038791	Mr. SHAH PARESHKUMAR NAVNITLAL ACA PARESHKUMAR ASSO BLDCK A/3 DINA BAMA PATIL ESTATE STATION RD, BHANDUP - W MUMBAI-400078	01/04/2004
84	036927	Mr. JAIN MILAP SAREMAL FCA MITTAL TOWER 'C' OFFICE NO 45 IV FLR., NARIMAN POINT MUMBAI-400021	01/04/2004	98	038836	Mr. CHINOY SAJID FCA 203 HORMUZZ APARTMENTS, 131, AUGUST, KRANTI MARG KEMPS CORNER, MUMBAI-400036	01/04/2004
85	037168	Mr. NATHANI PRAKASH MATADIN FCA R NO.4 FIRST FLOOR SHAHVIRI BUILDING PICKET RD, MUMBAI-400002	12/08/2004	99	039233	Mr. SHAH RAJESHKUMAR SHANTILAL FCA C/310, SHAM NIRMAL COOP HSG SCTY 3RD FLOOR, NARSING LANE MALAD W, MUMBAI-400064	19/07/2004
86	037453	Mr. BHAVSAR ASHOK CHIMANLAL FCA 8-203 SAMAJDEEP BLDG JAMNADAS ADUKIA ROAD KANDIVALI W, MUMBAI-400067	03/08/2004	100	039247	Mr. RAVINDRA PADMAKAR SARAWATE FCA B/12, SHANTI APARTMENTS, MARATHI VIDYALAYA ROAD, MAHAKALI NAGAR, MULUND (EAST), MUMBAI-400081	22/03/2004
87	037553	Mr. METAWALA GAJENDRA CHANDULAL FCA A-76 SHRI KRISHNADHAM LBS MARG, OPP GABRIEL LIMITED MULUND WEST, MUMBAI-400080	23/12/2004	101	039294	Mr. KERAWALLA SAJJAD KASAMALI FCA 1 MASSEY SQUARE APT 1106, TORONTO ONTARIO-M4C 5L4, CANADA	11/06/2004
88	037692	Mr. HRISHIKESH MARUTI CHAVHAN FCA 1, VISHAVALAXMI APARTMENTS CAPT S CHADAVARKAR MARG 14, DAHANUKAR WADI, KANDIVLI (W), MUMBAI-400067	05/10/2004	102	039343	Mr. PRASANNA MANDHAR ATHALYE FCA FLAT NO.7, IIND FLOOR, VILE PARLE SAI KUTIR C.H.S. TEJPAL SCHEME, ROAD NO.5, VILE PARLE (EAST) MUMBAI-400057	24/06/2004
89	037756	Mr. PATIL VIVEKANAND DATTARAM FCA 70/B 1 R I S DOSTI ACRES, ANTOP HILL, WALADA - EAST MUMBAI-400037	27/07/2004	103	039363	Mr. DESAI CHETAN KANTILAL ACA B-601, 6TH FLOOR RADHAKRISHNA GOKULDHAM, NEAR KORA KENDRA, S V ROAD, BORIVILI (WEST), MUMBAI-400092	20/12/2004
90	037782	Mr. MEHTA KAIVALYA KAPINDRARAY ACA CHANDRODAY INCIDE RACHANA HOSPITAL DELA DIWANPURA ROAD BHAVNAGAR-364001	28/12/2004	104	039478	Mr. AVADHANI RAMESH ACA RELIANCE NEST (REL 17-G2) NO 13, 13TH CROSS NHCS LAYOUT VIJAYANAGAR BANGALORE-560040	01/04/2004
91	037811	Mr. MARU DEEPAK VISHANJI ACA 202 SHRADDHA APARTMENT PLOT NO 12 S NO 32 NAVGHAR NEAR UNITY HOUSE VASAI ROAD EAST VASAI-401210	13/09/2004	105	039621	Mr. GHATE BALKRISHNA KASHINATH FCA A/12, MAULI DARSHAN, SHREE NAKA, ZADGAON, RATNAGIRI-415612	01/04/2004
92	038013	Mr. SHENOY DEEPAK BHASKAR FCA B-14, VALMIKI APTS NEXT TO BOMBAY COLLEGE OF PHARMACY, SUNDER NAGAR KALINA MUMBAI-400098	01/04/2004	106	039946	Mr. PARAKH PRAKASH CHANDRA FCA 504/C SAHAJANAND SHOPPING CENTRE SHAHI BAUG ROAD AHMEDABAD-380004	20/08/2004

107	040077	Mr. SHEMBEKAR ANILKUMAR SHRIRAM 3 SUKH SAMANDHAN CO OP HSG SCTY TILAK NAGAR, DOMBIVLI (E) DOMBIVALI-421201	ACA	01/04/2004	121	041482	Mr. JAYESH NARENDRA SHETH 12, ORION APARTMENT 29-A, LALLUBHAI PARK ROAD ANDHERI (WEST), MUMBAI-400058	FCA	01/12/2004
108	040671	Mr. RAJENDRA MADHAV KAMATH 25/673, NEHRU NAGAR RAJAT COOP.HSG.SCY, KURLA (E), MUMBAI-400024	FCA	01/04/2004	122	041758	Mr. PATNI SANJAY BIRDICHAND C/O SUBHASH B.PATNI, 14 GELDA SADAN B JAGDUSHA NAGAR GHATKOPAR (W) MUMBAI-400086	ACA	20/02/2005
109	040722	Ms. RANGNEKAR SUJATA SANTOSH 139 JOLLY MAKERS CHAMBER II NARIMAN POINT, MUMBAI-400021	ACA	06/05/2004	123	041946	Mr. JAIN VIPIN KUMAR 19TH FLR, NIRMAL, 241/242 NARIMAN POINT MUMBAI-400021	FCA	24/03/2005
110	040754	Mr. RAMAKRISHNAN T N B/2/4 TATA HOUSING CENTER LALLUBHAI PARK ROAD ANDHERI W, MUMBAI-400058	ACA	01/04/2004	124	042069	Mr. KOKAL PREM VISHNU PREM KOKAL & ASSOCIATES 15 A ROOF NAGAR 80 S.V.ROAD, KANDIVILI WEST MUMBAI-400067	FCA	28/07/2004
111	040822	Mr. GILDER DINYAR JAL ASPEN 7TH FLOOR 8 PERRY CROSS ROAD BANDRA, MUMBAI-400050	FCA	17/06/2004	125	042152	Mr. PAREKH SAPAN SUDIT 12A SULEMAN CHAMBERS 4 BATTERY ST APOLLO BUNDER MUMBAI-400039	FCA	09/08/2004
112	040990	Mrs. TUSHNAMAITI PERCY SASURI S-5, GODREJ BUG OFF NAPEAN SEA ROAD MUMBAI-400026	ACA	01/08/2004	126	042493	Mr. SEJPAL VINAY SHIVLAL 17, MAKANJI MENSION BALGOVINDAS ROAD, OPP. HARI NIVAS MAHIM, MUMBAI-400016	FCA	05/05/2004
113	041014	Ms. AFONSO LALITA CORREIA 3 SUNSHINE BUILDING GENERAL BENARD GUEDES ROAD PANAJI GOA-403001	ACA	30/07/2004	127	042682	Mr. AGRAWAL MANISH BRIJKISHOR 301, D K HOUSE NR MITHAKALI UNDERBRIDGE ELLISBRIDGE AHMEDABAD-380006	FCA	25/12/2004
114	041093	Mr. DAKHERA SURAT RAM A - 706 GAYATRI DARSHAN THAKUR COMPLEX KANDIVLI E, MUMBAI-400101	FCA	24/03/2005	128	042737	Mr. LAKSHMINARAYANAN S H 4, 201 RIDDHI GARDENS GEN A K VAIDYA MARG MALAD (EAST) MUMBAI-400 097	ACA	01/04/2004
115	041099	Mr. BHATT DEVANG VASUDEV UNIT NO: 001, GROUND FLOOR GODAVARI WING A SHANTIVAN COMPLEX NEAR NATIONAL PARK BORIVLI (EAST), MUMBAI-400066	FCA	01/04/2004	129	042763	Ms. CHANDNANI NAINA CHIJALAL B-4 SAGAR SANJOG PICNIC COTTAGE VERSOVA SEA FACE MUMBAI-400061	ACA	01/04/2004
116	041244	Mr. LAKDAWALA RIYAZ ABID AL BILAD CATALYST CO LTD ACCOUNT DEPT.P.O.BOX 10174 JUBAIL INDS CITY K.S.A-31961, K.S.A	ACA	01/04/2004	130	042968	Mr. GOPANI KETAN KISHOREBHAI 113 MAHAGIR APT, 11TH FLOOR ASHOK CHAKRAVARTI ROAD NEAR JAIN TEMPLE KANDIVALI (EAST) MUMBAI-400 101	FCA	15/03/2004
117	041246	Mr. KHEDKAR NITIN RUKHABDAS B 403 PANCHRATNA NEAR BHUTA HIGH SCHOOL OLD NAGARDAS, CROSS ROAD ANDHERI EAST, MUMBAI-400069	ACA	28/03/2005	131	043010	Ms. DESAI UMITA DHIRUBHAI 12, ORION APARTMENTS 29 - A, LALLUBHAI PARK ROAD ANDHERI - WEST MUMBAI-400058	FCA	01/12/2004
118	041281	Mr. NARENDRAKUMAR CHHAGANLALJI SHAH B 305 SMINU C H S LTD OPP M C F GARDEN PREM NAGAR OFF SV P RD, BORIVLI (W), MUMBAI-400092	FCA	24/12/2004	132	043038	Mr. SHAH DHIREN RAJNIKANT SHAH A-11, TEJKIRAN SOC., RAMMANDIR ROAD, VILE PARLE-EAST MUMBAI-400057	ACA	31/08/2004
119	041324	Mr. MUCHHALA ATUL SHANTI LAL B/101, DHARMA NAGAR OFF LINK RD, PLOT NO.247 BEHIND YOGI NAGAR BORIVALI - WEST, MUMBAI-400091	ACA	16/03/2005	133	043124	Mr. BHATKI MAHESH KAMALAKAR A 4/002 SHIVCHHAYA GILBERT HILL ROAD DHOLAKIA NAGAR NEAR RECREATION CLUB ANDHERI WEST MUMBAI-400058	FCA	29/06/2004
120	041458	Mr. PIYUSH VEDPRAKASH GDYAL 501, ARCHANA RAJABALI PATEL LANE OPP BREACH CANDY HOSPITAL MUMBAI-400026	FCA	01/04/2004					

134	043301	Mr. SHAH HEMANT KANTILAL FCA 54, SIDDHACHALGIRI APTS., ASHOK CHAKRABORTY RD., KANDIVALI EAST MUMBAI-400001	19/08/2004	148	044865	Mr. SHAH MUKESH GORDHANDAS ACA 1/5 JUHU SAMEEP JUHU VERSOVA RD ANDHERI (WEST) MUMBAI-400053	01/04/2004
135	043303	Ms. DANDEKAR SHUBHADA SANJEEV ACA B 203 SHALAKA CO OP HSG SOC SWAMI NITYANAND MARG ANDHERI (EAST) MUMBAI-400069	01/04/2004	149	044956	Ms. GIRJA MAHADEVAN ACA FLAT 12 VAISHAKH MULUND OM CHS LTD P KHERAJ ROAD NAHUR MULUND W MUMBAI-400080	01/04/2004
136	043506	Mr. AMOL VIJAY SAWANT FCA A/604 SHANTI APARTMENTS MAHAKALI NAGAR VIDYALAYA ROAD MULUND E, MUMBAI-400081	01/04/2004	150	044957	Ms. RAJALAKSHMI JAYARAMAN FCA C/O P P JAYARAMAN & CO OFFICE NO 107 & 108 1ST FLOOR SWASTIK PLAZA NR VOLTAS LTD SUBASH NAGAR, POKHARAN ROAD NO 2, THANE - WEST, THANE-400602	01/04/2004
137	043734	Mr. KOTHARI SUNIL MANIKANT FCA 2 KRISHNA COTTAGE 27 NATH PAI NAGAR GHATKOPAR(EAST) MUMBAI-400 077	15/03/2004	151	045091	Mr. KAPIL PRANNATH MARWAHA ACA 4/31 SHANTI BLDG NO 2 PEDDAR ROAD MUMBAI-400026	22/03/2004
138	043781	Mr. GAURI SHANKAR JHALANI FCA 407 BUSINESS PARK S V RD, MALAD WEST MUMBAI-400064	03/01/2005	152	045193	Mr. VIVEK VINAYAK MULYE ACA A 303 ATRIA AKRUTI NIHARIKA COMPLEX PROF N S PHADKE MARG ANDHERI (E), MUMBAI-400069	01/04/2004
139	043862	Mr. PARAS NAVINCHANDRA SANGHVI ACA 195/5, LAXMI NIVAS, STATION ROAD, VADALA, MUMBAI-400031	01/04/2004	153	045301	Mr. NAGWEKAR JAGDISH ANANT FCA SHIVNIWAS R.N.5 JAWAHAR NAGAR KHAR E, MUMBAI-400051	11/05/2004
140	043968	Mr. YADAVALLI VENKATA GOPALAM ACA A-II, 106, AGENT RESIDENCY OFF MAHAKALI CAVES ROAD BEHIND POONAM NAGAR ANDHERI - EAST MUMBAI-400060	24/01/2005	154	045307	Mr. MANIAN SHANKARA SUBRAMANIAN ACA C/1, GANESH COOP HSG SOCIETY METHAGAR ROAD -W MULUND WEST, MUMBAI-400080	01/04/2004
141	044003	Mr. MATAIA KAMAL FCA KAMAL MATAIA & CO., 21, MEGHDOOT, PESTOM SAGAR ROAD NO.4 CHEMBUR, MUMBAI-400089	01/08/2004	155	045339	Ms. MEHTA JAGRUTI BHAVESH ACA C/O N G MEHTA 501 LAXMAN TOERS CHIKOOWADI, BORIVLI(W) MUMBAI-400092	10/10/2004
142	044350	Mr. SANJIV USHAKANT SHAH ACA A-92 VENUS APARTMENT NEAR PRAKASH HIGH SCHOOL VASTRAPUR AHMEDABAD-0	29/07/2004	156	045565	Mr. MANISH SOBHAGCHAND SHAH ACA 6 NEEMCHHAYA M G ROAD, GHATKOPAR (E) MUMBAI-400077	30/12/2004
143	044360	Mr. BASANT KUMAR BANSAL FCA A5/404 R N A PARK NEAR H P NAGAR EAST VASHI NAKA CHEMBUR MUMBAI-400074	01/04/2004	157	045635	Mr. MADAN BAJARANGLAL VAISHNAWA FCA B-22, ASHLESHA SECTOR 3, SRISHTI, MIRA ROAD (EAST), DIST: THANE MIRA ROAD-401107	09/03/2005
144	044366	Mr. IYENGAR MADHAVAN N ACA FLAT NO. B-21 5TH FLOOR CLARION PARK AUNDH, PUNE -7	01/04/2004	158	045652	Mr. MEHTA BHAVESH NALINKUMAR ACA C/O N G MEHTA 501 LAXMAN TOWERS CHIKOOWADI BORIVLI(WEST), MUMBAI-400092	10/10/2004
145	044523	Mr. SHAH AMAR NARENDRABHAI ACA 12 HARSH APARTMENTS 36 PRITAM NAGAR AHMEDABAD-380006	23/11/2004	159	045820	Ms. SHUKLA TRUPTI DEEPAK ACA 702 C HULAS BASTI TOWER DATT MANDIR X RD DHANUKARWADI KANDIVLI-W MUMBAI-400067	17/08/2004
146	044526	Mr. PRABHU PARAG VENKATRAMAN FCA BLDCK NO. 8, DEEPA APTS., MALVIYA ROAD., VILE PARLE E, MUMBAI-400057	01/04/2004	160	045892	Mr. DESAI DIVYESH KISHORBHAI ACA B/502 KRISHNA RESIDENCY 5TH FLOOR ATMARAM COMPOUND SUNDER NAGAR MALAD WEST MUMBAI-400064	01/04/2004
147	044541	Ms. NALAWADE ASHA PRASANNA ACA POST BOX NO 13173 DUBAI, U A E	10/08/2004				

161	045917	Mr. RATHORE UTTAM SINGH FCA RUSTOMJEE ROYALE FLAT NO 1304 13TH FLOOR A WING IDEAL FARM WEST OF RAILWAY LINES J S MARG DAHISAR (W) MUMBAI-400068	17/01/2005	174	046779	Mr. SHAH SANJAY M ACA A-12 SAMANDHAR NAGAR RANNA PARK, GHATLODIA AHMEDABAD-380061	08/09/2004
162	045973	Ms. VANI VINOD CHINCHANI FCA C/O L.L. MUNDADA VIDYARTHI 8HAN LALA DEVIDAYAL ROAD MULUND W, MUMBAI-400080	01/04/2004	175	046821	Mr. RATAN PARVEZ MISTRY FCA 732 DINSHAW HOUSE J VIMADALAL ROAD PARSI COLONY DADAR, MUMBAI-400014	15/03/2005
163	046091	Mr. SHAH NILESHKUMAR DHIRAJLALL ACA B/11, VIMAL APTS, 3RD FLOOR JUHU LANE, ANDHERI (W), MUMBAI-400058	01/04/2004	176	046824	Mr. SESHADRINATHAN A V ACA 9/7 MUMBADEVI CD-OP HSG SOC SAI NAGAR-COLONY, CHEMBUR, ST ANTHONY'S ROAD MUMBAI-400071	19/08/2004
164	046093	Mr. BRAHME MAHESH SHIVANAND ACA 9/102 RAMKRISHNA NAGAR KHAR-W, MUMBAI-400052	01/04/2004	177	046825	Mr. JAIN SUNIL KUMAR HANUMANMAL ACA 17 M.B. VELKAR STREET (1ST CROSS LANE) JAIDEVI NIWAS, 1ST FLOOR MUMBAI-400002	19/08/2004
165	046103	Mr. SAEED SIKANDER SAYED FCA E A JUFFALI & BROS (CORPORATE OFFICE) P O BOX - 15877, JEDDAH-21454 SAUDI ARABIA	19/08/2004	178	046841	Ms. BANADEVI VENKATESH DESHPANDE ACA B4/302, GANGADHAM PHASE I BIBWEWADI KONDHWA ROAD NEAR MARKET YARD PUNE-411037	1/04/2004
166	046147	Ms. DESHPANDE ANJALI ASHUTOSH ACA BLDG NO. 6 F, FLAT NO. 9 SURVEY NO. 21 PASCHIMA NAGARI KARVENAGAR, PUNE-411052	01/04/2004	179	046915	Mr. AGBOATWALA SAQUIB SALIM ACA JUFFALI PRINTING SYSTEMS LTD P O BOX 52967 JEDDAH-21573 SAUDI ARABIA	01/04/2004
167	046151	Mr. HDNKAN MUKUND MADHAV ACA FLAT NO.2, GROUND FLOOR, 'X' WING, SHRI SWAMI SAMARTH APARTMENTS S.NO.106, (OLD S.NO.66) NILE MORE NR. PATANKAR PARK, NALLA SOPARA (W), VASAI THANE-401203	01/04/2004	180	046932	Mr. RAGHUNATH VASANT DESAI ACA FLAT NO-8, 1ST FLOOR SUJATA APARTMENT RAMNAGAR, OFF SV ROAD BORIVLI WEST, MUMBAI-400092	01/04/2004
168	046252	Mr. BONDRE DEEPAK MOTIRAM FCA 308, SHIVANAND RAGHUNATH NAGAR, SURVEY WADI OFF EASTERN EXPRES HIGHWAY THANE-400604	24/09/2004	181	046934	Mr. JOSHI HITEN MANUBHAI ACA BLDG H-6, FLAT NO 2-4 LAKE VIEW CO-OP SOC SECTOR-14, AIROLI NAVI MUMBAI-400708	24/09/2004
169	046302	Ms. DALANI TERESA ANTONY MUCKADEN ACA 5-BERCHMAN HOL' SE ST. PETERS CO-OP HSG SOC 31 PALI RD, BANDRA, MUMBAI-400050	05/01/2005	182	046974	Mrs. DEVAKI ATUL NAIK ACA C/O R G RAJMAKHAR 504 - A/2, SHANIWAR PETH MEHUNPURA PUNE-411030	22/12/2004
170	046328	Mr. JAIN RAJENDRA KUMAR FCA 110 NEELKANTH COMMERCIAL CENTER 122/123 SAHAR RD ANDHERI (EAST), MUMBAI-400099	16/11/2004	183	047084	Mr. SRIRAM K S NARAYANASWAMY ACA FLAT NO 1, PADMALAYA INTERCITY CO OP HSG SOCIETY PLOT NO 5, SECTOR 16-A, VASHI, NAVI MUMBAI-400705	01/04/2004
171	046382	Mr. BHATT RAKESH FCA A/10 SANSKARDEEP APARTMENTS OPP SURYAVANSHI TOWER VASTRAPUR AHMEDABAD-380015	15/09/2004	184	047093	Mr. AJAY BALKRISHNA BHATWAL FCA M/S A S BHATWAL & ASSOCIATES 1424 AGRA ROAD P BOX 69, DHULE-424001	19/08/2004
172	046502	Mr. KHARE SUNIL ASHOK ACA B -18, ASHIRWAD VEERA DESAI ROAD CROSS ROAD NO.1, ANDHERI (WEST) MUMBAI-400058	22/09/2004	185	047105	Ms. VIDYA MADHUSOODAN SHENOY ACA 71/202, SHAM VASANT VIHAR POKHRAN ROAD NO 2 THANE-WEST, THANE-400601	15/12/2004
173	046554	Mr. DEDHIA MANISH VISHANJI FCA 1/8, ANAND, B S E S RD NEAR RATIONING OFFICE SANTACRUZ-EAST MUMBAI-400055	01/04/2004	186	047130	Mr. SUDHIR KUMAR BABUMAL SINGHI FCA SILVER APARTMENT FLAT A- 3, AKURLI CROSS ROAD NO-1 KANDIVALI-EAST MUMBAI-400101	23/03/2005

187	047145	Mr. V SURESH A-4, TULSI PARVATI CO OP HSG SCTY KAILASH NAGAR, DOMBIVALI-421202	ACA	27/03/2005	200	047903	Mr. MAHESHWARI BAL MUKAND D 303, DHARMA NAGAR CHS LTD, OPP YOGI NAGAR LINKING RD, BORIVLI(W) MUMBAI-400091	ACA	01/04/2004
188	047158	Mr. KAMATH DIWAKAR KESHAV AL-SAYER GROUP P O BOX 485, SAFAT 13005 KUWAIT-0, UAE	ACA	26/09/2004	201	047996	Mr. SHARMA JITENDRA MAHAVIR PRASAD C-2/15 SUNDER NAGAR MALAD(W), MUMBAI-400064	ACA	27/08/2004
189	047288	Mr. PATEL DEVANG BHUPENDRABHAI GURU SMRUTI TILAK VIDHALYA ROAD VILE PARLE EAST MUMBAI-400057	FCA	25/03/2004	202	048174	Mr. SUBRAMANIAM K V FLAT NO 301 PAARIJAT BUILDING NO 2 VASANT VIHAR TNANE-W, THANE-400601	ACA	29/09/2004
190	047307	Mr. THAKKAR JUBIN KISHORE B1 MAYUR MA KRUPA OPP GOKHALE SCHOOL SHIMPOLI ROAD BORIVLI (WEST), MUMBAI-400092	FCA	31/05/2004	203	048198	Mr. NEGANDHI RAJIV JAYSINH 1205-1206 A WING SHANKAR PARK, SHANKAR LANE KANDIVALI WEST, MUMBAI-400067	ACA	22/06/2004
191	047353	Mr. JAYANTILAL BABULAL JAIN 302 GIRNAR TOWER SETH MOTISHA LANE (LOVE LANE) NEXT TO MAZGAON TELEPHONE EXCHANGE BYCULLA, MUMBAI-400010	ACA	01/04/2004	204	048235	Mrs. RAJANI NATRAJ C/O DR. K.V. RMALINGAM 206 SUPARSHAV APARTMENTS SARVODAYA NAGAR NAHUR ROAD, MULUND (WEST) MUMBAI-400080	FCA	06/09/2004
192	047395	Mr. BHEDA VIPUL KHMJI 01, LABH ASHISH -A, OLD POLICE LANE ANDHERI (EAST), MUMBAI-400069	FCA	01/04/2004	205	048264	Mr. CHANDRASHEKAR GOPALAKRISHNAN FLAT NO 11, REKHA BUILDING REVATI CO OP HSG SOC PLOT NO 470, 14TH RD, CHEMBUR, MUMBAI-400071	ACA	28/02/2005
193	047471	Mr. CHITLANGE VIJAYKUMAR SITARAM C-8/29 MSEB QUARTERS NEW PARALI THERMAL POWER PROJECT VIDYUT NAGAR, DIST BEED PARALI, VAIJANATH-431520	ACA	16/02/2005	206	048330	Mr. SAMIR RAMJIBHAI DEDHIA A-9, GANDHISADAN, NEW NAGARDAS ROAD ANDHERI EAST, MUMBAI-400069	FCA	01/04/2004
194	047500	Mr. DESAI HEMULKUMAR SURESHCHANDRA 102-A, SAMKEET SANT JANABAI ROAD OFF HANUMAN ROAD VILE-PARLE - EAST MUMBAI-400057	ACA	01/06/2004	207	048348	Mr. PARIKH JWALANT SATISH B-83, PALAN SOJPAL BUILDING S K BOLE RD, DADAR (W) MUMBAI-400028	ACA	23/02/2005
195	047517	Mr. MULTANI MANOJ BHAGWANDAS 32/B NAVYUG MANSION SLEATER ROAD MUMBAI-400007	FCA	29/12/2004	208	048379	Mr. NATWARLAL SITARAM BANKA B 206 UPVAN TOWERS UPPER GOVIND NAGAR MALAD EAST, MUMBAI-400097	FCA	21/02/2005
196	047548	Mr. DESAI KETAN UTTAMCHAND 31/160 HAPPY HOME APARTMENTS ANKUR ROAD, NARANPURA AHMEDABAD-380013	FCA	11/02/2005	209	048400	Mr. KRISHNAN SUBRAMANIAN 7 AKHTAR MANZIL, 1ST FLOOR NR GOPAL BHUVAN BUS STOP AGRA ROAD, GHATKOPAR (WEST) MUMBAI-400086	ACA	24/01/2005
197	047658	Mr. SHAH GAURANG GUNVANTHRAY MUTTAL CO OP HSG SOCIETY SECOND FLR., FLAT NO 12 CHH SHIVAJI MARG, VAKOLA BRIDGE SANTACRUZ-EAST, MUMBAI-400055	ACA	09/12/2004	210	048418	Mr. GYAN PRAKASH 315 PANCH SHEEL-3 WING D, RAHEJA TOWNSHIP MALAD (EAST), MUMBAI-400097	FCA	30/12/2004
198	047705	Mr. SHAH KINNAR KANTILAL 1192, SHAMLA'S POLE RAIPUR, AHMEDABAD-380001	ACA	01/04/2004	211	048480	Mr. PARMAR ROHIT MOHANLAL 45-F SECTOR VI RELIANCE TOWNSHIP MOTI KHAVDI, P O DIGVIJAYGRAM JAMNAGAR-361140	ACA	10/07/2004
199	047765	Mr. PRABHU CHETAN NARAYAN JUG BUNK OF INDIA STAFF BUILDING BHARDAWADI ROAD ANDHERI(WEST), MUMBAI-400058	ACA	01/04/2004	212	048620	Mr. GOKHALE NITIN VIDYADHAR SUDHENDU CO-OP HSG SOCIETY, FLAT NO 6, 1ST FLOOR, RAMBAG PAUD ROAD, PUNE-411038	ACA	05/02/2005

213	048714	Mr. ARORA NARENDRA VISHAMBHARNATH A-201 HILL GRANGE HIRANANDANI ESTATE, GHODBUNDER ROAD, THANE (WEST), THANE-400607	ACA	19/07/2004	227	049605	Mr. UMESH ANILKUMAR DESAI 9, SAI SADAN, 2ND FLOOR HARGOVINDAS LANE, M V ROAD, ANDHERI EAST, MUMBAI-400069	FCA	09/03/2005
214	048726	Mr. TELI SHREEKRISHNA PANDURANG 2 'AMOD' CHICHPADA ROAD, BORIVALI E, MUMBAI-400066	ACA	29/03/2004	228	049613	Mr. JANI MUKESH ANANTRAI 7 MANISHA BLDG, 5TH CARTER ROAD, BORIVALI EAST, MUMBAI-400066	ACA	01/04/2004
215	048819	Mr. MANOJ MEHTA C-9, ANUPRITA VEERA DESAI RD ANDHERI (W), MUMBAI-400053	ACA	10/10/2004	229	049660	Mr. NILESH VASANTLAL SHAH A-2, REKHA APARTMENT, DOMNIC COLONY ROAD NO 3, MALAD WEST, MUMBAI-400064	FCA	15/03/2005
216	048830	Mr. IYER RAJU VISWANATHAN 16, "BHAIKAVI", BORLA UTTAM CO-OP HSG SOC LTD, ST. ANTHONY ROAD, CHEMBUR, MUMBAI-400071	FCA	20/08/2004	230	049727	Mr. PANDYA HITESH JASWANTRAI 12 GOKUL NIWAS BAJAJ RD, VILE PARLE (W), MUMBAI-400056	ACA	22/12/2004
217	048895	Mr. DHANUKA SUSHIL V 16A/22, BRINDABAN SOC., THANE-400601	ACA	01/04/2004	231	049811	Mr. MODI RAJESHKUMAR MOHANLAL A/302, SHIV SAGAR APARTMENT, ASHA NAGAR, THAKUR COMPLEX, KANDIVLI (EAST), MUMBAI-400101	ACA	24/06/2004
218	048932	Mr. JAIN BUDH RAJ 204, "A" WING, SEA LAND TOWER JESAL PARK, BHAYANDAR (EAST) BHAYANDAR-401105	ACA	30/06/2004	232	049856	Mr. LADDHA ARVIND GOVINDPRASAD FLAT NO. 8, IIND FLOOR SUKHWANI CHAMBERS PIMPRI, PUNE-411018	ACA	27/09/2004
219	048973	Mr. DWIVEDI PRAVINKUMAR B/304, MAHESHWARI NAGAR, MID C ANDHERI - EAST, MUMBAI-400093	FCA	08/12/2004	233	049880	Mr. ARUN SHAH A-26, BLOCK A, SHRI KRISHNA(B) CO OP HSG SOCIETY, ADJACENT LAD SOCIETY OUTSIDE VASTRAPUR AHMEDABAD-380015	FCA	24/01/2005
220	048988	Mr. MUNSHI AMISH ANILKUMAR FLAT NO.156, 6TH FLOOR SAHAKAR NIVAS, 20 TARDEO RD MUMBAI-400034	ACA	01/04/2004	234	049904	Mr. KARIM ASHFAQUE MOHSIN FLAT NO 5 WING C 1 DIAMOND CO-OP HSG SOC VIDYA NAGRI MARG KALINA SANTACRUZ(E) MUMBAI-400098	ACA	24/12/2004
221	049077	Mr. PANDIT AMIT ANIL D-201/202, SATELLITE PARK CAVES ROAD, JOGESHWARI (E) MUMBAI-400060	FCA	01/04/2004	235	049957	MR. JOSHI PRAMOD KUMAR A 501 GOVARDHAN NAGAR BORSAPADA ROAD POISAR KANDIVALI(W) MUMBAI-400067	ACA	22/02/2005
222	049141	Mr. JAIN LALIT KUMAR D-82 OM, TOWER SAHIBAG NEAR RAJASTHAN HOSPITAL CAMP ROAD, AHMEDABAD-380004	ACA	01/04/2004	236	051588	Mr. BHANDARI PRADEEP KUMAR C/O P K BHANDARI & CO BUNGALOW NO 1 RAYMOND STAFF QUARTERS P O JEKEGRAM, THANE-400606	FCA	14/09/2004
223	049196	Mr. HITEN RAMNIKLAL SHAH A/303 VRUNDAVAN COMPLEX OPP CHINMAY TOWERS NEAR SUBHASH CHOWK MEMNAGAR AHMEDABAD-380052	FCA	08/02/2005	237	052582	Mr. DINESH RAMNIKLAL DESAI M/S. SUN PHARMACEUTICAL IND LTD ACMA PLAZA, ANDHERI-KURLA RD ANDHERI (EAST), MUMBAI-400059	FCA	17/08/2004
224	049246	Mr. RAJESH BANSAL 5666 GODI ROAD DAHOD-389151	ACA	30/11/2004	238	054939	Mr. DSOUZA ANTHONY RAYMOND G-35, VENUS APARTMENTS 9TH FLOOR, R. G. THADANI MARG V'OR' I SEAFACE ROAD MUMBAI - 400 0018.	ACA	01/04/2004
225	049456	Mr. AGARWAL PRASHANT KAILASH M/S SAI MANGAL INDUSTRIES SHED NO 2 SUVARNA LAGHU UDYOG YOJANA(SLUY) BEHIND TRUCK TERMINUS NEAR SHRAMIK CHOWK NAGAR ROAD MIDC WALUJ, AURANGABAD-0	ACA	01/04/2004	239	054440	Mr. MANOJ K CHOUHAN 301 PARK RESIDENCY BEHIND CHANDAK'S BUNGLOW NORTH AMBAZARI ROAD DHARAMPETH NAGPUR-440010	ACA	16/06/2004
226	049480	Ms. GULVADI PALLAVI UDAY 607 / B2 HIBISCUS OFF YARI ROAD VERSOVA, ANDHERI WEST MUMBAI-400061	ACA	01/04/2004					

240	054562	Mr. GUPTA GULABDAS 304, GITA TOWER EVERSHINE CITY VASAI (EAST), THANE-401205	FCA	01/04/2004	252	073501	Mr. PAREEK MAHESH CHANDAR B-702 STERLING COURT ORKAY MILL LANE MIDC MAROL ANDHERI EAST MUMBAI-400072	ACA	02/08/2004
241	056019	Mr. VINOD KUMAR SHARMA B-505 GANGA GARDEN S.NO. 77 MUNDHWA ROAD, KOREGAON, PARK ANNEXE, PUNE-411036	FCA	20/12/2004	253	073526	Mr. KAMLESH KUMAR MEHTA 102 ARIHANT PARK, NEAR MODEL TOWN, PARWAT PATIA, SURAT-395003	ACA	01/04/2004
242	056323	Ms. SUKHANI RANJANA C/O MR MANOJ SUKHANI 609 C UPVAN TOWER UPPER GOVIND NAGAR MALAD(E), MUMBAI-400097	ACA	28/03/2005	254	073572	Mr. HARISH KUMAR MAHESHWARI O-1/3 JA'VIJAYSHREE CHS LTD BANGUR NAGAR GOREGAON (W), MUMBAI-400090	FCA	07/01/2005
243	057167	Mr. PANDEY SANJAY KUMAR C-93 WESTEND PARK NEAR GURUDWARA THALTEJ, GUJRAT AHMEDABAD-380059	ACA	28/09/2004	255	074221	Mr. AGRAWAL PRADEEP KUMAR SB-61, AVISHKAR COMPLEX NEAR G E B COLONY/ OLD PADRA ROAD VADODARA-390 015	FCA	15/01/2005
244	057498	Mr. SUKHANI MANOJ FLAT NO 609 'C' WING UPVAN TOWERS UPPER GOVING NAGAR MALAD (EAST), MUMBAI-400097	ACA	28/03/2005	256	074254	Mr. NAVIN KUMAR AGRAWAL C-303 ORCHUD ENCLAVE J B NAGAR, ANDHERI(E) MUMBAI-400059	FCA	03/01/2005
245	059374	Mr. SUBASH CHANDRA MOHANTY PL 6A -2/15, VARSHA APARTMENTS OWNERS ASSOCIATION SECTOR 1, KHANDA COLONY NEW PANVEL(WEST) NAVI MUMBAI-410206	ACA	01/04/2004	257	075019	Mr. TOSHNIWAL RAMAVTAR GMK CHAMBERS 108 HEERA PLAZA NEAR TELEPHONE EXCHANGE C A RD, NAGPUR-440008	FCA	03/01/2005
246	061066	Mr. BAJAJ RAVI KUMAR FLAT NO. 204, BUILDING NO. 6 BALAJI GARDENS CO-OP. HOUSING SOCIETY SECTOR-II, KOPARKHAIRNE NAVI MUMBAI-400709	ACA	16/08/2004	258	075185	Mr. JAIN MANOJ KUMAR 206 PANCHARATNA TOWERS NEAR KOTHRUD, BUS STAND KOTHRUD, PUNE-411029	FCA	17/06/2004
247	061295	Mr. LAKHOTIA MANISH KUMAR B 108 RAJ SATYAM COMPLEX SHIV VALLABH ROAD ASHOK VAN, DAHISAR EAST MUMBAI-400068	ACA	28/03/2005	259	075455	Mr. MAHESHWARI GOVIND MANAGER (MARKETING) M/S MANIKGARH CEMENT P O GADCHANDUR THE-KORPANA, CHANDRAPUR-442908	FCA	01/04/2004
248	072310	Mr. AGARWAL PRADEEP KUMAR COTTON CORPN OF INDIA LTD DY GENERAL MANAGER (SALES) FLAT NO F-49, INCOME TAX COLONY SECTOR 21/22, CBD BELAPUR NAVI MUMBAI-400614	FCA	19/08/2004	260	076088	Mr. PRAVEEN KUMAR BHANDARI A-201, RAJ RESIDENCY BUILDING NO 2, MAHAVIR NAGAR DAHANUKARWADI, KANDIVALI(W) MUMBAI-400067	ACA	01/12/2004
249	072626	Mr. ABANI GAJENDRA RAJ B/4, 1ST FLR, YOGA CO OP HSG SOC. LTD., PLOT NO 19, 12TH GULMOHAR CROSS RD, J.V.P.D. SCHEME, JUHU ANDHERI WEST, MUMBAI-400049	FCA	01/04/2004	261	076533	Mr. CHECHANI GHAN SHYAM C-205, MADHAV JYOT APARTMENT NEAR HONEY PARK ADAJAN, SURAT-395009	FCA	01/04/2004
250	072855	Mr. SARUPARIA DEEPAK 402, 1-B GREEN MEADOWS LOKHANWALA TOWNSHIP KANDIVLI (EAST), MUMBAI-400101	FCA	05/02/2005	262	076788	Ms. JAIN ALKA FLAT NO 206, PANCHARATNA TOWER NEAR KOTHRUD, BUS STAND, KOTHRUD, PUNE-411029	ACA	17/02/2005
251	073205	Mr. GOYAL C P C P GOYAL & CO FLAT 104 BLDG C-18 SECTOR 6, SATKAR CO-OP HSG SOC. MIRARAO, SHANTI NAGAR MIRARAO-401104	ACA	28/12/2004	263	076800	Mrs. SEEMA BHAUMIK TURAKHIA D-12 V FLR, EVEREST BLDG PANDIT M M MALVIYA MARG TARDEO, MUMBAI-400034	FCA	15/02/2005
					264	076894	Mr. ANAND BUDHIA DGM ACCOUNTS BALLARPUR INDUSTRIES LTD 105 MILE STONE, PUNE SOLAPUR HIGHWAY BHADALWADI, PAUNDHWADI NEAR BHIGWAN, TALUKA INDAPUR PUNE-413103	ACA	01/04/2004
					265	077476	Mr. ANIL KUMAR GARG PRITHVI PRAKASHAN LTD LOKMAT BHAVAN POORNIMA APARTMENTS KONDA LANE, LAXMIPURI, KOLHAPUR-0	ACA	01/04/2004

266	077728	Mr. MEHTA TIRUPAT C/O B L DASHARDA & ASSOCIATES, 2 SHREYAS, GROUND FLOOR BEHIND RAJ OIL CENTER 113 J P ROAD, ANDHERI WEST MUMBAI-400058	ACA	16/06/2004	279	089488	Mr. ASHISH NAHATA 11D/12, SIDHARTH NAGAR APARTMENT PHASE II, AUNDH, PUNE-411007	FCA	01/04/2004
267	078301	Mr BABU SINGH RAJPUROHIT 301/2B ADARSH NAGAR KOLBAD ROAD NEAR PRATAP CINEMA THANE(W), THANE-400601	ACA	31/08/2004	280	091061	Mr. GIRISH KUMAR GLAT NO 402, STUTI FLATS OPP G E B, SUB STATION GOTRI RD, VADODARA-389001	ACA	01/04/2004
268	078354	Mr. KALANI ASHISH C/O SONI AGARWAL & CO 104 SHANTI DARSHAN DPP VEENA HOTEL STATION RD, BHAYANDER WEST THANE-458441	FCA	01/04/2004	281	091148	Mr. BATRA ASHWANI KUMAR FLAT NO. B-52, PLDT NO.-47 RUIA PARK SOCIETY J R MAHATRE ROAD RUIA PARK, JUHU, VILE PARLE (W), MUMBAI-400049	FCA	15/03/2005
269	078392	Ms. REENA SEN FLAT NO 204, MAHAVIR DARSHAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY SECTOR 2, RDP 1 NR POLICE STATION CHARKDP, KANDIVLI(W) MUMBAI-0	FCA	28/05/2004	282	092130	Mr. SANJAY KUMAR MIRANKA BIRLA GLDBAL FINANCE LTD-GROUP MANAGER APEEJAY HOUSE, 2ND FLOOR SHAHID BHAGAT SINGH MARG FORT, MUMBAI-400001	FCA	04/02/2005
270	079009	Mr. TARANG GOYAL 503/1A, THE NEIGHBOURHOOD LOKHANDWALA, KANDIVLI (E), MUMBAI-400101	ACA	18/05/2004	283	093058	Mr. SETHI GAUTAM A-21, OSHIWARA TARAPDRE GARDEN NEW LINK RD, ANDHERI W MUMBAI-400058	ACA	23/06/2004
271	079915	Mr. SONI ABHISHEK FLAT NO 5, GODAVARI NAGAR BEHIND SUGAM FLATS OPP TULSI PARTY PLOT VASNA AHMEDABAD-380007	ACA	01/04/2004	284	093079	Mr. SAINI SOM NATH 11-B/402 SPRING LEAF LDKHANDWALA COMPLEX KANDIVALI (E), MUMBAI-400101	ACA	01/04/2004
272	079982	Mr. MOHNOT DEEPAK RODM NO. 201, 2ND FLOOR RIDHI SIDHI APARTMENT C/O D P SHAH NEAR COLLEGE COMPOUND PALANPUR, BANASKANTHA-0	ACA	02/11/2004	285	093717	Mr. MOHAN C 4 SHAHENS SHAH APARTMENT MONGINIS LANE, NORTH MAIN ROAD KDREGAON PARK, PUNE-411001	ACA	20/12/2004
273	083116	Mr. ANOOP KUMAR FLAT NO 1104, SOVEREIGN BUILDING, HIRANANDANI GARDEN, POWAI, MUMBAI-400076	FCA	29/09/2004	286	094532	Mr. ANURAG BANSAL 506 5TH FLOOR NANABHAI MANSION SIR P.M. ROAD, FORT, MUMBAI-400001	FCA	01/04/2004
274	083683	Mr. AGGARWAL ARUN VICE PRESIDENT (FINANCE) ZEE TELEFILM LTD, 135, CONTINENTAL BUILDING DR. ANNIE BESANT ROAD, WORLI, MUMBAI-400018	FCA	05/08/2004	287	095760	Mr. MOHTA NAVEEN MANAGER COMMERCIAL HAL OFFSHORE LIMITED 201 BLDG NO 8 SOLITAIRE CORPORATE PARK ANDHERI KURLA ROAD ANDHERI (E), MUMBAI-400093	ACA	06/01/2005
275	085287	Mr. KHURANA VIJAY KUMAR H-23/2-B, PANCHJYOT CO-OP. HOUSING SOCIETY SECTOR-29, VASHI (NAVI MUMBAI) MUMBAI-400703	FCA	10/09/2004	288	096851	Mr. RAKESH DHASMANA A-42 NIRMAL TOWER NEAR SATADHAR CROSS RD, SOLA RD, AHMEDABAD-380061	ACA	28/09/2004
276	085368	Mr. MITTAL ALOK KUMAR 23 BEACH TOWERS P BALU MARG PRABHADEVI WORLI, MUMBAI-400025	ACA	29/09/2004	289	100049	Mr. GIRISH SAVJIBHAI AMESARA D/101, KANAKIA PARK II THAKUR COMPLEX KANDIVALI- E, MUMBAI-400101	ACA	23/08/2004
277	088227	Mr. GUPTA PARDEEP 1304-A, OBEROI GARDENS, THAKUR VILLAGE, KANDIVLI (EAST), MUMBAI-400101	ACA	31/05/2004	290	100101	Mr. JAMAL ASHRAF ABDUL HABIB CHATRIWALA DIAMOND APARTMENT C WING, 2ND FLOOR FLAT NO 212, ROOM NO. 134 S V ROAD JOGESHWARI W, MUMBAI-400102	ACA	01/04/2004
278	088370	Mr. DEEPAK KUMAR FLAT NO 601 MADHAV HILL JIND FLOOR WAGHAWADI ROAD BHAYNAGAR-364001	FCA	01/06/2004	291	100169	Mr. POPATLAL HARISHAI PATEL 149 MANHATTAN TERR NJ 07628, DUMONT-0, USA	FCA	01/04/2004
					292	100179	Mr. AGRAWAL DEEPAK PURUSHOTTAM E-21 22 SAI PARK NAVGHAR ROAD BHAYANDAR-401105	ACA	25/06/2004

293	100208	Mr. CHAINANI HARISH KISHIN 304, VASANTHI APTS, NAVGHAR ROAD, MULUND E, MUMBAI-400081	ACA	01/04/2004	307	100701	Mr. DOSHI TEJAS JITENDRA 23818 E BAINTREE ROAD BEACHWOOD, OH-44122, USA	ACA	06/09/2004
294	100217	Mr. MISTRY ZUBIN DARA LADY RATAN TOWERS A WING FLAT NO.303-A, DAINIK SHIVNER MARG OPP. NEHRU SCIENCE CENTER, WORLI, MUMBAI-400018	ACA	21/03/2005	308	100726	Mr. DURGESH HANUMANT NADKARNI 12/14 DR SUNDERLAL B MARG (GOA STREET) NEXT TO REX CHAMBERS BALLARD ESTATE, MUMBAI-400038	FCA	06/05/2004
295	100271	Mr. UDHOJI YOGESH RATNAKAR 11 MEDINI OXIT ROAD OPP PARK COLLEGE VILE PARLE EAST MUMBAI-400057	ACA	16/08/2004	309	100785	Mr. SARAF MANOJ KUMAR GIRDHARILAL 15 SHANTA KUNJ ABOVE GAJANAN HOTEL CARTER RD NO 3 BORIVALI EAST, MUMBAI-400066	ACA	03/12/2004
296	100370	Mr. WAGLE RAJESH NARAYAN 1, SATYABHAMA BUILDING, TUKARAM TAUJI ROAD, MUMBAI-400007	ACA	01/04/2004	310	100831	Mr. SATTAR NAWAB BAIG J/9, VEER JIJAMATA NAGAR DR E MOSSES ROAD WORLI, MUMBAI-400018	ACA	15/01/2005
297	100388	Mr. LAKHOTIYA VIJAY LAXMINARAYAN 11/12, , BRAHMIN ALI, SANTKRIPA BLDG., BHIWANDI-421302	ACA	31/03/2004	311	100842	Mr. RAJESH JAYENDRAKUMAR SHAH ACCOUNTS SUPERVISOR EMIRATES GAS L L C P O BOX NO 7736, DUBAI-0, UAE	ACA	29/12/2004
298	100400	Mr. MERCHANT DIPESH KAMALKANT A-701 ABHAR CO OP HSG SOC LTD D P RD, OFF JAI PRAKASH ROAD SEVEN BUNGLOWS ANDHERI WEST, MUMBAI-400061	ACA	18/03/2005	312	100930	Mr. SANDEEP SURAJMAL MUTHA 34 RATNADEEP MARUTI LANE NEAR OLD HANDLOOM HOUSE FORT, MUMBAI-400001	FCA	24/12/2004
299	100409	Mrs. RAJUL PARAG RINDANI FLAT NO 504 TOWER A NEXT TO VASTU PARK OPP RYAN INTERNATIONAL SCHOOL MALAD(W), MUMBAI-400064	ACA	16/09/2004	313	100980	Mr. PRADEEP SURANA SBI COMMERCIAL & INTERNATIONAL BANK LTD MAKER CHAMBERS III MARIMAN POINT, MUMBAI-400021	ACA	01/04/2004
300	100459	Mr. KETAN GIRISH VORA A/2, VISHRANTI, 16TH ROAD, KHAR(WEST), MUMBAI-400052	FCA	28/03/2005	314	100996	Mrs. REKHA NAGESH BELSARE 14 UL HAREKRISHNA COMPLEX PRITAM NAGAR, ELLISBRIDGE, AHMEDABAD-380006	ACA	07/02/2005
301	100494	Mr. SAKPAL AJAY RAGHUNATH FIRST FLOOR, ROOM NO. 12, KESHAR BAUC DR AMBEDKAR RD DADAR, MUMBAI-400014	ACA	10/01/2005	315	101033	Mr. MEHTA SACHIV NANUBHAI KOZLOV ST APARTMENTS # 1407 BARRIE ON, ON-L4N 5A1, CANADA	ACA	01/04/2004
302	100502	Ms. VAISHALI R RAJADHYAKSHA B-33, RAIGAD NIKETAN CHS SAHAR ROAD, ANDHERI (E) MUMBAI-400099	ACA	08/09/2004	316	101043	Mr. DHOOT SANJAYKUMAR MADANLAL D 201 GREAT EASTERN LINKS RAM MANDIR RD, GOREGAON WEST MUMBAI-400104	ACA	28/12/2004
303	100531	Ms. ALPA BATUKLAL CHITALIA 304/A, GOVERDHAN, L T ROAD, BORIVALI (WEST) MUMBAI-400092	FCA	23/03/2005	317	101055	Mr. KULKARNI MANDAR ARVIND 121 CONISTON ROAD KEMPSHOTT, BASINGSTOKE-RG22 5HU UNITED KINGDOM	ACA	26/02/2005
304	100633	Mr. GOGATE MANDAR TUKARAM C-21 PRACHI SOCIETY SHAHAJI RAJE MARG VILE PARLE EAST MUMBAI-400057	ACA	01/04/2004	318	101196	Mrs. KOMAL MAHENDRA MAHAGAONKAR B-50 OM PUSHPANJALI CHS OPP POISAR GYMKHANA KANDIVALI (WEST), MUMBAI-400067	ACA	24/09/2004
305	100645	Mr. RAJESH KUMAR MUNDRA SHREE SARWESHA 11 BHULESHWAR ROAD KRISHNA BHAWAN 1ST FLOOR, MUMBAI-400002	ACA	18/05/2004	319	101259	Mr. BRAJESH RAMESHWARDAS DAGA 14/18 4TH FLR, VITHOBA LANE VITHAL WADI, KALBADEVI ROAD MUMBAI-400002	ACA	01/04/2004
306	100691	Mr. SANJAY CHANDRABHUSHAN DWIVEDI B-304, NIRAV BUILDING ASHA NAGAR, OPP SHRAADHA COMPLEX, 90 FT RD, WESTERN EXPRESS HIGHWAY KANDIVLI(E), MUMBAI-400101	FCA	01/04/2004	320	101285	Mrs. FARZANA MUNAWWAR ANWARE A-406 NOOR-E-JAHAN II PIPE RD, KURLA WEST MUMBAI-400070	ACA	13/09/2004
					321	101346	Mr. KRIPLANI VINESH MOHAN 48 PARADISE, BANER ROAD PUNE-411045	ACA	01/04/2004

322	101357	Mr. MUNDRA VIJAY NATWARLAL ACA B-205, GOMTI APARTMENTS S V R RD, BORIVLI WEST MUMBAI-400092	29/03/2004	335	102272	Mr. NIREN NARENDRA SHAH ACA 304, NEW SHRI SAGAR 29/C DONGARSI ROAD MUMBAI-400006	22/02/2005
323	101507	Mr. SAMEER AGARWAL FCA 1202/2/A DHEERAJ GAURAV HEIGHTS ANDHERI LINK ROAD OSHWARA, ANDHERI (WEST) MUMBAI-400053	01/04/2004	336	102295	Mr. KARIA NARESH SHRIKANT ACA 204 MAHAVIR TOWERS DPP GABRIEL CO L B S MARG, MULUND WEST MUMBAI-400080	29/03/2004
324	101584	Mr. VAGHELA NITESH P ACA B8/3 'COSMOS C.H.S.' KHIRA NAGAR, S.V. ROAD SANTACRUZ (WEST), MUMBAI-400054	01/04/2004	337	102365	Mr. KHALE AMOL ARUN ACA B/12, SAKAR SWAPNA DR. S.R. ROAD, ANDHERI (E) MUMBAI-400069	14/03/2005
325	101617	SHRI PRADIP PRAKASHCHAND NAVALAKHA ACA MAHAVIR MARG AT POST TALUKA JAMNER DIST. JALGAON, JALGAON-424206	30/07/2004	338	102366	Ms. LAKSHMI KASTURI ACA 121 CONISTON ROAD KEMPSHOTT BASINGSTOKE-RG22 5HU UNITED KINGDOM	26/02/2005
326	101622	Mrs. WILMA LEWIS ACA 'BDNJOUR', PLOT NO 6 D/E CO-OP SOCIETY UPNAGAR, NASHIK-422006	01/04/2004	339	102368	Mr. RAMCHANDANI VIKRAM SHANKARLAL ACA PT JAYKAY FILES INDONESIA JI SUKODONO, GEDANGAN SIDOARJO-61254, INDONESIA	18/11/2004
327	101672	Mr. DESAI MRUGESH VINOD ACA "ANAND SAGAR" A-52 RAJDEEP SOCIETY, BAGKHANA, NEAR POLO GROUNDS VADODARA-390001	30/06/2004	340	102391	Mr. AATTREYA VINAYAK SASTRI ACA 29, SHREENIWAS BLDG., NR VARTAK COLLEGE, AMBADI ROAD, VASAI-401202	09/06/2004
328	101775	Mr. SHAH JIGNESH HARISH ACA D/23, BHANGWADI II FLOOR, KALBADEVI ROAD MUMBAI-400002	18/03/2005	341	102458	Mrs. ANITA PRAVIN BASRUR FCA B/3, JEEVAN SONA LINKINF RD (EXTN) SANTACRUZ (WEST), MUMBAI-400054	23/12/2004
329	101934	Mr. KHATOD RAM PRAKASH ACA EXCEL GLASSES LIMITED PARIJAT HOUSE, 2ND FLOOR, ROOM NO. 1076, DR E MOSES ROAD WORLI, MUMBAI-400018	09/11/2004	342	102543	Ms. POHNERKAR SHARAYU ASHUTOSH ACA C/O SANJAY CHOLKAR FLAT NO 11, BUILDING NO B-3 SARITA VAIBHAV APARTMENTS OPP SAHYADRI CHEMICALS SINHAGAD ROAD, PUNE-411030	26/02/2005
330	101972	Mr. RAKESH JASHBHAI GANDHI ACA G-28 JAYLAXMI SOCIETY OPP KHODAL NAGAR VISHWAMITRI, VADODARA-390011	02/03/2005	343	102549	Mr. BHANDARI MANISHKUMAR JAGDISHCHANDRA ACA ROOM NO.26, 7TH FLOOR TARDEO, A.C.MARKET TARDEO, MUMBAI-400034	01/04/2004
331	102126	Mr. TIBREWALA AJAYKUMAR OMPRAKASH ACA 3/1 SEKSARIA BUILDING PAWAN BAUG ROAD NEAR CHINCHOLI PHATAK MALAD (WEST), MUMBAI-400064	26/07/2004	344	102718	Mr. SHAH SIDDHARTH DILIPKUMAR ACA 6 KANTI MAHAL, TELLI GALLI, OPP. HOTEL IMPERIAL PALACE, ANDHERI -EAST, MUMBAI-400069	01/04/2004
332	102159	Mr. KABRA YOGENDRA KUMAR ACA C-203 COSMOS VALLEY OF FLOWERS THAKUR VILLAGE KANDIVLI (EAST), MUMBAI-400101	01/04/2004	345	102754	Mr. DEEPAK R VAID FCA B/120, 10TH FLOOR VISHRAM TOWERS SECTOR 9, SHREE NAGAR WAGLE ESTATE THANE W, THANE-400604	23/03/2005
333	102211	Mr. DADKAR SANDIP SHARAD ACA ROOM NO.18, SAGAR VIHAR C.H.S. NANDIVALI ROAD DDMBIVLI (EAST), DOMBIVLI-421201	01/04/2004	346	102796	Mr. MOHANAN K K ACA "KAVYAM", NEAR RAILWAY GATE CHERUVATHUR (PO) KASARGOD (DIST) KERALA-671313	25/03/2004
334	102228	Mr. SAVLA PRASHANT LAKHAMSHI ACA 3-A/28, AGRAWAL NAGAR DR B. A. ROAD MATUNGA, MUMBAI-400019	26/07/2004	347	102861	Mr. NANDKISHOR LADDHA FCA 604 A WING, OM SAIDHAM CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD PLOT NO 40 SECTOR 17 VASHI, NAVI MUMBAI-400703	03/09/2004

348	102892	Mr. SHAH GAURANG SATISH ACA 9, LAXMI BHAVAN, SAINATHI NAGAR, OPP JAIN TEMPLE, GHATKOPER-W MUMBAI-400086	12/07/2004	361	103388	Mr. RAJAK RAJESH M. ACA UNION NATIONAL BANK P O BOX 3865 ABU DHABI-400050, UAE	05/10/2004
349	103015	Mr. PUNJABI DILIP TARACHAND ACA FLAT NO A-3, BUILDING NO 4 BASANT PARK CO-OPERATIVE HOUSING SOC LTD R C MARG, CHEMBUR, MUMBAI-400071	13/08/2004	362	103393	Mr. JAIN SANDIPIKUMAR GOVIND SINGH ACA GEC NO 15237 INTERNAL AUDIT & CONTROL GALFAR ENGG & CONTG LLC P O BOX 533, MUSCAT-113 UAE	15/12/2004
350	103045	Mr. HEGDE DINESH Y ACA ROOM NO. 15, RICHARD SADAN KISANNAGAR -3, THANE-400604	30/06/2004	363	103409	Mr. SHARMAASHOK CHATURBHUI ACA B-16 ALKA CO OP HSG SOCY LTD OPP DON BOSCO SCHOOL VAZIRA NAKA, L T ROAD BORIVALI W, MUMBAI-400091	01/01/2005
351	103047	Ms. LOPA SURESH RUPAREL ACA 9, SAGAR DARSHAN HANUMAN ROAD VILE PARLE (E) MUMBAI-400057	06/08/2004	364	103551	Mr. SHAH HITESH JAYENDRA ACA 1303 SKY WALK TOWER DRLEM TANK RD, MALAD WEST MUMBAI-400064	19/07/2004
352	103135	Mr. PATEL VINAYKUMAR NATWARLAL ACA G5 PUSHPA BHARATI JAI PRAKASH NARAYAN ROAD BHAYANDER WEST BHAYANDAR-401101	01/04/2004	365	103641	Mr. CHAUGULE PARITOSH SAHADEO ACA 5, UDAY, GHANTALI NAUPADA, THANE-400602	06/08/2004
353	103177	Mr. SHAH JAGRUT MAHENDRABHAI ACA 10 SAGAR DARSHAN 74-8 HANUMAN ROAD VILE PARLE (E), MUMBAI-400057	03/08/2004	366	103725	Mrs. USHA SANJAY ACA NO.4, AISHWARYA PESTOM SAGAR, ROAD NO.4 CHEMBUR, MUMBAI-400089	01/04/2004
354	103183	Mr. NEGANDHI DEVANG BHAGATSINH ACA CHATRABHUI JIVANDAS BLDG., ROOM NO. 106, S V ROAD, OPP MANISHA, HOSPITAL, MALAD -W, MUMBAI-400064	01/04/2004	367	103802	Mr. PENDSE AMIT SADASHIV ACA 7, KAMDHENU PRASAD SOCIETY RAM GANESH GADKARI PATH GHANTALI, THANE-400602	20/12/2004
355	103192	Mr. KABRAAMIT SHARADCHANDRA ACA C/O MR ARJUN NALAWADE G-302 GANGATIRTH CHS ARANYESHWAR NEAR ARANYESHWAR TEMPLE OFF PUNE SATARA ROAD PUNE-411009	01/04/2004	368	103852	Mr. CARVALHO FRANCIS JOSEPH ACA 1/2 JACANA ROAD FOREST HILL, VICTORIA-3131 AUSTRALIA	26/08/2004
356	103228	Mr. MOHANKUMAR KISHANNARAIN GUPTA ACA B-306 SHANTI JYOT STATION ROAD BHAYANDER [WEST] THANE-401101	01/04/2004	369	103857	Mr. JAGDISH MAGANLAL GHEVARIYA FCA C/O VINOD TRADING COMPANY DANAPITH, JUNAGADH-362001	21/12/2004
357	103284	Mr. VIKAS VIJAYKUMAR KHEMANI FCA C/O P P PODDAR ROOM NO. 140, PRINCESS STREET, GOVIND BLDG., 4TH FLOOR MUMBAI-400002	26/08/2004	370	103927	Mr. BHANDARE AJAY RAGHUVIR ACA F-13 PRABHA MANDIR PRABHA NAGAR PRABHADEVI, MUMBAI-400025	25/08/2004
358	103364	Mr. SHAH SAILESHKUMAR KAPURCHAND ACA 302 JAI GIRNAR APTS, 3 RD FLOOR, 69 TARDEO ROAD, MUMBAI-400034	24/01/2005	371	103967	Ms. REKHA KANTILAL SHAH FCA 6/30, JAWAHAR CO-OP. HSG. SOC. GOVIND NAGAR, SODAWALA LANE BORIVALI (WEST) MUMBAI-400092	01/04/2004
359	103371	Mr. SUTARIAANAND JAGDISH ACA 508 C WING, SAI JYOTE BUILDING LALLUBHAI PARK, VILE PARLE (W) MUMBAI-400058	10/09/2004	372	103983	Mr. JAIN SANJESH JINNALLAL ACA 103 MODY STREET, PANDYA HOUSE 2ND FLOOR FORT, MUMBAI-400001	23/08/2004
360	103378	Mr. AJAY SHRIRAM RISBUD FCA 725 2ND B CROSS 2ND MAIN 8TH BLOCK KORAMANGALA BANGALORE-560095	20/06/2004	373	104142	Mr. AMIT KUMAR KHEMANI ACA 4C/603, WHISPERING PALMS LOKANDWAL COMPLEX, AKRULI ROAD, KANDIVALI (EAST) MUMBAI-400101	27/08/2004
				374	104156	Mr. GULAMHUSEIN SAJJADALI SALIM ACA HAROOK MAAMOON TAMER & CO SHEIKH ABDUL WAHAB STREET AMARRIYAH DISTRICT P O BOX 180, JEDDAH-21411 SAUDI ARABIA	13/08/2004

375	104188	Mr. DEEPAK BHALCHANDRA PADWALE ACA 33/23-C, II FLOOR ZAOBA WADI, THAKURWAR MUMBAI-400002	26/08/2004	388	104769	Mr SANJAY NENSHIBHAI NISAR ACA 202 MATUSHREE APT SIR M V ROAD, ANDHERI (EAST) NEAR NATRAJ STUDIO MUMBAI-400069	10/06/2004
376	104240	Mr. MANOJ KUMAR DHARAMCHAND DHAREWA FCA G-1004 KAMALA VIHAR NEAR KAMALA VIHAR SPORTS CLUB MAHAVIR NAGAR, KANDIVLI(W), MUMBAI-400067	12/08/2004	389	104785	Mr SUNIL SURESH VAIDYA ACA 187, SHANIWAR PETH SHETE HOUSE PUNE-411030	23/06/2004
377	104259	Mr. SHARMA SANJAY SABARMAL ACA 210, NEW VISHAL CHS KOLSEWADI, KALYAN-421306	30/12/2004	390	104839	Ms VAISHALI KASHINATH MHATRE ACA NANDA DEEP, VASALAI, VASAI ROAD, STATION WEST VASAI-401201	19/10/2004
378	104264	Mrs. JAXA ANISH UNADKAT FCA 5 KRISHNA KUNJ PLOT NO. 17, HIND CHS 23 N S MANKIKAR MARG SION CHUNABHATTI MUMBAI-400022	01/04/2004	391	104841	Mr SANJAY JAGDISHRAI JAIN FCA P 2/12, SUNDER NAGAR S V ROAD, MALAD WEST MUMBAI-400064	01/04/2004
379	104292	Mr. GURUDAS SAHA FCA FLAT NO. 223 RAGHUNATH VIHAR AWHO SECTOR -14 KHARGHAR, NAVI MUMBAI-410210	13/08/2004	392	104868	Mr CHANDRESH KISHORKUMAR BHATT ACA 9, NEW PATEL CHAWL, KIROL ROAD, OPP.FATIMA HIGH SCHOOL, BEHIND VIDYAVIHAR BAKERY VIDYAVIHAR WEST, MUMBAI-400086	01/04/2004
380	104419	Ms. GOYAL NEETU SURESH ACA 202 SHRADHA BUILDING MISTRY COMPLEX, J B NAGAR, ANDHERI (EAST), MUMBAI-400059	01/04/2004	393	104893	Mrs. BHAKTI ATUL GADGIL ACA R NO 4 PRADHAN BHUVAN AKSHIKAR ST, DADAR WEST MUMBAI-400028	01/11/2004
381	104444	Ms. GEETA NAVINCHANDRA MAHESHWARI ACA C/O.N.G.GUPTA, 804-D2, 'LOK UPVAN-II', GLADYS ALVARES ROAD MAJWADA,THANE (WEST) THANE-400610	17/09/2004	394	104925	Ms MAITHILEE JAYAWANT PATHARE ACA "SHARAD", MORESHWAR PATIL ROAD DAHISAR (WEST), MUMBAI-400068	03/01/2005
382	104456	Mr GADGIL AMIT ASHOK ACA 47, RAJENDRA NAGAR, AGARKAR S BUNGLOW NAVI PETH, PUNE-411030	01/08/2003	395	104937	Mr JINESH NAROTTAMDAS MEHTA ACA B-5, SHOBHANA APARTMENTS K V ROAD, MARATHA COLONY DAHISAR -EAST, MUMBAI-400068	01/04/2004
383	104647	Mr MAYURESH BHALCHANDRA BHIDE ACA 18-A, SAIFEE MANZIL IRANI BRIDGE, GIRGAON MUMBAI-400004	01/04/2004	396	104943	Mr SAMEER MADHUKAR GADGIL ACA F 10 SAGAR SOCIETY NEAR SHREEMAN SOCIETY KARVENAGAR, PUNE-411052	24/01/2005
384	104654	Mr MUKESH KUMAR DEOPURA FCA A-102, BANSI TOWER SHANTI PARK, DIST : THANE MIRA ROAD - EAST MIRA ROAD-401107	31/12/2004	397	104946	Mr RAJESH BALVANT BIRARI ACA 78 HUDCO COLONY TAL: NANDGAON, DIST: NASHIK MANMAD-423104	01/03/2005
385	104658	Mr SATPALKAR RAJESH KAMLAKAR ACA VITHAL MANDIR, LT ROAD, DAHISAR -WEST MUMBAI-400068	23/12/2004	398	105012	Ms JEAN ALBERT FERNANDES FCA 4, SUNSHINE VILLA, VIKHROLI VILLAGE, VIKHROLI-E, MUMBAI-400079	31/12/2004
386	104675	Mr. CHIRAG TRILOKBHAI SHAH ACA TORRENT PHARMACEUTICALS LTD MANAGER - FINANCE 4TH FLR, TORRENT HOUSE ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380007	17/08/2004	399	105029	Ms SWAPNA K DESHMUKH ACA SHREY-ANAND, B-703 KOLSHET ROAD, DOKHALI, THANE-400607	21/12/2004
387	104752	Mrs. CHETNAANAND MISTRY ACA 25/1012, D N NAGAR ASHIRWAD CO-OP HSG SOC LTD ANDHERI (WEST), MUMBAI-400053	28/07/2004	400	105112	Mrs. KETAKI KEDAR PATHAK FCA G-201 GANGATIRTH SHAKARNAGAR NO 1 NEAR ARANYESHWAR TEMPLE PUNE-411009	01/02/2005
				401	105181	Ms YASMIN FARAM DASTUR ACA CUSROW BAUG, 'U' BLOCK, FLAT - 4/1, 4TH FLOOR, S B SINGH ROAD, MUMBAI-400001	01/04/2004

402	105268	Mr VAISHAL NARENDRAKUMAR SHAH ACA SABA & CO (DELOITTE & TOUCHE-M,E) 701 CORNICHE PLAZA II POST BOX NO 5470 SHARJAH-0, UAE	22/12/2004	415	105771	Mr RAKESH KANTILAL JOBANPUTRA ACA 87 KAZI SAYEED STREET 10- PREM JIVAN BUILDING THIRD FLOOR, MASJID BUNDER MUMBAI-0	29/09/2004
403	105309	Mrs. VIDHI JAYESH TALREJA ACA 4, GANGOTRI, 5TH ROAD KHAR, MUMBAI-400052	01/04/2004	416	105824	Ms ASHWINI PRAKASH JOSHI ACA PLOT NO.22, KSHIPRA SOCIETY KARVE NAGAR, PUNE-411052	01/01/2005
404	105354	Mr. GIRISH KUMAR AGARWAL ACA GENERAL MANAGER-COMMERCIAL VINATI ORGANIC LTD B-12 & B-13 /1 MIDC DIST RAIGAD, MAHAD-402309	19/07/2004	417	105890	Mr AMIT RADHESHYAM BHAVSAR ACA LIC MUTUAL FUND INDUSTRIAL ASSURANCE BLDG 4RTH FLOOR OPP. CHURCHGATE STATION MUMBAI-400020	01/04/2004
405	105372	Mrs. SWATI MANDAR BANKHELE ACA FLAT NO 6, CHARUDUTTA CHAMBERS SARANG SOCIETY SAHAKARNAGAR-2 PUNE-411009	24/06/2004	418	105909	Mr ABHIJIT VASANT CHIRPUTKAR FCA H-3/478 LAXMINAGAR PARVATI, NR RAMANA GANPATI PUNE-411009	27/08/2004
406	105410	Mr VINOD MADHAVJI JOSHI ACA PANNELL KERR FOSTER 301 AL MAIDAN TOWER MAKTOUM STREET P O BOX NO 13094 DEIRU DUBAI-0, UAE	23/07/2004	419	105913	Mr SHREENIVAS DAMODAR HEGDE ACA 4 PANCHWATI SECTOR NO. 4 ABOVE SARASWAT BANK CHARKOP, KANDIVLI [W] MUMBAI-400067	20/03/2005
407	105493	Ms UMA MANDAR TORASKAR ACA A-5 303 PRABHAV KANCHAN PUSHPA COMPLEX OPP SURAJ WATER PARK GHODBUNDER ROAD KAVESAR THANE-400605	30/08/2004	420	105915	Mr PATEL DEEPAK DAHYABHAI ACA 22, NIVETIA NAGAR NIVETIA RD, MALAD - EAST MUMBAI-400097	26/07/2004
408	105549	Mr SADIQUHUSEN GULAMMAYYODDIN MOMIN ACA 7 JILANI PARK SOCIETY BARKOSIYA ROAD MALARPURA, NADIAD-387001	14/07/2004	421	106131	Mr VIPUL VISHANJI HARIA ACA 1, SHIV SHAKTI, B P CPDSS ROAD NO 2, MULUND - WEST MUMBAI-400080	19/11/2004
409	105580	Mr RAJESH RAMNIWAS JAKHOTIYA ACA FLAT NO 2/D/410, 4TH FLOOR VITHAL MANDIR CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY SVP ROAD, BORIVALI(W) MUMBAI-400092	26/05/2004	422	106143	Mr DHARMENDRA DINESH CHANDRA SHAH ACA AMIT 4/C, B NO 11 MAJITHIA PARK ACHOLE ROAD EAST NALLASOPARA-401209	27/08/2004
410	105611	Ms SHAGOOFA RASHID KHAN FCA 4, ZEENATH, 1ST FLOOR, 57/A, L.J. ROAD, MAHIM, MUMBAI-400016	01/04/2004	423	106199	Mr SAVJIKUMAR GOVINDBHAI SUKHADIA ACA S SUKHADIA & CO A/410 YASH PLAZA OPP DHANAMAL MILL NEAR PODAR ACCREDE VARACHHA ROAD SURAT-395006	20/10/2004
411	105619	Mr NAVIN NARAIN DAS THADANI ACA 2/5 SHAMI NIVAS PUDUMJEE COMPOUND PUNE-411042	01/04/2004	424	106313	Mr RAJEEVKUMAR RAVINCHANDRA SHAH ACA 11, ANUPAM VILLA, KALE MARG KURLA [WEST], MUMBAI-400070	13/05/2004
412	105673	Mr SUJIT ANIL RONGHE ACA FLAT NO.312, A WING, OM ABHISHEK APTS, BIBWEWADI, PUNE-411037	18/06/2004	425	106339	Mr SANJAY SURANA ACA B/2, MANMOHAN PARK BIBEWADI, PUNE-411037	15/12/2004
413	105707	Mr NIREN NAVINCHANDRA DESAI ACA 9, KAILASH BHUVAN 7TH ROAD, PRABHAT COLONY SANTACRUZ (EAST) MUMBAI-400055	08/12/2004	426	106384	Mr KAUSHAL ANUBHAI VORA ACA 8 PARK VIEW, P K ROAD OPP KALIDAS, MULUND - WEST MUMBAI-400080	09/12/2004
414	105735	MR ASHISH SHRIPAD DATE ACA B-1/15 -16, MEENAL GARDENS PATWARDHAN BAUG ERANDAWANA PUNE-411004	01/04/2004	427	106398	Mr UTSAV NARESH GAJNDHI ACA 321/A RAVI KIRAN, DECDHAR RD MATUNGA (C.R.), MUMBAI-400019	09/03/2005
				428	106564	Mr SURESH SAJANKUMAR NEMANI ACA 301, RINKU APARTMENT NEAR MARY IMMACULATE GIRLS HIGH SCHOOL SANTOSHI MATA ROAD DAHISAR - WEST, MUMBAI-400066	04/02/2005

429	106609	Mr SURESH G PRAJAPATI ACA FLAT NO 8, BUILDING NO C-4 BASERA HSG COMPLEX AAMLI, SILVASSA-396230	17/09/2004	445	107117	Mr KETAN ARVINDKUMAR KALYANI ACA 73/D WING, " RASESH" HARIDAS NAGAR, SHIMPOLI ROAD BORIVALI - WEST, MUMBAI-400092	18/11/2004
430	106655	Mr. GOPAL SUBRAMANIAN ACA FLAT NO: 6, PLOT NO: 11 SNEH-SAMTA, DR K A S ROAD MATUNGA (EAST) MUMBAI-400019	28/06/2004	446	107131	Mr VASUDEV ARAVINDAKSHAN NAIR ACA BUNGLOW NO 12, VAISHALI SOC. 4TH CROSS ROAD RAJAJIPETH, THANE DIST. DOMBIVALI-421201	01/04/2004
431	106670	Mr UMESH MULCHAND NATHANI ACA C-20, OM NIVAS, L B S MARG, KURLA - WEST, MUMBAI-400070	24/12/2004	447	107203	Mr DINESH KARAMSHI CHHEDA ACA 401 WEST WIND, L M ROAD, NAVAGAON, DAHISAR W MUMBAI-400068	04/02/2005
432	106694	Mr NIPUN SURESH SAMPAT ACA 52, ROKADIA NIKETAN P P ROAD, ANDHERI-EAST MUMBAI-400069	27/08/2004	448	107231	Mr JIGNESH MADHUSUDAN THAKER ACA 2ND FLOOR, BLDG NO 15 KADAM BABA LANE, M B VELKAR ST KALBADEVI, MUMBAI-400002	01/09/2004
433	106702	Mr DATTATRAY SHARAD DALAL ACA 22, YASHOJYOTI, THAKUR NAGAR SANT RAMDAS RD, MULUND E MUMBAI-400081	30/11/2004	449	107301	Mr. PREMAL KISHDRKUMAR BATAVIA ACA RAVI FLATS, BLOCK NO A-1-S NEAR FATIMA CONVENT SCHOOL JAIL ROAD, BHAVNAGAR-364001	07/12/2004
434	106712	Mr PRAYAG A KINARIWALA ACA MATRU VATSALYA, FLAT NO 402 VITHALBHAI PATEL ROAD OFF S V RD, ANDHERI W, MUMBAI-400058	20/12/2004	450	107311	Mr NIKHIL ASHOK MADHEKAR ACA 2, PUSHKARAJ, DAHANUKAR COLONY LANE NO 9, KOTHRUD, PUNE-411029	14/09/2004
435	106736	Mr AMISH ASHWIN SHAH ACA 2/3 PARSHVA DARSHAN OLD NAGAR DAS, CRDSS ROAD ANDHERI (E), MUMBAI-400069	28/01/2005	451	107319	Mr ABDULLA YUSUFBHAI PETTIWALA ACA 188-A BAPU KHOTE STREET JAMLI MOHALLA MUMBAI-400003	10/01/2005
436	106778	Mr SHAH DEVAL ACA B-108, OM SRINATH KRUPA SUBHASH LANE, KANDIVLI (W) MUMBAI-400067	01/04/2004	452	107322	Mrs. JAYA SANJAY TARACHANDANI ACA 204 EVENTIDE CO-OP HSG SOCTY KHAR DANDA ROAD KHAR WEST, MUMBAI-400052	06/08/2004
437	106831	Ms RICHIA PREMPRAKASH GUPTA ACA B-14, VASUDEV APARTMENTS OPP: SONA UDYOG PARSI PANCHAYAT ROAD, ANDHERI (E), MUMBAI-400069	27/09/2004	453	107354	Mr. JAYESH ASHOK KULKARNI ACA S NO 128/2/10, CHARULATA APARTMENTS NEAR MAYUR COLONY KOTHRUD, PUNE-411038	29/09/2004
438	106851	Mr JIGESH ASHVIN SHAH ACA 7 ASHISH 38/6, MARVE ROAD MALAD W, MUMBAI-400064	15/07/2004	454	107365	Mr ANUPAM PRATAP GORADIA ACA B-307 NEW PUTLIBAI KAPOL NIWAS S V ROAD, VILE PARLE(W) MUMBAI-400056	01/01/2005
439	106862	Mr GAJENDRA B JAIN ACA 7, DEVKISHAN NIWAS, 166 SIGN E, MUMBAI-400022	01/05/2004	455	107427	Mr SUNIL NARENDRA JAIN ACA A/13, RLY OFFICERS FLAT, DADA SAHEB PHALKE ROAD, DADAR EAST, MUMBAI-400014	28/10/2004
440	106949	Mr MILIND MURARI MORAJKAR FCA BAMMAN VADDO SIOLIM, BARDEZ GOA-403517	29/07/2004	456	107454	Ms MANSI GAUTAMBHAI CHOKSI ACA 12, KAILASH COLONY, SATELLITE ROAD OFF 132 FEET RING ROAD AHMEDABAD-380015	01/04/2004
441	107028	Mr SANJAY LAXMAN SARANGE ACA 2/79 SURYAWANSHI BHUVAN NO.2 E S PATANWALA MARG BYCULLA, MUMBAI-400027	01/04/2004	457	107469	Mr MANISH CHHABILDAS SHETH ACA 602 ANKUR B CO OP HSG SOC LTD LIBERTY GARDEN ROAD NO3 EXTENSION, MALAD WEST MUMBAI-400064	01/04/2004
442	107060	Ms URVY D BAROT ACA 31, SHREENIKETAN CHOWPATY BAND STAND MUMBAI-400006	01/04/2004	458	107498	Ms VAISHALI RAJANIKANT PRATAP ACA RIDDHI-SIDDHI, VANI-ALI, PAPDI, DIST : THANE VASAI-401207	01/04/2004
443	107072	Mr MANAN RAJANKUMAR VYAS FCA 18, JAY AMBICA SOCIETY OPP BHADUAT NAGAR ISANPUR RD, MANINAGAR, AHMEDABAD-380008	15/01/2005	459	107516	Mr SANJAY MAHADEO MHATRE ACA BLDG NO 57 ROOM NO 1468 KANNAMWAR NAGAR NO.1 VIKHROLI (E), MUMBAI-400083	13/12/2004
444	107107	Mr PRADIP PANDURANG DALVI ACA B -401, SAI SAGAR TOWER SAI BABA COMPLEX GOREGAON EAST MUMBAI-400063	01/04/2004				

460	107569	Ms JYOTI NARASIMHA MALLYA ACA MAHIM MANSION, 85-B, BLOCK M.M.C. RD, MAHIM, MUMBAI-400016	14/10/2004	474	107862	Mr SANJAY MANILAL SHAH ACA 10 KESKAR APARTMENT NEAR JAIN TEMPLE L T ROAD, DAHISAR WEST MUMBAI-400068	01/04/2004
461	107585	Mr NAYSAR GIRISH SHAH ACA D 12 NEW POONAM BAUG COOP HSG SOC GROUND FLR, NARIMAN ROAD VILE PARLE E, MUMBAI-400057	01/04/2004	475	107911	Mr MANDOT HITESH ACA 101 TULIP, VASANT VALLEY MALAD (EAST), MUMBAI-400097	03/01/2005
462	107600	Mr HEMANT UJJWAL KUMAR JHA ACA C-5-67 CENTURY RAYON COLONY AT & POST SHAHAD, THANE DISTRICT SHAHAD-421 103	27/09/2004	476	108061	Mr RITESH KISHORKUMAR VAKHARIA ACA BHAVNA BLDG.F/8 S V ROAD, KANDIVLI (W) MUMBAI-400067	26/08/2004
463	107623	Mr AJIT ARJUN CHAVAN ACA GAMDEVI RD, TEMBIPADA ROOM NO 22, SHRIKANT NIVAS BHANDUP E, MUMBAI-400078	28/10/2004	477	108142	Mr PUSHKAR MDTILAL NAGDA ACA A/11, MANORATH CHS DATTAPADA CROSS ROAD NO.2 BORIVALI (EAST) MUMBAI-400066	10/02/2005
464	107630	Mr JATIN RANCHHODLAL MISTRY ACA 7 PANKAJ SOCIETY, OPP VAISHALI FLAT NR RAMJI MANDIR, BHATTHA PALDI AHMEDABAD-380007	10/02/2005	478	108268	Mr JEETENDRA JAGDISH NAYAK ACA 13-B SHINDE BLDG ASHANAGAR ROAD NO 3 CHEMBUR, MUMBAI-400089	01/04/2004
465	107668	Ms BAKUL RAJENDRAPRASAD GADIA ACA 202-A GODAVARI APTS NAVGHAR ROAD CORNER - EAST BHAYANDAR-401105	27/09/2004	479	108347	Mr PARESH SHASHIKANT PAREKH ACA A/602 VEENA SARGAM, DAHANUKAR WADI MAHAVIR NAGAR, KANDIVALI(W) MUMBAI-400067	01/03/2004
466	107728	Mr SHRIDHAR MANOHAR BHAGWAT ACA B/12 GHANASHYAM SOCIETY DATTANAGAR, DR.R.P.ROAD EAST, DOMBIVALI-421201	01/04/2004	480	108415	Mr SUYASH NEELKANTH BHISE ACA 4, NAVNIDH, LIBERTY GARDEN ROAD NO.3, MALAD (WEST), MUMBAI-400064	18/03/2005
467	107742	Mr NADIR DINSHAW DAJI ACA 621, KHUSH VILLA KHAREGHAT ROAD PARSI COLONY, DADAR, MUMBAI-400014	29/12/2004	481	108424	Mr AJIT KUMAR OZA ACA ROOM NO. 7 DHIRAJ SINGH CHAWL, GAONDEVI RD, POISAR, KANDIVALI (EAST), MUMBAI-400067	07/08/2004
468	107766	Mr NANDAN RAVINDRANATH PRADHAN ACA 2, "VARSHA", BANK OF BARODA SOCIETY M.C.CHAGGLA ROAD, VILE PARLE (E), MUMBAI-400099	01/04/2004	482	108448	Mr SUNILKUMAR BHIKHUBHAI THAKKAR ACA A01/B-15 AVDHODT NAGAR SHIVAJI ROAD, DAHISAR EAST MUMBAI-400068	31/12/2004
469	107780	Mr CHANDRAKUMAR AMRAVMAL NAHATA ACA A-5 ANJALIEE APARTMENTS NR RAILWAY COLONY OPP GURUDWARA, MANINAGAR, AHMEDABAD-380008	19/01/2005	483	108461	Mr VENKATESH SARATHY ACA A-18 SRI SAI VILAS CHS LTD., NER R B I COLONY OLD DOMBVLI ROAD, WEST DOMBIVALI-421202	07/06/2004
470	107784	Mr SHIVARAMAN RAMAN IYER ACA B-3 FLAT NO.3 GROUND FLOOR VITHOBA KRIPA CO OP HSG SOCY BEHIND HOLY CROSS SCHOOL MASHOBHA MAIDAN, KALYAN WEST, KALYAN-421301	31/03/2004	484	108539	Mr KALPESHKUMAR PRAVINCHANDRA BHATT ACA ROOM NO. 6, LDTLIKAR CHAWL HANUMAN NAGAR, KURAR VILLAGE MALAD (EAST), MUMBAI-400097	31/01/2005
471	107803	Ms URVASHI ASHWINIKUMAR PANDYA FCA 1317, JANGLI, MAHARAJ ROAD OPP MODERN HIGH SCHOOL PUNE-411005	09/11/2004	485	108553	Mr MOHIT DWARAKADASJI GUPTA ACA C/O B L GUPTA, OPP MANEK TALKIES MALIPURA, AKOLA-444001	10/05/2004
472	107818	Mr. PUSHKAR SUHAS BEDEKAR ACA G/102 LOKMANYA NAGAR T H KATARIA MARG MAHIM, MUMBAI-400016	23/08/2004	486	108557	Mr HEMEN ANIL ASHER ACA S M 3, 5TH FLOOR ORICON HDUSE 14 K DUBASH MARG MUMBAI-400023	16/11/2004
473	107828	Mr AMRISH JAGDISH DHIRAWANI ACA 299 SAMUEL STREET PODNAMWALA BUILDING 2ND FLOOR, R.NO. 4 VADGADI MUMBAI - 400 003.	26/02/2004	487	108577	Mr SANJAY BHAGYESHWAR RAO ACA FLAT NO 101 SECTOR 9 SHANTI NAGAR MIRA ROAD-401107	14/06/2004

488	108585	Mr. K M SURESH ACA KOCHAMVELLI HOUSE EDAKKARA (P.O.), CHELENNUR (VIA) KERALA, CALICUT-673616	01/03/2005	502	109035	Mr MANISH RAVINDRAN NAMBIAR ACA TATA TECHNOLOGIES LTD. MSD BLDG, TELCO PREMISES JAMSHEDPUR-831010	17/11/2004
489	108597	Mr AASHISH ASHOK AGARWAL ACA 203 JANMABHOOMI CHAMBERS W H MARG, BALLARD ESTATE MUMBAI-400001	14/12/2004	503	109041	Mr MUNENDER RAJAMALLU GAJULA ACA C/O WORLI B D D, CHAWL NO. 101 ROOM NO. 18, N G BANSODE ROAD WORLI, MUMBAI-400018	11/03/2005
490	108657	Mr HEM PANKAJ NEGANDHI ACA 401, ASHOKA APTS, RAHEJA TOWNSHIP MALAD [E], MUMBAI-400097	31/01/2005	504	109044	Mr VIJAY MOHANDAS NIHALANI ACA RAMKUNJ, RAILWAY STATION ROAD NEW OSMANPURA AURANGABAD-431005	31/12/2004
491	108663	Mr AMIT DINESHBHAI SONI ACA C/O . D.L. SONI., OZA'S DELO NEAR HAVELY JAMNAGAR-361001	31/08/2004	505	109062	Ms MEETAL NARENDRA KAMDAR ACA B-501, VIJAY PARK MATHURADAS EXTN ROAD KANDIVALI (WEST), MUMBAI-400067	19/07/2004
492	108700	Mr VINODKUMAR FATEHCHAND JAIN ACA 1 ANDHERI ANURAG BHARDAWADI NEAR ICICI COLONY ANDHERI WEST, MUMBAI-400058	13/01/2005	506	109076	Mr PARESH AJIT BAFNA ACA 247/14, DEVTIRTH BUILDINGS DECCAN COLLEGE ROAD YERVADA, PUNE-411006	30/12/2004
493	108702	Mr KEYUR VIRENDRABHAI SHAH ACA 36 MEGHDEEP FLATS LAD SOC R, VASTRAPUR AHMEDABAD-380054	23/03/2005	507	109112	Mr DEEPAK DHANJI SHAH ACA B-3, MADHUKUNJ NAWROJI CROSS LANE GHATKOPAR [WEST], MUMBAI-400086	04/10/2004
494	108717	Mr YAJUVENDRA BABURAM YADAV ACA 16 VAKILBAI COMPOUND BEHIND JEEVAN VIKAS KENDRA KOLDONGRI, ANDHERI (EAST) MUMBAI-400069	27/12/2004	508	109156	Ms PRAJAKTA JANARDAN SHETYE ACA 2 SWAPNALI APARTMENTS 38 GIRIJA SOCIETY MIT COLLEGE ROAD KOTHRUD, PUNE-411038	20/08/2004
495	108731	Mr. JAGDIP VIRENDRA SHETH ACA PLOT NO 145/A BLOCK NOS 3 JAIN SOCIETY, OPP JAIN TEMPLE SION WEST, MUMBAI-400022	24/11/2004	509	109176	Ms DEEPA MULCHAND MERANI ACA 304-VASANTHI APARTMENT NAVGHAR ROAD, MULUND (EAST) MUMBAI-400081	01/04/2004
496	108806	Mr JAYESH SHANTIKUMAR GOKALGANDHI ACA C-203 SHIVANGAN CHS SHIV VALLABH CROSS ROAD ASHOKVAN RAWALPADA DAHISAR [E], MUMBAI-400068	31/08/2004	510	109195	Mr MIHIR BHAVANJI GADA ACA B-702 CHITRAKUT, AJIT NAGAR BHADRAN NAGAR RIDDHI VINAYAK TAMPLE LANE S.V. ROAD, MALAD (W) MUMBAI-400064	28/12/2004
497	108907	Mr NITIN PATNI ACA C/O SHRI N K PATNI SB 10 J L N MARG, BAPU NAGAR JAIPUR-403004	31/03/2004	511	109236	Mr BIPIN LAXMINARAYAN AGARWAL ACA 5 DURGA SADAN, HOTEL NALANDA BLDG C P ROAD, MUMBAI-400101	17/01/2005
498	108912	Mr KAMLESHKUMAR RISHIRAM BHATT ACA A/9 MATHURA VIHAR OPP BHAGWATI HOSPITAL S V P ROAD, BORIVALI WEST MUMBAI-400103	31/03/2004	512	109244	Mr KAUSHAL RASHMIKANT SHAH ACA B-3 MOHAN SADAN CHS LTD OPP BANK OF MADURA M G ROAD, GHATKOPAR EAST MUMBAI-400077	20/02/2005
499	108913	Mr SUNIL KISHORELAL WADHWANI ACA 16-A SHANTISAGAR, PLOT NO. 777 G FLOOR, 5TH ROAD KHAR [W] MUMBAI-400052	18/03/2005	513	109250	Mr SURENDER NAGARAJAN ACA B-3/8, MATHURDAS CDLONY KALINA, SANTACRUZ EAST MUMBAI-400098	07/01/2005
500	108932	Mrs. PALLAVI ABHIJEET AKOLKAR ACA A-4 ASWARI HOUSING SOCIETY 20/129 IDEAL COLONY PAUD RD, PUNE-411029	23/06/2004	514	109287	Mr NARENDRA VINAYAK GANPULE ACA 31/A BALKRISHNA BHAVAN, PAHADI ROA NO 1, GOREGAON-E, MUMBAI-400063	23/09/2004
501	108966	Mr ANAND RAJARAM HURKAT ACA A/5 RANGBINDU SOCIETY B/H BOMBAY GARAGE SHAHIBAUG, AHMEDABAD-380004	18/10/2004	515	109357	Mr JITESH RAJENDRA SHAH ACA 21/A SUBHASH NAGAR, N M JOSI MARG MUMBAI-400011	15/03/2005
				516	109420	Mr HEMANT ISHWARLAL MISTRY ACA 15 ZAVERI NIWAS, RAMCHANDRA LANE MALAD [WEST], MUMBAI-400064	23/09/2004

517	109502	Mr NILESH MAHESH PAREKH ACA B/206 RISHABH APARTMENTS Y R TAWDE ROAD, OPP RLY STATION DAHISAR (WEST), MUMBAI-400068	31/03/2004	533	109908	Mr SANDEEP SUSEELAN ACA 304 3RD FLOOR B - WING NITYANAND APARTMENTS KAJUPADA (GANESH CHDWK) BORIVALI (EAST), MUMBAI-400066	23/12/2004
518	109516	Mr NIRAV DILIPKUMAR JOSHI ACA 7/2653 SAIYED PURA VAIDA STREET, SURAT-395003	11/02/2005	534	109913	Mr SANDIPKUMAR ANANTRAI DOSHI ACA A/402, RAVI APARTMENT VITTHAL NAGAR, S. L. RD, MULUND (WEST), MUMBAI-400080	08/04/2004
519	109573	Mr PRITESH NARENDRAKUMAR SHAH ACA C-210 SUNDERAM, 2 RAHEJA COMPLEX BEHIND TIMES OF INDIA SUBURBAN PRESS WESTERN EXPRESS HIGHWAY MALAD EAST, MUMBAI-400097	10/08/2004	535	109935	Mr. VIRAL JANARDANBHAI PANDYA ACA 12, 2ND FLOOR HAZRISIDDH CHAMBERS NR. INCOME TAX CIRCLE ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380014.	23/04/2004
520	109577	Mr DEEPAK PUKHRAJ OZA ACA B 307 SAI SHIVAM, CABIN ROAD DIST THANE, BHAYANDAR EAST BHAYANDAR-401105	19/11/2004	536	109962	Mr SANDEEP DEEPAK BANAVALI ACA 2/40, NATH MADHAV SOCIETY AKRULI CROSS ROAD NO.1 KANDIVALI (EAST), MUMBAI-400101	01/04/2004
521	109593	Mr PARAG BHUPENDRA SHAH ACA 235/237, RAMAN SMURTI V P ROAD, MUMBAI-400004	24/01/2005	537	109984	Mr PARAKRAMSINH JATUBHA JADEJA ACA SHANTI PARK, PHASE III B/9/403, POONAM NAGAR MIRA ROAD EAST, THANE-401107	01/04/2004
522	109645	Mr PRASHANT NALIN KOTHARI ACA 15, NAMRATA, 36, GARODIA NAGAR GHATKOPAR (E), MUMBAI-400077	01/02/2005	538	110015	Mr KUNAL KISHIN PUNJABI ACA 1 MOUNT UNIQUE 62A PEDDAR ROAD MUMBAI-400026	01/04/2004
523	109653	Mr. PRASAD G R K ACA E-2, NANDIGRAM CO-OP HSG SOC LTD. EXTENSION GILLBERT HILL RD, ANDHERI WEST MUMBAI-400058	03/01/2005	539	110020	Mr SAMSHET BALKRISHNA SHETYE ACA 88, E SMALL BANGALI, NAGUSAYAJICHI WADI PRABHADEVI ROAD NEAR SAMANA PRESS MUMBAI-400025	11/08/2004
524	109681	Mr RITESH DATTATRAYA KHOT ACA C/201 2ND FLOOR LABH ASHISH BEHIND POLICE QUARTERS OLD POLICE LANE, OFF SAHAR RD OPP ANDHERI STATION EAST ANDHERI E, MUMBAI-400069	01/04/2004	540	110036	Mr NEELESH JOSHI ACA 28 H JA! SANTOSHI NAGAR 2 BEHIND KARELIBAUG TELEPHONE EXCHANGE KARELIBAUG VADODARA-390018	18/08/2004
525	109692	Mr LIONEL MATHIAS ACA 7, SANDHYA KIRAN, DATTAMANDIR RD, VAKOLA, SANTACRUZ (E), MUMBAI-400055	11/05/2004	541	110047	Mr PRADEEP HASMUKHLAL JAIN ACA B/16, PURNESHWAR FLATS OPP. VASUNDHARA SOCIETY GULBAI TEKRA AHMEDABAD-380009	14/12/2004
526	109727	Mrs. AMITA NARESH SHROFF ACA 8/2 MALAD CO OP HSG SOCIETY PODDAR RD, MALAD EAST MUMBAI-400097	30/09/2004	542	110053	Mr PRATIK VINODKUMAR SHAH ACA D/11 PARIRAJ, PATEL ESTATE JOGESHWARI-WEST MUMBAI-400102	30/08/2004
527	109749	Mr MANOJ PRALLHAD DATAR ACA 43/88 SADASHIV, NAVSAHYADRI SOCIETY PUNE-411052	29/09/2003	543	110088	Mr CHINMAY DINESH JADAV ACA 13/B -1, ROOM NO. 204 SHANTI NIKETAN, KANDERPADA, L M ROAD, DAHISAR WEST MUMBAI-400068	09/08/2004
528	109773	Mr SANDEEP GANESH MHAISKAR ACA 14 NAV UTKARSH SOCIETY ERANDANANA GAOTHAN, PUNE - 411004.	01/04/2004	544	110091	Mr MUKESH MOHANDAS KEWLANI ACA 502 JEEVANDEEP TOWER GOL MAIDAN, ULHASNAGAR-421001	01/04/2004
529	109779	Mr HEMANT RATANLAL MANTRI ACA GIRIKUNJ 'B', FLAT NO. 5, ROAD NO. 7, DAHANUKAR COLDNY KOTHRUD, PUNE-411029	14/06/2004	545	110101	Mr YDGESH RAMESH RAJPUT ACA B-704, STARLIGHT, MHAVIR NAGAR KANDIVLI WEST, MUMBAI-400067	14/07/2004
530	109816	Mr VINIT VYANKATESH DEO ACA 157 ABC/1, SHRI LAXMI NARAYAN PARK SOCIETY NEAR KARVE STATUE KOTHRUD, PUNE-411038	01/04/2004	546	110123	Ms MINAL MOHAN HIRLEKAR ACA 23/9 GURUNAGAR, ASHISH CHS LTD FOUR BUNGLOWS, ANDHERI-WEST MUMBAI-400053	25/05/2004
531	109891	Mr SACHIN KOCHHAR ACA A-11 MODEL TOWN SOCIETY GULMOHAR CROSS ROAD-7 JUHU, MUMBAI-400049	01/04/2004				
532	109904	Mr. SAGAR NARENDRAKUMAR SURANA ACA 431/4, BALRAM SOCIETY NEAR RADHASWAMY MATH GULTEKADI, PUNE-411037	05/03/2005				

547	110158	Mr KARTHIK K NATARAJAN ACA FLAT NO 15, LAKSHMI KESHAV APARTMENTS PLOT NO 147, RASTA PETH PUNE-411011	01/09/2004	560	110414	Mr ALTAF ABBAS LOKHANDWALA ACA 404, SUN MOON II, AGARWAL ESTATE JOGESHWARI W, MUMBAI-400102	15/07/2004
548	110174	Ms ARATI CHHEDILAL AGARWAL ACA 1001 GREEN RIDGE TOWER I CHICKOOWADI, NR SHIMPOLI TELEPHONE EXCHANGE BORIVALI WEST, MUMBAI-400091	01/04/2004	561	110430	Mr ABHAYKUMAR GOKULDAS PITALE ACA C/O MR BHARAT N GANDHI FLAT NO. 5, GIRNAR CLASSIC PLOT NO 87, MAHESH SOCIETY BIBWEWADI, PUNE-411037	07/10/2004
549	110188	Mrs. MADHURA RAMCHANDRA RANADE ACA 759/44, DECCAN GYM KHANA COLONY PARVATI DARSHAN APARTMENTS PUNE-411004	25/01/2005	562	110471	Ms MINAL PRADIP SHETH ACA 21/B SHRI KRISHNA JYOT 105 GARODIA NAGAR GHATKOPAR EAST MUMBAI-400077	01/04/2004
550	110232	Mr ANIL KUMAR AILANI ACA PLOT-17, 501, MORU SADAN OPP. ST TERRESA'S GIRLS HIGH SCHOOL S.V. ROAD, SANTACRUZ - WEST MUMBAI - 400 0054.	29/03/2004	563	110487	Mr GIRISH HEMANT POHANKAR ACA 101/A NAV ASIAD APARTMENTS OPP SARVESH HALL, TILAK RD, DOMBIVLI (E), DOMBIVALI-421 201	31/03/2004
551	110241	Mr RUPESH JAGDISH AGRAWAL ACA 9/C JANARDHAN BHAVAN JANARDHAN BHAVAN MULUND - EAST MUMBAI - 400 081.	01/04/2004	564	110551	Mr GHAN SHYAM MAHESHWARI ACA 101 SAPNA CO-OP HOUSING SOCIETY SECTOR NO 6, CHARKOP, KNADIVLI (WEST) MUMBAI-400067	16/09/2004
552	110263	Ms SHAKTI KORAGA SHENAVA ACA RUKMINI - I, FLAT NO.4 GROUND FLOOR, JAGRUTI LANE VADAVLI SECTION AMBERNATH (EAST) AMBARNATH-421501	01/04/2004	565	110552	Mr. VISHAL JYOTINDRA GOR ACA CADILA HEALTH CARE LTD. SR. ECEVUTIVE MANAGEMENT AUDIT XZYDUS TOWER, OPP. ISKCON TEMPLE, SARKHOJ GANDHINAGAR HIGHWAY AHMEDABAD-380015	24/03/2005
553	110264	Mr AJAY NARAYAN ACA B/604, LALITA APPARTMENTS GREEN PARK COMPLEX, NANDIVALI VILLAGE NEAR GANDHINAGAR DOMBIVALI (EAST), DOMBIVALI-421201	23/12/2004	566	110602	Mr. MAULIK PANKAJ DOSHI ACA ANUPAM C-6, KARANI LANE GHATKOPAR (WEST) MUMBAI-400086	31/12/2004
554	110270	Mr MANISH BACHUBHAI JETHWA ACA B-5 SHREENATH NAGAR CO OP HSG SOCY SHIVA VALLABH ROAD ASHOK VAN, DAHISAR EAST MUMBAI-400068	19/10/2004	567	110625	Mr. PARTH NIKUNJ JHAVERI ACA 1 URMI COLONY, SUBHANPURA VADODARA-390023	01/02/2005
555	110282	Mr. NITIN LOKUMAL KHATRI ACA BK NO.27/162, OPP BHATIA HOSPITAL ULHASNAGAR-421005	12/07/2004	568	110639	Ms KINJAL PRAFULCHANDRA KAMDAR ACA 193/5353 SUGAM 'A', PANT NAGAR GHATKOPAR-E, MUMBAI-400075	01/04/2004
556	110289	Mr. RAVIN RAJENDRA MODY ACA 404-B, ANANT APARTMENTS PIRAMITAR ROAD DANDIA BAZAR VADODARA-390001	27/08/2004	569	110654	Mr CHANDRASHEKHAR BABURAO HADKAR ACA C/O C M SALIAN, NAVJEEVAN CO.OP HSG SCTY LTD 1/2 INDIRA GANDHI NAGAR KANJUR MARG E, MUMBAI-400042	01/04/2004
557	110296	Ms LAVINA KISHIN KARAMCHANDANI ACA 33, COLUMBIA, ST. DOMNIC ROAD BANDRA (WEST), MUMBAI-400050	04/06/2004	570	110744	Ms. KRUTI PRAMOD GORADIA ACA 25/A BIRLA MANSION PRARTHNA SAMAJ MUMBAI-400004	01/04/2004
558	110369	Mr SEEMANT RAMKUMAR SHRIVASTAVA ACA H & R JOHNSONS INDIA LTD WAGALE INDUSTRIAL ESTATE LBS MARG THANE - 400 604.	31/03/2004	571	110796	Mr NILESH SHARAD KORDE ACA 4/9 EVEREST CO OP HSG SOCY DINDAYAL MARG, VISHNUNAGAR DOMBIVALI WEST, DOMBIVALI-421202	28/03/2005
559	110384	Mr SUMIT RAMESH KARANJAWALA ACA 504 UMA HOUSING SOCIETY 499 RASTA PETH, PUNE-411011	26/07/2004	572	110854	Mr. ABHAY GHANASHYAM SANDHYA PHADKE ACA 'BHAGYODAYA', PANDURANGWADI MANPADA ROAD, DOMBIVILI (E) DOMBIVALI-0	09/08/2004
				573	110872	Ms. KOUSALYA SAMPATH ACA 82-B DIAMOND COURT 40 NEPEAN SEA ROAD MUMBAI-400036	25/08/2004
				574	110902	Mr MANDAR JAYPRAKASH CHAPEKAR ACA 176/3, NALINI APARTMENTS PARVATI PUNE-411009	05/02/2005

575	110908	Mr NITISH SOMNATH BHAMBRI ACA ST-1/104, STERLING APARTMENTS RAJ NAGAR, CHHAONI NEAR SHIV MANDIR JAGPUR-440013	27/08/2004	589	111356	Mr. AVINASH ROHIT PATEL ACA 16 ABHISHEK COLONY OPP PASHABHAI PATEL PARK RACE COURSE CIRCLE VADODARA-390007	01/02/2005
576	110909	Mr BANKIM CHANDRAKANT BHATT ACA 704/E WEST VIEW CO-OP HSG SCTY LTD SECTOR - 2, BEHIND MAHAVIR DARSHAN CHARKDPM KANDIVALI (WEST) MUMBAI-400067	31/03/2004	590	111370	Ms VAISHALI CHANDRAKANT BHATT ACA B-8 MANGAL PRABHA, GUJRATI MANDAL X ROAD VILE PARLE (EAST), MUMBAI-400057	30/07/2004
577	110953	MR AKSHAY MOHAN ANDHALKAR ACA 46/9*2 SAMTA NAGAR KANDIVILI E, MUMBAI-400101	31/03/2004	591	111437	Mr. ARPAN KALPESH SHAH ACA 2/55 SHYAMAL ROW HOUSE SATELLITE ROAD, AHMEDABAD-380015	01/04/2004
578	111015	Mrs. VRUSHALI VIBHAS KHOPADE ACA SHRINIWAS 555, GHORPADE PETH PUNE-411042	24/02/2005	592	111453	Mr. JIGAR PANKAJBHAI DALAL ACA 11/1448-B, ASHIRWAD CHINIWALA STREET NANAVT, SURAT-395003	01/04/2004
579	111036	Ms KARUNA PARMESHWAR JAISWAL ACA C/D MRS HARJINDER KAUR KDHLI 143/A SHAHID BHAGAT SINGH CO OP HSG SOCY J B NAGAR, ANDHERI EAST MUMBAI-400059	14/09/2004	593	111469	Mr ANIRUDDHA PRAKASH BEDEKAR ACA FLAT NO 303, GANDHAR APARTMENTS 1204/18, PURANDARE ROAD OPP SAMBHAI PARK PUNE-411004	16/06/2004
580	111047	Mr NIRAV PRAVINCHANDRA SHAH ACA 1 NAVPAD SOCIETY, B/H JAIN TEMPLE AJWA ROAD, VADODARA-390019	31/01/2005	594	111557	Mr BHAVIN GHANSHYAMBHAI GANDHI ACA A/9 PRERNA TENAMENTS-II NEAR PARASNAGAR BUS STOP ISANPUR VATVA ROAD AHMEDABAD-382443	22/12/2004
581	111058	Mr CHIRAG MAHENDRAKUMAR SHAH ACA 5 JAIN BHUVAN, GAMDEVI ROAD GARDEN LANE GHATKOPAR WEST MUMBAI-400086	01/09/2004	595	111560	Mr AMIT ANAND ATHALYE ACA 1188 SHUKRAWAR PETH SUBHASH NAGAR LANE NO. 3, PUNE-411002	01/04/2004
582	111104	Mr RAMESH RAJARAM GURAV ACA 8/159 JODIA MANSION G K MARG, LOWER PAREL MUMBAI-400013	28/12/2004	596	111596	Mr. KANHYALAL SHYAM SUNDER MANIYAR ACA 603 ASHOKA PALACE, JITENDRA RD, MALAD (EAST), MUMBAI-400097	25/11/2004
583	111107	Mrs. KAVITA RAKESH SATVI ACA CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD 5TH FLOOR, CENTRAL RAILWAY BLDG D.N. ROAD, FORT, MUMBAI-400001	25/01/2005	597	111631	Mrs. HETAL APURVA SHAH ACA A/15, VARMA VILLA, VITTHALBHAI RD, VILE PARLE (WEST), MUMBAI-400056	29/07/2004
584	111159	Mr HRISHIKESH HIRALAL DAGA ACA 16 OLD MAHAVIR BLDG, BEHIND MATUNGA PD MATUNGA (CR), MUMBAI-400019	21/06/2004	598	111667	Ms. BHAKTI KIRTIKUMAR MDDI ACA 14 SHREE GANESH CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY SARASWAT BANK ROAD SECTOR 3, PLOT 233 CHARKOP, KANDIVLI WEST MUMBAI-400067	28/07/2004
585	111211	Mr. DINKARPRASAD HIRALAL LAHDTI ACA T4/302 NATRAJ ENCLAVE NEAR JALARAM TEMPLE KARELIBAUG, VADODARA-390018	22/03/2004	599	111668	Mr. NAVIN KUMAR ACA ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO III RD FLODR, BLOCK B 46D CHOWRINGHEE ROAD, KOLKATA-700071	05/06/2004
586	111251	Ms LEENA RAMNARESH KATYIAR ACA 20 - B, OMKAR CO-OP HSG SOC BHATTIPADA ROAD, KESHAVJI NAGAR BHANDHUP WEST, MUMBAI-400078	28/03/2005	600	111683	Mr GHANSHYAM SUDAM PATIL ACA ROW HOUSE # 1, PRIMROSE BANER, PUNE-411045	01/09/2004
587	111315	Mr HARSHAL BABASAHEB GIRAD ACA FIRST FLR, MADHAV APARTMENTS NEAR SHREE DATTA MANDIR SHRIDHAR NAGAR CHINCHWAD, PUNE-411033	01/04/2004	601	111688	Mr KISHORKUMAR GAUTAMBHAI KATHIRIA ACA 9 PARTH APARTMENT, SHAKTI SOCIETY, PLOT NO 4, SHREEYASH CROSSING PALDI, MUMBAI-380007	14/12/2004
588	111346	Mr SACHIN JAGDISH AGARWAL ACA 248 JEDHE PARK, SHOP NO.1 & 2 NEAR SHANTAI HOTEL RASTA PETH PUNE-411011	01/04/2004	602	111702	Mr. AMARESH HARISHCHANDRA PADGAONKAR ACA 1/31 RAHIMATBAI BLDG SANE GURUJI MARG TARDEO, MUMBAI-400034	01/04/2004

603	111709	Mrs. RASHMI DINESH RATHI ACA C/O BASANT KELA 502 SHANTIKUNJ APARTMENTS OLD BAGDGANJ ROAD, HIWARI LAYDUT WARDHMAN NAGAR, NAGPUR-440008	24/01/2005	618	112260	Mr. ASHISH MAHESHWARI ACA 307 NAIN KRUPA, 118/122 KAZI SYED STREET MASJID W, MUMBAI-400003	01/04/2004
604	111826	Mr. VISHAL AMRESHBHAI JHAVERI ACA A/4 FIRST FLR, SAROJ FLATS OPP NEW PULKIT HIGH SCHOOL FATEHPURA PALDI AHMEDABAD-380007	16/09/2004	619	112268	Mr. RAVI KUNDANLAL TANEJA ACA M4/68/526, SHASTRI NAGAR SHOPPING CENTRE SOLA HOUSING, AHMEDA 8AD-380063	22/03/2004
605	111850	Mr. PRATIQ CHAITANYA SHAH ACA 3RD FLOOR, BAL KRISHNA NIWAS 9 L.N. RD, MATUNGA (C.R.) MUMBAI-400019	27/09/2004	620	112270	Mr. PARIMAL RAMESH GAGGAR ACA A/3 DINESH APARTMENTS OPP NEW MADHAVPURA MARKET SHAHIBAUG, AHMEDABAD-380004	20/09/2004
606	111857	Mr. GOUTAM KUMAR CHHIPPAR ACA C 102 GOKUL PLAZA NEAR VIDEOCON TOWER THAKUR COMPLEX KANDIVALI E, MUMBAI-400101	09/12/2004	621	112295	Mr. SACHIN JAIN ACA 403-C KRISHNA PLAZA PLOT NO. 218 LANADGANG NARPUR - 440008.	19/07/2004
607	111905	Mr. SAMEER RAVINDRA WADHAWAN ACA B - 7 NAVRAVIRAJ CHS JAIHIND COLONY, GUPTA ROAD DOMBIVALI-421202	02/07/2004	622	112367	Mr. JITENDRA SURENDRA ATTRA ACA A 1101 AKRUTI NOVA, SAI WADI, TELLY GALLI ANDHERI EAST, MUMBAI-400069	31/03/2004
608	111986	Mr. SAJJADHUSSAIN MOHAMMED SARANGPURWALA ACA 29 SANGNA SOCIETY NEAR NAVYUG COLLEGE RANDHER RD, SURAT-395009	10/07/2004	623	112395	Mr. NIHAL MANIKANT SHAH ACA G-9 NALANDA COMPLEX B/H HOTEL PRESIDENT TEEN BHATTI JAM NAGAR - 361001	01/04/2004
609	112047	Mr. BHALCHANDRA BANDU KHANDEKAR ACA 17/196, BRAHMAN SABHA BLDG NO. 2, RAJA MOHAN, ROY RD, MUMBAI-400004	01/04/2004	624	112411	Mr. LALIT OMPRAKASH TAMBHI ACA 2ND FLOOR, KOTHARI COMPLEX NEAR RANI SATI MANDIR RALLIES PLOT, AMRAVATI-444601	20/12/2004
610	112053	Mr. PRANAV NARENDRA PANDYA ACA E-6/15 JAI TARAMANI SOC, BANGUR NAGAR GOREGAON [WEST], MUMBAI-400090	03/06/2004	625	112433	Mr. ARUNKUMAR RAMDAS ACA 13/80 SAROJ, PESTOM SAGAR, CHEMBUR, MUMBAI-400089	05/04/2004
611	112094	Mr. SAINATH SURYAKANT GANDEWAR ACA C/O SAINATH GANDEWAR E-7/8, POPULAR PRESTIGE NEAR BOMBAY BANGALORE HIGHWAY WARJE, PUNE-411030	08/01/2005	626	112475	Mr. PARTH CHETAN SHAH ACA SARDAR POLE, KAKERKHAD NADIAD-387001	18/08/2004
612	112095	Mr. MAKRAND CHANDRAKANT NASHIKKAR ACA VEENA 4, RAJARAM HSG SOC OPP VISHWAMITRI BRIDGE MUCHMAHUDA TEEN RASTA VADODARA-390020	02/02/2005	627	112483	Mr. RAKESH CHANDRAHAS SHAH ACA SUHSILA SHAH BHAVAN PLOT NO.2, RAMBAG LAYOUT ROAD JATTARODI SQUARE NR. MEDICAL SQUARE NAGPUR-440003	25/10/2004
613	112113	Mr. SUNIL GOPICHAND RAMRAKHYANI ACA 8K NO 1692, ROOM NO. 1 SECTION 25, MAHAVIR HOSE ROAD OPP MANAV CLINIC ULHASNAGAR-421004	01/04/2004	628	112540	Ms. PALLAVI SHARAD WARANG ACA 703/704 B WING, SHREE SAI SHILP GAVANPADA, MULUND EAST MUMBAI-400081	01/04/2004
614	112134	Ms. MITTAL KIRTIKUMAR SHAH ACA G/204 VISHAL SOCIETY, 2ND FLOOR M V ROAD, ANDHERI[E] MUMBAI-400069	01/04/2004	629	112573	Mr. DHARMESH BHARATBHAI SHAH ACA 404 RIDDHI APARTMENTS NEXT TO SHANKAR ENCLAVE ASHOK NAGAR, KANDIVLI [E] MUMBAI-400101	20/01/2005
615	112145	Mr. HARSHAD VALLABHDAS BATAVIA ACA 8/B LOKHANDWALA BLDG 130 MODY STREET FORT, MUMBAI-400001	31/03/2004	630	112579	Ms. MAMTA MISHRA ACA 64, HILL PARK, A.G.BELL MARG MALBAR HILL, MUMBAI-400006	31/03/2004
616	112149	Mr. AMIT VASANT VAZE ACA 89, SHUKRAWAR PETH, PUNE-411002	10/11/2004	631	112622	Mr. AMITKUMAR RAMESHCHANDRA PATEL ACA M 109/1306 LASMIKRUPA 2, BEHIND PARASNAGAR SALA ROAD, NARANPURA AHMEDABAD-380063	30/11/2004
617	112256	Mr. SATISH SHRIKISAN MUNDADA ACA B/28 SAMRAT TOWER SUKHSAGAR NAGAR KATRAJ, PUNE - 411046.	01/02/2005	632	112651	Mr. KUNAL MUKESHBHAI SHAH ACA 7 ARJUN APT, BH PRAGATI NAGAR BUS STOP, NARANPURA AHMEDABAD-380013	10/02/2005

633	112665	Mr VISHAL RAMESHCHANDRA SASWADKAR ACA EMP 73/603, EVERSHINE MILLENNIUM PARADISE THAKUR VILLAGE, KANDIVALI EAST MUMBAI-400101	31/12/2004	649	113095	Mr. MAULIK DIVYAKANT DESAI ACA B-6 NIRALI APARTMENTS OPP VASTRAPUR RAILWAY STATION VEJALPUR, AHMEDABAD-380051	31/03/2004
634	112719	Mr ASHISH DILIPBHAI JHAVERI ACA A/7 KAMLESH APTS, PARSEE PANCHYAT ROAD ANDHERI [EAST], MUMBAI-400069	31/03/2004	650	113105	Mr SHREEDHAR VIJAY MUNSHI ACA 302, MALHARI SADAN, AJMAL ROAD VILE PARLE-EAST, MUMBAI-400057	23/09/2004
635	112726	Ms CHANDRIKA SHANKAR SHETTY ACA C-43 JAI JAWAN HSG. SOCIETY, SECTOR 17, VASHI NAVI MUMBAI-400705	01/04/2004	651	113121	Mr. MANISH KUMAR RANKA ACA C/O MR. PRAMOD MEHTA, 601 6TH FLOOR MAHESH SRIMAD RAJCHANDRA MARG OFF TILAK ROAD, GHATKOPAR EAST MUMBAI-400077	29/09/2004
636	112737	Mrs. MAMATA NILESH MUNGEKAR ACA C/O MADHUKAR P. KHANOLKAR 1/51, PAREKH MAHAL, L.J. ROAD MAHIM, MUMBAI-400016	18/03/2005	652	113124	Mr. MUSTAFA ABBAS TARWALA ACA 214/16 NAGDEVI STREET 7 MOHAMMEDI HOUSE 3RD FLOOR, MUMBAI-400003	27/12/2004
637	112750	Mr VIRAL RATILAL SHETHIA ACA B 26, MORUMAL MANSION BACHANI NAGAR ROAD MALAD-EAST, MUMBAI-400097	30/12/2004	653	113157	Mr. NARENDER CHANDERLAL ACHANTANI ACA BK.NO.1102/12, NR JASLOK HIGH SCHOOL D.T. SECTION, ULHASNAGAR ULHASNAGAR-421003	13/09/2004
638	112787	Mrs. DIANNE FAROKH GOTLA ACA F/18 CUSROW BAUG SHAHID BHAGATSINGH ROAD ELECTRIC HOUSE MUMBAI-400001	09/06/2004	654	113190	Mr SANJAY NARAYAN KAMBLE ACA DR. RAJENDRA PRASAD NGR. OPPRUIA COLLEGE L.N. ROAD DADAR, MUMBAI-400014	31/03/2004
639	112796	Mr NEERAJ PURSHOTTAMDAS SARAF ACA B-101 ASIAD APTS TILAK RD, DIST THANE [EAST] DOMBIVALI-421201	14/12/2004	655	113192	Mr SUNIL JAGDISH VARMA ACA RH-2 PUNIT CO-OP HSG STY PLOT NO 10/7, NEAR APEEJAY SCHOOL SECTOR 15 NERUL NAVI MUMBAI-400706	01/04/2004
640	112809	Ms KRUTI PRAKASHBHAI BHAVSAR ACA 52 HASTINAPUR SOC B/H ARAYKANYA KARELI BAUG VADODARA-390018	29/09/2004	656	113204	Ms. MRUNMAYEE SURESH PARVATE ACA PLOT NO 294/295, MAHATMA SOCIETY KOTHRUD, PUNE-411038	28/12/2004
641	112823	Ms SUNITA JAYKISHAN MADNANI ACA FLAT NO.9, 3RD FLR SATNAM F APARTMENTS GOLD MAIDAN ULHASNAGAR-421001	31/08/2004	657	113285	Mr. RAMANUJ CHANDRASHEKHAR KANKANI ACA 205 OMKAR CO-OP HSG SOC LTD NR REENA PARK, TITHAL ROAD VALSAD-396001	23/07/2004
642	112892	Mr. SANDEEP SHANKARLAL SANGHI ACA FLAT NO. 403, A/2 VASANT VIHAR TOWN SHIP UDHANA MAGDALLA ROAD SURAT-395017	24/02/2005	658	113290	Mr. VIVEK VISHNUPRASAD AGARWAL ACA 14 NIKHARIKA BUNGALOWS OPP HIMMAT LAL PARK NR AZAD SOCIETY, AMBAWADI, AHMEDABAD-380015	31/08/2004
543	112902	Mr. NIRAV KIRIT PUJARA ACA 49/50, B-10 VELLAND VIEW HAJIALI TARDEO ROAD MUMBAI-400034	17/09/2004	659	113390	Mr SATYAJEET ASHOKSINGH PUNWAR ACA B-102 ADHUNIK APTS 58 PRITAM NAGAR SOC ELLISBRIDGE, AHMEDABAD-380006	23/02/2005
644	112903	Mr MILIND SUBHASH PAKALE ACA A 84 VIKAS FINALLY TOWERS CD OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED PAREL TANK ROAD, MUMBAI-400033	09/07/2004	660	113411	Ms. MRUNALINI PRAMOD MEHENDALE ACA J 402 AMOD ANKUR SHIVANAND GARDENS TEJAS SOC, KOTHRUD PUNE-411038	31/01/2005
645	112905	Mr. RAJNEESH SHAH ACA C/O MR PRAKASH C PATWAK ROOM NO. 3, NAAZ MANZIL OPP TIPCD CO, RANI SATI MARG, MALAD [E], MUMBAI-400097	31/12/2004	661	113447	Mr VISHWANATH VILAS PAI ACA A-1 101 MISQUITTA NAGAR SHIVAJI ROAD, DAHISAR EAST MUMBAI-400068	20/09/2004
646	112911	Mr VINOD KARUNAKARAN NAMBIAR ACA 7 HARI NIWAS, POSTAL COLONY CHEMBUR, MUMBAI-400071	09/09/2004				
647	112919	Mr. AMIT JAGDISH SHAH ACA 39/2830 ABHYUDAY NAGAR KALACHOWKI, MUMBAI-400033	01/04/2004				
648	113057	Mr SATYAJEET UDDHAV BAGADE ACA GURURAJ CO HSG SOC 137/4, SALUKHA BLDG FLAT 3, PAUD ROAD KOTHRUD, PUNE-411029	14/09/2004				

662	113457	Mr. NIKHIL MUKUND BAGAIKAR ACA 232 JAI BHALCHANDRS CHMBS LTD OPP NAVJEEVAN HOSPITAL MANPAD ROAD, DOMBIVALI EAST DOMBIVALI-421201	28/12/2004	676	113951	Mr DHARMESH SHARADKUMAR JANANI ACA 152 SHAKTI TENAMENTS NR SHANTIBAUG TENAMENT ISANPUR AHMEDABAD-382443	19/06/2004
663	113502	Mr. SANDEEP KUMAR JAISWAL ACA C-113 SATYAM, B/H DON BOSCO SCHDOL BORIVALI [WEST], MUMBAI-400091	08/07/2004	677	113957	Mr. NILESH KISAN KSHIRSAGAR ACA 206 SAPTASHRUGI C H S STATION ROAD ULHASNAGAR-421004	24/03/2005
664	113550	Mr CHANDRASHEKAR MAHABAL SALIAN ACA NAVJIVAN CO-OP HSG. SDCIETY ROOM ND1/2, INDIRA GANDHI NAGAR KANJURMARG EAST, MUMBAI-400042	23/08/2004	678	113963	Mr JITESH RAMRATAN LADDHA ACA 6/5 SAHYDG APARTMENT KESHAVNAGAR SUBHASHBRIDGE AHMEDABAD-380027	17/08/2004
665	113577	Mr. JASHESH PRADIP VAIDYA ACA B 304 VIJAY PARK, MATHURADAS RDAD EXTN KANDIVALI W, MUMBAI-400067	16/05/2004	679	113972	Mr PREM RAJ LADDHA ACA 6/5 SAHYDG APARTMENT KESHAV NAGAR SUBHASH BRIDGE AHMEDABAD - 380027	17/08/2004
666	113592	Ms. SHILPA LAXMAN UTPAT ACA B/16, RAHUL NAGAR NEAR KARVE STATUE KOTHRUD, PUNE-411038	12/10/2004	680	113996	Mr. SUNIL INDRAKUMAR HOTCHANDANI ACA 1ST FLODR, SHARDA VACHNALAYA MARKET GONDIA-441601	27/01/2005
667	113634	Mr KUNAL HARENDRA MUNSIF ACA 202/A WING MANISH BUILDING S V PATEL ROAD, OPP GOKUL HOTEL BORIVALI WEST, MUMBAI-400092	31/03/2004	681	114037	Ms SANJYOT SUDHAKAR CHIDDARWAR ACA PLOT NO 26, DATTATRAYA NAGAR NAGPUR-440024	31/03/2004
668	113640	Mr. SANDIPAN SENGUPTA ACA C/D DEBASHIS MAJUMDAR B-17, SRI SWAMI SAMARTH SUS RD, PASHAN, PUNE-390007	02/02/2005	682	114108	Mr ANAND RAMANIKLAL THORIA ACA SUCHITRA, FLAT NO 13TH, TEJPAL LANE 5TH, VILE PARLE-EAST, MUMBAI-400057	31/12/2004
669	113647	Mr K N SANJAY NAMBOODIRI ACA C/O SHRI H P MISHRA V-6 SHRIRAM APARTMENT LAXMINAGAR, NAGPUR-440010	31/01/2005	683	114112	Mr. JATIN DIDWANIA ACA A 16 SHREENIWAS BLDG MHATARPADA, OFF CEASAR ROAD AMBOLI, MUMBAI-400058	27/05/2004
670	113800	Mr. AMEY SATISH CHITALE ACA 21, "SAWALI" JEEVAN VIHAR SCTY JAI BHAVANI ROAD, NASIK RDAD CAMP NASHIK-422102	15/12/2004	684	114120	Mr. CHETAN ASHOK SUNITA BAFNA ACA 7, ARCHIT RESIDENCY, OPP TIRUPATI TOWER B/H AKASHWANI TOWER, GANGAPUR RDAD NASHIK-422013	27/12/2004
671	113810	Mr ANAND MAHENDRAKUMAR JHAVERI ACA PLOT NO. 164, DHAWAD BUILDING BEHIND SHRIRAM BHAWAN NEW RAMDAS PETH, NAGPUR-440010	07/02/2005	685	114135	Mrs. SEJAL SHISHIR KAPADIA ACA 29 SHRINATH SOCY, OPP MUNIM HALL USMANPURA, AHMEDABAD-380013	06/01/2005
672	113811	Ms AKANKSHA BHAGWAN SINGH ACA 126 - A, NEW JAGRUTI CDLONY, KATOL RDAD, NAGPUR-440013	19/08/2004	686	114193	Mr. MUKESH RAVIKANT HATWALNE ACA B 104 ISHA GARDEN S NO 52/45 OPP MAHESH VIDYALAYA SAHAJANAND SOCIETY KOTHRUD, PUNE-411029	25/11/2004
673	113814	Mr. KAILASH TAHKANDAS DAULTANI ACA 6-E SHIV SAGAR 5TH ROAD, SHIVAJI PARK MAHIM WEST, MUMBAI-400016	21/03/2005	687	114203	Mr. ANIL AGARWAL ACA C/O ARVIND AGARWAL, A/604 PRIME ARCADE OPP SAHAJ DEPARTMENT STORE ANAND MAHAL ROAD, ADAJAN, SURAT-395009	22/06/2003
674	113883	Mr PRADEEP KUMAR JAGDISH PRASAD SARAF ACA 86/38 CAVEL CROSS LANE-2 DADY SHETH AGYARILANE ROOM NO. 38 & 39 KALBADEVI RDAD MUMBAI-400002	21/06/2004	688	114210	Mr PRANAV HARSHADRAY JOSHI ACA B/52 SHIV TOWERS OPP RAJSUYA BUNGLDWS RAMDEVNAGAR SATELITE AHMEDABAD-380015	11/06/2004
675	113945	Mr. NIRAV DINESH SHETH ACA 5/103 SHRIKUNJ FLATS NR RANNA PARK BUS STOP GHTLODIA AHMEDABAD-380061	08/07/2004	689	114221	Mr. GIRISH SHENOY KATPADIKAR ACA 171 SHAHEED BHAGAT SINGH COLONY J B NAGAR, ANDHERI KURLA ROAD ANDHERI (EAST), MUMBAI-400059	29/12/2004

690	114229	Ms. SWECHHA ANTYA KARKARE ACA 301/302, SION SHIVAJI NAGAR COOP HSG SOC BHAU DAI ROAD EXTN NEAR SION HOSPITAL SION MUMBAI-400022	14/03/2005	705	114688	Mr. URMIN MULCHAND VORA ACA 1601 CORAL NIRMAL LIFESTYLE BEHIND SHOPPERS STOP LBS ROAD, MULUND WEST MUMBAI-400080	01/04/2004
691	114245	Mrs. MAMTA SANJAY ALMEIDA ACA SECTOR V A/5 403, SHANTINAGAR MIRA ROAD, DIST THANE MIRA ROAD-401107	20/08/2004	706	114693	Mr ABHIJEET MAHESH KULKARNI ACA VATSALYA BUNGALOW, MAYUR VIHAR COLONY NR PRASHANT NAGAR, PATHERDI PHATA NASHIK-422010	10/09/2004
692	114281	Mr SAMIR UTTAMRAO JAGANADE ACA 7 GAYATRI NIWAS NALEGAON -HUDCO AHMEDNAGAR-414001	02/12/2004	707	114709	Mr ALWIN BABY MAZHUVANCHERRY ACA 14/329 SECTOR-7 CGS COLONY ANTOP HILL MUMBAI - 400 037.	01/04/2004
693	114329	Mr. NILESH KANHAIYALAL OSWAL ACA 524/2, SHIVAJI NAGAR, NR CDNGRESS BHAWAN PUNE-411005	01/04/2004	708	114714	Mr. AMIT TARUN CHADHA ACA S R BATLIBOI & CO, THE METROPOLE F1 1ST FLOOR, BUND GARDEN RD PUNE-411001	01/04/2004
694	114333	Mr NIRAV HASMUKH SHAH ACA B/15, SAMBHAV TIRTH FLATS B/H VASNA TEL EXCH VASNA AHMEDABAD-380007	31/03/2004	709	114766	Mr VELEYUDHAM K DHANDAPANI MUDALIAR ACA 311 C-33 UPPER GOVIND NAGAR H B ROAD, MALAD [EAST] MUMBAI-400097	31/03/2004
695	114380	Ms. RESHMA GHOU SYED ACA NARAYAN NIWAS, GROUND FLOOR R NO. 20 KHETWADI, KHAMBATA LANE MUMBAI-400004	13/12/2004	710	114802	Mr BIPIN SHANKER MORE ACA C/502, VINAY APTS, CHOGE NAGAR SAVAR PADA, BORIVALI (E) MUMBAI-400066	17/12/2004
696	114422	Ms. VINAYA VINAYAK VANDANA GHAG ACA 7 GANGESHWAR DHAM SOC DEVI CHOWK, SHASTRI NAGAR (WEST) DOMBIVALI-421202	10/09/2004	711	114813	Mrs. SHRADDHA GANESH IYER ACA A-1/603 SAROVAR CO-OP HSG SOC NEAR RAM ASHRAM RAM BAUG AS RAOD POWAI, MUMBAI-400076	09/09/2004
697	114459	Mr GURURAJ NARAYAN RAO ACA 4/12 ELLORA COMPLEX COOP HSG SOC DINDAYAL MARG, DOMBIVALI(WEST) THANE-421202	22/06/2004	712	114817	Mr VINAY HASMUKHLAL SHAH ACA T/2 NUTAN SANDESH, 19-20, GARODIA NAGAR, VALLABH BAUG LANE EXTN GHATKOPAR [E], MUMBAI-400077	01/04/2004
698	114470	Mr SHAILESH GOKULDAS PUGALIA ACA FLAT 601 GREEN AVENUE, BLDG NO.1, RAHEJA ESTATE NR NATIONAL PARK, KULUPWADI BORIVALI -E MUMBAI-400066	05/08/2004	713	114821	Mr. AJAY UMAKANT PATEL ACA C/O PRAVIN K PATEL, DARSHAN GANGA PLOT NO 24, MAHALAXMI NAGAR OPP NANDINI, AGARBATTI HIRA WADI ROAD NASHIK-422003	02/11/2004
699	114537	Mr DANISON ABRAHAM ACA C/O N.A. VARGHESE, 204 BLUE GAIETY RAMBALIG LANE :5, KALYAN WEST. MUMBAI-421304	01/04/2004	714	114833	Mr SHABBIR IQBAL MAMSA ACA TASNIM, 2ND FLOOR L.J. X ROAD NO 2 MAHIM, MUMBAI-400016	15/12/2004
700	114584	Mr VIVEK RAMDAS MENON ACA FLAT NO. 101, PLUMERIA NYATI ESTATE MOHAMADWADI HADAPSAR PUNE-411028	01/04/2004	715	114848	Mr. KINJAL ASHOKKUMAR DHARIA ACA 2/15 A NEEL - B, NEEL SHEEL SOCIETY BAJI PRABHU DESHPANDE MARG VILE PARLE -WST MUMBAI-400056	14/03/2005
701	114611	Mr ASHISH KUMAR JAIN ACA PLOYCHEM RSINS INTL. INDS. LLC P.O. BOX NO 37029 DUBAI, UAE DUBAI-0	21/03/2005	716	114861	Mr. HARDIK TULBHAI SHAH ACA 305 NIRMAL HOUSE B/H TIMES OF INDIA ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380009	28/08/2004
702	114618	Ms AARTI PRAMOD MADYE ACA 5/D DINATH BUILDINGS OPP CITY LIGHT CINEMA L J ROAD, MAHIM MUMBAI-400016	30/08/2004	717	114881	Ms. MANJUSHA SURESH BHAVE ACA 1, ASHTAINAYAK COOP HSG SOCIETY PANDURANG WADI, DOMBIVLI EAST DOMBIVALI-421201	31/03/2004
703	114647	Ms. DIVYA SABHAPATHY ACA 576, SECOND FLOOR, CHURCH ROAD NEW THIPPASANDRA POST BANGALORE-560075	01/04/2004	718	114883	Mr. VAIBHAV DATTATRAYA DESHPANDE ACA 42 MISTRY PALACE, KHAJURABHATTI CROSS ROAD, CHUNABHATTI MUMBAI-400022	24/12/2004
704	114656	Mr MEHUL VASANTRAI SHAH ACA 15 NEW MOTHER INDIA CHS DAFTARY RD, MALAD [E], MUMBAI-400097	01/04/2004				

719	114885	Mr. PRASHANT ARUN ARTI DESHPANDE ACA 34/B, PARAS NIVAS SANTOSHI MATA NAGAR GOGRAWADI, DOMBIVLI (EAST) DOMBIVLI-421201	03/01/2005	732	115080	Ms. MEERA SUBHASH RASILA GORI ACA E/6 VISHRAM DHAM VEENA NAGAR II, L.B.S. MARG MULUND (W), MUMBAI-400080	01/04/2004
720	114891	Mr VINAY NAGENDRA PANDEY ACA ROOM NO.170, BESIDES NAAZ TAILORS NEAR AHMADI MASJID NARAYAN NAGAR, GHATKOPAR (WEST) MUMBAI-400086	01/04/2004	733	115097	Ms. PALLAVI DILIP CHINCHWADE ACA MAHADEV APT, FLAT NO 2 PADVAL LANE, CHINCHWAD PUNE-411033	24/11/2004
721	114912	Ms. CYNTHIA ABRAHAM HILDA COUTINHO ACA A/9, GANGA APTS., NEAR RCF COLONY 8HANDUP (EAST), MUMBAI-400042	01/04/2004	734	115098	Mr SHRINIVAS MUTHAYYA POOJARY ACA 7/54, GOREGOAN, SIDDHARTH NAGAR C.HSG.SCTY SIDDHARTH NAGAR NO.1, BEHIND WEIGH BRIDGE GOREGAON WEST, MUMBAI-400104	01/12/2004
722	114983	Mr RAMESH BHAUSAHEB BENDRE ACA ROOM NO 1 KAPUS CO B R ROAD, SHASTRI NAGAR MULUND WEST, MUMBAI-400080	21/02/2005	735	115108	Mr. SUMANTA KUMAR NAYAK ACA B-1-1, KAILASH PARK NEAR TALIKA POLICE STATION PANVEL, RAIGAD, NAVI MUMBAI - 410206.	20/06/2004
723	114985	Mr. NILESH JITENDRA MALAVIA ACA PURVI CO-OP HSG SOC LTD FLAT NO 601, NEAR ASIAN BAKERY MATHURDAS CROSS ROAD KANDIVILI-W, MUMBAI-400067	11/11/2004	736	1151871	Mr MILIND RAVINDRANATH KARI ACA 4/16, SARASWATINAGAR CO-OP. HSG. SOC. KOPARI, THANE E, THANE-400603	13/08/2004
724	114993	Mrs. MRUNAL MANDAR DATE ACA 1/6 SHIRISH, UDYAN CO OP HSG SOCY PANT NAGAR, GHATKOPAR EAST MUMBAI-400075	01/04/2004	737	115229	Ms VAISHALI CHANDRAKANT KADAM ACA H/202 GEETA NAGAR PHASE VI MIRA BHAYENDAR ROAD OPP GOLDEN NEST, BHAYANDAR EAST BHAYANDAR-401105	14/01/2005
725	114994	Mr. AMIT BANSHILAL JAIN ACA 301 GIRNAR APTS, OFF MANDPESHWAR ROAD OPP HIMMAT NAGAR BORIVALI (WEST), MUMBAI-400092	01/04/2004	738	115264	Mr. KAMALCHAND BAFNA ACA 57/1, HUNTERS ROAD 2ND FLR., CHOO LAI, CHENNAI-600112	15/05/2004
726	115004	Mr. MANISHKUMAR PRAKASHRAJ KOTHARI ACA 9 NOORBANU MANSION, TEELY GALLY CHINCHPOKLI, D R B A ROAD MUMBAI-400012	28/12/2004	739	115306	Mr. KISHAN KISHORBHAI RAITHATHA ACA AL KANZ JEWELLWES LLC 312, GOLD LAND BLDG P.O. BOX 8968, DUBAI- UAE DUBAI-8968, UNITED ARAB EMIRATES	10/11/2004
727	115020	Mrs. SANTOSH SUNIL MUNOT ACA 302, ANSHUMAN, 49, C.D.BARFIWALA MARG, ANDHERI (WEST), MUMBAI-400058	31/12/2004	740	115321	Ms NEHA RASIK KAMDAR ACA 202 BESANT ARATI, BESANT STREET SANTACRUZ, MUMBAI-400054	13/08/2004
728	115025	Mrs. BENIFER ZUBIN SETHNA ACA 787, JAME-JAMSHED ROAD PARSI COLONY,DADAR MUMBAI-400014	14/01/2005	741	115344	Mrs. KSHITIJA GANESH RELEKAR ACA I-203 KRISHNA VASANT VIHAR THAKUR VILLAGE, KANDIVLI (EAST), MUMBAI-400101	30/09/2004
729	115041	Ms MAHEEN JABIR LAMPWALA ACA 503 SEAKING BLDG OFF ARTHUR BUNDER ROAD COLABA, MUMBAI-400005	21/02/2005	742	115354	Mr. MANDAR VIKAS ANJALI GADKARI ACA B 101 B & C 68, AMOD A WING GOKULDHAM, GDREGAON EAST MUMBAI-400063	02/08/2004
730	115050	Mr KETAN SHARAD SHAH ACA 146 DR VIEGAS STREET 3RD FLOOR, KRISHNA BHUVAN KALBADEVI ROAD MUMBAI-400002	15/12/2004	743	115401	Mr PRASHANT VASUDEO SHEDGE ACA A-304, BINGO PLAZA 1, SHRIKANDE WADI, MANPADA ROAD, DOMBIVALI EAST DOMBIVALI-421201	27/08/2004
731	115058	Mr SAMIR CHANDRAKANT GADGE ACA F - 9, HARIHAR BEHIND TATYA TOPE HALL, TATYA TOPE NAGAR NAGPUR-440015	15/03/2005	744	115469	Mr VIJAY KUMAR LATHI ACA D1/203, SPECTRUM TOWER OPPOAITE POLICE STADIUM SHAHIBAUG, AHMEDABAD-380004	03/12/2004
				745	115482	Ms. SAPNA VISHWANATH FOGLA ACA 201/202 FOGLA HOUSE, IRANIWADI NO. 2 KANDIVILI (WEST), MUMBAI-400067	15/12/2004

746	115535	Mr. VIRAL ASHOK KUMAR SHAH ACA B-205 HIGHWAY PARK E-2 THAKUR COMPLEX, KANDIVALI [EAST] MUMBAI-400101	28/10/2004	760	115854	Mr RAHUL DATTATRAYA WATARKAR ACA 41/5-AB/2/3, KULDEEP SOC PAUD PHATA KARVE ROAD PUNE-411038	01/04/2004
747	115600	Ms. DEESHA PARESH SUTARIA ACA JAYESH SADAN, SODHA DELO NEAR GPD, JAMNAGAR-361001	24/02/2005	761	115871	Mr. PRARTHAN JAGAT KAUSHIK ACA 203 MANAVSTHAL-I, GDKULDHAM, GOREGAON [EAST], MUMBAI-400063	25/06/2004
748	115649	Ms. NIKITA JAYANTILAL THACKER ACA 003, SOHAM B - 8, SIDDHARTH COMPLEX CITY LIGHT ROAD, SURAT-0	07/12/2004	762	115881	Mrs. GREENA MAHESH KARANI ACA 202, RDSEBEN ENCLAVE ABDVE BASSIEN CATHOLIC BANK BHAYANDAR (WEST), BHAYANDAR-401101	01/06/2004
749	115668	Mr SANTOSH VASUDEO SAWANT ACA B 301 OM SAMARTH ASHISH KOPAR CROSS ROAD SHASTRI NAGAR, DOMBIVALI WEST DOMBIVALI-421202	15/02/2005	763	115944	Mr. KULDEEP VISHNUKANT KHANAPURKAR ACA 5 SAI KUNJ, LANE NO 7 DAHANUKAR COLONY, KOTHRUD, PUNE-411029	31/03/2004
750	115682	Mr. PRAMOD SRINIVAS SHETTIGAR ACA 202 JALDARSHAN APT, MAHADEV FALIYA KATARGAM, SURAT-395004	20/08/2004	764	115949	Ms. JUHI SUNNIE BAKER ACA 54, SHREE RANAVILLA, B/H. L.J. COLLEGE, VASTRAPUR, AHMEDABAD-380015	23/08/2004
751	115702	Mr. KALPESH CHIMANLAL SHAH ACA 2/14 SHREEPAL CO-OP HSG SOC S N ROAD, TAMBE NAGAR BANK OF INDIA, MULUND [WEST] MUMBAI-400080	26/07/2004	765	115952	Mr. ABHIJEET SHYAMSUNDAR BHARGAW ACA C/O YOVRAJ M KHATPE 2/39 SADASHIV PETH PUNE-411030	28/12/2004
752	115705	Mr. KHUSHRU JAL UMRIGAR ACA B/14 SWAGAT APTS, OPP SAGAR COMPLEX ANAND MAHEL ROAD ADAJAN, SURAT-395009	01/04/2004	766	115984	Ms PADMINI RAMNATH SHANBHAG ACA 151 OLYMPUS, M M C ROAD MAHIM, MUMBAI-400016	01/04/2004
753	115717	Mr DEEPCHAND CHAMPALAL SHARMA ACA C/O N.R. SHARMA, 111/B ARADHNA SHOPPING CENTRE JAKARIA ROAD, MALAD WEST MUMBAI-400064	05/07/2004	767	115988	Mr. SHARUKH MANECK PAVRI ACA H/54 NEW AMBIVALI SOC VEERA DESAI ROAD, ANDHERI (WEST) MUMBAI-400053	01/08/2004
754	115744	Ms. GITANJALI SIDDHARTH ACA 173 JUPITER, CUFFE PARADE MUMBAI-400005	29/03/2005	768	116017	Mr. SURENDRAKUMAR ASHOKKUMAR JAIN ACA FLAT NO 2C, POOJAN APARTMENTS TRIBHUVAN COMPLEX GHOD DDD ROAD, SURAT-395007	01/11/2004
755	115788	Mr. RAVIKIRAN JAYANTILAL SURANA ACA C/O MR J V SURANA NR OLD TELEPHONE EXCHANGE KHEND CHIPLUN-415605	12/06/2004	769	116019	Ms. SHILPA VISHWANATH FOGLA ACA SHOP NO. 2, FOGLA HOUSE IRANIWADI NO.2, KANDIVALI [WEST] MUMBAI-400067	15/12/2004
756	115793	Mr MUKESH PARMANAND BHATIA ACA M/S TAIPAN EXPORTS LTD 706-707, EASTERN BUILDING HUNSHI ZHONG LU GUANGZHOU-511091 CHINA	01/04/2004	770	116026	Mr. KEYUR NARENDRA SHAH ACA 29 JAY SHIV SHAKTI SDC B/H GYANDA SOC, JIVRAJ PARK AHMEDABAD-380051	15/12/2004
757	115796	Mr HEMAL ASHOKBHAI PARIKH ACA 501, MONEY TOWER 1/5, PATEL COLONY JAMNAGAR-361008	17/01/2005	771	116059	Mrs. CHETNA CHETAN SHAH ACA 49-MANOR COURT, YDRKWAY WHETSTONE, LONDON N20 ODR UNITED KINGDOM-0	17/05/2004
758	115812	Mr PRATEEK RADHESHYAM AGRAWAL ACA C/O MUKESH S AGRAWAL 4/16 MIG VHB COLONY GIRIPETH, NAGPUR-440010	01/04/2004	772	116066	Ms. KAINAZ BOMI BADSHAW ACA 613 JAME JAMSHED ROAD PARSI COLONY, DADAR, MUMBAI-400014	01/08/2004
759	115845	Mr. SUSHANT PRAVIN PARAKH ACA 16/3 DEEPLYOT, KASTUR PARK BORIVILI WEST, MUMBAI-400092	01/04/2004	773	116067	Mr. SUNIL AMARLAL KAPOOR ACA SEODMAL NIWAS BARRACK NO 1604 ROOM NOS 3 & 4 SECTION NO 26 ULHASNAGAR-421004	31/03/2004

774	116082	Mr JATIN DILIPBHAI PANDYA ACA 4/185, SHIVNERI DADA SAHEB PHALKE ROAD DADAR EAST, MUMBAI-400014	22/12/2004	787	116331	Ms MONIKA BIPINCHANDRA SHAH ACA A/301 SIDDHARTH APTS NR. MEHTA SWEETS, VASNA AHMEDABAD - 380007.	23/02/2005
775	116093	Mr. PARASKUMAR SHANTILALJI GANGWAL ACA D/502 SONMARG, B/H SAHAYADRI BLDG S V ROAD, MALAD [W] MUMBAI-400064	01/03/2004	788	116364	Mr MURALI KRISHNA CHERUVU ACA JN-3, BUILDING NO.23 FLAT NO.15, ASHIRWAD SOCIETY SECTOR-9, VASHI, NAVI MUMBAI-400703	01/04/2004
776	116097	Mr. KIRAN HARESH LATA BHATIA ACA 112, NILANJANA BLDG, MARVE ROAD, MALAD (WEST), MUMBAI-400064	01/04/2004	789	116376	Mr SACHIN VISHWAS DANDEKAR ACA 5/3 GANGA BHUWAN BRAHMIN SOC, NAUPADA THANE WEST, THANE-400602	26/08/2004
777	116118	Mr. NARINDER PAL BHUPINDER SINGH BHATIA ACA 12 GOVIND COLONY NEAR BALAJI MANDIR NANDED-431601	29/10/2004	790	116387	Mr. NILESH ARVIND PANDYA ACA JAYA COTTAGE ROOM NO 10 OPP SHITAL TALAO M N ROAD, OLD KURLA WEST MUMBAI-400070	30/11/2004
778	116122	Mr SURESH REVANSIDDHA BASATE ACA S-1, TULSI APARTMENT 637 S. KASABA SDAPUR-413077	02/02/2005	791	116394	Mr. SAMEER KEDAR AGRAWAL ACA 32 KHEMKA APTS ALSI PLOT NEAR RAYMOND SHOW ROOM AKOLA - 444001.	23/03/2004
779	116156	Mr OMKAR DATTATRAYA JDSHI ACA ARUN PATIL CHAWL, AGRA ROAD NR PETROL PUMP, GHODEKOTH ALI KALYAN-421301	22/09/2004	792	116437	Mr. RAJENDRA MAHAVIRKUMAR JAIN ACA 48, DHARMDEV NAGAR OPP SAMRAT NAGAR ISANPUR, AHMEDABAD-382443	01/04/2004
780	116171	Mr. VIJAYKUMAR VASANT HALDANKAR ACA G H MALWADIA CHAWL GUNDAWALI GAOTHAN AZAD ROAD NR SNEHASADAN ASHRAM ANDHERI-EAST, MUMBAI-400069	19/11/2004	793	116453	Mr. RAJESH HENRY FERNANDES ACA 1/17, VIMAL KUNJ, KISAN NAGAR NO.1 WAGLE ESTATE, THANE-400604	15/12/2004
781	116176	Ms. ANAMIKA YUVRAJ KHATPE ACA 2/39 SADASHIV PETH PUNE-411030	28/12/2004	794	116477	Mr. RITESH KISHORE DESAI ACA 40 PARMAR CHS LTD 213 HANUMAN ROAD, VILE PARLE [E] MUMBAI-400057	04/06/2004
782	116193	Mr. NILESH PANDHARINATH SHRAVAK ACA C/O SHRAVAK P.R., NEAR GANAPATI TEMPLE TAI RAVER, RAVER, JAI GAON-425508	19/01/2005	795	116502	Ms. NIKITA JITENDRA SHAH ACA 29 SEEMA VAIBHAV MURBAD ROAD, THANGEWADI KALYAN (WEST), KALYAN-421301	10/03/2005
783	116204	Mr. MUKESH KUMAR AGARWAL ACA 702 GURU SAMRIDHI APARTMENTS PLDT NO 2, SECTOR 14 PALM BEACH ROAD, VASHI SANPADA NAVI MUMBAI-0	19/11/2004	796	116516	Ms DEEPA SURESH KUMBHOJE ACA SUMOD APTS, FLAT NO. 4 NR NARSOBA TEMPLE KILLA, MIRAJ-416410	15/03/2005
784	116217	Mr. KUMAR KANAYALAL PARMANI ACA A/1502-1503, PANCHSHEEL HEIGHTS NR OSHO RESTAURANT (WOODLANDS) MAHAVIR NAGAR, DHANUKAR WADI, KANDIVALI WEST, MUMBAI-400 067	29/03/2005	797	116535	Ms. POONAM SHASHIKANT GALRE ACA MANORATH HOUSING SOC NEAR HOTEL PANCHSHEEL SAWEDI, AHMEDNAGAR-414003	21/07/2004
785	116259	Mrs. PRAGYA SURANA ACA P-85 BADHWAR PARK WODE HOUSE ROAD COLABA, MUMBAI-400005	06/05/2004	798	116558	Mr. DHAVAL KIRITBHAI MODI ACA 565 GAYATRI NIVAS SIR PATTANI ROAD NR SHIV SHAKTI HALL BHAVNAGAR-364001	17/02/2005
786	116277	Ms. KAMALA SUBRAMANIAN ACA C/O LT. P.R. PRASAD P 202/10, MULTI STOREYED BLDG., INSTITUTE OF ARMAMENT TECHNOLOGY GIRINAGAR, PUNE-411025	01/04/2004	799	116595	Ms. NOORJAHAN AMIRALI NAYANI ACA NAYANI POULTRY FARM OPP MSEB COLONY EKLAHERA ROAD, NASHIK ROAD NASHIK-422105	13/07/2004

800	116606	Mr. BHAVESH MAHENDRAKUMAR BHIMJIYANI 5/33 VANIAWA WADI CLOSED STREET RAJKOT-360002	ACA	16/09/2004	813	117143	Mr. PRATAP ROBIN KARMOKAR 12 JAHIR CHAWL, LAXMAN NAGAR KURAR VILLAGE, MALAD (EAST), MUMBAI-400097	ACA	27/08/2004
801	116607	Ms. POONAM ASHOK PUSHPA RAMRAKHANI BLOCK NO. 791/1581 NEAR NETAJI HIGH SCHOOL OPPOSITE JAI BABA DHAM ULHASNAGAR-421005	ACA	07/12/2004	814	117214	Ms. REECHA CHANDRAKANT DESAI B/2 SHYAM APOART II, B/H SHAHJ BAUG POSE OFFICESHANTI BAUG AHMEDABAD-380004	ACA	20/01/2005
802	116644	Mr. VAIBHAV DIPAKLAL CHANGDE C/O MR. SANJAY P GANDHI 101 VISHNU APARTMENTS 722/4 LAXMI PARK L B SASTRI ROAD, NAVI PETH PUNE-411030	ACA	08/10/2004	815	117249	Mr. SIDDHARTH VIJAY JOSHI C/O ADV. RAMESH VASANT KULKARNI R/O WARD A 700 A, KUNJAN APT SARNAIK COLONY, SHIVAJI PETH KOLHAPUR-416012	ACA	10/08/2004
803	116690	Ms. PAYAL AMRUTLAL PUJARA X-17, PALLAV PARK -2 BEHIND BRIGHT SCHOOL VIP ROAD, KARELIBAUG VADODARA-390 018	ACA	01/04/2004	816	117259	Mr. SACHIN MAHENDRA SHETH 106/B, PARSHVA NAGAR NO.3 DEVCHAND NAGAR ROAD BHAYANDAR (WEST), DIST THANE, BHAYANDAR-401101	ACA	01/03/2005
804	116699	Mr. AMAR MANILAL SHAH A/203 THE NAVBHARAT CO OP HSG SOCY LTD PLOT NO 5 SECTOR 2, NEW PANVEL EAST NEW PANVEL-410206	ACA	03/01/2005	817	117307	Mr. CHIRAG RAJENDRABHAI KOTHARI J/6 BIRJU APTS, OPP AZAD SOCIETY AMBAWADI, AHMEDABAD-380015	ACA	15/01/2005
805	116710	Mr. SANTOSH SHAMRAO BHOSALE PLOT NO. 9/A, TAKALKAR COLONY SANE GURUJI ROAD KOLHAPUR-416012	ACA	07/10/2004	818	117389	Mrs. SUREKHA PRAVIN GOKUL B-61 PARIJAT, BANDRA RECLAMATION NEAR LILAWATI HOSPITAL BANDRA WEST, MUMBAI-400050	ACA	21/06/2004
806	116912	Mr. KUNAL SHRIKUMAR PASARI TIRUPAT: AGENCIES PANZARA POLE SHOPPING COMPLEX PAROLA ROAD, DHULE-424004	ACA	01/06/2004	819	117436	Mr. KEDAR NANDKUMAR HATKAR B-51 OCEAN GOLD, TWIN TOWERS LANE PRABHADEVI, MUMBAI-400025	ACA	20/12/2004
807	116962	Mr. VAIBHAV PURUSHOTTAMDAS AGRAWAL PLOT NO. 125, ROAD NO -06 NEAR R.K. MARBLES SECTOR-1/S, NEW PANVEL (E) NEW PANVEL-410206	ACA	25/08/2004	820	117487	Mr. TAPEN MADHUSUDAN DAVE 65/105, DARA CONTRACTOR COLONY NEAR R T O, ANDHERI WEST MUMBAI-400053	ACA	29/03/2005
808	117004	Mr. LAXMIKANT DHARMRAJ SHARMA 20/14 THE GREAT, INDIRA NAGAR NEAR OLD MASJID, MAROL PIPELINE ANDHERI EAST, MUMBAI-400059	ACA	15/09/2004	821	117555	Mr. ASHISH UMASHANKAR CHATURVEDI C-14/5 BORIVLI EMERALD, LIC COLONY, BORIVLI (WEST), MUMBAI-400103	ACA	12/07/2004
809	117013	Mr. AMIT BHALCHANDRA SHAHASANE 1ST FLOOR, SAVALI BUILDING CHINCHADA ROAD, DIST RAIGAD, PEN-0	ACA	28/02/2005	822	117755	Mr. RAHUL SHANTILAL HARIYA 101 ARVIND CENTRE, PRABHAT COLONY SANTACRUZ (EAST), MUMBAI-400055	ACA	24/09/2004
810	117017	Mr. RAKESH ROHITBHAI DAFTARY A/404, VINIT SADAN RAJAJI PATH, RAM-NAGAR DOMBIVALI (EAST), DOMBIVALI-421201	ACA	06/12/2004	823	117922	Mr. HARIKRISHNA DILIPKUMAR PUJARA ROOM NO-15, JMD NAGAR CHAWL NO. 7, CHANDWARKAR LANE DHANUKAR WADI, GOKUALA ROAD KANDIVALI-WEST, MUMBAI-400 067	ACA	25/01/2005
811	117018	Mr. JIGAR CHINU DALAL 109/4, APDESHIR DADY ST V P ROAD, PATEL BLDG MUMBAI-400004	ACA	07/05/2004	824	117937	Mr. SAURABH DILEEP KOTKUNDE 1/7 APURVA BHALERAO BLDG OPP SHREE MATERNITY HOSPITAL MAHATMA PHULE ROAD DOMBIVALI-WEST, DOMBIVALI-421202	ACA	01/11/2004
812	117118	Mr. SHREYESH KIRAN PARIKH 304 ICCHA KUHR BLDG DEVIDAS LANE, SVP RD, BORIVALI (WEST), MUMBAI-400103	ACA	03/12/2004	825	117967	Ms. PALLAVI ANIL SINKAR A/12 SMITA CHS, SHASTRI NAGAR DEVI CHOWK, DOMBIVALI WEST DOMBIVALI-421202	ACA	22/11/2004

826	117972	Mr. SACHIN DHANAPAL SHETTI ACA 5 CHANDARANI APARTMENT DR. P. R. PATIL MARG, SANGLI-416416	08/10/2004	839	118295	Mr. SACHIN JINDAS SHAH ACA 4 S V P ROAD, NEAR BALA HANUMAN OPP LUHAR, SUTHAR WADI SURENDRA NAGAR-363001	21/02/2005
827	117989	Mr. KEDAR MILIND DESHPANDE ACA 9/3 "MATHURA", M P MARG, VISHNU NAGAR, DOMBIVALI (WEST) DOMBIVALI-421202	19/10/2004	840	118305	Mr. VISHRUT MAYANKBHAI THAKORE ACA 10 SAMASTA SCTY NARAYANNAGAR ROAD PALDI, AHMEDABAD-380007	13/12/2004
828	118004	Mr. JIGEN JAGDISHCHANDRA SHAH ACA 2 SEJAL APPT., OPP. 'AGETA' TENNIS COURT NEAR GURUKUL, DRIVE-IN ROAD, MEMNAGAR, AHMEDABAD-380052	03/09/2004	841	118504	Mr. PRASAD C UCHIL ACA 305 VEENA APTS, PAKHADI KHAREGAON KALWA (WEST), THANE-400605	25/11/2004
829	118022	Mr. PINANKKUMAR MANSUKHBHAI PATEL ACA 18 KUNTA PARK SOCIETY NEAR RONAK PARK SOCIETY NAVA WADAJ, AHMEDABAD-380013	14/09/2004	842	118605	Mr. AMOL SHIRISH DESHPANDE ACA 102 SUKHADA MAHAK CHS NEXT TO MANAV KALYAN HOSPITAL TATA POWER, LINE RD, TILAK NAGAR, DDMBIVALI (EAST) DOMBIVALI-421201	24/12/2004
830	118023	Mr. JIGAR ASHOKKUMAR SHAH ACA 9 VRAJMAHURI FLATS B/H BODY CARE, OLD WADAJ, AHMEDABAD-380013	01/12/2004	843	118677	Mr. GOPAL JAIPRAKASH KABRA ACA C/O JAIPRAKASH KABRA OPP. AYURVEDIC COLLEGE VAZIRABAD, NANDED-431601	18/11/2004
831	118036	Ms. NETRA RAYAPPA KAMATH ACA 2 BIR SAGAR, 396/20 D P NAGAR 17TH ROAD, SANTACRUZ W MUMBAI-400054	03/11/2004	844	118688	Mr. PANKAJ PAWANKUMAR MURARKA ACA 5/20 JEEVAN GANGA NAGAR UDHANA, SURAT-394210	09/02/2005
832	118056	Ms. RACHANA PRAKASH SHAH ACA 2 AAMRIT BLDG, P M ROAD, SANTACRUZ WEST, MUMBAI-400054	03/09/2004	845	118694	Mr. VINEET TAPARIA ACA C/D VIRAJ PROFILES LTD., G-76, MIDC, TARAPUR INDUSTRIAL AREA DIST THANE, THANE-401506	15/12/2004
833	118090	Mr. BHAVESH RAMANIKLAL JAYSHREEBEN RAICHURA ACA NEW ACC ROAD, CHAYYA, PORBANDAR-360578	02/11/2004	846	118699	Mr. YOGESH VIJAY LODHA ACA 'SUDEEP BHAVAN', PLOT NO. 44, PRATAP NAGAR, NEAR DR. DAWALBHATKA JALGADN-425 001	08/12/2004
834	118119	Mr. MAHESHKUMAR N ACA KESAR CHS LTD FLAT-10 AYRE ROAD NEAR SAISADAN DDMBIVALI EAST, DOMBIVALI-421201	15/02/2005	847	118720	Mr. GAURAV KIRITBHAI BHEDA ACA 'SARVA-MANGAL', SETH FAL NO.2 HAWAI CHOWK, JAMNAGAR-361001	04/12/200
835	118126	Mr. PRASAN BHANDARI ACA 301 RISHABH BLDG, EVERSHINE NAGAR, MALAD WEST, MUMBAI-400064	27/10/2004	848	118733	Mr. HEMANG ARVINDBHAI MEHTA ACA SAMBHAVNATH APPT 20 RANCHHODNAGAR SCTY NR PATEL VADI, OPP JAIN DERASAR RAJKOT-360003	08/02/2005
836	118151	Mr. NILESH PRAVINCHANDRA SHAH ACA B/104 SHREE BHAI AT CHS NEAR NEHRU MAIDAN GANESH MANDIR ROAD DOMBIVALI (EAST), DOMBIVALI-421201	02/11/2004	849	118738	Mr. BALASUBRAMANIAN KALIAPPAN PILLAI ACA FLAT NO 19, RB-II 256 CRLY CDLONY, DR. BA. ROAD PAREL, MUMBAI-400012	18/03/2005
837	118241	Mr. SANDEEP SANTOSH SARAF ACA 108, STANDARD HOUSE 83, MAHARSHI KARVE ROAD MARINE LINES, MUMBAI-400002	29/03/2005	850	118746	Mr. PRITESH SHREE PRAKASH MAHESHWARI ACA 503/505, ROOM NO 4 1ST FLR, J.S.S. ROAD CHIRA BAZAR, MUMBAI-400002	01/03/2005
838	118276	Mr. PARAG HIMATLAL TANNA ACA SHARDA APARTMENT B 6 KOTHARIYA ROAD NEAR NILKANTH CINEMA RAJKOT-360002	01/12/2004	851	118838	Ms. PRIYA SHRIKRISHNA KULKARNI ACA FLAT 4/16 STATE BANK NAGAR CO-OPERATIVE HSG SOC 85-1/B, BEHIND VANAJ KOTHRUD, PUNE-411038	11/03/2005

852	11840	Ms. PUSHPANJALI SIDHARTH ACA 17 JUPITER APTS. CUFFE PARADE MUMBAI-400005	29/03/2005	865	213397	Mrs. ASMITA SWAPNEEL VAGAL ACA C-16 NEW BALGOVIND HOUSING SOCIETY MANORAMA NAGARKAR MARG STAR CITY THEATRE LANE MAHIM (WEST), MUMBAI-400016	12/01/2005
853	1189	Mrs. JIGNA DHARMESH SHAH ACA 13, BHARAT NUTIR NADIYADWALA COLONY NO.1, S.V. ROAD, MALAD - WEST MUMBAI - 400 064.	17/03/2005	866	400563	Mr. MALOO MANISH ACA G/002 SARJAN TOWERS GURUKUL MEMNAGAR AHMEDABAD-0	12/07/2004
854	118990	Mr PANKAJGIRI RAMESHGIRI GOSWAMI ACA BLOCK NO- 815, SOMESHWAR SOCIETY SECTOR - 27 (NEW) GANDHINAGAR GANDHINAGAR-382028	17/01/2005	867	400579	Ms AGRAWAL RUCHI ACA C-3/4 HDFC COLONY CHINCHWAD, PUNE-411019	25/11/2004
855	118997	Mr. KAIVAN HARSHAD SHAH ACA D/102 VARDHAMAN NAGAR DR R P ROAD, MULUND (WEST) MUMBAI-400080	28/02/2005	868	400615	Mr GARG VIKAS ACA 15/178, GOKUL APARTMENT SOLA ROAD, NARANPURA AHMEDABAD-380063	10/07/2004
856	119156	Mr. JITENDRA BHIWA SINDHU AGAVANE ACA A/404, BRAHMANDEV CO-OP SOC PADMABAI THAKKAR ROAD MAHIM, MUMBAI-400016	21/02/2005	869	400875	Mr MISRA MANOJ KUMAR ACA ACCOUNTS SECTION TELEPHONE BHAWAN (NEAR CIVIL HOSPITAL) MAHARASHTRA NANDED-431601	01/04/2004
857	119161	Mr AMIT BHUPENDRAKUMAR SHETH ACA B/7, ADINATH APARTMENTS GROUND FLOOR SAIBABA NAGAR, BORIVALI WEST MUMBAI-400092	11/02/2005	870	500832	Mr BHATNAGAR PEEYUSH ACA FLAT NO.601, SICILY PARK SECTOR-12B, PLOT NO.-54 KOPAR KHAIRANE, NAVI, MUMBAI-400709	29/12/2004
858	119232	Ms ROHINI DHARNIDHAR RASPUTRA ACA 24/B GANESHWAR ASHISH MANPADA ROAD, NEAR PANDURANG SCHOOL DOMBIVALI (EAST), DOMBIVALI-421201	21/03/2005	871	501298	Mr. BALJIT SINGH ACA T-1/7, DOOR SANCHAR COLONY GOD DHOD ROAD, NEAR L B TALKIES SURAT-395001	31/08/2004
859	119280	Mr. DHARMENDRA KUMAR BANSAL ACA B-107 AMAR VILLA APARTMENTS JESSAL PARK, BHAYANDAR (E) DIST THANE BHAYANDAR-401105	16/03/2005	872	501467	Mr. TIBREWAL MANISH ACA 1 A D, 20 TH FLR, IDBI TOWER W T C COMPLEX, CUFFE PARADE MUMBAI-400005	06/03/2004
860	119300	Mr. SANTOSH KUMAR GARG ACA C/O R S JAIN, A-404 AMIRAJ APTS S V ROAD, DAHISAR EAST MUMBAI-400068	16/03/2005	873	501726	Mr CHAUDHARY SANJAY KUMAR ACA JAO (TR), O/O G.I.T.D BHARUCH, ADARSH MARKET DISTT BHARUCH (GUJRAT) BHARUCH-392001	13/09/2004
761	119364	Mr. NILESH SUBHASH BRAMHECHA ACA AT POST-BRAMHANAGAON TAL SATANA DIST - NASHIK NASHIK - 423213	04/03/2005	Dr. ASHOK HALDIA, SECRETARY			
862	203857	Mr. GANESH M ACA NEW NO 4 OLD NO 18/2 HANUMAR KOIL STREET WEST MAMBALAM CHENNAI-600034	16/08/2004				
863	209577	Mr. BABU K ACA ASSOCIATED CEMENT COMPANIES LIMITED ASSISTANT MANAGER 121 MAHARISHI, KARVE ROAD CURCHGATE, MUMBAI-400020	12/05/2004				
864	213136	Mr. BHASHYAM SAGAR SREENATH ACA FLAT NO.6A, 'HICKORY EDEN WOODS HOUSING COMPLEX OFF POKRAN ROAD-2 (NEAR PAWAR NAGAR) THANE WEST, THANE-400601	31/03/2004				

Chennai-600 034, the 7th July 2006

(Chartered Accountants)

3SCA(4)/5/2004-2005 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1) (c) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute with effect from 01st October 2004 on account of non-payment of prescribed fees, the names of the following persons :-

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
1	001245	MR. DESAI VASUDEV MANILAL KRISHNA APARTMENTS C BLOCK 1001 POONAMALLEE HIGH ROAD CHENNAI-600084	9	004816	MR. LAKSHMINARAYANAN S NEW NO.19 (OLD NO.10) DESIKA ROAD MYLAPORE CHENNAI-600004
2	002402	MR. HARIHARAN SIVARAMAIER CHITTUR PLOT NO 1 KRISHNA BHAWAN COLONY AOC CENTRE RD WEST MARREDPALLY SECUNDERABAD-500026	10	005464	MR. MADHAVAN R C/O M BALASUBRAMANIAM OLD NO. 8 MURUGESA MUDALIAR ROAD (NEW NO. 19) T NAGAR CHENNAI-600017
3	003132	MR. SATYANARAYANA MURTY P V SRINIVAS 1-1-384/C GANDHINAGAR HYDERABAD-500380	11	005491	MR. RAGHUNADHA RAO R 'SRI AKSHITHA' 1-8-32/12, BAPUBAGH PRENDERGHAST ROAD SECUNDERABAD-500003
4	003573	MR. NARAYANA MENON M 'DURGA' A.L. JACOB ROAD PULLAPADY KOCHI-682035	12	005494	MR. RAMA VARMA ANCHERI SUDHARMA PALACE, PALACE NO.8 WEST NADA SREE RAMA TEMPLE TRIPUNITHURA-682301
5	003733	MR. VISWANATHAN R 1/33, KAVITHA FLATS, GROUND FLOOR SBI STAFF COLONY EXTENSION III STREET ARUMBAKKAM CHENNAI-600106	13	005929	MR. PRASANNA VENKATESAN R 14 NORTH MADA STREET SRINAGAR CHENNAI-600015
6	004001	MR. GOPALAKRISHNAN T S FLAT #3 'SAKTHI MAHAL' 41 I MAIN ROAD C I T COLONY MYLAPORE CHENNAI-600004	14	005937	MR. BALARAMAN S NO. 30, 4TH MAIN 5TH CROSS GIRINAGAR I PHASE BANGALORE-560085
7	004232	MR. PADMANABHAN K N4-24TH MAIN J P NAGAR I PHASE BANGALORE-560078	15	005946	MR. BAKULCHANDRA HIRACHAND SHAH F/2 PREMIER APARTMENTS FIRST FLOOR CHURCH ROAD NEAR TIPPASANDRA MARKET BANGALORE-560075
8	004653	MR. NARAYANAMURTHY KONDURI D NO.8-5-19 ONTIMAMIDI JUNCTION GANDHINAGAR EASTGODAVARI DIST. A.P. KAKINADA-533004	16	006077	MR. SAVGUR UMESH BHANDARY 'JAYESH' 431-C, 10TH CROSS FIRST 'N' BLOCK RAJAJI NIGAR BANGALORE-560010

S.No.	MRN	Member Name & Address
17	007414	MR. JACOB MATHEW NEW NO 14 (OLD NO 87) ETHIRAJ SALAI, EGMORE CHENNAI-600008
18	007523	MR. JOSEPH ANTONY B-8, EXPRESS GARDENS KALOOR ERNAKULAM KOCHI-682017
19	007988	MR. JOHN M C 42 HILL GARDENS ANJERI P O THRISSUR-680006
20	008348	MR. VAIDYANATHAN R SHRINIDHI, 4TH FLOOR NEW NO 22, (OLD NO 10) CO-OPERATIVE COLONY SHRIRAM NAGAR, ALWARPET CHENNAI-600018
21	008623	MR. RAMANATHAN L 423, D THADAGAM ROAD R S PURAM COIMBATORE-641002
22	009230	MR. SRIRAMULU R NO:130 JAWAHAR BAZAAR KARUR-639001
23	010045	MR. UMESH R P O BOX 38918-00623 PARKLANDS NAIROBI-7244 KENYA
24	010106	MR. HARISH KUMAR G PLOT NO.233 4TH CROSS ROAD TRIMOORTHY SOCIETY MAHENDRA HILLS EAST MARREDPALLY SECUNDERABAD-500026
25	010116	MR. SRINIVASAN A V NO:3/110 (OLD NO:3/115) SENDORAN COLONY SECOND STREET MADIPAKKAM CHENNAI-600091
26	010244	MR. KALAPATHI VAIDYANATH RAMANATHAN FLAT GF-1, AKSHAYA FLATS KRISHNASWAMY AVENUE LUZ MYLAPORE CHENNAI-600004
27	011196	MR. VIJAYAKUMAR 38/535 AMBADY BUILDINGS M G ROAD KOCHI-682035

S.No.	MRN	Member Name & Address
28	011585	MR. MAHADEVAN R 151 ALWAR THIRUNAGAR ANNEXE CHENNAI-600087
29	011786	MR. SEKAR VELLORE SRINIVASAN 129 NATESA NAGAR THIRD MAIN ROAD VIRUGAMBAKKAM CHENNAI-600092
30	011964	MR. GUDIVADA SUBBA RAO H NO 5-62-12/I BRODIPET 6TH LANE 19TH CROSS ROAD GUNTUR-522002
31	012462	MR. RAMANATHAN RAMANATHAN 3/110-A, NEW FAIRLANDS EXTENSION M G ROAD, SALEM - 636016
32	012520	MR. MAHADEVAN M P 45, JOSIER STREET CHENNAI-600034
33	012589	MR. VENKATESWARAN GOPALARATHNAM CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR G V FILMS LTD "SUJATHA CENTRE" 4 SESHADRI ROAD ALWARPET CHENNAI-600018
34	012746	MR. BALASUBRAMANIAN S CHIEF ACCOUNTANT SHARIKAT FANNIYA OMANIYA (SALALAH) LLC P O BOX 127, P C 211 SALALAH-7311 SULTANATE OF OMAN
35	012938	MR. PANTULU PUTTAPURATI CHENCHIAIAH 10 CLASSIC ENCLAVE SAINIKPURI SECUNDERABAD-500094
36	012988	MR. PARTHASARATHY V 2 GORDON STREET, EAST ST. AUGUSTINE TRINIDAD & TOBAGO-7365 WEST INDIES
37	013068	MR. ASHOK KUMAR AGARWAL NO 1-B, NARAYANA AVENUE KRISHNA COLONY SINGANALLUR COIMBATORE-641005
38	013298	MR. KRISHNAMURTHY NATTU SEEVARAM C/O T D BANK TD CENTRE TORONTO ONTARIO MSK 1A2, CANADA
39	013771	MR. MATHEW V G RAJESWARI COMPLEX PERUNNAI CHANGANACHERRY-686102

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
40	014154	MR. MAHENDRA CHAND JAIN PLOT NO 24, WELLINGTON ROAD WEST MARREDPALLI SECUNDERABAD-500026	51	018033	MR. SUBRAMANIAN C 4 ANANDAM STREET T NAGAR CHENNAI-600017
41	014292	MR. GOPAL DAS B 1511, II CROSS, III MAIN ARAVIND NAGAR, K H EXTENSION ST. THOMAS TOWN BANGALORE-560084	52	018054	MR. RAJAGOPALAN T V 138 6TH MAIN 13TH CROSS NS PALYA B T M LAYOUT 2ND STAGE BANNERGHATTA ROAD BANGALORE-560076
42	014808	MR. MUTHU KRISHNAN V M 1/21, SANNATHY STREET TIRUNELVELI DISTRICT RAVANASAMUDRAM-627424	53	018166	MR. SATTANATHAN P 114 KUTCHERY ROAD (II FLOOR) LUZ CORNER CHENNAI-600004
43	015508	MR. RANGANATHAN B R NEW NO. 37(OLD NO. 38-C) GANGA NAIDU STREET VENKATAPURAM VELANDIPALAYAM POST COIMBATORE-641025	54	018371	MR. GEORGE JOSEPH ACADIA OMEGA ENGINEERING INDUSTRIES ADOOR-691523
44	016192	MR. MOHANAKRISHNAN A N B-3, CEEBROS REGENT PARK 32 FIRST AVENUE INDIRA NAGAR ADYAR CHENNAI-600020	55	018452	MR. MADHU N 70,SOUTH STREET THIRUVANA KOIL TIRUCHIRAPALLI-620005
45	016656	MR. BIPINCHANDRA JAMNADAS AMBANI MANAGING DIRECTOR METROLANKA LIMITED 205 CASTLE STREET, COLOMBO 8 SRILANKA	56	018515	MR. MEENAKSHI SUNDARAM C V 941 BIG BAZAAR STREET COIMBATORE-641001
46	017791	MR. GOPAL NARAYANAN #73 MIG 2 III CROSS III STAGE, HEBBAL MYSORE-570016	57	018585	MR. SRIDHAR M 8-3-319/B/24/9 B/H SARADHI STUDIOS YELLAREDDYGUDA AMEERPET HYDERABAD-500007
47	017891	MR. PRAKASH NAYAK GENERAL MANAGER (FINANCE) INDRAPRASTHA POWER GEN CO.LTD HIMADRI, RPM COMPLEX NEW DELHI	58	018665	MR. SURYA VARA PRASAD VARAHABHATLA FLAT NO.102, I FLOOR, RAAGA AVENUE BEHIND SAI RANGA 70 MM THEATRE MIYAPUR HYDERABAD-500050
48	018004	MR. SATISH KUMAR S FLAT NO 2, FIRST FLOOR SRIMAHAL OLD NO 56, III MAIN ROAD RAJA ANNAMALAI PURAM CHENNAI-600028	59	018838	MR. ABDULRAHEEM C H MANAGING DIRECTOR INTEGRATED RUBIAN EXPORTS LTD RUBIAN COMPLEX AROOR-688534
49	018020	MR. SRIMAN NARAYANA CHOWDARY K 12/593 SANSAR FLATS VADAYAKKADU JUNCTION KUNNUKUZHY THIRUVANANTHAPURAM-695037	60	018945	MR. PADMANABHAN M A DEPUTY CHIEF ACCOUNTS OFFICER ANDHRA PRADESH STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION LTD CUDDAPAH ZONE CUDDAPAH-516001
50	018022	MR. NOOKU NAIDU B S V DOOR NO 14-8-29 NAGENDRA SADAN OPP: INDIRAN OIL BUNK WEST SIDE OF KONATHALA ARTS & SCIENCE- DEGREE COLLEGE, GAVARA PALEM ANAKAPALLI-531002	61	018958	MR. SAMPATH KUMAR R 210 CHERIE DOWN LANE CAPE CANAVERAL FLORIDA-32920 U.S.A
			62	018982	MR. VENKATESH RATAN N H-45, RAMAKRISHNA NAGAR FLATS MANDAVELI CHENNAI-600028

S.No.	MRN	Member Name & Address
63	019075	MR. KRISHNA M R FINANCIAL CONTROLLER ESSP-IDA CREDIT 3172 M02 MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE P O BOX 34, MAPUTO MOZAMBIQUE
64	019088	MR. VISWANATH GOVIND FINANCE MANAGER POWERTRACK ASP TDG CO P O BOX 23325 AL WAHDA PO SHARJAH U A E
65	019162	MR. VASUDEVAN V NO 100, 17 B MAIN ROAD HAL 2ND STAGE INDIRANAGAR BANGALORE-560038
66	019233	MR. LADDAGIRI JEYARAMAN KS PLOT 49/1 CIVIL AVIATION COLONY NANGANALLUR CHENNAI-600061
67	019275	MR. RAMANATHAN P 205 VAIGAI COLONY ANNA NAGAR MADURAI-625020
68	019350	MR. RAGHAVAN V DOOR NO 18-5-319/A9 SAPTHAGIRI NAGAR NEAR SIYASAKTHI KALYANA MANDAPAM TIRUPATI-517507
69	019480	MR. VIJAYKUMAR M N NO 37, 1ST MAIN VINAYAKA LAYOUT, 3RD STAGE VIJAYANAGAR BANGALORE-560040
70	019536	MR. SANKA RAJAGOPAL D NO.24-10-4 WEAVER'S COLONY FLAT F-3 TIRUMALA APARTMENTS RAJAMAHENDRAVARAM-533105
71	019598	MR. BALASUBRAMANIAN K E-3 132 ST.MARY'S ROAD ALWARPET CHENNAI-600018
72	019662	MR. BELLIAPPA T K APT 209 3590 KANEFF CRES MISSISSAUGA ONTARIO-L5A 3X3 CANADA.
73	019837	MR. JAGATHPATHY K VICE PRESIDENT BANK OF PUNJAB LIMITED 126 SAROJINI DEVI ROAD SECUNDERABAD-500003

S.No.	MRN	Member Name & Address
74	019852	MR. MANOHARA RAO S GUNUNG PUTRI 30, TAMAN DAGO LIPPO CIKARANG BEKASI-17550 INDONESIA
75	019900	MR. SIVAGURU K C-25/24, MOHAN NAGAR SALEM-636030
76	020000	MR. DEEPAK A 38 SABAPATHY CHETTIAR STREET BHUVANAGIRI-608601
77	020033	MR. BADRI NARAYANA M R C P R 1 , M M D A COLONY WATER TANK ROAD ARUMBAKKAM CHENNAI-600106
78	020199	MR. SUBRAMANIAN N NEW NO. 40 ALARMELUMANGA PURAM MYLAPORE CHENNAI-600004
79	020262	MR. HALIM A K AUDITOR AL SALEEDI P O BOX 31300 SHARJAH U.A.E.
80	020311	MR. ASHOK M 60,BAZAAR ROAD MYLAPORE CHENNAI-600004
81	020383	MR. JACOB PHILIP PEEDIKAL HOUSE NEAR HEAD POST OFFICE TIRUVALLA-689101
82	020532	MR. SUKUMAR S 27 WILD CROFT DRIVE NORTH HOLMWOOD DORKING SURREY RH 54TL UNITED KINGDOM
83	020642	MR. RAGHAVAN R S NO 4 GOKULAM COLONY 2, RAMAVARAM ROAD VALASARAVAKKAM CHENNAI-600087
84	020708	MR. VENKATASUBRAMANIAN S V ASST. GENERAL MANAGER ANDHRA BANK, NEW DELHI ZONAL OFFICE SIGNATURE TOWERS SOUTH CITY GURGAON-122001
85	020737	MR. BALRAJ N MAARUTHI TOWERS NO.207 SECOND FLOOR 1569 TRICHY ROAD (OPP: GH) COIMBATORE-641018

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
86	020764	MR. SRIVATHSANC S 17-A, T K NAMBI STREET KANCHEEPURAM-631503	98	021313	MR. SHANKAR V S 15, 5TH CROSS GANESHA BLOCK DINNUR MAIN ROAD R T NAGAR BANGALORE-560032
87	020776	MR. SUNDAR C INSPECTOR OF BRANCHES ANDHRA BANK - HEAD OFFICE ANDHRA BANK BUILDINGS, IV FLOOR KOTI SULTAN BAZAAR HYDERABAD-500195	99	021481	MR. MURALI N R D G M - FINANCE HYUNDAI MOTORS INDIA LTD H-1, SIPCOT INDUSTRIAL PARK IRUNGATTUKOTTAI-602105
88	020852	MR. GOVIND GURU R FLAT NO 5 1, COATES ROAD T NAGAR CHENNAI-600017	100	021529	MR. RANGACHARYULU N C 305, JYOTHI APARTMENTS MAHESHNAGAR ECIL X ROAD HYDERABAD-500062
89	020856	MR. ANANTHAMURTHY N 110 3RD MAIN, 6TH BLOCK BSK III PHASE III STAGE BANGALORE-560085	101	021615	MR. RAJENDRAN S 39 BHARATHY COLONY PEELAMEDU COIMBATORE-641004
90	020972	MR. JOHN PATTAMTHANAM NO 3 SREERAM NAGAR COLONY 11 T THARAMANI CHENNAI-600113	102	021660	MR. SEKHAR K NEW NO 21 (OLD NO 10) 6TH WEST CROSS STREET SHENOY NAGAR WEST CHENNAI-600030
91	021079	MR. HARRIS P M R NO 8 SBI STAFF COLONY ARUMBAKKAM CHENNAI-600106	103	021888	MR. KUMARASUBRAMANIAN R FINANCIAL CONTROLLER SUNNSAND BEACH HOTEL LTD P O BOX 2, MTWAPA MOMBASA KENYA
92	021102	MR. MAMMEN K C KANDATHIL KARSHAKA ROAD KOCHI-682016	104	022026	MR. RAVINDRA MENON 52 URAL CIRCLE BRAMPTON ONTARIO-L6R 1H3 CANADA
93	021133	MR. MOHAMED NIYAMATHULLAH 59, STRAHANS ROAD PERAMBUR BARRACKS CHENNAI-600012	105	022030	MR. JAMES JOHN A-2 ALSA TOWERS 187 P H ROAD KILPAUK CHENNAI-600010
94	021176	MR. DWARAKANATH M NO.366 III FLOOR CHENOY TRADE CENTRE NEAR HOTEL PARKLANE SECUNDERABAD-500003	106	022040	MR. HAROUN RASHEED N P 12-A, FIRST FLOOR - NOOR MANZIL RATHINASAMY NADAR ROAD NEAR INCOME TAX OFFICE BIBIKULAM MADURAI-625002
95	021227	MR. SUNDARARAJAN V CHIEF FINANCIAL OFFICER AZTEC SOFTWARE & TECHNOLOGY SERVICES LTD 17/9C, MARUTHU CHAMBERS RUPENAGRAHANA, HOSUR ROAD BANGALORE-560068	107	022263	MR. GANAPATHY SUBRAMANIAN G POST NET BOX # 213 POST BAG NO E 891 LUSAKA ZAMBIA
96	021264	MR. ANANDA KUMAR K NO 2/2 FIRST MAIN ROAD RAJA ANNAMALAI PURAM CHENNAI-600028			
97	021294	MR. ABRAHAM CHERIAN MAS BUILDINGS MAS JUNCTION VANDANMEDU IDUKKI-685551			

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
108	022373	MR. MANOHARAN P 78, K R KOIL STREET WEST MAMBALAM CHENNAI-600033	119	023221	MR. PARTHASARADHI P FLAT NO 204 II FLOOR LOTUS ENCLAVE YOUSUFGUDA ROAD, NEAR RBI QUARTERS YELLAREDDYGUDA HYDERABAD-500073
109	022600	MR. SUNDAR C S 29 PALANIAPPA NAGAR HASATHAMPATTY SALEM-636007	120	023232	MR. ASHOK P B-2/II ANNAPOORNA APARTMENTS BHARATHI PARK X-ROAD 1 COIMBATORE-641011
110	022690	MR. HARINARAYANAN B 12 TAGORE STREET 'BALU ILLAM' MAHALINGAPURAM POLLACHI-642002	121	023268	MR. BENNI JOSEPH FIRST FLOOR I S PRESS BUILDING BANERJI ROAD, ERNAKULAM KOCHI-682018
111	022810	MR. RAVINDRA VEMUGANTY 20 S V COLONY NARAYANAGUDA HYDERABAD-500029	122	023288	MR. PANCHANADESWARAN B 11966 THURLOE DR. TIMONIUM MD 21093 U S A
112	022835	MR. GANGADARAN T S M/S S.R.BATLIBOI & CO., CHARTERED ACCOUNTANTS DIVYA SREE CHAMBERS "A" WING 2ND FLOOR LANGFORD ROAD BANGALORE-560025	123	023324	MR. JAYARAMAN S FLAT 104, VARS ALL SEASONS APTS. IV CROSS, KONENA AGRAHARA OFF: AIRPORT ROAD BANGALORE-560017
113	022893	MR. RASHID MOHMED S A MANAGING DIRECTOR SUGATI INFOTECH PVT.LTD SUIT 302 RELIANCE RESIDENCY INDIRA PARK ROAD, ARAVIND NAGAR HYDERABAD-500029	124	023370	MR. RAM PRAKASH SHIVAM NO 2 IV CROSS ROAD R A PURAM CHENNAI-600028
114	022947	MR. HARIGOPAL L MANAGER - INTL.FINANCE F M C CORP 200 EAST RANDOLPH DR. CHICAGO IL-60601 U.S.A	125	023383	MR. VINOOT GEORGE P O BOX 28709 DUBAI
115	022954	MR. PUNNOOSE JACOB 682 AVENUE C APT 1 BAYONNE N J-07002 U.S.A	126	023448	MR. SANKAR G 315, WEST AVENUE MAHAKAVI BHARATHI NAGAR VYASARPADI CHENNAI-600039
116	023064	MR. RAVINDRA KUMAR N C/O MR STEPHEN KOOVATTUPARAMBIL HOUSE K P VALLAN ROAD KADAVANTHARA KOCHI-682020	127	023492	MR. RAJASEKHAR K U 6410 METROWEST BAUD APT # 1101 ORLANDO FLORIDA-32835 U.S.A
117	023071	MR. BABY JOSEPH 38/535 AMBADI BUILDINGS M G ROAD KOCHI-682035	128	023569	MR. GAUTAMCHAND SANCHETI PARMAR PLACE 32 KALATHI PILLAI STREET SOWCARPET CHENNAI-600079
118	023198	MR. SUNNEY SEBASTIAN 36/433 LAYAM ROAD KOCHI-682011	129	023579	MR. ANAND KUMAR D 13,G.D.NAIDU ROAD RACE COURSE COIMBATORE-641018

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
130	023611	MR. MATHEW SANICHAN M BADER & CO COOPERS & LYBRAND P O BOX 20174 SAFAT 13062 KUWAIT	141	023963	MR. MUTHU N K G4 SRI KANAKADEVI 25/1 PARTHASARATHY NAGAR 3RD STREET ADAMBAKKAM CHENNAI-600088
131	023613	MR. SRINIVAS GUDURI 5-9-279, FIRST FLOOR B-115 MAYUR KHUSHAL COMPLEX ABIDS ROAD GUNFOUNDRY HYDERABAD-500001	142	023988	MR. BHIMA SANKARA MURTHY A ROOM NO.210 II FLOOR MALLES COMPLEX AMEERPET HYDERABAD-500035
132	023615	MR. VEMPATY RAJENDRA PRASADA RAO DEPUTY GENERAL MANAGER (FINANCE & ACCOUNTS) CORPORATE PURCHASE DEPT S C CO LTD HEAD OFFICE KOTHAGUDEM-507101	143	024160	MR. RANGAN N KANNAN 12-C, NEW NO 6, VEERAPANDI NAGAR SECOND STREET CHOO LAIMEDU CHENNAI-600094
133	023638	MR. AMMANI U G 1938 KADOLKAR GALLI BELGAUM-590002	144	024201	MR. RAGHUNATHAN R SUNDAR BHAVANAM 17/1, 5TH STREET PERUMALPURAM TIRUNELVELI-627071
134	023668	MR. NEELAKANTAN P 2623 TARLETON CORNER DR. HERNDON-VA 20171 U.S.A	145	024226	MR. ABRAHAM THOMAS P SHALOM SUPER PLASTIC INDUSTRIES LANE CHANGAMPUZHA NAGAR PO KOCHI-682033
135	023730	MR. AGADI VIJAYAKUMAR M 215, EAST PINE AVENUE WEST LAFAYETTE INDIANA-47906-1382 U.S.A	146	024253	MR. LAKSHMI PRASAD GOWRA HOUSE NO 1, ROAD NO 1 LANE NO 1, OPP: SINDHU BHAVAN SINDHI COLONY SECUNDERABAD-500003
136	023735	MR. ELANJI KAL VINAI CYRIAC ASST MANAGER FACD DEPT AL BANK AL SAUDI AL FRANSI P O BOX 56006 RIYADH-11554 SAUDI ARABIA	147	024259	MR. ANANTHA NARAYANAN S FINANCE DIRECTOR SABLE TRANSPORT LTD P O BOX RW 219 X LUSAKA ZAMBIA
137	023815	MR. PRASAD V FLAT NO 'F', III FLOOR AKSHAYA HOMES NO 48, THIRD MAIN ROAD GANDHI NAGAR ADYAR CHENNAI-600020	148	024368	MR. SUBRAMANIAN S NO 418/3 4TH A CROSS 12TH A MAIN YELHANKA NEW TOWN BANGALORE-560064
138	023851	MR. SAILESH SRIVASTAVA "AASHIRWAD" 12-13-1270 TARNAKA HYDERABAD-500017	149	024380	MR. VENKATA NARAYANA N 7/109, PRAKASH ROAD NEW TOWN ANANTAPUR-515001
139	023942	MR. VENKATESWAR RAO T PLOT NO 99, NCL ENCLAVE MEDCHEL ROAD PETBASHIRABAD SECUNDERABAD-500855	150	024453	MR. SUNDAR K L ASST.MANAGER UNITED INDIA INS. CO. LTD LEARNING CENTRE 19 IV LANE NUNGAMBAKKAM HIGH ROAD CHENNAI-600034
140	023959	MR. KISHAN PRASAD P 6-3-907/4, KAPADIA LANE SOMAJIGUDA HYDERABAD-500082	151	024528	MR. SAJU PETER 241 BONITA LANE FOSTER CITY C A-94404 U.S.A

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
152	024682	MS. HEMALATHA C N DY.MANAGER FINANCE INDIAN AIRLINES LTD BEGUMPET HYDERABAD-500016	163	025628	MR. SUNDARAM D M P O BOX 7372 DAMMAM 31462 SAUDI ARABIA K S A
153	024692	MR. RAVICHANDRAN EDDY SWAMINATHAN 21/2 SUNDHA NILAYAM I FLOOR VII CROSS B STREET MARUTHI SEVANAGAR BANGALORE-560033	164	025712	MR. GOPALA KRISHNA N A 304 KASTURI DHAMA 9TH CROSS 8TH MAIN MALLESWARAM BANGALORE-560003
154	024702	MR. PADMANABHAN K MANAGER CANARA BANK HEAD OFFICE 112 J C ROAD BANGALORE-560002	165	025751	MR. CHANDRASEKAR S NEW NO 20 (OLD NO 28) NEW SECRETARIAT COLONY KILPAUK CHENNAI-600010
155	024834	MR. KUMARASAMY T K 127 JUDGES COLONY BEHIND YMCA BOYS' SCHOOL KOTTIWAKKAM THIRUVANMIYUR CHENNAI-600041	166	025763	MR. SUSINDRAN S C/O SABARE GARMENTS TV COMPLEX 48-D CHINNANDAN KOVIL ROAD KARUR-639001
156	024873	MR. PADMANABHAN S NEW NO 13 (OLD NO 12) ASHOKA STREET ALWARPET CHENNAI-600018	167	025788	MS. GOMATHI SOMASEKAR SR. MANAGER (FINANCE) B H E L KAILASAPURAM TIRUCHIRAPALLI-620014
157	024986	MR. NAGARAJA B N POST BOX NO 20613 NAIROBI KENYA	168	025812	MR. RAMA KRISHNA KUMAR C 123/107 II FLOOR 27TH CROSS, 2ND MAIN 7TH BLOCK JAYANAGAR BANGALORE-560082
158	025306	MR. SUVARNA PRATHAP KUMAR K V PLOT NO 108 BALAJI SWARNAPURI COLONY ERRAGADDA HYDERABAD-500018	169	025832	MR. JAYAKANTH J GF2 WARREN MANERE 22 WARREN ROAD MYLAPORE CHENNAI-600004
159	025335	MR. VENKATESWARAN R NO. 13-02 FLAME TREE PARK 1 SIN MING AVENUE SINGAPORE-575728	170	025837	MR. JAGANNATHAN S R 2237 UPSTAIRS TRICHY ROAD SINGANALLUR COIMBATORE-641005
160	025442	MR. NAGENDRA KUMAR A MANAGER - FINANCE SATYAM COMPUTER SERVICES LTD MAYFAIR CENTRE, S P ROAD SECUNDERABAD-500003	171	025872	MR. RAMAN K S 46B TOH TUCK ROAD # 01-11 SIGNATURE PARK SINGAPORE-596748
161	025487	MR. DILIP KRISHNA FINANCE MANAGER AL FUTTAIM-EXEL LOGISTICS P O BOX 61450 DUBAI U.A.E.	172	025916	MR. SRIDHAR R CHIEF MANAGER - FINANCE HINDUSTAN PETROLEUM CORPN.LTD 7TH FLOOR, NORTH TOWER SCOPE MINAR, LAXMI NAGAR DELHI-110092
162	025534	MR. PRABAKAR N S B 36 RAJAMATHA APARTMENTS JEEVARATNAM NAGAR ADYAR CHENNAI-600020	173	025917	MR. RAMESH K OLD NO.18 NEW NO.14 C P RAMASAMY STREET CHENNAI-600018

S.No.	MRN	Member Name & Address
174	026180	MR. SASI K S FINANCE MANAGER GULF ALLIED INDL. SERVICES CO LTD P O BOX 1135 AL JUBAIL-31951 SAUDI ARABIA
175	026187	MR. VENKATESWARAN R 25/13 BRINDAVAN STREET KANCHEEPURAM-631501
176	026193	MR. SUDHARSAN R NO 29 SEVENTH AVENUE ASHOK NAGAR CHENNAI-600083
177	026259	MR. GOPAL J 3-6-69 B/18 DATTADAYA AVANTINAGAR BASHEER BAGH HYDERABAD-500029
178	026278	MR. SUBRAMANIAN K V FLAT 4 VAISHNAVI NO 21 THIRD CROSS STREET SASTRI NAGAR ADYAR CHENNAI-600020
179	026383	MR. VIJAYA RAJENDRA PRASAD G GENERAL MANAGER NEMGHEM INTERNATIONAL LTD. P O BOX 35980 LUSAKA ZAMBIA
180	026395	MR. SRIDHAR S 48-A, 'A' BLOCK SHREE APARTMENTS KALAKSHETRA ROAD TIJURVANMIYUR CHENNAI-600041
181	026467	MR. RAMAKRISHNA V 1B2 JAGRUTHI RESIDENCY STREET NO.10 EAST MARRED PALLY SECUNDERABAD-500026
182	026472	MR. KALYANA SUNDARAM V ASST GENERAL MANAGER FINANCE BPL TELECOM LIMITED CHANDRA NAGAR PALAKKAD-678007
183	026582	MR. RAVINDRA S 50 BAGIRATHIAMMAL STREET 'T' NAGAR CHENNAI-600017
184	026596	MR. CHACKO ABRAHAM SWATHI HYDRO PNEUMATICS P LTD S-16 GUINDY INDUSTRIAL ESTATE GUINDY CHENNAI-600032

S.No.	MRN	Member Name & Address
185	026679	MR. MANOHAR P 15 ALANGATHA STREET TRIPPLICANE CHENNAI-600005
186	026690	MR. SUNDAR RAMAN K JUMBO ELECTRONICS LIMITED CORPORATE FINANCE DEPT P O BOX 2548 DUBAI U.A.E.
187	026699	MR. MURALIDHARAN V SETHURAM 14 SAMBANDAM IYER LAYOUT COIMBATORE-641018
188	026768	MR. VIJAYAKUMAR R V SATYANARAYANA PET P O LIMITS BELLARY-583201
189	026775	MS. SATHYAVATHI SIVASUBRAMANIAN 185, SAYEE NAGAR SECOND MAIN ROAD VIRUGAMBAKKAM CHENNAI-600092
190	026807	MR. PRAMOD KUMAR P PLOT NO.266 H. NO.30-662/2/2 CHANDRAGIRI COLONY (EAST) SECUNDERABAD-500056
191	026810	MR. VENKATESWARA RAO G D NO:5-87-22 SAI BALAJI HOUSE MAIN ROAD LAXMIPURAM GUNTUR-522007
192	026814	MS. REMA HEBBAR 436, 9TH CROSS 4TH MAIN, HIG COLONY RMV SECOND STAGE BANGALORE-560094
193	026838	MR. KRISHNAN R 452 WHITEHORSE ROAD SURREY HILLS VIC 3127, MELBOURNE AUSTRALIA
194	027060	MR. SHANMUGAM B GENERAL MANAGER FINANCE SATYAM COMPUTER SERVICES LIMITED 8500 LEESBURG PIKE # 201 VIENNA VA 22182 U S A
195	027081	MR. RAMAKRISHNAN S EXECUTIVE ASSISTANT TO PRESIDENT BHARATI INFOTEL LTD 234 OKHLA INDUSTRIAL PHASE - III NEW DELHI-110020
196	027094	MR. PRAKASH THAKURDAS 8 DR. MUNIAPPA ROAD KILPAUK CHENNAI-600010

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
197	027158	MR. AZEEZULLAH SIDDIQUI M DNATA INTERNAL AUDIT P O BOX 1515 DUBAI U A E	209	028169	MR. RAVINDRAN R PRINCIPAL CONSULTANT APPSHOP SOLUTIONS (P) INDIA LTD 8TH FLOOR, HMG BUILDING RESIDENCY ROAD BANGALORE
198	027202	MR. THOMAS T C APT # 903 - 100 WINGARDEN COURT TORONTO-ON M1B 2P4 CANADA	210	028176	MR. VENKATESWARA RAO N 60/2, EMERALD HOUSE S D ROAD SECUNDERABAD-500003
199	027258	MR. KARTHIGEYAN A 203 BRETT'S ROAD OPP: ST TO YMCA SALEM-636001	211	028225	MR. JAGANNADH P S H NO 1-2-383, GAGAN MAHAL ROAD DOMALGUDA HYDERABAD-500019
200	027281	MR. NARAYANAN K R F-184 EAST ANNA NAGAR CHENNAI-600102	212	028235	MR. SYAM PRASAD G PLOT NO.935 VIVEKANANDA NAGAR COLONY KUKATPALLY HYDERABAD
201	027398	MR. MURALI D FLAT NO:302 SATYALOK TOWERS BESIDES SURYA HOSPITAL NAMPALLY STATION ROAD HYDERABAD-500001	213	028244	MR. SUBRAMANIAN N CHIEF FINANCIAL OFFICER SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD 2ND FLOOR TURNER MORRISON BUILDING G N VAIDYA MARG, FORT MUMBAI-400023
202	027519	MR. SRINIVASA RAGHAVAN A FINANCIAL CONTROLLER P T HEBELBER INDONESIA KAV 14-16, JALAN MT HAEYONO CAWANG JAKARTA-13330 INDONESIA	214	028249	MR. AUGUSTINE PETER ACCOUNTS MANAGER KIDS WORLD P O BOX 300 BAHRAIN
203	027690	MR. HARSHAVARDHAN RAJAN MANAGING DIRECTOR SANKAYAA LEARNING (PVT) LTD 75, T T K ROAD ALWARPET CHENNAI-600018	215	028276	MS. VEENA M R 002, MUSURI APARTMENTS #8, SERVICE ROAD DOMLUR LAYOUT BANGALORE-560071
204	027783	MR. GOPALAKRISHNAN V B-26 ASHTALAKSHMI APARTMENTS PHASE I KALAKSHETRA COLONY BESANT NAGAR CHENNAI-600091	216	028329	MS. KARPAGAVALLI S D/O MR S SIVAKUMARAN 41-H, ABIRAMI CHATEAO VENKATRATHNAM NAGAR ADYAR CHENNAI-600020
205	028060	MR. SRIVATSAN R 19 GANDHI ROAD ALWARTHIRUNAGAR CHENNAI-600087	217	028345	MR. SATHYANAND PRASAD S 10-51-12 PADMA PRIYA KAILASMITTA WALT AIR UPLANDS VISAKHAPATNAM-530003
206	028064	MR. RAGHAVENDRACHARYULU A VICE PRESIDENT - FINANCE & CFO NEULAND LABORATORIES LTD 204 MERIDIAN PLAZA AMEERPET HYDERABAD-500038	218	028446	MR. PARTHASARATHY R S 11/4 FIRST STREET PADMANABA NAGAR ADYAR CHENNAI-600020
207	028117	MR. SANJAY PRAKASH MOHNOT BLK 426 ANAG MO KIO AVENUE 3 #07-2572 SINGAPORE-560426	219	028462	MR. KARTHIKEYAN R ASST.VICE-PRESIDENT CITI BANK N A SHAKTHI TOWERS III 766 ANNA SALAI CHENNAI-600002
208	028147	MS. VIJAYALAKSHMI S DHARA 8 RAMS 10 IST MAIN ROAD BHAKTHAVATSALAM NAGAR ADYAR CHENNAI-600020			

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
220	028643	MR. ARVIND R S/O SRI A R M RAMANATHAN S-11 GOKUL APARTMENTS 2ND FLOOR 30-31 THEAGARAYA GRAMANI STREET T NAGAR CHENNAI-600017	231	029158	MR. RAMESH S FINANCE MANAGER PT UNGARAM SARI GARMENTS JL DIPONEGORO NO.235 UNGARAN SEMARANG INDONESIA
221	028700	MR. SIVAKUMAR N 5-F, SURAJ TOWERS 128 LATTICE BRIDGE ROAD THIRUVANMIYUR CHENNAI-600041	232	029190	MR. SUNDARARAMAN R 1279 BROOKLINE CT NAPERVILLE-IL60563 U.S.A
222	028790	MS. GOMATHY SHANKER 5424 SUNSTAR COMMON FREMONT CA 94555 CALIFORNIA-94555 U.S.A	233	029220	MR. NAGARAJAN V FINANCIAL CONTROLLER QUALIPLAST LTD P O BOX 7136 ACCRA NORTH, ACCRA GHANA WEST AFRICA
223	028901	MS. MALA SRINIVASAN 121 I STAGE 10TH CROSS INDRANAGAR BANGALORE-560038	234	029334	MR. LAKSHMINARAYANAN T V 204 ROYAL PALMS 2ND CROSS, 3RD MAIN LBS NAGAR BANGALORE-560017
224	028976	MR. DHAVALA VENKATA SURYA PRAKASH 5TH FLOOR, SATYA SURYA COMPLEX DWARAKANAGAR VISAKHAPATNAM-530016	235	029339	MR. PARTHASARATHY N CHIEF ACCOUNTANT PANDA PLANT (PTY) LTD PVT BAG F-36 FRANCIS TOWN BOTSWANA
225	029004	MR. SHANKAR S MURTHY 9353 FONTAINEBLEAU BLVD APT # 4210 MIAMI F L-33172 U.S.A	236	029360	MR. VIDYASHANKAR A ACCOUNTS MANAGER THE ONE TOTAL HOME EXPERIENCE LLC P O BOX 27232 DUBAI U.A.E
226	029011	MR. SURESH R FINANCE CONTROLLER MICROSOFT ARABIA P O BOX 17100, OLAYA RIYADH-11454 SAUDI ARABIA	237	029411	MR. NAGARAJAN K G-5 MAHALAKSHMI APTS NO.5 RAMACHANDRAN STREET AMBATTUR CHENNAI-600053
227	029024	MR. MUTHAPPAN K 03-10, KEMBANGAN COURT 5, JALAN MASJID SINGAPORE-418924	238	029414	MR. RAMKUMAR V V NO.1 VASUDEVANAGAR - UPSTAIRS (EXTENSION OF SOUTH AVENUE) THIRUVANMIYUR CHENNAI-600041
228	029055	MR. RAVI K 13 APPADURAI STREET TEYNAMPET CHENNAI-600018	239	029433	MR. VENKATESH S T 40-B MAHAL VADAM POKKI STREET MADURAI-625001
229	029073	MR. RAMANUJAM R REGI. HEAD OF PROJECTS, E COMMERCE, MESA STANDARD CHARTERED BANK 180 GOVERNMENT AVENUE P O BOX 29 MANAMA BAHRAIN	240	029440	MR. JOHN KURIAN VAKKAYIL VAKATHANAM POST KOTTAYAM-686538
230	029154	MR. NARAYANAN S NO.33 II BHARATHIAR STREET PALAVANTHANGAL CHENNAI-600114	241	029498	MR. ANIL SHANKAR G AT - 2, G R GRAND RESIDENCY OPP FAMILY MART KANAKAPURA ROAD J P NAGAR VI PHASE BANGALORE-560078

S.No.	MRN	Member Name & Address
242	029513	MR. SRIDHAR N C 101 SWAGRUHA SRINIVAS APARTMENTS 2-2-1129/1 RAMALAYAM ROAD NEW NALLAKUNTA HYDERABAD-500044
243	029571	MR. MATHI SEETHARAMANJANEYULU 27-23-152 APOORVA ESTATES II FLOOR, DURGAIAH STREET GOVERNORPET VIJAYAWADA-520002
244	029596	MR. RAMAKRISHNA REDDY R NO 7-4-1, 2ND FLOOR 59TH CROSS 5TH BLOCK RAJAJINAGAR BANGALORE-560010
245	029608	MR. SANJAY V JESRANI B-45/46, INDUSTRIAL ESTATE SANATH NAGAR HYDERABAD-500019
246	029639	MR. VISHU KUMAR P NO 69 SAILAPPER STREET TIRUNELVELI TOWN TIRUNELVELI-627006
247	029669	MR. GIREESH K P O BOX 117847 DUBAI U.A.E
248	029705	MR. SRINIVAS PINISETTY GROUP CHIEF ACCOUNTANT ALPHA GROUP ROAD A, OFF ENTERPRISE ROAD P O BOX 10271-00400, TOM MBOYA STREET NAIROBI KENYA
249	029748	MS. SAIGEETHA N NO 34 WARREN ROAD MYLAPORE CHENNAI-600004
250	029770	MR. NARAYANA VASU A V S PLOT NO 196-197 FLAT NO 105, BALAJI VIHAR KALYANNAGAR HYDERABAD-500038
251	029780	MR. NAGESHWAR RAO N C/O MURTHY V S N 8-2-988/29 SRINAGAR COLONY HYDERABAD-500873
252	029799	MR. CHILAKAMMARI APPALA CHARYULU 94 LIC COLONY OPP INDIRA PARK HYDERABAD-500029
253	029878	MS. NIRANJANA C SRI SAI RAM APARTMENTS FLAT NO FB 71-73 FIRST MAIN ROAD SHASTRI NAGAR CHENNAI-600020

S.No.	MRN	Member Name & Address
254	029897	MR. JAYARAMAN V FLAT B-11 VASANTHA MALLIKA NEW NO.29, WARREN ROAD (DR BAKTAVACHALAM ROAD) MYLAPORE CHENNAI-600004
255	029917	MR. SANKARLAL N S 85(OLD NO 40-B) MAHAL VADAMPOKKI STREET MADURAI-625001
256	030298	MR. SUKUMAR KURUGANTI CHEVRONTXACO MENA INC 12TH FLOOR ALSALAM TOWER P O BOX #11791 MANAMA BAHRAIN
257	030771	MR. THOMAS M V III/364 MAVARA CHEMBUMUKKU B M C POST KOCHI-682021
258	031088	MR. SUBBA RAO KATTAMURI MANAGING DIRECTOR GLOCHEM INDS. LIMITED 120 BHANU ENCLAVE SUNDAR NAGAR HYDERABAD-500038
259	032410	MR. RAMAMURTHY K S 1 FRENCH AVENUE TOONGABBIE NSW 2146 AUSTRALIA
260	033742	MR. NAYAK DAYANAND VISHNU BLK.84 WHAMPOA DRIVE # 03-280 SINGAPORE-320084
261	034632	MR. KESHAV PAI H MANAGING DIRECTOR FUND POINT FINANCE LTD S-705, MANIPAL CENTRE 47, DICKENSON ROAD BANGALORE-560042
262	035271	MR. RAMAKRISHNAN S FINANCE MANAGER OMAN NATIONAL INVESTMENT CORPORATION HOLDING SAOG P O BOX 1949 P C 114, JIBROO SULTANATE OF OMAN
263	037247	MR. MADHAVA PRABHU J GOVINDAKRIPA JAKRIBETTU DAKSHINA KANNADA DISTRICT BANTWAL MANGALORE-574211

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
264	037380	MR. RAMANI RAJAMANI GROUP FINANCIAL CONTROLLER AL AMIN MEDICAL INSTRUMENTS CO LTD P O BOX 55320 DUBAI U.A.E	275	053005	MR. KISHORE KUMAR R HINDUSTAN LEVER LIMITED 'APEX PLAZA' 4TH FLOOR NO 3 NUNGAMBAKKAM HIGH ROAD CHENNAI-600034
265	038245	MS. LATA MAHADEVAN IYER 24 FIRST KENNEDY STREET LUZ, MYLAPORE CHENNAI-600004	276	053658	MR. SHEKHAR P V GENERAL MANAGER FINANCE & AUDIT ALLIED DEALS INC 180 CENTENNIAL AVENUE PISCATAWAY NEW JERSEY-08854 U.S.A
266	041813	MR. SRIRAM KRISHNAMACHARY PLOT NO.36/15 PILLAYARKOIL STREET JAFFERKHANDPET CHENNAI-600083	277	054004	MS. ALAMELU BALASUBRAMANIAN FLAT NO. 3 'SAIRAMS' FIRST FLOOR 6 NANDANAM EXTN 4TH STREET NANDANAM CHENNAI-600035
267	045692	MR. SENTHILNAYAGAM K PLOT # 136 KALYAN NAGAR HYDERABAD-500038	278	055061	MR. RAJIV KUMAR CHATURVEDI 120 Y 4TH MAIN 4TH PHASE 7TH BLOCK B S K THIRD STAGE BANGALORE-560085
268	046051	MR. RAM KUMAR S SREEVJI JANVILLA COMPOUND SASTHAMANAGALAM THIRUVANANTHAPURAM-695010	279	055378	MR. SRINIVASAN SRIRAM GENERAL MANAGER - BANKING WIPRO TECHNOLOGIES TOWER 8, 3RD FLOOR, A WING PLOT 72, ELECTRONIC CITY BANGALORE-560100
269	046572	MS. DARSHANA K BHAT 4 SHANTHA PARADISE 106 WHEELERS ROAD BANGALORE-560005	280	055614	MR. DESAI DEVESH FINANCE CONTROLLER AIR DECCAN (AIRLINES DIVISION OF DECCAN AVIATION PVT LTD) 35 CUNNINGHAM ROAD, VASANTH NAGAR BANGALORE-560052
270	048581	MR. TRIVEDI DHAVAL KANUBHAI GROUP FINANCE CONTROLLER AL NASSER HOLDINGS 12TH FLOOR, FALCON TOWER, AL NASR STREET P O BOX NO 46611 ABU DHABI U.A.E	281	056929	MR. SAHU SANDIP KUMAR A-3 LIVE IN STYLE 12 POTTERY ROAD RICHARDS TOWN BANGALORE-560005
271	048793	MR. BHATT KRISHNAMOHAN HIMANAND SHANTHA PARADISE FLAT NO 4 106, WHEELERS ROAD COX TOWN CIRCLE BANGALORE-560005	282	056958	MS. BHUVANESWARI SRINIVASAN 4TH FLOOR, PADMA COMPLEX 320, ANNA SALAI CHENNAI-600018
272	050374	MR. MICHAEL J MENEZES 220 CUMMER AVENUE WILLOWDALE TORONTO ONTARIO-M2M 2E7 CANADA	283	057113	MR. KRISHNAN SADANANDAN PURASSERI HOUSE ERNAKULAM DISTRICT KEEZHILLAM-683541
273	050828	MR. SURESH CHANDRA SENAPATY CORPORATE EXECUTIVE VICE PRESIDENT FINANCE WIPRO CORPORATION 10TH FLOOR DU PARC TRINITY 17 M G ROAD BANGALORE-560001	284	057308	MR. RAY CHAUDHURI ARGHYA FLAT NO 201 PLOT 18 SONALI CO-OP. SOCIETY NEW BOWNPALLY SECUNDERABAD-500011
274	052882	MR. SUNDARAVARADHAN VENKATESH ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY SCHOOL OF MANAGEMENT KLONG LLANG PATHUMTHANI-12120 THAILAND	285	057711	MR. VADAKAVEETIL PHILIP VIKING ARABIA FZE P O BOX 17531 DUBAI U.A.E

S.No.	MRN	Member Name & Address
286	058035	MR. BANERJEE ABIR G E CAPITAL INTERNATIONAL SERVICES 14-45 IDA UPPAL OPP NGRI HABSIGUDA UPPAL HYDERABAD-500039
287	058112	MS. PRABHA SHANKAR 2 LALITA MAHAL 2 JUSTICE SUNDARAM ROAD MYLAPORE CHENNAI-600004
288	058230	MR. PANDA DEBARCHAN 117, NELSON MANICKAM ROAD AMINJIKARAI CHENNAI-600029
289	058773	MR. ARINDAM MUKHERJEE INDIA LIFE HEWITT LTD NO 13, 1ST MAIN ROAD VASANTHNAGAR BANGALORE-560052
290	058835	MS. SUDESHNA BANDYOPADHYAY FLAT 1503, BLOCK B5 L & T SOUTY CITY AREKERE MICO LAYOUT BANNERGHATTA ROAD BANGALORE-560076
291	058836	MR. DAS RAJIB ORACLE INDIA PVT LTD 4TH FLOOR CYBER TOWERS HI-TEC CITY MADHAPUR HYDERABAD-500033
292	058837	MR. ADUKIA ANAND KUMAR 6-3-581 ANAND NAGAR COLONY FLAT NO D 2 5TH FLOOR KESHAV DALE APARTMENT KHAIRTABAD HYDERABAD-500004
293	058940	MR. CHAUDHURI INDRANIL C/O ALFRED HERBERT LTD WHITEFIELD ROAD MAHADEV PURA POST BANGALORE-560048
294	059139	MR. SINGH VIJAY VIKRAM FN M 25 ROYAL PALMS 2ND CROSS, L B SHASTRI NAGAR BANGALORE-560017
295	059140	MS. BHAVITA SINGH M 25 ROYAL PALMS APARTMENT 2ND CROSS L B SHASTRI NAGAR BANGALORE-560017
296	060398	MR. KHADELWAL TARUN P O BOX 46611 AL NASSER HOLDINGS ABU DHABI U.A.E

S.No.	MRN	Member Name & Address
297	060466	MR. DHIRAJ KUMAR LOVFLOCK & LEWES IIND FLOOR, L B BHAVAN 6-3-550, SOMAJIGUDA HYDERABAD-500082
298	060469	MR. BHAGAT SHYAM SUNDAR INFOSYS TECHNOLOGIES LTD SURVEY NO.210 MANIKONA VILLAGE GACHIBOWLI RAJENDRA NAGAR MANDAL RANGA REDDY DT. HYDERABAD-500019
299	060501	MR. LAHOTI ARUN C/O MR MEGHRAJ HARIRATAN 199/5 M G ROAD KOLKATA-700007
300	060587	MR. JALUKA VIKRAM SENA VIHAR H 230 KAMANHALLI MAIN ROAD BANGALORE-560043
301	060988	MR. RAY AVIK RANJAN FINANCE CONTROLLER ASEA BROWN BOVERI LTD PLOT NO 5 & 6 II PHASE P B NO 5806 PEENYA INDUSTRIAL AREA BANGALORE-560058
302	061075	MR. JINDAL ASISH ASSISTANT MANAGER-RISK MANAGEMENT METLIFT INDIA INSURANCE COMPANY PVT.LTD BRIGADE SESHAMAHAL 5 VANI VILAS ROAD BASAVANAGUDI BANGALORE-560004
303	061119	MRS. SETH SHUCHI SI SUDHAMA RESIDENCY NO 4 FIRST MAIN DEFENCE COLONY INDIRA NAGAR BANGALORE-560013
304	061161	MR. SRIVASTAVA MANISH KUMAR NO 2/1 2ND FLOOR 3RD MAIN GOVINDRAJNAGAR BANGALORE-560040
305	061518	MS. PUJA DIWAN C/O MR SHASHI KUMAR DIWAN INFOSYS TECH LTD 11TH FLOOR EMERALD HOUSE 15 LANSLOWNE ROAD CROYDON CRO 2BX SURREY UNITED KINGDOM

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
306	061762	MR. SADHUKHAN AMIT HINDUSTAN COCA COLA MARKETING CO PVT LTD 61/32 1ST & 2ND FLOOR SRI VIDYA TOWERS T T K ROAD ALWARPET CHENNAI-600018	316	079089	MS. KAITHWAL POOJA 14TH FLOOR C WING MITTAL TOWER 47/6 M G ROAD BANGALORE-560001
307	070181	MR. ALEX JOSE 28/2366, KANIANTHARA PONNETH TEMPLE ROAD-WEST VIKAS NAGAR CHILAVANNOOR KOCHI-682020	317	079802	MR. GUPTA BIMAL KUMAR H NO.6-1-94/95 SAI SANTHOSH APARTMENTS FLAT NO.201 PADMARAO NAGAR SECUNDERABAD-500001
308	073627	MR. RADHAKRISHNAN K FINANCIAL CONTROLLER & PROJECT MANAGER MINWOOL ROCK FIBERS LTD 8-2-598/A/1/15. PLOT NO 15 ROAD NO 10 BANJARA HILLS HYDERABAD-500034	318	081568	MR. SUBRAMANIAN S K CHIEF OPERATING OFFICER IDEA CELLULAR LTD 5-9-62 KHAN LATEEF KHAN ESTATE FATEH MAIDAN RD HYDERABAD-500001
309	075743	MR. MUNGARA AUDI SESA REDDY 216-D BLOCK RENUKA APARTMENTS ANAND NAGAR COLONY KHAIRATABAD HYDERABAD-500004	319	083378	MR. CHOPRA HIRDESH C/O ANIL AGARWAL 11-182 FATEH NAGAR HYDERABAD-500018
310	076125	MR. SRINIVAS SREEPADA C/O MR.P K KRISHNAN FLAT 204, BLOCK III CHIRANJIVI APARTMENTS WEST MARREDPALLY SECUNDERABAD-500026	320	083685	MR. NARASIMHAN S L FINANCIAL CONTROLLER PORTMAN SHANGRI-LA HOTEL SHANGHAI CENTER 1376 NANJING XI LU SHANGHAI-200040 CHINA
311	076637	MR. AGARWAL NARESH 794/A 17 F2 MAIN 6TH BLOCK KORAMANGLA BANGALORE-560095	321	084472	MR. HARIVISHNU KHADELIA A 57 SI PLOT HOUSING COLONY DHARMAPURI DIST. HOSUR-635126
312	077162	MS. VIDYA BHASKAR SUBRAMANIAN FLAT 3B, NEW 39 DIVYA APARTMENTS 4TH MAIN ROAD RAJA ANNAMALAIPURAM CHENNAI-600028	322	086092	MR. SRIDHAR S D-311 PASHA COURT SOMAJIGUDA HYDERABAD-500082
313	077433	MR. DEEPAK KHETAN ASSOCIATE MANAGER - FINANCE- JINDAL PRAXAIR OXYGEN CO. (P) LTD P B NO 16 BELLARY DIST TORANAGALLU-583275	323	086300	MR. SALIM K I FLOOR KOKER'S COMPLEX CHITTOOR ROAD ERNAKULAM-682018
314	078159	MR. GUPTA SANJAY FINANCE OFFICER CENTRAL FINANCE ITI LIMITED DOORVANINAGAR BANGALORE-560016	324	086309	MR. IYPE K THOMAS PLATHODATHIL KALATHIL THELLIYOOR P O VENNIKULAM TIRUVALLA-689544
315	078685	MR. KRISHNAN VINOD FLAT 'M' VIJAYA SHANTI APARTMENTS 56 KALAKSHETRA ROAD THIRUVANMIYUR CHENNAI-600041	325	087048	MR. RAJEEV SUNDARESAN T2, KGEYES HOMES 6E. T M MAISTRY STREET VANANTHURAI THIRUVANMIYUR CHENNAI-600041
			326	087239	MR. VISWANAATHAN K FINANCE MANAGER EMRILL SERVICES LLC P O BOX 38083 DUBAI U.A.E

S.No.	MRN	Member Name & Address
327	092458	MR. AGARWAL KUMAR SHOBHIT A-906 PURVA HEIGHTS BANNERGHATTA ROAD BANGALORE-560076
328	095232	MR. NATH SUBHASHIS 841/1 BINNAMANGALA 100 FEET ROAD INDIRANAGAR BANGALORE-560038
329	097097	MR. SRIRAM R A-9, R B I STAFF COLONY HAUZ KHAS NEW DELHI-110016
330	097136	MR. BEDI RAVINDER SINGH FINANCE OFFICER ITI LIMITED NETWORK SYSTEMS UNIT ITI BHAVAN DOORAVANINAGAR BANGALORE-560016
331	098498	MS. JAIN ANU B-106, MANTRI CLASSIC 1ST MAIN, 8TH CROSS S T BED LAYOUT, 4TH BLOCK KORAMANGALA BANGALORE-560034
332	098519	MR. GULIA BHARAT ITC INFOTECH 1-4 RAJA RAM MOHAN ROY ROAD BANGALORE-560025
333	098793	MR. DROLIA BALAJI ORACLE INDIA PRIVATE LIMITED 4TH FLOOR CYBER TOWERS HI-TEC CITY MADHAPUR HYDERABAD-500081
334	100322	MR. BAJAJ MAHESH RADHESHAM FLAT NO 304 SOUNDARYA LINKS LINK ROAD SHESHADRIPURAM BANGALORE-560020
335	101260	MR. DRONA MANISH ISHWARLAL C/O JALARAM & ASSOCIATES A-2/F-2, POONAM APARTMENT BEHIND HOTEL EMERALD C A LANE, ABIDS HYDERABAD-500001
336	102357	MR. MITTAL DEEPAK 99/C, 17 H MAIN 2, B CROSS K H B COLONY KORAMANGALA BANGALORE-560095
337	102481	MS. GUPTA ASHLESHA SURESH 103, BLOCK 11 LIC JEEVAN MITRA APARTMENTS 25TH MAIN, 9TH CROSS J P NAGAR - PHASE - I BANGALORE-560078

S.No.	MRN	Member Name & Address
338	103391	MR. HARI K FINANCIAL CONTROLLER SUN PLASTICS (PTY) LTD PRIVATE BAG NO.8 LOBATSE BOTSWANA
339	106595	MS. BHAGANAGAR VASANTHA LAKSHMI SAN C/O B.S. RAO MR 24/B IBM QTRS B.D.A. COMPLEX NANDINI LAYOUT BANGALORE-560096
340	109767	MR. VIJAY BAXIRAM PALIWAL QUARTER NO 105/B LAKSHMI NARAYA NAGAR VASAVADATTA CEMENT COLONY DIST GULBARGA SEDAM-585222
341	111862	MR. VINAY JAIN RATING ANALYST CREDIT ANALYSIS AND RESEARCH LTD 2ND FLOOR, KALPATARU POINT KAMANI MARG, SION (EAST) MUMBAI-400022
342	112387	MR. PRASHANT GANGADHARRAO KONDAWAR C/O DR MILIND SRT 579 SANATH NAGAR HYDERABAD
343	116054	MRS. ANUJA JAYANT RAMDASI 67/A I 7TH C MAIN ROAD III STAGE 2ND BLOCK BASAVESWARANAGAR BANGALORE-560079
344	200184	MR. PRAKASH REDDY C SRI THIMMARAYA SWAMY NILAYAM 4TH CROSS KANAKA VINAYAKA STREET SHANTHI LAYOUT RAM MURTHY NAGAR BANGALORE-560016
345	200224	MR. SIVASWAMI P R DIRECTOR SAKSON (BENIN) S A R L C/168, MISSEBO, 01, BP 1600 COTONOV BENIN WEST AFRICA
346	200244	MR. SRIDHAR CHALAM 236 13TH CROSS INDIRANAGAR II STAGE BANGALORE-560038
347	200382	MR. RANGASWAMY S FLAT NO 1305, BLOCK NO 1 JANAPRIYA MAHANAGAR MEERPET HYDERABAD-500079

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
348	200387	MR. RAVINDRA KUMAR S E-44 MAJESTIC MANSION BEGUMPET HYDERABAD-500016	360	200992	MR. NARAYANAN D FLAT GC, SOUTH GATE APARTMENTS 17 KASTURI RANGA ROAD ALWARPET CHENNAI-600018
349	200401	MR. BALAJI G V 4/2 VAIKAKARAN STREET VEPERY CHENNAI-600007	361	201024	MR. PARANAN N BLOCK 118A JALAN MEMBINA #07-137 SINGAPORE-161118
350	200496	MR. ARUMUGAM S FINANCE DEPARTMENT AL JABER GROUP P.O BOX 6875 ABU DHABI U.A.E	362	201057	MR. SRINIVASA SANKAR R FLAT 7B CEEBROS RIVER HEIGHTS 315 VALLUVARKOTTAM HIGH ROAD NUNGAMBAKKAM CHENNAI-600034
351	200650	MR. SUNDAR A RODRIGUEZ 7 THIRD LANE OLD KUYAVARPALAYAM MADURAI-625009	363	201075	MR. DWARAKADAS B CHANDAK 28 BARNABY ROAD KILPAUK CHENNAI-600010
352	200730	MR. THOMAS N ABRAHAM NAGAPURAM HOUSE MANGANAM PO KOTTAYAM-686018	364	201218	MR. PENTYALA SURESH BABU A/76 SANTOSH NAGAR COLONY MEHDIPATNAM HYDERABAD-500028
353	200764	MR. SAMPATH S MANAGER (F & A) GAIL (INDIA) LTD 46-07-18, JETTY AVENUE DANAVAI PETA RAJAMAHENDRAVARAM-533103	365	201280	MR. JAYAPOORNA PRASAD G VICE PRESIDENT - PORTFOLIO MANAGEMENT BANK OF AMERICA 5 CANADA SQUARE LONDON-EC14 5AQ UNITED KINGDOM
354	200777	MR. RAMESH S G-5, MAHALAKSHMI FLATS 26, TANK BUND ROAD NUNGAMBAKKAM CHENNAI-600034	366	201359	MR. ANANDA BABU P PLOT NO:404 MARUTHI SADAN APARTMENTS 6-3-1117, BEGUMPET HYDERABAD-500016
355	200789	MR. SIVANATHAN K F5, 'SHERA SQUARE' 156, CHOO LAIMEDU HIGH ROAD CHOO LAIMEDU CHENNAI-600094	367	201370	MR. JOSEPH INBARAJ MIRANDA CHIEF ACCOUNTANT M/S KINGS STORES P O BOX 437 DUBAI U.A.E
356	200804	MR. VENKATARAMANA K PLOT NO-8 R&D DEFENCE COLONY KAKAGUDA KARKHANA SECUNDERABAD-500015	368	201463	MR. VENKATRAMANAN G 134 EAST CAR STREET CHIDAMBARAM-608001
357	200894	MR. MURALEEDHARAN K G 15/1964(1) CHAMAVILA VAZHUTHACAUD NEAR RAVI STUDIO THIRUVANANTHAPURAM-695014	369	201540	MR. JUDE PETER DAMIAN E SR MANAGER (ACCOUNTS) THE INDIA CEMENTS LIMITED 827 ANNA SALAI CHENNAI-600002
358	200898	MR. BALASUBRAMANIAN S 3A, KANCHANA APARTMENTS 78 ST MARY'S ROAD ABHIRAMAPURAM CHENNAI-600028	370	201611	MS. MANORAMA CYRIL POST BOX NO.237 SHINAS 324 SULTANATE OF OMAN
359	200965	MR. CHAKRAPANI S MANAGER - FINANCE THE INDIA CEMENTS LTD 827, ANNA SALAI CHENNAI-600002	371	201664	MR. KUMAR R MANAGER INTELLIGROUP ASIA - USI PROJECT SROVAR COMPLEX HYDERABAD-500063

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
372	201783	MR. NARASIMHAN S 46, 46/2, KALENA AGRAHARA # 512, VITHOLA BEGUR HOBLI POST BANNERGHATTA ROAD BANGALORE-560076	382	202240	MR. VIJAYA KUMAR A FINANCIAL CONTROLLER ZAMBEZI MOTORS (PTY) LTD PLOT 22147 GABARONE WEST INDUSTRIAL GABARONE BOTSWANA, AFRICA.
373	201811	MR. TANKASALI SHAMRAJ HEMADREPPA NO. 115 6TH MAIN M C LAYOUT BEHIND GAYATHRI HOSPITAL VIJAY NAGAR BANGALORE-560040	383	202271	MR. NANDURI V S S GANGARAJU 110-12051 BATH ROAD RICHMOND B C-V6V 2B4 CANADA
374	201833	MR. JAYARAJ T S ASSOCIATE FINANCE MANAGER HINDUSTAN COCA COLA BEVERAGES PVT LTD 44/1, KODIGEHALLY GATE BELLARY ROAD, HEBBAL BANGALORE-560024	384	202358	MR. SRIKUMAR S AVP & SR COMMERCIAL DIRECTOR HINDUSTAN THOMSON ASSOCIATES PVT LTD 131 RESIDENCY ROAD DEVATHA PLAZA BANGALORE-560025
375	201857	MR. VINAY N DISLEY 'SIMHAGAD' NO.237 1 CROSS 5TH MAIN COFFEE BOARD LAYOUT HEBBAL KEMPAPURA BANGALORE-560024	385	202362	MR. KRISHNAN B NO 43 NEHRU STREET MADIPAKKAM CHENNAI-600091
376	201989	MR. MURUGAN B A-27 SECRETARIAT COLONY 34/10 CITY LIMIT ROAD ADAMBAKKAM CHENNAI-600088	386	202447	MR. RAJARAMAN K FLAT NO 4C ARCHANA ENCLAVE 4/31 NORTH CRESCENT ROAD T NAGAR CHENNAI-600017
377	202019	MR. MURALIDHARAN R SOFTWARE CONSULTANT LEADSOFT INC. 2064, SHADY GROVE CT NAPERVILLE IL-60565 U.S.A	387	202478	MR. GOPAL C P RATAN S MAMA & CO P O BOX 1171 RUWI 112 MUSCAT SULTANATE OF OMAN
378	202053	MR. PRASAD NEKKADAPU V S L PLOT NO. 60 VENKAT RAO NAGAR COLONY KUKATPALLY HYDERABAD-500072	388	202548	MR. NARAYANA B L 4730, NW 102 AVENUE UNIT # 108 MIAMI FL-33178 U.S.A
379	202131	MR. P RAMACHANDRAN SENIOR ACCOUNTANT MASAFI MINERAL WATER CO.LLC P B 11035, MASAFI FUJAIRAH U.A.E	389	202676	MR. ASHWATH A PLOT NO.13 CEEPROS HERITAGE BLOCK 2 - C 8 VELACHERY MAIN ROAD CHENNAI-600042
380	202177	MR. SRIDHAR H VICE PRESIDENT CITIBANK N A 2 CLUB HOUSE ROAD CHENNAI-600002	390	202781	MR. CHAVALI CHANDRASEKHAR G7 ADARSH APARTMENTS NEAR SKANDAGIRI TEMPLE PADMARAO NAGAR SECUNDERABAD-500361
381	202232	MS. VIDHYA N 6N RAMANA APARTMENTS FIRST MAIN ROAD RAJA ANNAMALAI PURAM CHENNAI-600028	391	202953	MR. VIJAYA KUMAR A FINANCE MANAGER NASSER BIN ABDULLATIF P O BOX 36 MUSCAT-113 SULTANATE OF OMAN
			392	203006	MR. LAKSHMI NARAYANA PRASAD N V FINANCIAL CONTROLLER SALALAH PORT SERVICES P O BOX 103 AL-HARTHY COMPLEX PC 118 MUSCAT SULTANATE OF OMAN

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
393	203008	MR. MANJUNATH PATIL BILAGI PLAZA, II FLOOR, NO 11 OPP: HOTEL SANMAN, COLLEGE ROAD BELGAUM-590001	403	203399	MR. SURESH MENON R INTERNAL AUDITOR AL MOOSA CONTRACTING (PIONEER) P O BOX 24775 DUBAI U.A.E
394	203028	MR. KANNA BOOPATHY K G F-37, BALAJI GARDENS 29 POONAMALLEE ROAD EKKATTUTHANGAL CHENNAI-600097	404	203421	MR. SARKAR KAUSHIK CHHABRIA MARKETING LTD 313/B RENUKA SHAKTI APARTMENTS KING KOTI ROAD HYDERABAD-500029
395	203096	MR. RAMACHANDRAN S 8/5 TAMIRABARANI JAGANNATHAN NAGAR 2ND MAIN ROAD ARUMBAKKAM CHENNAI-600106	405	203428	MR. ANAND KUMAR GANESWARAM HNO:4-1-15 OSMANPURA ANDHRA PRADESH KARIMNAGAR-505001
396	203108	MR. CHOUKIMATH GURUKUMAR GURULINGAI AH # 72, I-PHASE, I MAIN WEST OF CHORD ROAD MANJUNATH NAGAR BANGALORE-560010	406	203450	MR. RAVICHANDRAN T NO 66, FIRST MAIN ROAD FIRST FLOOR NANGANALLUR CHENNAI-600061
397	203126	MR. HARIHARAN V 2-C, BLOCK -5 SHANTHI TOWERS 88, ARCOT ROAD VADAPALANI CHENNAI-600026	407	203462	MR. KARTHIK N NO 503, A BLOCK GIRI APARTMENTS J P NAGAR II PHASE BANGALORE-560078
398	203131	MR. ASHWIN AJILA NO 71, RMV SECOND STAGE 4TH B CROSS ROAD 3RD MAIN ROAD DOLLAR COLONY BANGALORE-560094	408	203468	MR. HUSSAINI S M P O BOX 20516 SAFAT-13066 KUWAIT
399	203257	MR. GANESH R MANAGER - ERP BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED A - INSTALLATION, SEWREE FORT ROAD SEWREE (EAST) MUMBAI-400015	409	203483	MR. JITA MITRA G 7-1-831 FIRST FLOOR SUBASH ROAD BURUGU CHETTY BAZAAR SECUNDERABAD-500003
400	203279	MR. SAIRAM B 105 SAIPRIYA APARTMENTS FLAT NO 40&41 JAIPRAKASH NAGAR BALKANIPET (NEAR SANATH NAGAR) HYDERABAD-500018	410	203597	MR. VENKATACHALAM V FLAT K PARK ROYAL APARTMENTS 58 PARK ROAD ANNA NAGAR WEST EXTN. CHENNAI-600101
401	203301	MS. SHARADA NAGARAJAN CONSULTANT ORACLE FINANCIAL CONSULTANTS HYPERLINK IT P O BOX 43178 ABU DHABI U.A.E	411	203615	MR. SRIKANTH S QUALITY ASSURANCE MANAGER INVESTCORP BANK B S C P O BOX 5340 MANAMA KINGDOM OF BAHRAIN
402	203302	MR. SHAJI JOHN JACOB 28 WATERDALE ROAD BRAMPTON ONTARIO-L7A1S3 CANADA	412	203631	MR. PRASAD V V D 609-B BABUKHAN ESTATE BASHEERBAGH HYDERABAD-500001
			413	203661	MS. APARNA BHASKER RAO SHETTIGAR C/O DR S B RAO ISHWAR PARVATI, VILLA NO 10 KAMAT KINARA, MIRAMAR CARANZALEM PO, PANJIM CARANZALEM GOA-403002

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
414	203838	MS. KANCHANA S B-3 ASHOK ENCLAVE 18 FIRST AVENUE ASHOK NAGAR CHENNAI-600083	425	204093	MR. RAGHU KUMAR CHUNDI 11-3-2, E-5 PRIYARIVIERA APTS VET. HOSPITAL ROAD RAMARAO PET KAKINADA-533004
415	203840	MS. ROSHNI MURARI EMIRATES GROUP P B 686 DUBAI U.A.E	426	204158	MR. ABDUL HAMEED A NO:107 DR BESANT ROAD ROYAPETTAH CHENNAI-600014
416	203877	MS. THULASI MALA G NEW NO 27 (OLD NO 12) RAMAN STREET CHITLAPAKKAM P O CHENNAI-600064	427	204173	MR. BOBY E HEAD - FINANCE & BUSINESS ADMINISTRATION DAIMLER CHRYSLER RESEARCH AND TECHNOLOGY INDIA PVT LTD 132 INFANTRY ROAD BANGALORE-560001
417	203921	MR. GURU PRASAD UPPALAPATI 71 LEAH WAY PARSIPPANY N J-07054 U.S.A	428	204201	MR. RAMASESHAN K DY. GEN. MANAGER FINANCE IBM INDIA LIMITED PRESTIGE TOWERS LEVEL 3 99 RESIDENCY ROAD BANGALORE-560025
418	203930	MR. VENKAT RAO K C/O NETPLANE NETWORK TECHNOLOGIES (I) PVT.LTD NO.189 PRASHASAN NAGAR ROAD NO.72 JUBILEE HILLS HYDERABAD-500033	429	204225	MR. TATAVARTHI SURESH ASSISTANT MANAGER - FINANCE DAMAC P O BOX 2195 DUBAI U.A.E
419	203949	MR. NAGABHUSHANA ARADHYA NO:186 1 FLOOR DATTI COMPLEX BASAVANAGUDI MAIN ROAD GANDHI BAZAAR BANGALORE-560004	430	204231	MR. SELVARAJ G 'SILVER OAK' 88-B P T RAJAN ROAD MADURAI-625014
420	203971	MR. SRINIVASA RAO A MARK ACCOUNTING & MANAGEMENT-SERVICES (PTY) LTD P O BOX 80196 GABORONE BOTSWANA	431	204233	MR. MATHEW CHERIAN 4-A, ASHWINI APTS SG PALYA C V RAMAN NAGAR BANGALORE-560093
421	203986	MR. REJI JOSEPH 7 E OWNERS COURT MONTIETH LANE EGMORE CHENNAI-600008	432	204257	MS. UMA MAHESWARI A NO 53, MILLENNIUM PLAZA KATPADI ROAD VELLORE-632006
422	204002	MR. RADHA KRISHNA RAUT P B NO 8975 EPC 1234 KATHMANDU NEPAL	433	204286	MR. KUMAR S SR. EXECUTIVE TOYOTA PARTS PRICING DEPT BAHWAN AUTOMOTIVE CENTRE P O BOX 3168 P C 112 RUWI SULTANATE OF OMAN
423	204067	MR. SATYAKANTH A D NO.6-3-582/1/1, FLAT NO.F-02 RAMA RATHNAM RESIDENCY NEAR ZILLA PARISHAD ANAND NAGAR, KHAIRATABAD HYDERABAD-500004	434	204293	MR. BIJU P L NO. 23 FLAT 2B SHYAM BHUSHAN VIJAYALAKSHMI STREET MAHALINGAPURAM CHENNAI-600034
424	204082	MR. ANOOP KUMAR Y SHARP & TANNAN SUITE 'H' 5TH FLOOR SURYA TOWERS S P ROAD SECUNDERABAD-500003	435	204313	MR. RAJESH KUMAR P V B-151, FIRST FLOOR SECTOR - 15 NOIDA-201301

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
436	204356	MR. SUBRAMANIAN G H-113/4 18TH CROSS STREET BESANT NAGAR CHENNAI-600090	448	204790	MR. GOPAL K C B-2 CHANDRA GUPTA APARTMENTS CHANAKYAPURI SAFILGUDA MALKAJGIRI P O HYDERABAD-500047
437	204366	MS. PADMAVATHY S FLAT # 02 GROUND FLOOR CRESCENT COURT APARTMENTS CRESCENT ROAD HIGH GROUNDS BANGALORE-560001	449	204827	MR. RAVINDRANATHAN R 'ARWIN GARDENS' PHASE II FLAT 1A 53/17 VELLALAR STREET MOGAIPPAIR WEST CHENNAI-600058
438	204405	MR. BHALAAJI M MANAGER - GFIC ORACLE INDIA PRIVATE LTD BANNERGHATTA ROAD BANGALORE-560076	450	204911	MS. ANGELINE ENOK OLD NO 43, PARK ROAD ANNA NAGAR WESTERN EXTN. CHENNAI-600101
439	204479	MS. SANGEETHA NAHAR INTERNAL AUDITOR M/S MICHEL CHALHOUB TRADING CO P O BOX NO.60912 DUBAI U.A.E	451	204958	MS. UMA N B-704 ADARSH GARDENS 8TH BLOCK 47TH CROSS JAYANAGAR BANGALORE-560082
440	204480	MR. SRINIVASA GOPALAN S T PLOT 3 SADAGOPAN THIRUNAGAR JALLADAMPET MEDAVAKKAM CHENNAI-601302	452	205029	MS. LISSY K V FINANCE MANAGER CLARENDON PARKER MIDDLE EAST P O BOX 26359 DUBAI U.A.E
441	204509	MS. SREE PRIYA R T C 28/2493 'SARANALAYA' OLD SREEKANTESWARAM ROAD CHETTikulANGARA THIRUVANANTHAPURAM-695001	453	205036	MR. SANTHOSH P DANIEL 801, EVERGREEN FOREST BLVD AVENEL NJ-07001 U.S.A
442	204531	MR. MEENAKSHI SUNDARAM S NO-33 NATCHAPPA 2ND STREET ERODE-638001	454	205045	MR. BALAJEE R 1-2-80/1/A SECOND FLOOR STREET NO 1 KAKATIYA NAGAR HABSIGUDA HYDERABAD-500007
443	204616	MR. CHANDRASHEKAR A S 994 COACHMAN DRIVE 2, TROY MI-48083-0 U.S.A	455	205087	MR. SATYANARAYANA VENKATA SIVA JILLA CARE INDIA-STEP 6-22-1/3 EAST POINT COLONY CHINNA WALTAIR VISAKHAPATNAM-530003
444	204639	MR. VENKATESWARA SARMA P FLAT NO S-2 H NO 87/A, SRIDEVI RESIDENCY VENGAL RAO NAGAR HYDERABAD-500038	456	205092	MR. SHASHIDHAR T H NO 8-5-18 UNDER BRIDGE ROAD WARANGAL-506002
445	204671	MR. GERARD PETER D NO 2 GITANJALI II CROSS III CIRCULAR ROAD JAWAHAR NAGAR CHENNAI-600082	457	205125	MR. SURYA PRAKASA RAO BOMMISETTI PLOT NO.11 SYNDICATE BANK OFFICERS COLONY DUBAI GATE, HASMATHPET OLD BOWENPALLY SECUNDERABAD-500009
446	204675	MR. BALAJI T R PROJECT ENGINEER WIPRO TECHNOLOGIES ELECTRONIC CITY-1 TWR 4 FLOOR 4 BANGALORE-560001	458	205156	MR. HEMANTH KUMAR P H NO 6-3-609/69/8 ANANDNAGAR KHAIRTABAD HYDERABAD-500004
447	204743	MR. SADAGOPAN R 12220 SPANISH TRACE DR, H MARYLAND HEIGHTS MO - 63043 U S A			

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
459	205175	MS. PRASANNA K NO 20, NORTH USMAN ROAD B - BLOCK T NAGAR CHENNAI-600017	469	205600	MR. SUDHINDRA S R 20/2, VITTAL MALLYA ROAD BANGALORE-560001
460	205279	MR. BALASUBRAMANIAN V WIPRO LIMITED 159 KARIAPPA PLAZA JAKKASANDRA KORAMANGALA I BLOCK BANGALORE-560034	470	205606	MR. VARADHARAJAN K P NO.9/2 MUTHAMMAN KOIL STREET AYANAVARAM CHENNAI-600023
461	205290	MR. SATHISH V FLAT 182-A, GAIL APARTMENTS PLOT B-9/1, SECTOR 62 UTTAR PRADESH NOIDA-201301	471	205637	MR. SURAJ R NO.5/43 WIGRAM STREET HARRIS PARK SYDNEY-NSW 2150 AUSTRALIA
462	205325	MR. CHANDRA SEKHAR V NO 9 SAI BHAVAN 1ST A MAIN, 7TH CROSS N S PALYA BANK COLONY MICO LAYOUT, BTM II STAGE BANGALORE-560076	472	205643	MR. RAMKUMAR S BLK 353 # 07-500 TAMPINES ST 33 SINGAPORE-520353
463	205335	MR. KUMARAVEL T DY MANAGER - ACCOUNTS ULTRATECH CEMENT LTD ARAKKONAM CEMENT WORKS ARAKKONAM-631003	473	205715	MR. BHASKAR K 8A NEW WEST THANDAVARAYAN STREET PURASAWALKAM. CHENNAI-600007
464	205431	MR. BALAJI G BLOCK 715 UNIT NO.10-93 (CLEMENTI WEST ST. II) SINGAPORE-120715	474	205730	MS. SHANTHI M S 45 4TH MAIN ROAD JAWAHAR NAGAR CHENNAI-600082
465	205451	MR. SRIRAMA RAJU K 36-27 DEFENCE COLONY SAINIKPURI SECUNDERABAD-500094	475	205737	MR. SUBRAMANIAN S K ORCHID 5-I CEEGBROS GARDENS 1/2 VEMBULI AMMAN KOIL STREET WEST K K NAGAR CHENNAI-600078
466	205512	MR. ADHIKARI MOHANARAO SR MANAGER - F & A LANCO KONDAPALI POWER PVT LTD 141, AVENUE # 8, ROAD NO 2 BANJARA HILLS HYDERABAD-500034	476	205742	MS. MYTHILY S NEW NO 14 (OLD NO 15-A) CHINNIAH ROAD MARAVANERI EXTENSION SALEM-636007
467	205517	MR. ARUNKUMAR NATH MANAGER -FINANCE- INDIAN RAYON & INDUSTRIES MADURA GARMENTS DIVISION 60/1 SRI NARAYANA BUILDING UNIVERSAL COMPOUND KODI CHIKKANAHALLI ROAD BOMMANAHALLI BANGALORE-560068	477	205747	MR. NANDAKUMAR P ACCOUNTANT BJ SERVICES COMPANY (AUSTRALIA) PTY LTD 13 B ZINNIA WAY WILLETTON WESTERN AUSTRALIA-6155
468	205582	MR. RANGEPALLI RAMESH BABU 9-14, 2ND FLOOR HARIKRISHNA BUILDINGS OPP KONARK THEATRE DILSUKH NAGAR HYDERABAD-500060	478	205756	MR. ANAND N ANANDA NILAYA NO 12, 3RD FLOOR, 3RD CROSS J M LANE, BALEPET BANGALORE-560053
			479	205774	MR. SUNDARARAJAN B 204 SAMRUDHI 12-12-7 SITAPHALMANDI SECUNDERABAD-500061
			480	205799	MR. ANAND K FLAT D, PLOT 246 2ND STREET RAM NAGAR, VIJAYANAGAR EXTN VELACHERY CHENNAI-600042

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
481	205805	MR. MAHESH CHADA P O BOX 70048 PLOT NO 256 ALYCHAN ROAD UPANGA DAR ES SALAAM TANZANIA	492	206249	MR. VENKATESH P A 28/1 VENKATAPPA ROAD TASKER TOWN BANGALORE-560051
482	205818	MR. VENKATESAN K AP 209 9TH STREET, I BLOCK VALLALAR KUDIYIRUPPU ANNA NAGAR WEST CHENNAI-600040	493	206267	MR. KISHAN KUMAR B 10-3-14/A/3 HUMAYUN NAGAR HYDERABAD-500028
483	205849	MR. SURESH S 146/2 LAKEVIEW ROAD WEST MAMBALAM CHENNAI-600033	494	206272	MR. RAVI RAM REPAKA MANAGER - FINANCE & MIS JARIR INVESTMENT P O BOX 3196 RIYADH-11471 SAUDI ARABIA
484	205887	MR. VENKAT RAAMAN R NEW NO 758 (OLD NO 627/I) POONAMALLEE HIGH ROAD NS K NAGAR CHENNAI-600108	495	206296	MR. ANTO JOSEPH FINANCE MANAGER SKY JEWELLERY LLC PO BOX NO 4005 DUBAI U.A.E
485	205914	MR. RAMA KRISHNA RAJU J D NO.5-8-140 KISHANPURA WARANGAL DISTRICT HANAMKONDA-506001	496	206332	MS. GONGUNTALA GEETHA GROUND FLOOR MRL HOUSE PANJAGUTTA HYDERABAD-500082
486	205917	MR. KANDAVELU C S 17-B, SANKARAN STREET FLAT B, MADIPAKKAM CHENNAI-600091	497	206335	MR. RAMESH BABU S NO 36 CHARLES CAMPBELL ROAD 3RD CROSS COX TOWN BANGALORE-560005
487	205923	MS. HEMALATHA R ACCOUNTANT YEMINVEST P O BOX 4165 ADEN-967 REPUBLIC OF YEMEN	498	206372	MS. KONERU REKHA 14-79, FIRST FLOOR TALLURIS TAPOVAN PATANCHERU-502319
488	205933	MR. PADMAKUMAR P RELATIONSHIP OFFICER HSBC BANK MIDDLE EAST (HBME) P O BOX 242 ABU DHABI U.A.E	499	206396	MR. MAHESH C B A-4, SAMPURNA FLATS RAMANUJAM STREET T NAGAR CHENNAI-600017
489	205969	MR. PRAKASH K 101, 102 BLOCK VI SKYLINE CITY APARTMENT P O NAGARBHARI BANGALORE-560072	500	206437	MR. RADHA KRISHNA ARYASOMAYAJULA B-201 NATARAJAN RESIDENCY 6-1-116 ST.NO.3 WALKER TOWN PADMARAO NAGAR SECUNDERABAD-500025
490	205970	MR. RAJAGOPALAN S ERNST & YOUNG P O BOX 140 14TH FLOOR THE TOWER SHERATON COMMERCIAL COMPLEX MANAMA BAHRAIN	501	206487	MR. RADHAKRISHNAN T FINANCE OFFICER I T I LIMITED DOORVANINAGAR C & E CELL F-24 HANGER I FLOOR BANGALORE-560016
491	206199	MR. RAGHURAJ B 501-B, VASUKAMAL 184-A, SAKI VIHAR ROAD POWAI MUMBAI-400072	502	206488	MR. MAHIDHAR RAO M V S N FLAT NO.101A PANCHAVATI APTS SKANDAGIRI NEAR SKANDAGIRI TEMPLE PADMARAO NAGAR SECUNDERABAD-500061

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
503	206519	MR. GOPALA KRISHNAN K NEW NO.30 (OLD NO.15) PULLA AVENUE SHENOY NAGAR CHENNAI-600030	513	206858	MR. ARUN RAMACHANDRAN AUDIT SENIOR KPMG P O BOX 3800 DUBAI U.A.E
504	206594	MR. ANJANA ARUNA KUMAR M M K J H.NO.1-8-100/3/B 1ST FLOOR VIDYUT NAGAR NEAR TRANSFORMER NEW DILSUKHNAGAR HYDERABAD-500068	514	206895	MS. REVATHY BALAJI D-131 E, P V RAJAMANNAR SALAI K K NAGAR CHENNAI-600078
505	206619	MR. SRIHARI S P GOKULAM # 64, THIRD FLOOR 7TH AVENUE ASHOK NAGAR CHENNAI-600083	515	206897	MR. VENKATA SATYANARAYANA AKONDI 12-2-460/19 JEEVAN KALYAN NAGAR MEHDIPATNAM HYDERABAD
506	206664	MS. SRIVIDYA V FLAT NO 1, FIRST FLOOR VIJAY SHANTHI APARTMENTS 56, KALAKSHETRA ROAD THIRUVANMIYUR CHENNAI-600041	516	206904	MR. RAMKUMAR R SRASSURANCE&ADVISORYBUSINESSSERVICES ERNST & YOUNG 10, COLLYER QUAY NO 21-01 SINGAPORE-049315
507	206750	MR. GEORGE NINAN B-7, 69, NEW VISHWASHANTHI APARTMENTS L D G ROAD, LITTLE MOUNT SAIDAPET CHENNAI-600015	517	206925	MR. VIJAYA KUMAR PUTCHA V N FLAT NO. 304 A BLOCK SRI GAYATRI APARTMENTS KALYAN NAGAR EAST ANAND BAGH HYDERABAD-500047
508	206765	MS. RADHA SURAJ 27 A G S COLONY DOOR NO 2/343 FIRST CROSS STREET KOTIWAKKAM CHENNAI-600041	518	206963	MS. SWAPNA CHANDAK 208 CHENOY TRADE CENTRE PARKLANE SECUNDERABAD-500009
509	206784	MR. GORANTLA CHENCHU NAGESWARA RAO 401 ASHOKA ENCLAVE 32 & 34 JAYANTHI NAGAR YOUSUFGUDA BEHIND LUCKY FUNCTION HALL HYDERABAD-500045	519	206970	MR. VENKATESWARA RAO INAMPUDI VATTI CHERUKURU (MANDAL) GUNTUR DISTRICT MUTLUR P O-522215
510	206802	MS. SARAH MARY JACOB 119 PRESTIGE GREEN WOODS 849 NAGAVARPALAYA VARATHUR ROAD BANGALORE-560093	520	206991	MR. DESHPANDE UMESH SHYAMRAO "MALATESH" 94 VIJAYANAGAR HUBLI-580032
511	206853	MR. HARIKUMAR T FINANCIAL CONTROLLER NIKE INDIA PVT LTD 701, MILLENIA, TOWER B MURPHY ROAD, ULSOOR BANGALORE-560008	521	207022	MR. DIWAKAR S FINANCE MANAGER RNA RESOURCES GROUP LTD P O BOX 17155 DUBAI U.A.E
512	206854	MR. ARIVU ALANGARAM A SN FLAT NO.3C ANNAI APARTMENTS NO.7 K P KOIL SANNIDHI STREET MYLAPORE CHENNAI-600004	522	207054	MR. NAVEEN K M ACCOUNTANT PAPER MOON, THE GIFT WRAP STORE POST BOX #790 DUBAI U.A.E
			523	207069	MS. SHEILA HARIHARAN IBM GLOBAL SERVICES INDIA LTD EMBASSY GOLF LINKS BUSINESS PARK BLOCK-C GROUND FLOOR OFF INDIRANAGAR-KORAMANGALA INTER RING RD BANGALORE-560071

S.No.	MRN	Member Name & Address
524	207084	MR. HEMA PRAKASH REDDY K NO. 401 1ST D MAIN DOMLUR LAYOUT BANGALORE-560071
525	207131	MR. PRASADU NALADALA H NO. D-114 MADHURA NAGAR OPP COMMUNITY HALL HYDERABAD-500038
526	207157	MR. VADLAPATLA B N V VARA PRASAD ASST MANAGER - FINANCE & ACCOUNTS SUTHERLAND TECHNOLOGIES PVT LTD 46 SANTHOME HIGH ROAD MYLAPORE CHENNAI-600004
527	207195	MR. SREE RAM GUPTA KANAMARLAPUDI C-4 REGENCY APTS. BEACH ROAD KALAKSHETRA COLONY HESANT NAGAR CHENNAI-600090
528	207224	MR. HARI KRISHNA SAKALA C/O M V SUBBA RAO D NO 9-7-3 CHEEMUSURUVARI LANE BRAHMIN BAZAR KOTHAPET VIJAYAWADA-520001
529	207256	MR. SRINIVASA RAO BATCHU FLAT NO 405, VINDHYA - III JANA BHARATHI GARDENS MOOSAPET Y JUNCTION HYDERABAD-500018
530	207289	MR. VIJAYADURAI B 1407 P K N ROAD SIVAKASI-626189
531	207319	MR. MARTIN THOMAS P FINANCE MANAGER LAKSHADWEEP DEVL.T.CORPN. LTD G-406 PANAMPILLY NAGAR KOCHI-682036
532	207324	MR. LAKSHMI NARAYANA PHANI NANDULA BADER & CO PRICE WATERHOUSE & COOPERS P O BOX 20174 SAFAT-13062 KUWAIT
533	207365	MR. KOTHURI SREEDHAR 45/142-23/3A STREET NO.2 RAMALINGESHWAR NAGAR VENKATARAMANA COLONY KURNOOL-518003
534	207428	MS. AARTHY R 13 ASHOKA ROAD ALWARPET CHENNAI-600018
535	207469	MR. SUNIL VISHWANATH VARANASY 1-10-81 ASHOK NAGAR HYDERABAD-500020

S.No.	MRN	Member Name & Address
536	207502	MR. MANISUNDARAM S V D-107/C SANGEETHA COLONY K K NAGAR CHENNAI-600078
537	207510	MR. SRIDHAR P #3-6-194C STREET NO.16 NEAR URDU HALL HIMAYATNAGAR HYDERABAD-500029
538	207542	MR. NAGARAJU D H NO 19-1-927/28 BHAWANI NAGAR MUNDIGUMUS BHADURPURA PO HYDERABAD-500064
539	207551	MR. KOLLURI VENU MADHAV C/O MR K T KRISHNA 33-8-10, BANKAPALLI VARI STREET SEETARAMPURAM VIJAYAWADA-520002
540	207567	MS. MAJU JOSEPH ACCOUNTS OFFICER KUWAIT & MIDDLE EAST FINANCIAL INVESTMENT CO. KSSC P O BOX 819 SAFAT-13009 KUWAIT
541	207569	MR. LAXMI SREENIVASA RAO GARRE HOUSE NO 1111 FIRST FLOOR SECTOR - 12-A HARYANA PANCHKULA-134112
542	207621	MR. UTTAM DHIRAN P NO 17 THANA STREET PURASAWALKAM CHENNAI-600007
543	207637	MR. PREMSAGAR CHALLA CORPORATE FINANCE DR.REDDY'S LABORATORIES LTD. 7-1-27 AMEERPET HYDERABAD-500016
544	207720	MR. BINOY THOMAS 44/2201 C SARRA 7 ST. ANTONY'S ROAD KALOOR KOCHI-682017
545	207760	MR. AJAY M R ASSOCIATE CONSULTANT INFOSYS TECHNOLOGIES LTD. KULLOOR FERRY ROAD KOPTTARA MANGALORE-575006

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
546	207790	MS. JAYACHITRA R PATNI COMPUTER SYSTEMS LTD 304/305 GUNA BUILDING ANNA SALAI TEYNAMPET CHENNAI-600018	558	208144	MR. CHITHIRAI ALIAS BABU A ASST. MANAGER- ACCOUNTS TRANSWORLD GARNET INDIA (P) LTD OPP: TO TUTICORIN AIRPORT KOTTUDANKADU TUTICORIN-628103
547	207879	MR. SUBBARAMAN K INDEPENDENT PETROLEUM GROUP P O BOX 24027 SAFAT-13101 KUWAIT	559	208181	MR. GANESH V NO 9 SAI SADAN 1ST A MAIN ROAD, 7TH CROSS MICO LAYOUT (II STAGE EXTN) BANGALORE-560076
548	207963	MR. BALAJI ADISESHAN S 25/24 FIRST STREET NAGARJUNA NAGAR RANGARAJAPURAM CHENNAI-600024	560	208224	MR. RAVINDRAN P 761 65TH STREET 10TH SECTOR K K NAGAR CHENNAI-600078
549	207986	MR. BIJU V GEORGE INTERNAL AUDITOR MOHAMMED BIN MASAOOD AND SONS P O BOX 322 ABU DHABI U.A.E	561	208230	MR. SHANKARRAM V NEW NO 61 (OLD NO 54) BRINDAVAN STREET FLAT NO 9, KOTHARI APARTMENTS WEST MAMBALAM CHENNAI-600033
550	208002	MR. PIUSH AGARWAL DOOR NO 60 NEW ROAD NO 3 BANJARA HILLS HYDERABAD-500034	562	208260	MR. KRISHNA NAYAK B 531 ABOVE MANGALORE STORES SAMPIGE ROAD MALLESHWARAM BANGALORE-560003
551	208008	MR. HARAGAPURE CHANDRASEKHAR DUNDA C/O M Y PATIL 3328/2 GANDHALI GALLI BELGAUM-590002	563	208288	MR. JUDE B 22/I, INDRAPRASTHA APT LAKEVIEW, 14TH STREET IYAPPANAGAR MADIPAKKAM POST CHENNAI-600091
552	208040	MR. SRIRAM G 146/2, LAKEVIEW ROAD WEST MAMBALAM CHENNAI-600033	564	208304	MS. SUBASHINI S 3210 TOTHIAN ROAD APT 203 FAIRFAX VIRGINIA (VA)-22031 U.S.A
553	208042	MR. SUDHARSAN K 2/1 PERUMAL KOIL STREET (VIA) KOLIYANUR VRP DISTRICT POYYAPAKAM P O-605103	565	208305	MR. SATHYANARAYANAN P FLAT NO C-5 VIRAJA APARTMENTS 57 VALLUVAR SALAI ARUMBAKKAM CHENNAI-600106
554	208067	MR. TUMARADA NARASIMHA MURTHY 58 SHANTINAGAR COLONY SRIKAKULAM-532001	566	208337	MR. CHITRAKUMAR M 18/6 80TH STREET POLICE TRAINING COLLEGE ASHOK NAGAR CHENNAI-600083
555	208073	MR. RAMAN B PLOT NO 43 DOOR NO 156/5 NEHRU STREET MADIPAKKAM CHENNAI-600091	567	208340	MS. PRIYA CHELLAPPA OPERATIONS MANAGER IBM GLOBAL SERVICES INDIA PVT LTD EXPLORER, 4TH FLOOR ITPL, WHITEFIELD ROAD BANGALORE-560066
556	208105	MR. KARTHIKEYAN R ERNST & YOUNG 424 CHURCH STREET SUITE 1100 NASHVILLE T N U S A-17013	568	208392	MR. VENKATESWARLU KARASALA #8-3-214/4.IIFLOOR SRINIVASA NAGAR(WEST) AMEERPET HYDERABAD-500038
557	208108	MR. NAVANEETHA KRISHNAN G ASST. MANAGER (FINANCE) ARVIND CLOTHING LTD NO 12, 4TH CROSS BONNASANDRA INDL.AREA, HOSUR ROAD BANGALORE-562158			

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
569	208396	MR. PATNAIK PRASANTA KUMAR C/O LOVELOCK & LEWES 6-3-550 2ND FLOOR LB BHAVAN SOMAJIGUDA HYDERABAD-500082	580	208904	MR. SATISH V FINANCIAL ANALYST M/S HEWLETT PACKARD INDIA PVT LTD 24 SALARPURIA ARENA HOSUR MAIN ROAD, ADUGODI BANGALORE-560030
570	208410	MS. SRILAKSHMI N C/O MR C SRIRAM NO 1, 3RD CRESCENT PARK ROAD GANDHINAGAR ADYAR CHENNAI-600020	581	208943	MR. SHIBU NINAN SENIOR MANAGER K P M G KPMG HOUSE 20/2 VITTAL MALLYA ROAD BANGALORE-560001
571	208437	MR. VINU THOMAS PULLOLICKAL HOUSE POOTHAKUZHY P O PAMPADY KOTTAYAM-686752	582	208954	MR. NAGARAJAN R F-15, K G PLAZA 41, G P ROAD CHENNAI-600002
572	208503	MR. MEENAKSHISUNDARAM V JEYA KRISHNA APARTMENT 29/11 YOGAMBAL STREET T NAGAR CHENNAI-600017	583	209015	MR. SATYA KIRAN ALAPATI FLAT NO.402 DIVYA LAYA PLOT NO.48 H.NO.8-3-168/E/48 JAYANTHI NAGAR ADJACENT TO RAJEEV NAGAR, YOUSUFUDA HYDERABAD-500045
573	208567	MR. SIVARAMAKRISHNA MACHABATHUNI 46-D VENGALA RAO NAGAR HYDERABAD-500038	584	209045	MR. RAKESH JOSHI #683, 29TH MAIN BTM LAYOUT BANGALORE-560076
574	208570	MS. ANURADHA D NEW NO 2 (OLD NO 29) SHANTHI NAGAR MAIN ROAD ADAMBAKKAM CHENNAI-600088	585	209092	MR. BALAKRISHNA MURTHY CH FLAT NO.1D PARK LAND APARTMENTS NO.3 KAMALABAI STREET NEAR VANI MAHAL T NAGAR CHENNAI-600017
575	208645	MR. SRINIVASAN R 3A MAYIL NAGAR NORTH MAIN STREET P & T COLONY MADURAI-625017	586	209098	MR. JOPPACHAN THOMAS P O BOX 403462 GABORONE BOTSWANA
576	208722	MR. VIPUL N CHHABRA 135 o 'A' CROSS 9TH MAIN R M V EXTN BANGALORE-560080	587	209112	MR. RANJITH A R RED BRIGADE U K LIMITED 4TH FLOOR THE COLUMBIA CENTRE MARKET STREET BRACKNELL BERKSHIRE-RG 12 1 RS UNITED KINGDOM
577	208812	MR. DHARMENDHAR R H NO 3-1-326/327 NIMBOLIADDA OPP: TRAFIC POLICE STATION HYDERABAD-500027	588	209117	MR. YUGANDHAR K NO.1167 II CROSS KALASTRI NAGAR NEAR KALIAMMA TEMPLE T.DASARA HALLI BANGALORE-560057
578	208813	MR. SATHYANARAYANA C # 1087, I FLOOR AISHWARYA 4TH MAIN, VIJAYANAGAR IST STAGE MYSORE-570017	589	209155	MR. SURESHKUMAR R BLOCK 'B', FLAT 'C' SIVARANJANI APARTMENTS 57-B, KARTHIKAPURAM MADIPAKKAM CHENNAI-600091
579	208876	MR. NARSINGAM B ROOM NO. 2, IIND FLOOR JAGDISH MARKET CHIRAG ALI LANE, ABIDS HYDERABAD-500001			

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
590	209156	MR. SAMMETA NAGA RAVINDRA DR NO 10-2-268/270 FLAT NO 42 WEST MARREDPALLY SECUNDERABAD-500026	601	209268	MR. PAVULURI SUBBA RAO H NO. 483/SRT MIGH, NEAR WATER TANK SR NAGAR HYDERABAD-500038
591	209162	MR. PRASAD H S NISARGA, PLOT NO 64 I FLOOR OPP: VENKATESHWARA TEMPLE AMARAVATHI BELLARY DISTRICT HOSPET-583201	602	209294	MR. RAMANATHAN N V 20/2, VITTAL MALLYA ROAD BANGALORE-560001
592	209167	MR. SARAVANAN S 2 JOHN DESIKAR ROAD BLUD DIAMOND FLATS NANGANALLUR CHENNAI-600061	603	209315	MR. BALAJI M FLAT NO 1 46 MURTHY STREET EXTENSION WEST MAMBALAM CHENNAI-600033
593	209169	MR. KARTHIKEYAN N M105/12 PREFAB HOUSE 29TH CROSS STREET BESANT NAGAR CHENNAI-600090	604	209339	MR. RAJESH B 'KARTHIKA' CHEMBAKA HOUSING COLONY B C ROAD BEYPORE KOZHIKODE-673015
594	209193	MR. BOBY KURIAN 1439 WOOD ROAD APT 1E BRONX N Y-10462 U.S.A	605	209363	MR. PRAVEEN R C/O. MOOG CONTRDLS LTD. # 2 100 FEET RING ROAD BTM LAYOUT BANGALORE-560076
595	209201	MS. REKHA NATARAJ MF 3/29 B D A APARTMENTS NEW THIPPASANDRA HAL III STAGE BANGALORE-560075	606	209364	MR. PRAKASHAN M 22/2 A G S COLONY II- CROSS STREET KOTTIVAKKAM CHENNAI-600041
596	209208	MR. JAYASUBRAMANIS NO.27/1 SRINIVASA PERUMAL KOIL III STREET THIRUVOTRIYUR CHENNAI-600019	607	209424	MR. HABEEB MOHAMED K A 1ST FLOOR 300 LINGHI CHETTI STREET CHENNAI-600001
597	209214	MR. SRINIVASA KUMAR B B N 175 (OLD NO.93) TRIPPLICANE HIGH ROAD TRIPPLICANE CHENNAI-600005	608	209563	MR. SUDHAKAR K # 16-2-146/34/1 AKBAR BAGH MALAKPET HYDERABAD-500036
598	209216	MR. NACHIAPPAN M PRICEWATERHOUSE COOPERS 02-05, STO TRADE CENTRE ORCHID MAGU REPUBLIC OF MALDIVES	609	209571	MR. CHAITANYA G PLOT NO 71 12-13-830/39/3 GOKUL NAGAR TARNAKA HYDERABAD-500017
599	209241	MR. JAGADESH KUMAR K 3/6, B-BLOCK HILINE ARCADE APARTMENTS NEW MUSHEERABAD X ROAD HYDERABAD	610	209579	MR. RAJARAMAN S F-212, ROYAL PALMS, 3RD MAIN L B SHASTRI NAGAR HAL POST BANGALORE-560017
600	209264	MS. USHMA SHAH 8/2325 D ICE HOUSE APARTMENTS GUJARATHI ROAD KOCHI-682002	611	209591	MR. VENKATA DURGA LAKSHMI NARASIMHA RAO G IS-6 ERRA MANJIL COLONY PUNJAGUTTA HYDERABAD-500082

S.No.	MRN	Member Name & Address
612	209624	MR. RAJESH R D-6, MCL COLONY MADRAS CEMENTS LTD MATHOD VILLAGE HOSADURGA-577533
613	209663	MR. BIJU A R AUDIT MANAGER MOORES ROWLAND P O BOX 401805 GABORONE BOTSWANA
614	209704	MS. KOMALA S KUMAR NO 322, 6TH CROSS CANARA BANK COLONY NAGARABHAVI MAIN ROAD VIJAYA NAGAR BANGALORE-560072
615	209725	MS. RASHMI GIRIA "GIRIA'S" 10/12 CHABARIA LAYOUT KUMARAKRUPA ROAD BANGALORE-560001
616	209752	MR. VENKATESWARA PRASAD D C/O L D NAIDU 2ND FLOOR VASAVI CHAMBERS NO.21/1 LALBAGH FORT ROAD BANGALORE-560004
617	209781	MR. RAMAKRISHNA KAMESWARARAO AAKI S/O SATYANARAYANA KIRANA MERCHANT COLLEGE ROAD EAST GODAVARI DT. AMALAPURAM-533201
618	209785	MS. SHEFALI N S 2109, PARADIN EDGE ROUNDROCK T X 78664 U S A
619	209821	MR. RAVI SHANKAR M NO.26 SANKALPA 1ST MAIN BEL 6TH BLOCK VIDYARANYAPURAM BANGALORE-560097
620	209831	MR. PALANISELVAM R NEW NO 14, ANDIAPPAN STREET OLD WASHERMENPET CHENNAI-600021
621	209844	MR. SIVAKUMAR B ACCOUNTS EXECUTIVE AL AHLIA INSURANCE CO. SAOC P O BOX 1463 PC 112 SULTANATE OF OMAN
622	209853	MR. RAMA VARMA ADITYA K S 210 10-2-10 MATURU APARTMENTS A/C GUARDS HYDERABAD-500004

S.No.	MRN	Member Name & Address
623	209875	MR. VENKATA RAMANAN K G NO 9, SECOND LINK STREET SADASIVANAGAR MADIPAKKAM CHENNAI-600091
624	209885	MR. SONY ABRAHAM P O BOX 26264 GAME CITY GABORONE BOTSWANA
625	209973	MR. DEEPAK DEVASIA I (O) WEST WING FERNHILL GARDEN H S R LAYOUT BANGALORE-560034
626	209979	MR. JAIBY MANUEL SENIOR ASSOCIATE PRICEWATERHOUSECOOPERS P O BOX 20174 SAFAT 13062 KUWAIT
627	209984	MS. SARATHA SANKAR 306, II BLOCK, III FLOOR KEERTHY REGENCY KAGADA SPURA MAIN ROAD BANGALORE-560075
628	210016	MR. CHANDRA SEKHAR REDDY G 18-1-670 BHAVANI NAGAR CHITTOOR DT TIRUPATI-517501
629	210056	MR. ANAND KUMAR K BUSINESS AREA CONTROLLER-PIPC ASEA BROWN BOVERI LTD. PLOT NO.5 & 6 II PHASE PEENYA INDUSTRIAL AREA PEENYA BANGALORE-560058
630	210120	MR. VENKITACHALAM M EXECUTIVE-FINANCE STOCK HOLDING CORPN. OF INDIA LTD. 4TH FLOOR KURIAN TOWERS OPP. SARITHA THEATRE, BANERJI ROAD KOCHI-682018
631	210122	MR. AASHISH ARJUN SINGH B-517, CARLTON TOWERS AIRPORT ROAD BANGALORE-560008
632	210133	MR. NANDA KISHORE M NO 25/13 CHITRAKULAM NORTH STREET MYLAPORE CHENNAI-600004
633	210139	MS. UMA SANKARI PRAKASH SHIVAM NO 2 IV CROSS ROAD R A PURAM CHENNAI-600028

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
634	210197	MR. CHANDRAKANT VENKATESH RAIKAR NO.2110 FIRST FLOOR 14TH MAIN ROAD; 9TH CROSS H A L THIRD STAGE KODIHALLI BANGALORE-560008	645	210565	MR. KRISHNAN B M ASST.MANAGER-FINANCIAL PLANNING GE CAPITAL INTERNATIONAL SERVICES 99 SURYA PARK RING ROAD ELECTRONIC CITY BANGALORE-561229
635	210282	MS. DHANALAKSHMI S NO 87 BEST COUNTY 3, 3RD MAIN HESARGHATA ROAD BEHIND SAMBHRAM COLLEGE VIDYARANYAPURA P O BANGALORE-560097	646	210566	MR. MURALI KRISHNA C C/O MR.P VIJAYA RAGHAVAN FLAT NO.202 VANKA CASTLE WAHAT NAGAR SIKH VILLAGE SECUNDERABAD-500009
636	210309	MR. SATYANARAYANA BARU G-101, SRISAI DATTA APARTMENTS SRINIVASA COLONY EAST AMEERPET HYDERABAD-500038	647	210617	MR. RANJITH SIVARAM P O BOX 9261 DUBAI U.A.E
637	210322	MR. KRISHNA PRAVIN KUMAR V 12-C LOGANATHAN STREET SRI KRISHNAPURAM AMBATTUR CHENNAI-600053	648	210717	MR. RAVI K NO 260 5TH B-1 MAIN ROAD REMCO LAYOUT VIJAYNAGAR BANGALORE-560040
638	210335	MS. JENIN MÜLAKKAN EDAPPALLY P O KOCHI-682024	649	210722	MS. BINDU NAIR MADRAS SEVA SADAN # 7 HARRINGTON ROAD CHETPUT CHENNAI-600031
639	210345	MR. KRISHNA KUMAR AGARWAL 3-6-69/4/1 BASHEER BAGH HYDERABAD-500029	650	210798	MR. CHAKKA VENKATA RAJESHWAR 13 (OLD NO.12) FLAT NO.'C' DHANAKODI AMMAL STREET KODAMBAKKAM CHENNAI-600024
640	210403	MR. SUNDER RAM N FLAT NO 106 GARONDA KANAKA LAXMI APARTMENTS PADMA RAO NAGAR SECUNDERABAD-500025	651	210809	MR. SOMA PAVAN KUMAR C/O MR.N VASUDEVA REDDY 8-2-704/24/B SAI ENCLAVE PLOT NO 24 ROAD NO.12 BANJARA HILLS HYDERABAD-500018
641	210428	MR. SUNIL KUMAR DHARESHWAR 817 SHREE SHAKTI MAHADESHWARA LAYOUT CHOLANAYAKAHALLI R T NAGAR BANGALORE-560032	652	210813	MR. YOGESH BHANSALI K P M G P O BOX 7613 ABU DHABI U.A.E
642	210432	MR. SURESH DEVADAS 37 2ND AVENUE INDIRA NAGAR ADYAR CHENNAI-600020	653	210862	MR. GOPAL R ASSISTANT CONTROLLER TRAMPARTATION 2901 EAST LAKE ROAD, ERIE P A-16507 U.A.E
643	210433	MR. PADMANABHAN N ASSISTANT MANAGER - FINANCE SATYAM COMPUTER SERVICES LTD 18, C P RAMASWAMY ROAD ALWARPET CHENNAI-600018	654	210866	MR. BANUDAS ATHREYA T P PLOT NO 432, V CROSS, I MAIN BHARATNAGAR JRD TATA NAGAR SAHAKAR NAGAR POST BANGALORE-560092
644	210475	MR. SRINIVAS VENNETI B1, GF, ASHIRWAD APARTMENTS CHANDRAMOULIPURAM VIJAYAWADA-520010	655	210877	MR. VEERAPPAN S # 03-585, BLOCK 3236 SENGKANG EAST WAY SINGAPORE-543 323

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
656	210893	MR. JOE MATHEW CHIEF ACCOUNTANT WALLFINA ECOM SERVICES FZLLC P O BOX: 500310 DUBAI INTERNET CITY DUBAI U.A.E	669	211301	MR. DELLI BABU YENDLURI D NO 14-54, KAMATHAMPALLE CHITTOOR DISTRICT PAKALA POST-517112
657	210911	MS. NEELIMA BALA Y 6-3-609/19 ANAND NAGAR KHAIRATABAD HYDERABAD-500004	670	211343	MR. SANDEEP SURANA C/O H C HIRAWAT PLOT NO 13, EVEREST COLONY LAL KOTHI TONK ROAD JAIPUR-302015
658	210942	MS. PASUPULETI PREMA LATHA 14-131, P & T COLONY DILSUKH NAGAR HYDERABAD-500060	671	211376	MR. SREEKANTH N V S N FLAT NO 202 VAISH RESIDENCY ROAD NO 10 BANJARA HILLS HYDERABAD-500034
659	210994	MR. RAJ MOHAN N 38-13/9 PLOT NO 37 VINOBBHANAGAR COLONY SAINIKPURI SECUNDERABAD-500094	672	211427	MS. MEENAKSHI R ASSOCIATE SATYAM COMPUTER SERVICES LTD. OHRI TOWERS NEW NO.9-1-154 SEBASTIN ROAD SECUNDERABAD-500003
660	211017	MS. SUDHA V 7TH FLOOR, LINGAPUR HOUSE HIMAYATH NAGAR SECUNDERABAD	673	211440	MR. SATYA SAIG V S S D NO:16-11-485 ABOVE TRINETHRA SUPER MARKET PRASHANT COMPLEX DILSUKH NAGAR HYDERABAD-500035
661	211055	MS. REVATHI KOVVURI 2ND FLOOR L B BHAVAN SOMAJIGUDA HYDERABAD-500003	674	211449	MR. RATNAKAR TANKALA CREDIT SUPPORT OFFICER ING VYSYA BANK LIMITED SUPER BAZAAR BUILDINGS VISAKHAPATNAM-530001
662	211056	MR. SAKET BHARTIA 20/2 VITTAL MALLYA ROAD BANGALORE-560001	675	211517	MS. NITA D SHAH #1308 1ST FLOOR 2ND CROSS 24TH MAIN K H B COLONY OPP TO BESCOM OFFICE BANGALORE-560079
663	211097	MR. ANJIREDDY K QTR NO.2 B R COMPLEX KASI PET NELLORE DISTRICT VENKATAGIRI-524132	676	211544	MR. BIBHUTI BHUSAN BARIK AREA OPERATIONS MANAGER ICICI BANK LIMITED RAPG DIVISION I FLOOR., NO 87-91 L P COMPLEX, SIDHANANDHA NAGAR PONDICHERRY-605003
664	211150	MR. THRIVIKRAM REDDY CHINTALA 9/696 ALMASPET CUDDAPAH-516001	677	211550	MR. DEEPAK NAIKWADI S NO G 15/5 KEMPANNA STREET SUSHEELA ROAD DUDDA MAVALLI BANAGALORE - 560004
665	211176	MR. JANARDHANA GUPTA S DOOR NO 10-15-1A KOTA KOMMALA LAYOUT TIRUPATI-517501	678	211596	MR. SATYANARAYANA BARATAM FLAT NO 205 10-216/1 SVS APARTMENTS RAGHAVENDRA TEMPLE LANE SRI VENKATESWARA NAGAR, MALKAJGIRI HYDERABAD-500047
666	211218	MS. PRIYA RAMACHANDRAN SENIOR AUDITOR BEHL, LAD & AL SAYEGH CHARTERED ACCOUNTANTS P O BOX 25709 DUBAI U.A.E			
667	211231	MR. KRISHNA KISHORE MALISETTY 102 GOWRI APARTMENTS HIMAYATH NAGAR HYDERABAD-500029			
668	211282	MS. BIJI RAVINDRAN NO 5 BHUVANESWARI NAGAR SELAIYUR P O CHENNAI-600073			

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
679	211614	MS. SHRUTHI GUPTA 1624 FIRST FLOOR EAST END MAIN ROAD 9TH BLOCK JAVANAGAR BANGALORE-560069	690	212139	MS. ARCHANA D NO 234 'RAMAKRUPA' 'C' ROAD KALAPPA BLOCK SRINAGAR BANGALORE-560050
680	211664	MS. KOMATHI K 135 M S KOIL STREET ROYAPURAM CHENNAI-600013	691	212143	MS. RAMA S F-01, HIMAVAN APARTMENTS BLOCK II, COCONUT GARDEN NAGARABHAVI MAIN ROAD NAGARABHAVI BANGALORE-560072
681	211710	MR. HARI KRISHNA P A-59 RAILWAY QUARTERS KACHEGUDA HYDERABAD-500027	692	212239	MR. MOHAN RAMACHANDRAN BANK HOUSE CHITTOOR ROAD ERNAKULAM DISTRICT KOCHI-682035
682	211875	MR. JOE JOHN BADER & CO PWC P O BOX 20174 SAFAT 13062 KUWAIT INVESTMENT CO BUILDING KUWAIT	693	212247	MR. VAMSHIDHAR G 8TH FLOOR DBS WESTMINISTER BUILDING 108 R K SALAI CHENNAI-600004
683	211887	MR. SATH VEDHA NARAYANAN R NEW NO 11 OLD NO 9 I FLOOR, SAMBASIVAM STREET T NAGAR CHENNAI-600017	694	212266	MR. CHANDAN MOHAPATRA BRANCH CREDIT MANAGER ICICI HOME LOAN ICICI BANK, 3RD FLOOR EMGEE SQUARE, PADMA JUNCTION KOCHI-682035
684	211940	MR. SUBRAMANI P 34, SECOND STREET RAJAJI NAGAR VILLIVAKKAM CHENNAI-600049	695	212326	MR. JAGAN K 4/8/12 SHANMUGAM STREET METTUPALAYAM-641301
685	212017	MS. GOWRI J 65 P DEVI APARTMENTS BLOCK II III FLOOR KRISHNASWAMY ROAD COIMBATORE-641001	696	212333	MR. SRIDHARA M G NO 95, 4TH CROSS VINAYAKA LAYOUT VIJAYANAGAR BANGALORE-560040
686	212030	MR. MONESH D MOHAN A-503 SANGEETHA APTS. VCROSS MALLESWARAM BANGALORE-560003	697	212380	MR. VIVEK VARADAN 1302-B - BRENTWOOD HIRANANDANI GARDENS SHANKARACHARYA MARG POWAI, MUMBAI - 400076.
687	212102	MR. RAJASEKHAR GUMMADAPU H NO. 1-2-593/3/A # A-7 RAGHAVENDRA KRIPA APTS DOMALGUDA GAGANMAHAL COLONY HYDERABAD-500029	698	212385	MR. RAJESH KHANNA V MANAGER - FINANCE SHV ENERGY PRIVATE LIMITED IV FLOOR, SUPER GAS HOUSE, SDE SERENE CHAMBERS 8-2-334, ROAD NO 7, BANJARA HILLS HYDERABAD-500034
688	212125	MR. VENUGOPALA SWAMY VARANASI D NO.32-101 MAIN ROAD BAZAR CENTRE VIZIANAGARAM DISTRICT BOBBILI-535558	699	212395	MR. AMIT GULATI MANAGEMENT - TRAINEE M/C BIOCON INDIA LTD 20TH KM, HOSUR ROAD ELECTRONICS CITY P O BANGALORE-561229
689	212131	MS. JYOTSNA PRIYA 23-6-851/2 SHAH ALI BANDA HYDERABAD-500065	700	212430	MR. KIRAN KUMAR KAZA 29 BAGYALATHA COLONY VASANTHALIPURAM HYDERABAD-500070

S.No.	MRN	Member Name & Address
701	212448	MR. RAMAKRISHNA CHOWDARY M VENTURU RAYAVARAM MANDALAM EAST GODAWARI DISTRICT RAMACHANDRAPURAM-533255
702	212492	MR. RANGAPPA S NO 73 III FLOOR EZZI MANSION S I P ROAD BANGALORE-560002
703	212562	MR. JASWANT KUMAR SETHIA M/S EMAMI LIMITED EPIP COMPLEX AMINGAON GUWAHATI-781031
704	212564	MR. DEVIAH M C II FLOOR WESCAR TOWERS CHENATOPH ROAD TEYNAMPET CHENNAI-600018
705	212572	MR. BALASUBRAMANIAN K VISWAMS APTS 1ST FLOOR 25 SRIPURAM 1ST STREET ROYAPETTAH CHENNAI-600014
706	212576	MR. RAGHUNATHAN S APT 1409 114 HILL CREST APARTMENT MISSISSAUGA ONTARIO-L5B 3Y9 CANADA
707	212629	MS. RHENA TUCKER JUNIOR FINANCIAL ANALYST GLOBAL REALTY OUTSOURCING INDIA PVT LTD 304 RAHEJA TOWERS 177 ANNA SALAI CHENNAI-600002
708	212649	MR. LAKSHMI NARAYANAN D 19/10, ABRACALM LINCALN STREET NAZEER AVENUE CHITLAPAKKAM CHENNAI-600064
709	212698	MR. VENKATA NARASIMHA SHARMA MUNUKUTLA 6-I-132/66 S V ARCADE PLOT NO IIA, PADMARAO NAGAR NEAR SCANDAGIRI TEMPLE SECUNDERABAD-500061
710	212715	MR. SATYANARAYANA Y V OFFICER - FINANCE & ACCOUNTS RELANCE INDUSTRIES LTD, BW 120, 4TH FLOOR PETROLEUM HOUSE, DHIRUBHAI AMBANI KNOWLEDGE CITY KOPARKHAIRNE NAVI MUMBAI-400709

S.No.	MRN	Member Name & Address
711	212756	MR. PARAMESHA S R # 1173/15 SIDDALINGA NILAYA BAJANNA LANE VISHNUVARDANA ROAD CHAMARAJAPURAM KARNATAKA MYSORE-570005
712	212832	MS. ANUSHA C FLAT I-C NEW NO 10 (OLD NO 27) COATS ROAD I-C GANDHARVA COURT T NAGAR CHENNAI-600017
713	212908	MR. SRIKANTH P G 3/13 VENKATAPURAM COLONY TALUK OFFICE ROAD SAIDAPET CHENNAI-600015
714	212928	MS. LAKSHMI PENDYALA H NO 1-8-100/3/B ROAD NO 4 VIDYUT NAGAR NEW DILSUKH NAGAR HYDERABAD-500060
715	212950	MR. GANESH CHANDRA BANIYA #135 SRI CHAKRA PIPE LINE ROAD 11TH CROSS MALLESWARAM (BEHIND CANARA BANK) BANGALORE-560003
716	212990	MR. MALLIK ARUN BULUSU 101, 6-3-596/51/A VISHWA SAI RESIDENCY VENKATA RAMANA COLONY KHAIRATABAD HYDERABAD-500004
717	213015	MR. PRABHAKAR C/O MR N N SHARMA FLAT NO SI FIRST LANE APPU STREET MYLAPORE CHENNAI-600004
718	213084	MR. RAKESH KUMAR AGRAWAL C-307 JEEVAN VISAKHA APARTMENTS M M T C COLONY SEETHAMADHARA VISAKHAPATNAM-530013
719	213086	MR. VISHAL SISODIA 204 SIRI SNEHA SAMPADA APARTMENTS 7-1-282 S R NAGAR HYDERABAD-500038
720	213112	MS. HUMERA MUNWAR H NO 5-4-109 KAMALANAGAR VANASTHALIPURAM HYDERABAD-500070

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
721	213127	MR. SATEESHKUMAR TAMMANA AYYAPPA NILAYAM PERIKI VEEDHI SRIKAKULAM DISTRICT HIRAMANDALAM P O-532459	732	213334	MR. SURENDRA TADIKAMALLA C/O MR T LAKSHMI SUBBIAH D NO 5/134 PATTABHI STREET PRAKASAM DIST MARKAPUR-523316
722	213138	MS. MADHAVI LATHA ATMAKUR F-3 ASHA PUNJ APARTMENTS #35 HIGH SCHOOL ROAD SECRETARIAT COLONY AMBATTUR CHENNAI-600053	733	213429	MR. SHALOM WILFRED DESOUZA 2111, BAGA ROAD KHOBRA VADDO CALANGUTE BARDEZ GOA-403516
723	213165	MR. SUBHASH KUMAR TIBREWAL G-7, SAPTAGIRI MAHARISHI VILLA 13TH MAIN, 5TH CROSS KODIHALLI BANGALORE-560008	734	213451	MR. SREEKANTH. M MUDLAPUR HOUSE STATION ROAD RANIPET BELLARY DISTRICT HOSPET-583201
724	213170	MR. PHILIP T ATHYAL 97 RAMKRISHNAPPA ROAD COX TOWN BANGALORE-560005	735	213454	MR. ANUJ JAIN K-56/5 2ND FLOOR SRI KRISHNA APARTMENTS ANNA NAGAR EAST CHENNAI-600102
725	213180	MR. CHALAPATHI V V S 307, SATYASAI APARTMENTS SREENIVASANAGAR COLONY EAST AMEERPET HYDERABAD-500038	736	213523	MR. SAMBASIVA REDDY GUJJULA H NO.42-669/3 CHANDABAGH MOULALI HYDERABAD-500040
726	213220	MR. KARTHIK T R N FLAT NO. 304, 1-8-528 JANAKIRAMAN APARTMENTS CHIKKADPALLY HYDERABAD-500020	737	213527	MR. RAJKUMAR SHANBHOGUE 'RAM-SUNDER' SHENOY COMPOUND VOLKADU UDUPI-576101
727	213242	MR. ANTONY EDGAR FLAT NO 2 VASANTH APARTMENTS NO 2 CHARI ROAD SHENOY NAGAR CHENNAI-600030	738	213616	MR. MURALI K G2 SYLVAN CASTLE APARTMENTS 10/13 NERKUNDRAM ROAD CHINMAYA NAGAR CHENNAI-600111
728	213254	MS. CHITRA M C/O DR. E. NARAYANAN D-2, JAYANAGAR RESIDENCY 30TH CROSS, 3RD BLOCK JAYANAGAR BANGALORE-560041	739	213652	MS. ARTI R MAHER 847 P H ROAD 17A ANAND APARTMENTS KILPAUK CHENNAI-600010
729	213258	MR. SHETTI B BADRINATH ASSURANCE CONSULTANT BRISK CORPORATE SERVICE PVT LTD FLAT NO 2-C, 2ND FLOOR J P GREENLAND APT NO 5/9 5TH STREET NANDANAM CHENNAI-600035	740	213731	MR. BIJU R OUROORKONAM CHERUKKARAM PULLAYIL P O TRIVANDRUM DISTRICT KILIMANOOR-695601
730	213261	MR. CHANDRA SEKHAR KHAJA H NO 9-7-84 KAMAN BAZAR KHAMMAM-507001	741	213736	MS. RUPA S ERP CONSULTANT SATYAM COMPUTER SERVICES LTD SATYAM CYBER SPACE, SURVEY NO 12P KONDAPUR VILLAGE, SERILINGAMPALLY MANDAL, R R DISTRICT HYDERABAD
731	213332	MR. SUDHIR V L 17/1 OPP PRABATH JAIN TEMPLE ROAD V V PURAM BANGALORE-560004			

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
742	213773	MR. SURENDRANADH NALLURI D NO 6-10-7/1 FIRST FLOOR 10/2 ARUNDELPET GUNTUR-522002	752	214203	MR. GOKUL NATH B 615, 3RD LINK, 8TH CROSS S I T EXTENTION TUMKUR-572103
743	213861	MR. VARUN LODHA 106 DHARMAPURAM FOURTH STREET T NAGAR CHENNAI-600017	753	214228	MR. CHITTA RANJAN PARIDA NO 25/2, BALAJI LAYOUT 16TH MAIN, 5TH CROSS PADMANABNAGAR BANGALORE-560070
744	213865	MS. PRIYA JS 6/36 PONNEGOUNDEN PUDUR P O S S KULAM VIA COIMBATORE-641107	754	214263	MR. SHASHIKUMAR SEWARAMJI BADMERA C/O RAMAVTARJI SONI 23-6-918/10 SHAH ALI BANDA RAJA RAY RAYAN KI DEOLI HYDERABAD-500002
745	213876	MS. PERI NEERAJA ASSISTANT MANAGER LOVELOCK & LEWES SERVICES PVT LTD 2ND FLOOR ST PATRICKS BUSINESS COMPLEX 22 MUSEUM ROAD BANGALORE	755	214277	MS. KAVITHA S SUDHA NIVAS, NO 15 BHARATHIYAR STREET SOOLAI MA NAGAR THORAIPAKKAM CHENNAI-600096
746	213897	MR. VIKAS GOLCHHA FLAT NO.502, EVEREST BLOCK ADITYA ENCLAVE AMEERPET HYDERABAD-500016	756	403282	MR. SETHIA VIKAS FINANCIAL ANALYST C/O KSK ENERGY VENTURES LIMITED 8-2-293/82/A/431/A ROAD NO 22 JUBILEE HILLS HYDERABAD-500033
747	213903	MS. LAKSHMI K SRI HARI FLATS 22/2 A G S COLONY II CROSS STREET KOTTIVAKKAM CHENNAI-600041	757	500762	MR. LADHA SHREYASH J P SHIV-VANI TOWELL OIL & GAS COLL C P O BOX 861 P C 112 RUWI SULTANATE OF OMAN
748	213927	MR. SHARATH KUMAR P # 269, FIRST FLOOR DOUBLE STOREY NEW RAJINDER NAGAR NEW DELHI-110060	758	500979	MR. SHARMA SHANTANU AL-169, IST STREET 11TH MAIN ROAD ANNA NAGAR CHENNAI
749	213963	MR. SRINIVAS A R #207, "SOWMYA SPRINGS" DEWAN MADHYA ROAD BASAVANAGUDI BANGALORE-560004	759	501193	MS. GOWDA DIVYA FINANCIAL ANALYST - PRICING IBM INDIA LIMITED SUBRAMANYA ARCADE NO 12 BANNERGHATTA MAIN ROAD BANGALORE-560029
750	213999	MR. PAI SANJAY VISHNU 1/5, 2ND CROSS 2ND FLOOR CAMBRIDGE ROAD ULSOOR BANGALORE-560008	760	502409	MR. SRIVATS GABRIEL INDIA LTD 52-55, S NO 102/3-106 (PT) SIPCOT INDUSTRIAL COMPLEX PHASE-II MORANAPALLI VILLAGE HOSUR-635109
751	214044	MR. SUDHEER SATYAPAL S C/O MR M DATTATRI RAO H NO 8-3-228/A/1/F YOUSUFGUDA CHECKPOST RAHMATHNAGAR ROAD HYDERABAD-500045			

ASHOK HALDIA/
SECRET/RY

Chennai-600 034, the 19th July 2006

(Chartered Accountants)

3SCA(8)/2/2004-2005 : In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10 (1) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S No.	MRN	Member Name & Address	Cancel	Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel	Dt.
1	002451	MR. RAY ANUPAM CHANDRA FCA FLAT NO.4 L'AVENIR APARTMENTS 1 108 PAPPAMAL KOIL STREET KURUCHIKUPPAM PONDICHERRY-605012	01/04/2004		9	009208	MR. KATHIRESAN L FCA 22 KAMARAJAR ROAD RAMAKRISHNA-NAGAR CHENNAI-600087	31/03/2004	
2	004412	MR. CHANDRASEKARAN N FCA -SAI DEEPAM- 61 I MAIN ROAD BESANT NAGAR CHENNAI-600090	18/01/2005		10	009256	MR. VENKATAPPAYYA SASTRY K FCA 194 FIRST CROSS STREET NATESA NAGAR VIRUGAMBAKKAM CHENNAI-600092	31/03/2004	
3	004598	MR. SRINIVASA RAGHAVAN FCA PLOT NO. 80 D NO. 29 RAJENDRAN STREET THIRUNAGAR VALASARAVAKKAM CHENNAI-600087	31/03/2004		11	009763	MR. BADRI NARAYANAN N ACA 77/1 BHEEMANNA MUDALI STREET ALWARPET CHENNAI-600018	01/04/2004	
4	004873	MR. TARAPOREVALA N ACA PLOT NO.16 3-39-42 SARVASUKHI COLONY WEST MARREDUALLY SECUNDERABAD-500026	31/03/2004		12	009926	MR. GOPALAKRISHNAN P V ACA GROUP INTERNAL AUDIT MANAGER NEEL KAMAL GROUP POST BOX 2409 DUBAI-U.A.E	01/04/2004	
5	006692	MR. RAHMAN KHAN K FCA 200/C, III BLOCK VII MAIN, JAYANAGAR BANGALORE-560011	22/05/2004		13	010033	MR. SRINIVASAN S FCA PLOT NO.12, (DOOR NO.18) 10TH CROSS STREET A G'S COLONY WEST VELACHERY CHENNAI-600042	01/04/2004	
6	006926	MR. KRISHNAMURTHY R ACA 14 SARAVANA NEW NO 348 (OLD 243) TTK ROAD ALWARPET CHENNAI-600018	31/03/2004		14	012556	MR. NARASIMHA RAO BADDI REDDI ACA 81-17-1 SRI VENKATESWARA NAGAR JAWAHAR LAL NEHRU ROAD RAJAMAHENDRAVARAM-533103	01/04/2004	
7	007031	MR. GOPINATHAN T FCA MANJALIPARAMBU ERNAKULAM DIST CHOWARA-683571	01/04/2004		15	012583	MR. SESHAN C R ACA ABHIRAMI APARTMENTS FLAT (4) 26 (OLD NO.18) I STREET ABHIRAMAPURAM CHENNAI-600018	31/03/2004	
8	007499	MR. THOMAS GEORGE ACA PLOT NO. 1080(NEW NO. 169) 6TH AVENUE ANNANAGAR CHENNAI-600040	31/03/2004		16	012698	MR. PRATAP SATCHIDANAND NARGUNDKAR FCA 8-2-693/2/39, MITHILANAGAR COLONY ROAD NO 12 BANJARA HILLS HYDERABAD-500034	25/10/2004	

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
17	014635	MR. KALYANASUNDARAM G ACA QF-1 VAJRA APARTMENTS BYE-PASS ROAD MADURAI-625010	01/04/2004	28	019710	MR. SANKARA VENU GOPALA RAO FCA SENIOR MANAGER ANDHRA BANK ZONAL OFFICE SVU CAMPUS TIRUPATI-517502	07/06/2004
18	015598	MR. BALAKRISHNAN P V FCA B-10, RAGAMALIKA APARTMENTS NO 2, JEEVARATHINAM NAGAR ADYAR CHENNAI-600020	14/07/2004	29	019729	MR. SIDDHARTHA B FCA FIRST FLOOR NO 32/2, V MAIN ROAD CHAMARAJAPET BANGALORE-560018	01/04/2004
19	016249	MR. PALANISAMY M FCA PLOT NO 30 INDANE NAGAR JAGIR REDDYPATTI SALEM-636302	31/03/2004	30	019750	MR. NAGARAJAN R FCA 'AHIRWAD' 1088 L N REDDY GARDENS KARINAYAPALAYA, ST. THOMAS TOWN PO BANGALORE-560084	01/04/2004
20	018552	MR. KRISHNAMURTHY S ACA 2 C WEST MADA STREET SRINAGAR COLONY SAIDAPET CHENNAI-600015	01/04/2004	31	020282	MR. LAKSHMANAN A N FCA NO 2/14 CHOKKALINGAPURAM 1ST STREET PUDUKKOTTAI DISTRICT RAYAVARAM P O	31/03/2004
21	018576	MR. UMA MAHESHWAR FCA 355 I B MAIN I CROSS JAYANAGAR 7TH BLOCK WEST BANGALORE-560082	31/03/2004	32	020578	MR. NARAYANAN R FCA FLAT # 14 II FLOOR VISHWA KAMALAPARTMENTS 245 R K MUTT ROAD MYLAPORE CHENNAI-600004	09/06/2004
22	018989	MR. APPA RAO V FCA PLOT NO. 36 P&T COLONY OPP RTA OFFICES TRIMULGHERRY SECUNDERABAD-500015	01/04/2004	33	020654	MR. JAYAKUMAR Y FCA NO.20 (OLD NO.17) DEVAKIAMMAL STREET CHENNAI-600030	29/06/2004
23	019146	MR. SOMAYAJULU D A FCA 6-1-85/4 SAIFABAD HYDERABAD-500004	17/06/2004	34	021368	MR. MANOHARAN G FCA DIRECTOR (FINANCE) RAGHU RAMA RENEWABLE ENERGY LTD PLOT NO 30-A, ROAD NO 1 FILM NAGAR, JUBILEE HILLS HYDERABAD-500033	01/05/2004
24	019175	MR. RAJAGOPAL V FCA FLAT NO.2A PADMASHREE APARTMENT DOOR NO.34 JAYALAKSHMIPURAM FIRST STREET NUNGAMBAKKAM CHENNAI-600034	22/03/2004	35	021612	MR. GIRIDHARI S ACA NEW NO 35 (OLD NO.15) SANTHOME HIGH ROAD MYLAPORE CHENNAI-600004	01/04/2004
25	019277	MR. MAHABALESWARAPPAI FCA KAIKONDRAHALLI CARMELRAM POST BANGALORE-560035	31/03/2004	36	021046	MR. RAVI KUMAR R ACA SECRETARY & FINANCIAL CONTROLLER EASUN-MR TAP CHANGERS (P) LTD. NO.232 M T H ROAD TIRUNINRAVUR CHENNAI-602024	01/04/2004
26	019337	MR. VARGHESE T P FCA 301-2339, PARK TOWER AVE MISSISSAUGA ONTARIO-L5A1P8 CANADA	23/07/2004	37	022030	MR. JAMES JOHN ACA A-2 ALSA TOWERS 187 P H ROAD KILPAUK CHENNAI-600010	31/03/2004
27	019685	MR. RAMAN V K FCA CHIEF FINANCIAL OFFICER ROYAL SUNDARAM ALLIANCE INSURANCE CO. LTD 'SUNDARAM TOWERS' #46 WHITES ROAD CHENNAI-600014	01/04/2004				

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
38	022033	MS. ANURAOHA J ACA FLAT NO.3 NEW NO.15 POSTAL COLONY 3RD STREET WEST MAMBALAM CHENNAI-600033	01/04/2004	49	024441	MR. JETTY SRINIVAS SANJAY NATH FCA 317 SWAPNALOK 3RD FLOOR SAROJINI OEBI ROAD SECUNOERABAD-500003	25/03/2004
39	022086	MR. RAMAIAH G FCA 301 BHASKAR ENCLAVE NAGARJUNA NAGAR AMEERPET HYOERABAD-500073	31/03/2004	50	024452	MR. SHEKAR R ACA D-7 AASHIANA APARTMENTS 9 VENUS COLONY 11 CROSS STREET, A1 WARPET CHENNAI-600018	31/03/2004
40	022359	MR. RAVI R ACA NEW NO 84 [OLD 81] THIRO STREET TATABAD COIMBATORE-641012	01/04/2004	51	024509	MR. LAKSHMINARAYANAN V ACA POST BOX NO.2 GABORONE BOTSWANA	13/12/2004
41	022473	MR. KANAKRAJ JAGAWAT FCA 195, GOVINOAPPANAICKEN STREET UMAJI COMPLEX 1 FLOOR CHENNAI-600001	22/04/2004	52	024537	MR. KALIKI VIJAYULU REDDY FCA 6-3-609/195 ANANO A NAGAR KHAIRTABAD HYOERABAD-500004	01/07/2004
42	022760	MR. PRABHAKAR V ACA FLAT NO 17/4 ANURAGA APARTMENTS 8TH CROSS STREET SHASTRINAGAR ADYAR CHENNAI-600020	01/04/2004	53	024600	MR. VENKATESH A N ACA NO 383 5TH MAIN, 3RD STAGE 3RD PHASE 2ND BLOCK BANASHANKARI BANGALORE-560085	31/03/2004
43	022885	MR. CEDRIC REGO ACA 49/8 CHARLES CAMPBELL ROAD EXTENSION COX TOWN BANGALORE-560005	15/09/2004	54	024620	MR. NAROTHAM RAO P FCA 6-3-655/2/4 CIVIL SUPPLIES BHAVAN LANE SOMAJIGUOA HYOERABAD-500082	14/08/2004
44	023307	MR. SABANAYAGAM G FCA FLAT NO.202 PANORAMA APARTMENTS PLOT NO.1-11-252/47 & 48 MOTILAL NAGAR BEGUMPET HYOERABAD-500016	03/09/2004	55	024668	MR. RAVIKUMAR S FCA PLOT 42/18 SECOND MAIN ROAD KALAIMAGAL NAGAR CHENNAI-600097	17/09/2004
45	023463	MR. GOVINORAJAN K FCA 9-4-84/52 KAKATIYA NAGAR HYOERABAD-500008	01/04/2004	56	024931	MR. PRAKASH R FCA NEW NO 13 (OLD NO 6) SRI VENKATAGIRI TRUSTPAKKAM SOUTH STREET R A PURAM CHENNAI-600028	19/08/2004
46	023630	MR. PRASAO RAO V K FCA 8-3-167/0/7/2, LAKSHMI NAGAR C/O OR. LAKSHMI OPP: CANARA BANK KALYAN NAGAR BRANCH HYDERABAD-500038	01/04/2004	57	024981	MR. VENKATARAMANAN K FCA G M FINANCE TATA TEA LTD PACKET TEA DIVN M E S ROAD P B NO 2286 YESHWANTPUR BANGALORE-560022	31/03/2004
47	023684	MR. SHEKAR N C FCA 4460 TUCANA COURT, #506 MISSISSAUGA ONTARIO-L5R 3K9 CANADA	01/04/2004	58	025008	MR. KRISHNA KUMAR D ACA NO.3 AMBAL FLATS OFFICERS COLONY SATHYAMURTHY NAGAR NEAR KRISHNA APARTMENTS MOGAPPAIR CHENNAI-600050	11/08/2004
48	023841	MR. SUNDARA RAJAN V K FCA 15 19TH CROSS NEXT TO KASI MUTT MALLESWARAM BANGALORE-560055	01/04/2004	59	025247	MR. OSOUZA TREVOR DALTON PETER ACA ST ANTHONY'S FRIARY 85 HOSUR ROAD BANGALORE-560095	10/02/2005

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
60	025515	MR. BHAT BALAJI V FCA #302, 2ND FLOOR EMBASSY ORCHID 8TH MAIN, RMV EXTN. BANGALORE-560080	01/10/2004	70	027232	MR. SUBRAMANIAN R V FCA FINANCE MANAGER SEVER STAR TRADING (S) PTE LTD 156 CECIL STREET #06-09 FAR EASTERN BANK BUILDING SINGAPORE-069544	01/04/2004
61	025527	MS. SAVITHRI V ACA FLAT 203 'KOWSAL REGENCY' 1854/1 1ST CROSS 3RD STAGE RAJAJINAGAR BANGALORE-560021	31/03/2004	71	027415	MR. HARIHARAN B ACA 185, SAI NAGAR SECOND MAIN ROAD VIRUGAMBAKKAM CHENNAI-600092	29/03/2004
62	025684	MR. MAHAVEER CHAND FCA NEW NO. 54 OLD NO. 137 NORTH USMAN ROAD T NAGAR CHENNAI-600017	16/11/2004	72	027460	MR. AJITHKUMAR S FCA MANAGER-FINANCE & ADMINISTRATION AL DHAFRA INSURANCE COMPANY P S C P B NO.319 ABU DHABI-U.A.E	01/04/2004
63	026015	MR. RANGANATHAN R FCA 19, BALAJI NAGAR II STREET ROYAPETTAH CHENNAI-600014	01/07/2004	73	027517	MR. SRINIVASAN K R FCA 1221/5 AMETHYST ARCADE 20TH MAIN ROAD ANNA NAGAR WEST CHENNAI-600040	25/06/2004
64	026235	MR. VENKATESWARA RAO K FCA PLOT NO 66 AYYAPPA SOCIETY MADHAPUR JUBILEE HILLS EXTN HYDERABAD-500081	01/10/2004	74	027592	MS. CHARUTHARAKESHWAR FCA FLAT NO 9, DR. VEDAIYAN VILLA 8, 15TH CROSS STREET SHASTRI NAGAR ADYAR CHENNAI-600020	19/08/2004
65	026618	MR. SUNDAR A M FCA 308, 24TH CROSS, 9TH MAIN BANASHANKARI II STAGE BANGALORE-560070	14/07/2004	75	027733	MR. SIVAKUMAR R FCA OLD NO 11, NEW NO 6 J P STREET WEST MAMBALAM CHENNAI-600033	01/04/2004
66	026643	MR. BALAGURU J ACA ACCOUNTANT ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY P O BOX 3600 OPERATIONS DEPT. ABU DHABI-U.A.E	20/07/2004	76	027793	MR. SUBRAMANIAN R ACA 2J, CHAAND TOWERS 128, LB ROAD TIRUVANMIYUR CHENNAI-600041	31/08/2004
67	026798	MR. RAVISANKAR B ACA S/O MR P V BALASUBRAMANIAN NEW NO.14 (OLD NO.23), ADITYA FLAT GOPALAN MENON ROAD KODAMBAKKAM CHENNAI-600024	15/05/2004	77	027857	MR. SUBASH M FCA FLAT E9 'CASA GRANDE' NO.49 ELLIAMMAN KOIL STREET CHENNAI-600020	23/05/2004
68	026800	MR. CHANDRAMOULI G FCA RAJ MAJOR FLAT NO G-2 25 EAST ROAD WEST CIT NAGAR NANDANAM CHENNAI-600035	31/03/2004	78	028111	MR. KARTHIKEYAN G FCA 399 ALAGESAN ROAD SAIBABA COLONY COIMBATORE-641001	19/08/2004
69	027092	MS. CHITRA PRASAD ACA 134E TUNGABADRA STERLING ROAD NUNGAMBAKKAM CHENNAI-600034	31/03/2004	79	028156	MR. NARASIMHA REDDY C FCA NO 6, BANGALORE DAIRY QUARTERS DR.M H MARIGOWDA ROAD BANGALORE-560029	01/04/2004
				80	028157	MR. SRINIVASAN K ACA 11/6 B-2 RANGANATHAN FLATS NALLAPPA STREET NEHRU NAGAR CHROMEPET CHENNAI-600044	01/04/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
81	028363	MR. SURYA NARAYANAN S FCA SWAMIANUGRAHA NO. 26/62 MURTHY STREET WEST MAMBALAM CHENNAI-600033	01/04/2004
82	028384	MR. PRABAKAR B FCA NEW NO. 11 (OLD NO.6) THIRUVENGADAM STREET WEST MAMBALAM CHENNAI-600033	10/01/2005
83	028583	MR. VARGHESE P DAVID FCA INTERNAL AUDITOR QATAR INSURANCE COMPANY P O BOX 666 DOHA-QATAR	26/06/2004
84	028774	MR. RAMESH KAMATH K ACA NO.6, 8TH CROSS ROAD PRASANTH NAGAR BANGALORE-560079	10/12/2004
85	029030	MS. GEETHA A ACA NEW NO. 26 NACHIAPPAN STREET MAHALINGAPURAM NUNGAMBAKKAM P O CHENNAI-600034	01/04/2004
86	029311	MR. KURIAN PHILIP FCA "SUNNY SIDE" KAVIYOOR POST TIRUVALLA-689582	31/03/2004
87	029662	MR. RAMESH P ACA 4/218 SAROJINI STREET E B COLONY IYER BUNGALOW MADURAI-625017	03/01/2005
88	029687	MR. GOWDHAMAN R S FCA 10 SECOND STREET JAYALAKSHMI NAGAR K K NAGAR POST TIRUCHIRAPALLI-620021	16/07/2003
89	029754	MR. NEDUMARAN R FCA A-7 ASIAN TOWERS 97/7 V AVENUE ASHOK NAGAR CHENNAI-600083	30/06/2004
90	029818	MR. VIJAYAKUMAR G FCA NO.205 SAHANA NILAYA NO.5 CHANDRA REDDY LAYOUT S T BED KORAMANGALA BANGALORE-560047	01/04/2004
91	029841	MR. SRIDHAR S ACA 20/130, RAMESWARAM ROAD T NAGAR CHENNAI-600017	01/04/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
92	029856	MR. SAJEEV KUMAR P FCA MANAGER - ACCOUNTS OMAN INVESTMENT & FINANCE CO SAOG P O BOX 2476 P C 112 RUWI SULTANATE OF OMAN	01/04/2004
93	029889	MR. BASKARAN P FCA 2/2, SANJEEVI PILLAI STREET SAINATHAPURAM VELLORE-632001	10/01/2005
94	029947	MR. MANI S FCA 489 JURONG WEST AVENUE I # 07-33 SINGAPORE-640489	25/08/2004
95	029975	MS. VALAMBAL VASUDEVAN FCA S M S FLAT NO.2 17-B SHANTHI NAGAR MAIN ROAD ADAMBAKKAM CHENNAI-600088	31/03/2004
96	033782	MR. SUBRAMANIAM SRINIVAS FCA C/O MR. K S SHANKAR 36 KRISHNA REDDY LAYOUT I PHASE, DOMLUR VILLAGE DOMLUR BANGALORE-560071	31/03/2004
97	037965	MR. GOPALKRISHNAN NARAYANAN ACA 1073 NEW KANTHRAJ URS ROAD T K LAYOUT (NEAR KAVITA DEPTT SOTRES) MYSORE-570023	28/08/2004
98	041303	MS. SABARI V ACA PLOT NO.23 "AKSHAY" LIC OFFICERS COLONY SIKH VILLAGE SECUNDERABAD-500009	11/08/2004
99	042615	MR. SRINIVASARAGHAVAN S FCA INTERNATIONAL ROM LIMITED 33 WILLIAM STREET BZORWULU ACCRA, GHANA	01/04/2004
100	044214	MR. VENKATRAMAN IYER V ACA NEW NO.14 (OLD NO.68) PUSHPAVATHY AMMAL STREET WEST MAMBALAM CHENNAI-600033	31/03/2004
101	052704	MR. DANGI RAJIV KUMAR ACA 2064 16TH D MAIN 1 CROSS HAL II STAGE INDIRANAGAR BANGALORE-560038	01/04/2004
102	053205	MR. VISVANATHAN SURESH ACA MANAGER MANAGEMENT AUDIT CASH BAZAAR HOLDINGS (PTY) LTD PRIVATE BAG 115 GABORONE BOTSWANA-	10/01/2005

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
103	053208	MR. PODDAR SANJAI KUMAR GENERAL MANAGER (F & C) M/S GRASIM INDUSTRIES LIMITED 1ST FL. AHURA CENTRE, MAHAKALI CAVES RD. NEAR MIDL, ANDHERI EAST MUMBAI-400093	FCA 01/04/2004	113	093028	MR. AMITABH, ACA 153, 5TH MAIN, 6TH CROSS K E B LAYOUT SANJAY NAGAR BANGALORE-560094	26/08//2004
104	054881	MR. SURESH SARMA ACA FINANCE MANAGER BABY SHOP WLL POST BOX NO.23003 DOHA-QATAR	31/03/2004	114	104317	MR. RAMACHANDRA BHAT K ACA KOWDOOR MUDU MUTT BAILUR POST UDUPI DISTRICT VIA MANGALORE KARNATAKA STATE KARKALA-574102	01/04/2004
105	056594	MR. AROKIADOSS O K N FCA RECTOR GOOD SHEPHERD SEMINARY POST BOX NO 47 NAGALAND DIMAPUR-797112	27/09/2004	115	104959	MS. RADHAGOPALAKRISHNAN ACA 10/49 ASHEERWAD ROAD NO.2 SION EAST MUMBAI-400022	01/04/2004
106	058693	MR. CHOUDHARY GOVIND KUMAR FCA HOUSE NO 133 BASAVESHWARA LAYOUT 4TH CROSS NAGASHETTYHALLI BANGALORE-560094	12/07/2004	116	106478	MR. DHOOT SHARAD SHYAMSUNDER ACA MANAGEMENT AUDITOR GRASIM INDUSTRIES LTD CEMENT MARKETINC - BUSINESS 5TH FLOOR INDUSTRY HOUSE 45 FAIR FIELD LAYOUT RACE COURSE ROAD BANGALORE-560001	31/03/2004
107	059666	MR. KARTHIK T K ACA NEW NO 8 (OLD NO 17) FIRST STREET NEHRU NAGAR ADAYAR CHENNAI-600020	01/04/2004	117	110170	MS. RAMYA NAGARAJAN ACA C/O S VENKATESH W 342 CHANDRALAYA ANNA NAGAR WEST EXTENSION CHENNAI-600101	24/08/2004
108	062503	MS. SABOO MONISHA ACA 323 MALAPRABHA BLOCK B2 NATIONAL GAMES VILLAGE KORAMANGLA BANGALORE-560095	31/03/2004	118	110288	MS. ANANYA GHOSHAL ACA C/O COL .R.N. GHOSHAL 167, ANTARIKSHA APT BLOCK- H- 3 VIKASPURI NEW DELHI - 110018.	28/04/2004
109	071865	MR. KALIDAS RAO VEDULA ACA 6-3-1200/2 ANISH RESIDENCY UMANAGAR BEGUMPET HYDERABAD-500016	01/04/2004	119	111111	MR. RAJKUMAR GANESHIYER ACA NEW NO 100/3 RAM STREET NUNGAMBAKKAM CHIENNAI-600034	31/12/2004
110	075216	MR. SIVARAMAKRISHNAN V FCA MANAGER-FINANCE APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED LINGIADIH VILLAGE (OFF) SEAPAT ROAD BILASPUR(CG)-495001	09/06/2004	120	113031	MS. PALLAVEE BHASKAR KUMKUM SHAH ACA 305. P - 11 PRESTIGE APARTMENTS OPP : ASHOK NAGAR POLICE STATION SAHDEV MARG, OFF, TILAK MARG, C - SCHEME, JAIPUR - 302005.	01/04/2004
111	079082	MR. MOHATABASANT KUMAR ACA D NO 12 1ST FLOOR 13TH CROSS WILSON GARDEN NEAR WILSON MANON APPARTMENT BANGALORE-560027	30/06/2003	121	114232	MS. DEEPA SANJEEVA ACA C/O NAVEEN KUMAR KRISHNA 56/1 6TH CROSS ANNAYAPPA BLOCK BENSON TOWN BANGALORE-560046	26/08/2004
112	092896	MR. BAIJPAI MANISH FCA FLAT NO.1 FIRST FLOOR NO.2 1ST A CROSS S.R.LAYOUT MURUGESHPALYA BANGALORE-560017	01/04/2004				

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
122	117599	MR. MANOJ PETER ACA AUDITOR TALAL ABU-GHAZALEH & CO (TAGCO) P O BOX 1991 DUBAI-U.A.E	16/12/2004	133	202116	MR. SATHIYANARAYANAN K C ACA G-2 'SOWBHAGYA' NEW NO.14 4TH MAIN ROAD KASTHURIBAINAGAR ADAYAR CHENNAI-600020	31/03/2004
123	200275	MR. RAGHURAMAN V FCA NO.32, 1ST FLOOR PATALAMMA STREET NEAR SOUTH END CIRCLE BASAVANGUDI BANGALORE-560004	01/09/2004	134	202167	MR. GANESH A K ACA 'WIND CHIMES' 21 NEW BEACH ROAD THIRUVANMIYUR CHENNAI-600041	01/04/2004
124	200479	MR. VENKATESWARAN T S FCA 10-1-490 BALARAM BLOCKS WEST MARREDPALLY SECUNDERABAD-500026	02/08/2004	135	202191	MR. MAGANTI CHANDRA MOULI SARMA FCA 41-4-15 METLA BAZAR KRISHNA LANKA VIJAYAWADA-520013	01/12/2004
125	200540	MR. CHYTHANNYA K K FCA NO.32, 1ST FLOOR PATALAMMA STREET NEAR SOUTH END CIRCLE BASAVANGUDI BANGALORE-560004	01/09/2004	136	202302	MS. VINUTHA S PRABHU ACA B-2 C BLOCK THIRD FLOOR PARSN APARTMENTS 109 G N CHETTY ROAD T NAGAR CHENNAI-600017	01/04/2004
126	200738	MR. SATHISH V FCA G-4 DHAKA APARTMENTS NO.11 JEEVARATNAM NAGAR SHASTRI NAGAR ADYAR CHENNAI-600020	31/05/2004	137	202671	MR. SANJAY KARANATH K ACA RESEARCH ANALYST MONGA SECURITIES PVT LTD 503/504, PRESTIGE MERIDIAN II M.G. ROAD BANGALORE-560001	14/06/2004
127	200920	MR. SRIKANTH R FCA FLAT NO 12 BLOCK I ANANYA ASHOK 5 WARRAN ROAD MYLAPORE CHENNAI-600004	27/09/2004	138	202677	MR. GANESAN P FCA 16/F2 RACE VIEW COLONY EXTENSION GUINDY CHENNAI-600032	30/12/2004
128	200949	MR. SARANATHAN P S FCA G 2 SUBHIKSHA MIRA 33/17 3RD STREET EAST ABIRAMAPURAM CHENNAI-600004	01/08/2004	139	202832	MS. KOTTESWARI J ACA 169, VANNIER STREET CHOOOLAIMEDU CHENNAI-600094	01/04/2004
129	201387	MR. RAFEEQ M A FCA P M R SHOPPING COMPLEX M C ROAD PERUMBAVOOR-683542	01/10/2004	140	202940	MR. NANDAKUMAR S ACA NO. 9 9TH STREET NAGAMANI APARTMENTS NANDANAM EXTENSION CHENNAI-600035	31/03/2004
130	201561	MR. NIRMAL KUMAR S M ACA 2-B 2ND FLOOR 'BLUE DANUBE' NEW #82 (OLD #52) 7TH AVENUE ASHOKNAGAR CHENNAI-600083	13/09/2004	141	203059	MS. DEVI S FCA NEW NO 11 (OLD NO 4) 21ST STREET NANGANALLUR CHENNAI-600061	01/04/2004
131	201827	MR. JAISHANKAR S ACA MANAGER FINANCE & ADMIN. KPMG P O BOX 710 MANAMA KINGDOM OF BAHRAIN	24/08/2004	142	203093	MR. GABRIEL GANAPRAKASH BERNARD FCA PLOT NO. 44, OMKAR BUILDING JADAV NAGAR BELGAUM - 590001.	26/12/2003
132	201919	MR. SREE JAGADEESH FCA SREE JAGADEESH AMRITASREE, FLAT NO E-33 RIGHT HOUSE APARTMENT MULLAINAGAR EXTENSION COIMBATORE-641041	30/10/2004				

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
143	203240	MR. RAMACHANDRA RAO D V 6-3-595/1 PADMAVATHI NAGAR KHAIRATABAD HYDERABAD-500004	FCA 01/02/2004
144	203469	MR. RENJIT A G FCA MANAGER (FINANCE & ACCOUNTS) MJVI SDN BHD LOT 4117 SIMPANG 133, P O BOX 150 KUALA BELAIT, BRUNEI.	01/04/2004
145	203514	MS. NIRMALA BHASKAR FCA 5930 COUPLES STREET MISSISSAUGA ONTARIO-L5V2X3, CANADA	15/06/2004
146	203515	MR. BASKAR N ACA HEAD-FINANCE DIRECT ON PC LTD PLOT B, BLOCK-I INPAJU INDUSTRIAL AVENUE LAGOS, NIGERIA	04/02/2005
147	203517	MR. LAKSHMINARAYANAN R FCA 9 HANUMANTHARAYAN KOIL STREET TRIPPLICANE CHENNAI-600005	30/03/2004
148	203787	MS. VIDHI MANIHAR FCA COTTAGE 8-2-686/D/B/22/1 PLOT NO 22, ROAD NO 12 BANJARA HILLS HYDERABAD-500034	01/04/2004
149	203996	MR. SREE KRISHNA RAO V FCA M/S LOVELOCK & LEWES CHARTERED ACCOUNTANTS 14TH FLOOR, C WING, MITTAL TOWERS M G ROAD BANGALORE-560001	04/10/2004
150	204030	MR. JAIKUMAR P FCA UNIT 4/1A, WHITWORTH AVENUE SPRINGVALE VICTORIA-3171 AUSTRALIA	10/01/2005
151	204179	MR. GIRISH K FCA 414 41ST CROSS 7TH MAIN 5TH BLOCK JAYANAGAR BANGALORE-560041	31/03/2004
152	204346	MR. VENKATESH RAO P FCA C2 MADHURIMA APARTMENTS 20/21 CONRAN SMITH ROAD GOPALAPURAM CHENNAI-600086	01/04/2004
153	204352	MS. SRIVIDYA SRINIVASAN ACA B3 67 VIDYA APARTMENTS 2ND MAIN ROAD, GANDHINAGAR ADYAR CHENNAI-600020	10/12/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
154	204429	MR. BOYAPATI RAVI SEKHAR FCA 1601, N SHACKLE FORD ROAD APT # 219 LITTLE ROCK AR U S A-72211	08/10/2004
155	204443	MR. KHANAPUR PRASAD SHARANAPPA ACA FLAT NO 424, 4TH FLOOR A-5, KRISHNA NATIONAL GAMES HOUSING COMPLEX KORAMANGALA BANGALORE-560047	22/12/2004
156	204496	MR. SURESH S ACA NEW NO.8 (OLD NO.D-6) UPSTAIRS RAMAN ENCLAVE NITHYA FLATS LAKSHMI NAGAR 2ND STREET NANGANALLUR CHENNAI-600061	05/01/2005
157	204539	MR. SRINIVASAN VISHAL S N ACA M/S IMTAC LLC 196 MINA AL FAHAL MUSCAT, SULTANAT OF OMAN	11/05/2004
158	204560	MR. PRAMOD PAI ACA ACCOUNTANT E G GREEN AND SONS PTY LTD. P O BOX 492 HARVEY WESTERN AUSTRALIA-6220 AUSTRALIA	20/06/2004
159	204591	MR. SIVAKUMAR V ACA FLAT NO 1 BLOC NO II DOOR NO 4, ANDAVAR NAGAR 4TH STREET KODAMBAKKAM CHENNAI-600024	01/04/2004
160	204622	MR. ARUNKUMAR R FCA 328 SECOND MAIN ROAD BABANAGAR VILLIVAKKAM CHENNAI-600049	30/12/2004
161	204831	MR. RAJU GUPTA P N V ACA 13-10-38 TAGORE STREET TADEPALLIGUDEM-534102	30/11/2004
162	204905	MR. SUNDARAMURTHY K ACA FINANCIAL CONTROLLER DOVE ENERGY LIMITED PO BOX 16910 SANAA REPUBLIC OF YEMEN	31/03/2004
163	204997	MR. SUHAIL AHMED ACA NO.10/47 LAL BEGUM STREET TRIPPLICANE CHENNAI-600005	01/04/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
164	204998	MR. ANIL KUMAR K ACA 403 ASHOK HEIGHTS APTS NO. 11 9TH CROSS SRIKANTESHWARA NAGAR MAHALAKSHMILAYOUT BANGALORE-560096	10/12/2004
165	205007	MR. KOMARAVOLU MADHUSUDHANA RAO FCA M/S STEELMAKERS ZIM PVT LTD P O BOX 120 REDCLIFF ZIMBABWE	31/12/2004
166	205024	MS. SIVAPRIYA A FCA KAILASHILLAM NO.43 VAIGAI STREET KALAKSHETRA COLONY BHSANT NAGAR CHENNAI-600090	01/04/2004
167	205026	MR. JACOB V J ACA NAMPOONIL KOLLAD P O KOTTAYAM-686029	23/07/2004
168	205040	MR. GANESH S FCA 43/6 8TH MAIN ADJACENT TO CANARA UNION MALLESWARAM 14TH CROSS BANGALORE-560003	01/04/2004
169	205048	MS. GEETHAPRABHA MAHIPAL FCA AK 23 11TH MAIN ROAD SHANTHI COLONY ANNANAGAR WEST CHENNAI-600040	17/08/2004
170	205187	MS. PADMASHREE R ACA W/O PRAKASH 835-A MAIN STREET BELLEVILLE NJ 07109 U S A	01/04/2004
171	205205	MR. SIVARAMA KRISHNA S ACA 187 5TH MAIN ST BED LAYOUT 4TH BLOCK KORAMANGALA BANGALORE-560034	01/04/2004
172	205368	MS. BHAMA K ACA NO. 94 TEMPLE STREET R V NAGAR CHENNAI-600118	01/04/2004
173	205413	MR. MOHAN NAIDU M FCA NO 481, 15TH MAIN 12TH CROSS PADMANABHA NAGAR BANGALORE-560070	16/08/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
174	205566	MR. SHYAMPRASAD ACHARYA ACA 12, PEARL GARDEN HOLIDAY VILLAGE RESORT ROAD VAJRAHALLI TALAGATTUPURA POST BANGALORE-560062	01/04/2004
175	205589	MR. GOPALA CHAKRAVARTHY MADABHUSHI ACA FLAT NO 2B, SRI SAI ENCLAVE 2-2-155/14/A/G, NEW PLOT NO 1373 RAMAKRISHNA NAGAR AMBERPET HYDERABAD-500013	31/03/2004
176	205613	MS. SUNITA RAMAN ACA FLAT 55, VICEROY COURT NO 36 DINGWALL ROAD CROYDON CRO 2 NG SURREY PAPAU NEW GUINEA	01/04/2004
177	205652	MS. RAJALAKSHMI A R ACA D 12 K P TOWERS NO.159 ARCOT ROAD CHENNAI-600026	27/09/2004
178	205713	MR. SREEHARI T S FCA 417 ESHWARI NIVAS 1ST FLOOR K R PURAM BANGALORE-560036	19/01/2005
179	205935	MR. SIVAKUMAR B ACA NO.10/3 SHANTI KUTIR 37/4 BALAKRISHNA ROAD VALMIKI NAGAR THIRUVANMIYUR CHENNAI-600041	01/12/2004
180	206281	MR. SARAVANAN M ACA NEW NO.8 (OLD NO.32) SUBRAMANIPURAM (NEAR CLUNY SCHOOL) SALEM-636007	01/04/2004
181	206285	MR. PRAKASH J FCA 135-D, HIG FLAT, FIRST FLOOR 'DEVILLAM' RAJAMANNAR SALAI K K NAGAR CHENNAI-600078	08/11/2004
182	206360	MR. PASCHAPUR CHANDRAPPA DEMAPPA FCA C/O RAJU S PATIL B/4, LAVAKUSH SHOPPING CENTER DATTAPADA ROAD BORIVALI (E) MUMBAI-400091	31/03/2004
183	206391	MR. SRINIVASAN S ACA C/O G SUBRAMANIAN NEW NO.243 (OLD NO.133) PETERS ROAD CHENNAI-600086	29/09/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
184	206458	MR. MUTHU A ACA 17-A, VADIVEL MUDALI STREET VENKATAPURAM AMBATTUR CHENNAI-600053	24/09/2004	196	207632	MR. VISWANATHAN S ACA S/O MR P G SRINIVASAN FLAT NO. 41 FLOOR NO. 35/16 MANDAVELI LANE MYLAPORE CHENNAI-600004	25/10/2004
185	206485	MR. BIJUKUMAR A S ACA FINANCE MANAGER P O BOX # 50957 DUBAI-U.A.E	12/07/2004	197	207635	MS. JAYASHREE V ACA OLD NO: 41 NEW NO: 14 EAST MADA STREET MYLAPORE CHENNAI-600004	16/12/2004
186	206570	MR. PHANIKUMAR SATTIRAJU FCA 50-42-21, P & T COLONY SEETHAMMADHARA VISA KHAPATNAM-530013	31/03/2004	198	207882	MR. CHANDRAN R ACA 3 ANGALAMMAN KOIL STREET PERUR COIMBATORE-641010	31/03/2003
187	206733	MR. NATARAJAN S V ACA G-3 SRISATHYA SAIBABA ENCLAVE S-A KANNIAPPAN STREET VADAPALANI CHENNAI-600026	31/03/2004	199	207941	MR. RAJA RAMAN S ACA C/O VIJAY TELEVISION PVT LIMITED 15 JAGANATHAN ROAD CHENNAI-600034	11/08/2004
188	206769	MR. SANTHOSH K B ACA P O BOX 34307 DUBAI-U.A.E	10/05/2004	200	207974	MR. RAHESH R ACA NEW NO 41, (OLD NO 20) FIRST FLOOR BAZULLAH ROAD NEXT TO HOTEL STAR CITY T NAGAR CHENNAI-600017	30/10/2004
189	206847	MR. SHIBU ALEXANDER ACA PUTHENPARAMBIL THEEPANY KERALA TIRUVALLA-689101	25/03/2004	201	208016	MR. VIVEKANANDA NAYAK FCA III, 2A1, ROOM NO. 1 KALLIANPURA-SANTHEKATTE UDUPI-576125	08/09/2004
190	206866	MS. LALITHA S FCA FLAT K, SRIMATHY APARTMENTS PLOT 4 DR. VASUDEVA NAGAR EXTENSION THIRUVANMIYUR CHENNAI-600041	21/06/2004	202	208084	MR. VENKATA RAMA MOHAN RAO D ACA FLAT NO G-6 BLOCK - A BRINDAVAN APARTMENTS CHIKOTI GARDENS BEGUMPET HYDERABAD-500016	01/04/2004
191	207014	MS. HARINI NAGESWARAN ACA FLAT NO. 12 15 SARAVANA STREET T NAGAR CHENNAI-600017	30/09/2004	203	208322	MR. BALAGOPAL DUGGIRALA ACA FINANCIAL CONTROLLER M/S SOMOTEX GHANA LIMITED 15 DADEBAN ROAD P B NO. 9840 NORTH INDUSTRIAL AREA ACCRA, GHANA	01/04/2004
192	207011	MR. SIVA KUMAR E ACA H NO 4-1125-9 GAYATHRI NAGAR CHITTOOR-517002	01/04/2004	204	208380	MR. PALANIAPPAN M ACA TARMAC ZAWAWI LLC P O BOX 314, PC 130. AZAIBA, SULTANATE OF OMAN-	01/04/004
193	207326	MR. RAMACHANDRAN S FCA MANAGER - BUSINESS & CONSULTING TIL CONSULTANTS P O BOX 36486 AL RAS 24755 KUWAIT-	01/04/2004	205	208426	MR. SRIRAM S ACA 32/302 VSNL QUARTERS OSHIWARA JOGESHWARI (W) MUMBAI-400102	19/01/2005
194	207581	MR. MADHAV RAU S FCA 32/56 SIYALI MUDALI STREET PUDUPET CHENNAI-600002	01/04/2004				
195	207624	MR. PURNAYYA PUPPALA FCA H NO 37-103/1 SRI COLONY (AMBICA HOMEOPATHIC CLINIC) NEREDMET 'X' ROADS R K PURAM SECUNDERABAD-500556	23/07/2004				

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
206	208475	MR. KIRUBAMANI A FCA NO 23/11-A, RANGANATHAN ROAD VILLUPURAM-605602	01/11/2004
207	208608	MR. GOPALA N FCA CONSULTANT PRICE WATERHOUSE COOPERS PVT.LTD 215 SARAT BOSE ROAD KOLKATA-700020	07/11/2004
208	208614	MR. PRABHAKAR K V ACA 1/B ETHOTHAKARI STREET LITTLE KANCHEEPURAM KANCHEEPURAM-631503	28/08/2004
209	208677	MR. MURUGAPPAN PL ACA PLOT NO.169 ANNA NAGAR NEAR KARTHIK HOSPITAL MADURAI-625020	01/04/2004
210	208709	MR. ARAVINDAKSHAN E FCA ACCOUNTS OFFICER INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT KOZHIKODE IIMK CAMPUS POST KOZHIKODE-673570	31/03/2004
211	208717	MR. MUTYALA PANASAYYA CHOWDARY FCA SITE NO:4 ANNAI GARDENS GN MILL POST MUMBAI-400101	31/05/2004
212	208723	MR. RAGHU RAMAN A ACA NEW NO.8 (OLD NO. 18) SUBBALAKSHMI NAGAR SECOND STREET KORATTUR CHENNAI-600076	01/04/2004
213	208768	MR. MURALIDHAR P SHENOY ACA MANAGER (ACCOUNTS) WEIZMANN FOREX LIMITED CORPORATE OFFICE, CENTENARY BLDG IVTH FLOOR, NO 28 MG ROAD BANGALORE-560001	30/07/2004
214	208796	MR. RAHUL K ACA NO 7, K R NAIDU LAYOUT VENKATAPURAM COIMBATORE-641013	28/06/2004
215	208888	MR. SUNIL C CHERIAN ACA POIKAYIL KAKKUR NATTAKOM P O KOTTAYAM-686013	20/03/2004
216	209095	MR. HEGDE KAMALAKAR SHANKAR FCA GROUND FLOOR SUMAN BUILDING 3RD CROSS SHIVAGIRI DHARWAD-580007	01/04/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
217	209096	MR. RAJAGOPAL V ACA UBINETICS INDIA PVT LTD 34 ANDREE ROAD SHANTINAGAR BANGALORE-560027	31/03/2004
218	209154	MR. SETHURAMAN S ACA 5 PADMAM FLATS 12/121 KOTHAVAL CHAVADI STREET SAIDAPET CHENNAI-600015	01/04/2004
219	209239	MR. BALASUBRAMANIAM M FCA NO 22 JETH NAGAR THIRD CROSS STREET R A PURAM CHENNAI-600028	17/12/2004
220	209254	MR. SRIRAM S ACA FLAT NO.209 II BLOCK 'BALA ILLAM' R V'S MADHAV BRINDHAVAN APARTMENTS NEAR TELEPHONE EXCHANGE CHANDA NAGAR HYDERABAD-500050	31/03/2004
221	209282	MS. JUDITH ROSARY FRANCIS ACA F-110 MARINA SQUARE 27 SANTHOME HIGH ROAD SANTHOME CHENNAI-600004	31/03/2004
222	209384	MR. SUDHAKAR P J ACA MANAGER-ACCOUNTS KARUR K C P PACKAGINGS LIMITED MANNADIPET COMMUNE PONDICHERRY-605102	01/09/2004
223	209426	MR. KISHORE KUMAR BHOJANAPALLI ACA INTELLIGROUP ASIA PVT LTD MANASAROVAR COMPLEX SECRETARIAT ROAD HYDERABAD-500063	01/04/2004
224	209835	MR. GANAPATHI SUBRAMANIAN M ACA SENIOR EXECUTIVE - FINANCE FA DEPT MERCURY BASEMENT - B 24 HONEYWILL TECHNOLOGY SOLUTIONS LAB PVT LTD 151/1 DORAISAMI PALYA BANNERGHATTA ROAD BANGALORE-560076	14/08/2004
225	209837	MS. APARNA KAJA ACA 1601 N SHACKLEFORD ROAD APT # 219 LITTLE ROCK A R 72211 U S A	09/09/2004
226	209839	MR. SARAVANAN M ACA NO 26 MUTHIAH NAGAR TIRUPAPULIYUR CUDDALORE-607002	31/03/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
227	209924	MR. BINDU MADHAV ADDEPALLI FINANCE MANAGER SHIV ENERGY PRIVATE LTD., SUPER GAS HOUSE IV FLOOR SDE SERENE CHAMBERS 8 - 2 - 334, BANJARA HILLS, HYDERABAD - 500034	ACA 15/08/2004	238	210365	MR. RAVI CHANDRA JATIN 3-3-3994 KUTIBIGUDA HYDERABAD-500027	ACA 01/07/2004
228	209970	MR. DHIRAJ P BOTHRA 'RANCH RATAN' 7 SUBRAMANIA MUDALI STREET CHENNAI-600001	ACA 31/03/2004	239	210406	MS. ARATHI SHIVANAND SHETTAR 'GURUKRIPA CHOWKIMATH SIRSI-581401	ACA 01/04/2004
229	210082	MR. BASKARAN R ACCOUNTS MANAGER CHOLA TEXTILES PRIVATE LTD 20 DHARAPURAM ROAD THILLAINAGAR TIRUPUR-641608	ACA 30/11/2004	240	210456	MS. PRIYA A MENON SARAVAS MUTTATHILLANE KADAVANTHRA POS KOCHI-682020	ACA 31/03/2004
230	210092	MR. DEVAKUMAR P 29/9 FLAT A 2 SEA POINT ANNEXE KALAKSHETRA COLONY BEACH ROAD BESANT NAGAR CHENNAI-600090	ACA 31/03/2004	241	210510	MR. BRIJESH RAI K 'BALRAM' GOVT.OFFICERS RESIDENTIAL ROAD B C ROAD BANTWAL-574219	ACA 12/07/2004
231	210143	MS. SUMATHY G 563 18TH STREET KORATTUR CHENNAI-600080	ACA 13/07/2004	242	210538	MR. KRISHNA KUMAR G V 5 SRI SAI NAGAR R A PURAM CHENNAI-600028	ACA 01/04/2004
232	210169	MS. PAVITHRA G NO. 26 NEW NO. 53 SOUTH CHITRAI STREET SRIRANGAM TIRUCHIRAPALLI-620006	ACA 18/08/2004	243	210563	MR. DEEPAK N ASSISTANT MANAGER -FINANCE- M/S CABLE & WIRELESS (INDIA) LIMITED UNIT 2B CREATOR INTERNATIONAL TECH PARK WHITEFIELD ROAD BANGALORE-560066	ACA 27/08/2004
233	210238	MR. SHAHEER AHAMED KURUNIYAN 'AYSHA MANZIL' OTHUKKUNGAL P O MALAPPURAM-676528	ACA 20/12/2004	244	210633	MS. LAVANYA M 4 VISHAL FLATS 21 MURTHY STREET WEST MAMBALAM CHENNAI-600033	ACA 01/08/2004
234	210240	MR. NARAHARASETTI RAMU GF-2, SRI SIDDHI ENCLAVE 46-2-7/1, MANDAVARI PETA DONDAPARTHY VISAKHAPATNAM-530016	ACA 18/01/2005	245	210641	MS. YALAMARTHI NAGADURGA VIJAYA C/O B.V.R. PURNESWAR RAO 1-7-29/2/1B, SAI MADHU KUNJ APTS GOLCONDA 'X' ROAD MUSHEERABAD HYDERABAD-500048	ACA 02/08/2004
235	210303	MS. SRIVIDHYA L 103 BIMA JOTHI LIC NAGAR WEST OF CHORD ROAD BASAVESWARA NAGAR BANGALORE-560079	ACA 01/02/2005	246	210699	MS. SMITHA V K NO.30 II MAIN 12TH CROSS VIDYARANYA PURAM MYSORE-570008	ACA 14/07/2004
236	210311	MR. VENKATRAM SHARMA K NO 5 FIRST CROSS STREET RAMALINGA NAGAR K.K.PUDUR COIMBATORE-641038	ACA 10/11/2004	247	210739	MR. KAMALESH GARIKIPATI DIRECTOR (F & A) KATURI MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL CHINAKONDRUPADU GUNTUR-522019	ACA 31/03/2004
237	210360	MR. NARAYAN S NEW NO. 14/1 (OLD NO. 18) SADHULLAH STREET T NAGAR CHENNAI-600017	ACA 31/03/2004	248	210781	MR. SRIKRISHNA INTERNAL AUDITOR BINDASMAL GROUP-GEN-TRADING CO.LLC PO BOX 5389 -BUR DUBAI DUBAI-U.A.E	ACA 25/11/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
249	210839	MR. KRISHNA KUMAR UNNI C ACA MANJIMA MALAPPURAM DISTRICT ANGADIPURAM-679321	27/12/2004
250	210850	MR. RANGASWAMY S ACA # 5 SURVEYOR STREET GANDHI BAZAR BASAVANAGUDI BANGALORE-560004	25/10/2004
251	210854	MR. CHANDRASEKAR S ACA 'THUMANI MADAM' I FLOOR # 16 SESHADRI PURAM I MAIN ROAD VELACHERY CHENNAI-600042	01/04/2004
252	210907	MR. SUNIL S MEHTA ACA 29/1 III MAIN III STAGE II BLOCK BASAVESHWARA NAGAR BANGALORE-560079	01/04/2004
253	210933	MR. AMIT MANGAL ACA NO. 80 'GHAR' FIRST MAIN ROAD MICOLAYOUT BANGALORE-560076	06/10/2004
254	210937	MR. PERLA SUDHEER ACA 49-54-1/1 (I) NEAR RAGHAVENDRA HOSPITAL VISAKHAPATNAM-530016	26/09/2004
255	210945	MR. CHANDRASHEKAR V G ACA ICICI BANK (RAPG OFFICE) 3RD FLOOR EUREKA JUNCTION T B ROAD HUBLI-580029	31/07/2004
256	210954	MS. MEENAKSHI S ACA XL/161, RETD C J K T KOSHY AVENUE OPP: JUDGES' QUARTERS KOCHI-682011	04/08/2004
257	210974	MR. MANOJ SEBASTIAN ACA NO. 134, IVTH CROSS RIFCO SHANTHI NIKETHAN NEAR SJES COLLEGE, MEDAHALLI VIRGO NAGAR PO, K.R. PURAM BANGALORE - 560 049.	01/04/2004
258	210993	MR. VIKAS GAUR R ACA NEW NO. 140 (OLD NO. 261) THAMBU CHETTY STREET CHENNAI-600001	15/11/2004
259	211007	MR. SATYENDRA VITTAL B R ACA NO 23/2 POLICE STATION ROAD BASAVANAGUDI BANGALORE-560004	15/12/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
260	211013	MR. MAHESH P ACA VII/226 VINAYAKA LIBRARY ROAD ALUVA-683101	01/04/2004
261	211048	MR. SUHAS PRABHU ACA MANAGER-ACCOUNTS & MIS INSPIRE INFOTECH PVT. LTD. 8/52 LAKSHMI COMPLEX NORTH BOAG ROAD T NAGAR CHENNAI-600017	01/04/2004
262	211160	MR. LOKESH KUMAR JAIN ACA 21-4-1148 CHAR MAHAL HYDERABAD-500002	01/06/2004
263	211177	MS. ANURADHA S ACA FLAT D/3 56TH STREET ASHOK NAGAR CHENNAI-600083	23/08/2004
264	211179	MR. MOHANDASS S ACA '3C' QUANTA TRINITY NO 18 (OLD NO 34) WEST ROAD NANDANAM CHENNAI-600035	01/04/2004
265	211213	MR. BIJOY PRASAD T ACA PRIVATE BAG 23 LOBATSE BOTSWANA	01/04/2004
266	211222	MR. VENKATRAMI REDDY P ACA ASSOCIATE CONSULTANT- INFORMATION ASSURANCE ENTERPRISES SOLUTIONS - SIFY LIMITED 2ND FLOOR, TIDAL PARK NO 4 CANAL BANK ROAD, TARAMANI CHENNAI-600113	18/12/2004
267	211253	MR. PRAVEEN KUMAR D ACA 15/4 KAJAPET STREET TIRUCHIRAPALLI-620001	01/04/2004
268	211256	MR. SUJIL M A ACA MADATHIPARAMBIL NAYARAMBALAM ERNAKULAM-682509	10/09/2004
269	211260	MR. PRIYARANJAN ACA NO 39 KAVERI CANARA BANK COLONY III BLOCK EAST JAYANAGAR BANGALORE-560011	10/02/2005
270	211268	MR. HARISH P L ACA NO.592 27TH MAIN 2ND STAGE I PHASE BTM LAYOUT BANGALORE-560076	31/12/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
271	211346	MR. BIJU PAUL ACA FINANCE MANAGER ALISCO STRONG PLANT HIRING & CONSTRUCTING CO P O BOX 1564 CPO III SEEP SULTANATE OF OMAN	01/10/2004
272	211420	MR. BALAGANGADHARAN S ACA O/O M & M ACCOUNTING NO. M-5 UNITED BANK BUILDING BANK STREET P O BOX NO. 43711 DUBAI, U. A. E	31/03/2004
273	211441	MR. PAISEN N D ACA FINANCIAL CONTROLLER YACHT TOURS MALDIVES PTE LTD 1ST FLOOR H VILARESS FINIHIYA AGOALHI MALE REPUBLIC OF MALDIVES	01/04/2004
274	211452	MR. MANOJ KUMAR JAIN N ACA MANAGING PARTNER KK COMMUNICATIONS RELIANCE WEBWORLD DWARAKANAGAR VISAKHAPATNAM	01/04/2004
275	211482	MS. REBECA K CHACKO ACA T/C 16/1546 (2/1444) PRA 94 KRISHNA OPP: COSMOPOLITAN HOSPITAL POTTAKUZHI PATTOM PO THIRUVANANTHAPURAM-695004	15/04/2004
276	211500	MR. KHANDLWAL AMIT CHANDRAKANT ACA I - TYPE 56 BANGUR NAGAR DANDELI-581325	12/04/2004
277	211515	MR. MANOJ KUMAR ACA H/NO 20-1-501 NEAR MAHESHWARI FUNCTION HALL KABUTAR KHANA HYDERABAD-500064	01/04/2004
278	211546	MR. DEVENDRA KUMAR KARNAWAT ACA 40 MUKKATHAL STREET PRESTIGE PALACE FLAT NO. 204 2ND FLOOR PURASAWALKAM CHENNAI-600007	01/04/2004
279	211547	MR. SAJU K XAVIER ACA KOTHOLIL HOUSE MALAPPURAM DISTRICT MADAPOIKA-679331	02/01/2005

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
280	211583	MR. JANARDHANA PRASAD C ACA PLOT NO 35 GREENHILLS COLONY STREET NO 8 HABSIGUDA HYDERABAD-500007	03/12/2004
281	211702	MR. PARTHASARATHI A ACA NEW NO 116 (OLD NO. 137) VENKATARAM STREET TRIPLICANE CHENNAI-600005	01/04/2004
282	211703	MR. BADRINATH R ACA 7/5 CLUB ROAD EASTTAMBARAM CHENNAI-600059	11/02/2005
283	211758	MR. CHINA SESHAYYA MOTAPARTHY ACA S/O M SIVA KESAVA RAO WEST GODAVARI DISTRICT DENDULURU-534432	17/11/2004
284	211791	MR. SRIDHAR RAJAN ACA NO 3, FLAT NO 1, SRUTHI APARTMENTS MOSQUE STREET MYLAPORE CHENNAI-600004	01/12/2004
285	211813	MR. RAM KUMAR S ACA AYODHYA CHALAYIL PALACE WARD ALAPUZHA-688011	09/02/2004
286	211823	MR. HARI NARAYANAN ACA THENUMKAL MILL LANE NEAR SREE RUDRAVILASAM SCHOOL PALLIMUKKU KOCHI-682016	21/12/2004
287	211832	MS. JAYANTHI BHAGIA ACA FLAT NO 507 SRINIVASA TOWERS BEGUMPET HYDERABAD-500016	01/04/2004
288	211842	MR. RAJEEV CHANDRAN C ACA MANAGER-FINANCE KITEX GARMENTS LTD. P B NO. 5 KIZHAKKAMBALAM ALUVA-683562	01/04/2004
289	211885	MR. MANOJ P R ACA EAST FISH PROCESSING L L C P O BOX 2741 AJMAN, U. A. E	31/03/2004
290	211906	MR. SUDHANSU KUMAR MOHANTY ACA JUNIOR ACCOUNTS OFFICER (PLANNING) O/O GMTD. BSNL DWARAKANAGAR 2ND LINE VISAKHAPATNAM	30/11/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
291	211944	MS. GOWRI RAMACHANDRAN ACA # 301 SUNDHER RESIDENCY BYRASANDRA MAIN ROAD GM PALYA BANGALORE-560075	31/03/2004
292	211954	MR. VIJAY ANAND P ACA 47, SINGARACHARI STREET TRIPLICANE CHENNAI-600005	01/08/2004
293	212021	MR. SHRIRAM S ACA NO 4 8TH CROSS STREET KARPAGAM GARDENS ADYAR CHENNAI-600020	14/06/2004
294	212079	MS. VIDYA S ACA 'DEVIKRIPA' PLOT NO 1208 17TH STREET III SECTOR ANNANAGAR WEST EXTN MOGAPPAIR CHENNAI-600050	01/04/2004
295	212103	MS. ARATHI RAO ACA CONSULTANT 12 TECHNOLOGIES SOFTWARE PRIVATE LIMITED 4TH FLOOR, 'B' TOWER DIAMOND DISTRICT, AIRPORT ROAD BANGALORE-560008	01/12/2004
296	212238	MR. VIJAY H ACA FLAT NO.G-I, PLOT NO.900 MUKHILAPARTMENTS 11TH SECTOR, 72ND STREET K.K.NAGAR CHENNAI-600078	01/04/2004
297	212275	MR. JAMES MATHEW ACA 6 GOLF COURT APARTMENT II FLOOR NO 50 VETERINARY HOSPITAL ROAD NANDANAM (ADJACENT TO COSMOPOLITAN GOLF COURSE) CHENNAI-600035	01/08/2004
298	212281	MR. JIDESH KUMAR G ACA B1 BLOCK II THE MEREDIAN #7 1ST A CROSS, S R LAYOUT MURUGESIPALYA BANGALORE-560017	01/12/2004
299	212286	MR. KANUMURI VENKATA SURYA NAGA RAJ ACA 5/1 ESWAR LAYOUT 7TH CROSS LB S NAGAR LAKSHMIPURAM INDIRANAGAR STAGE II BANGALORE-560066	11/01/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
300	212293	MR. JAMES T V ACA PARADISE APT ROOM NO B/11 ROAD NO 27 SHANTI NAGAR THANE-400604	25/08/2004
301	212302	MR. ARAVIND KUMAR KANKIPATI ACA 41-20/3-25 MANNA VARI STREET KRISHNA LANKA VIJAYAWADA-520013	31/03/2004
302	212326	MR. JAGAN K ACA 4/8/12 SHANMUGAM STREET METTUPALAYAM-641301	10/02/2004
303	212404	MS. RAMYA DURGA K ACA F1 CAUVERY ANUGRAHA 13A, MANNAR 2ND STREET NERKUNDRAM PAATHAI VADAPALANI CHENNAI-600026	01/04/2004
304	212449	MR. ANANDAMALLAN P G ACA PUTHENVEEDU CHIRAKKAKOM ERNAKULAM DISTRICT VARAPUZHA P O-683517	01/04/2004
305	212474	MR. ANAND D SONI ACA 4-3-82 1ST FLOOR LAXMI SHOPPING COMPLEX SHISHU MANDIR ROAD KARIMNAGAR-505001	18/09/2004
306	212512	MS. JESAL R SHAH ACA NO 22 EMBASSY COURT 12 CRESCENT ROAD KUMARA PARK (EAST) BANGALORE-560001	26/03/2004
307	212521	MR. CHANDRAHAS R KINI ACA C/O GANESH NILAY GANDHI NAGAR SIRSI-581403	01/04/2004
308	212525	MR. VIJAY RAMAKRISHNAR ACA S-1, 'TEN DOWNING' NO.10 THIRD MAIN ROAD RAJALAKSHMI NAGAR VELACHERY CHENNAI-600042	01/04/2004
309	212548	MR. SADISHKUMAR D ACA 5/3 LAKE VIEW ROAD EXTENSION WEST MAMBALAM CHENNAI-600033	20/09/2004
310	212602	MR. PARVAIZ AHMED G ACA NO.170/5 IV AVENUE SHANTHI COLONY ANNA NAGAR WEST CHENNAI-600040	29/12/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
311	212610	MR. BALAMURALI KRISHNAN O K ACA NO3 II STREET VTH CROSS GANESH NAGAR MADIPAKKAM, CHENNAI-600091	17/10/2004	320	212772	MS. TRIPTI AGARWAL ACA 5502, VEDVATHY NAND ENCLAVE BANSANKHRI STAGE III BANGALORE-560085	31/03/2004
312	212616	MR. RAJ KIRAN AYYAGARI ACA FUNCTIONAL CONSULTANT SANKHYA TECHNOLOGIES INDIA OPERATIONS P.LTD. #30-15-58 THIRD FLOOR SILVER WILLOW DABAGARDENS VISAKHAPATNAM-530020	01/04/2004	321	212817	MR. SUNDARESAN R ACA 5-D INDIRA NAGAR COIMBATORE DISTRICT KARAMADAI-641104	09/06/2004
313	212638	MR. VASUKI H R ACA # 11, 11/1 SHRINIDHI 19TH CROSS, KASHI MUTT ROAD MALLESHWARAM BANGALORE-560055	17/01/2005	322	212930	MR. RAJESH R K ACA 14 SUMITHRA APARTMENTS FLAT NO 3, CHBS II LAYOUT VIJAYANAGAR BANGALORE-560040	01/04/2004
314	212654	MR. CHANDRA SEKHAR PALAPARTHI ACA D NO. 20-6-148 RAMALINGESWARA PET 4TH LINE VIJAYAWADA-520003	08/06/2004	323	213030	MR. VARA PRASAD G N S ACA H NO. 8-4-100/B GANDHI BAZAR AMALAPURAM-533201	01/04/2004
315	212663	MR. ARAVINDA KUMAR S R ACA EXECUTIVE SATYAM COMPUTER SERVICES LTD 12 C P RAMASWAMY ROAD ALWARPET CHENNAI-600018	23/06/2004	324	213054	MR. RANJAK KUMAR S ACA 427 BEJAI CHURCH ROAD BEJAI MANGALORE-575004	01/04/2004
316	212684	MR. KARUNAKAR G ACA S/O DR. G MADHAVA SWAMY H NO. 25-106 SANJEEVA NAGAR KURNOOL DISTRICT NANDYAL-518501	01/07/2004	325	213083	MR. BALAKRISHNAN N ACA 196 AICOBOO NAGAR PHASE 2 9TH MAIN 2ND CROSS BTM STAGE 2 BANGALORE-560076	31/03/2004
317	212736	MR. KISHORE KUMAR REDDY D ACA 2-70C I FLOOR JP NAGAR COLONY MOOSAPET HYDERABAD-500018	01/04/2004	326	213114	MR. SAMBIT KUMAR MALLIK ACA F-12 KAMAL APARTMENTS NO 23 FOURTH MAIN ROAD R A PURAM CHENNAI-600028	16/08/2004
318	212747	MR. SABU C ACA MIDDLE EAST PRESTRESSING PO BOX 56027 DUBAI- U.A.E	15/06/2004	327	213144	MS. KARTHIKA G ACA # 56 C, I FLOOR, ASHVIN ARCADE VENKAT RATNAM NAGAR ADYAR, CHENNAI - 600 020	04/03/2004
319	212768	MR. VENKATESWARA RAO CHALUVADI ACA C/O MR CHALUVADI SRINIVASULU 41-3-78/1 SRINIVASA BAVAN RICE SHOPS STREET KRISHNALANKA VIJAYAWADA-520013	01/04/2004	328	213167	MS. DEEPA K ACA M-593 ASTC HUDCO (OLD) HOSUR-635109	27/04/2004
				329	213190	MR. MURALI KRISHNA V ACA FLAT NO. 2 GREENFIELD APARTMENTS 18 DIWAN BAHADUR V SHANMUGHAM ST KILPAUK CHENNAI-600010	27/05/2004
				330	213218	MS. GOURI VIJAY DEO ACA 386/VI RAJAGIRI PO S KALAMASSERY KOCHI-683104	31/03/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
331	213248	MR. HEGDE KIRAN MAHABALESHWAR ACA # 901/A, 3RD MAIN 'D' BLOCK, 2ND STAGE RAJAJINAGAR BANGALORE-560010	24/11/2004
332	213256	MR. RAJESH KUMAR G ACA 'VAISHAK' OLD THIRUMALA WARD ALAPUZHA-688011	04/10/2004
333	213297	MR. MUTHURAMAN Y ACA 9, THOPPA CHETTIAR STREET PALANI-624601	10/06/2004
334	213322	MR. NICHEL GEORGE ACA CHEERAN HOUSE MISSION QUARTERS FATHIMA NAGAR THRISSUR-680005	16/06/2004
335	213327	MR. NANI ARAVIND NALLAMOTHU ACA 8-3-231/B/142, 143 SRI KRISHNA NAGAR YOUSUF GUDA HYDERABAD-500045	13/12/2004
336	213386	MR. DURBHA PRASHANTH ACA 6-66, POCHAM BAGH SAROOR NAGAR HYDERABAD-500035	01/04/2004
337	213408	MR. PRASANTH P ACA C/O M/S GURUMOORTHY & ASSOCIATES PROFESSIONAL SERVICES NORTH (PTY) LTD P O BOX 10817 FRANCISTOWN BOTSWANA	01/04/2004
338	213428	MR. PREM KUMAR B ACA BLOCK S - 45 PLOT NO. 3977 FLAT 'A' ANNANAGAR 20TH STREET CHENNAI-600040	01/04/2004
339	213447	MR. ANAND PRABHU S ACA C/O. ERNST & YOUNG P O BOX 9267 DUBAI-U.A.E	11/12/2004
340	213467	MR. RAJENDRA PRASAD S APPA ACA 337 III MAIN J P NAGAR III PHASE BANGALORE-560078	31/03/2004
341	213471	MR. THARIK P ACA 1/6 NABHIKHAN SUBEDAR STREET PERIAMEET CHENNAI-600003	11/08/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
342	213481	MR. SREEVAS T P ACA KRISHNAGIRI PONNADY LANE JAWANS CROSS ROAD PONEKKARA - EDAPPALLY KOCHI-682024	24/12/2004
343	213504	MS. PRAJIBHAS LALWANI ACA NO 16, SOMASUNDARAM 2ND STREET AYNAVARAM CHENNAI-600023	19/10/2004
344	213525	MR. GEORGE J MAMPILLY ACA MAMPILLY HOUSE NJAVARIKULAM ROAD THRISSUR DISTRICT IRINJALAKUDA-680121	01/04/2004
345	213564	MR. KRISHNA V L ACA 'MATRUSRI' H NO. 12-1-331/38-B DATTATREYA COLONY HYDERABAD-500028	30/11/2004
346	213584	MR. LAKSHMI NARAYANA BHATTA U ACA NO.1010 E 'SNEHA' 1ST FLOOR 4TH MAIN VIJAYANAGAR 2ND STAGE BANGALORE-560040	01/11/2004
347	213595	MR. VIJAY KUMAR D ACA 37/A VENGAL RAO NAGAR HYDERABAD-500038	01/04/2004
348	213600	MR. SURESH R ACA 6/520 SREELAKSHMI VAIDHYANATHAPURAM ABMIKAPURAM PALAKKAD-678011	20/07/2004
349	213607	MS. SHOBANASWAMY NATHAN ACA FLAT NO. 502 MAHALAKSHMI ARCADE OPPOSITE TO IOC PETROL BUNK MADHINAGUDA HYDERABAD-500050	01/04/2004
350	213626	MR. SURYA PRAKASH PRAKKI ACA 6-1-103/113, FLAT NO. 201 SRISAI APARTMENTS PADMARAO NAGAR SECUNDERABAD-500025	01/04/2004
351	213631	MR. VENKATA VAMSI KRISHNA M ACA PLOT NO. 14 J R D TATA INDUSTRIAL ESTATE KANURU VIJAYAWADA-520007	31/03/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
352	213663	MR. RAJESH KUMAR R ACA PUTHETTU HOUSE KIDANGOOR 686583 KOTTAYAM DISTRICT	08/11/2003	362	213869	MR. VIKRAM ASHOK SARAF ACA 166 1ST FLOOR 6TH MAIN KEB LAYOUT BTM STAGE I BANGALORE-560076	17/01/2005
353	213669	MR. MOHAMED SAMEER P ACA PARI HOUSE KOLMANNA HAJIAR PALLI P O MALAPPURAM-676519	01/07/2004	363	213956	MR. ABHISHEK GOENKA ACA 244-A M L A COLONY ROAD NO. 12 BANJARA HILLS HYDERABAD-500034	01/04/2004
354	213691	MR. JEFF T MADIATH ACA MADIATH HOUSE KAVUMBAGAM P O THEKKATHUKAVALA KOTTAYAM-686519	25/02/2004	364	213978	MR. ADITHYA ANAND V ACA 3-B, HILLCREST APTS 14 VENKATANARAYANA ROAD TNAGAR CHENNAI-600017	01/04/2004
355	213785	MS. BHAVANI V ACA CG2, MARUDEESH VILLA 18, PILLAYAR KOIL STREET THIRUVANMIYUR CHENNAI-600041	01/04/2004	365	213995	MR. KRISHNAMOORTHY G ACA 5, KARUPARAYAR KOIL STREET SANGANUR RATHINAPURI P O COIMBATORE-641027	15/09/2004
356	213796	MS. MISHA FRANCIS ACA PANENGADEN HOUSE KARIPPAI LANE CHELAKKOTUKARA THRISSUR-680005	01/04/2004	366	213999	MR. PAI SANJAY VISHNU ACA 1/5, 2ND CROSS 2ND FLOOR CAMBRIDGE ROAD ULSOOR BANGALORE-560008	31/03/2004
357	213800	MR. AJAY JOGINIPALLY ACA H.NO.2-10-1440 BHAGYANAGAR KANSARI, CAMBAY (KHAMBHAT) CAMBAY-388630	21/07/2004	367	214013	MR. SACHIN KUMAR S ACA NO. 52 LAXMAN MUDLIAR STREET COMMERCIAL STREET 11 CROSS SHIVAJINAGAR BANGALORE-560001	24/01/2005
358	213819	MR. CHANDRASEKHAR SANTHOSH KUMAR ACA 'GAYATRI', KILIKKODE JUNCTION PATHNAMTHITTA DISTRICT NEDUMON-691556	20/07/2004	368	214027	MR. VARA VEERA VENKATA PRASAD BABU MANYAM ACA C/O B RAVI SHANKAR NO 7A JAGADAMBIGAI STREET THIRUVALISWARAR NAGAR THIRUMANGALAM CHENNAI-600040	31/03/2004
359	213822	MR. SUNIL SHARANGOWDA ACA NO.434, 4TH MAIN ANAND NAGAR BANGALORE-560024	31/03/2004	369	214054	MR. GIRIDHAR KUMAR H S ACA FINANCE MANAGER HULHULE ISLAND HOTEL AIR PORT OF MALDIVES P B NO 20118, MALE REPUBLIC OF MALDIVES	01/04/2004
360	213851	MR. RENGARAJ S M ACA ROOM NO.117 KUMARA VADIVU NILAYAM 46 THULUCKKANA NAICKEN STREET THERADI THIRUVOTTIYUR CHENNAI-600019	31/03/2004	370	214110	MR. UDAYAVARMA R ACA MANNOOR MADHOM FORT ALLEPPEY DISTRICT MAVELIKARA-690101	30/03/2004
361	213859	MS. SAVITHA G ACA 14F, PARAMAHANSA APARTMENTS NAINIAPPAN STREET, ST. MARRY'S ROAD MANDAVELI CHENNAI - 600 028.	01/04/2004	371	214149	MR. BALA VENKATA SUBRAHMANYAM CHINNI ACA FLAT NO 106 SRINIVASA RESIDENCY BESIDE EDIGAH OLD BOWENPALLY SECUNDERABAD	01/08/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
372	214156	MR. APPAJI KOTHAPALLI ACA D NO.18-397/1 KOTHARI NIVAS NAVKA TRADERS UPSTAIRS II FLOOR MALLIKARJUNA NAGAR MALKAJGIRI HYDERABAD-500047	06/01/2005
373	214180	MR. SHAIK KABEER ACA D.NO.8-2-70/B1 BAIRAMULGUDA X ROAD NEAR LB NAGAR X ROAD HYDERABAD-500074	01/04/2004
374	214258	MR. SRINATH N V ACA PLOT NO 47 III FLOOR CHANDRAMUKHI RESIDENCY DEENDAYAL NAGAR NEREDMET SECUNDERABAD-500056	01/04/2004
375	214339	MR. ADITYA SINGHAL ACA SINGHALS BHAWAN # 21 2ND MAIN 13TH CROSS VIGNANA NAGAR KAGGADASAPURA BANGALORE-560075	28/06/2004
376	214412	MR. BACKIANATHAN S ACA OLD NO.53, AMEERJAN STREET CHOO LAIMEDU CHENNAI-600094	10/01/2005
377	214437	MR. ALOYSIUS KEITH PINTO ACA 51 GARDEN MANOR LADYHILL ASHOKNAGAR POST MANGALORE-575006	08/10/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
378	214445	MS. SRIKALA K ACA FLAT # 102 KT APARTMENTS 33 10TH CROSS MALLESWARAM BANGALORE-560003	30/09/2004
379	214617	MR. RAMESH N ACA SARADA APARTMENTS II FLOOR DOOR NO.9 NEW NO.9, POSTAL COLONY I STREET WEST MAMBALAM CHENNAI-600033	27/09/2004
380	214795	MR. SURESH K ACA H NO.IV/1175 "SWATHI" NORTH CHERLAI KOCHI-682002	16/10/2004
381	214836	MR. YADAV KRISHNAN B P ACA NEW NO:33 (OLD NO:131) GILL NAGAR EXTENSION CHOO LAIMEDU CHENNAI-600094	02/02/2005
382	215029	MR. CHILAKAMARRI KISHORE ACA C/O MR C SESHACHARYULU 14-310 EDEPALLI MACHILIPATNAM-521001	10/02/2005
383	215158	MR. HARANADH BONTALA ACA 1-8-13, FIRST FLOOR STREET NO 13 CHIKKADPALLY HYDERABAD-500020	01/12/2004
384	215320	MR. RAMABABU AADEPU ACA 1-1-37, ASHOK NAGAR BANDARIGUDEM KHAMMAM DISTRICT MANUGURU-507117	20/01/2005

(ASHOK HALDIA)
SECRETARY

3SCA(8)/1/2004-2005 : In pursuance of Regulation 10(1) (iv) read with Regulation 10(2) (b) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from 1st October 2004, as they had not paid their annual fees for Certificate of Practice.

S.No.	MRN	Member Name & Address
1	005384	MR. TYAGARAJANT V FCA C-5 THIRD FLOOR 'PRAKRUTI' OLD NO. 20 NEW NO. 41 FIRST MAIN ROAD GANDHINAGAR, ADYAR CHENNAI-600020
2	006319	MR. VADANTAM JAGANNADHASASTRY ACA "OLD STOCKS LONDON ROAD EAST AMERSHAM BUCKINGHAMSHIRE HP7 9DT ENGLAND-U.K
3	007349	MR. RAGAVENDRA RAO P FCA 1-2-412/4/1 GAGAN MAHAL COLONY DOMALGUDA HYDERABAD-500029
	007497	MR. BULLICHINNAM V FCA 12-2-417/A/26 L I C COLONY HYDERABAD-500028
5	009420	MR. SUBRAMONIA PILLAI P K FCA NO.1395 13TH MAIN 6TH CROSS HAL III STAGE JAVAN BIMANAGAR BANGALORE-560075
6	009609	MR. SELVARAJAN M C FCA 54/12 RAMASWAMY AVENUE (NEW NO. 15) F-2 LOKESH HOMES ANNEXE SASTRINAGAR ADYAR CHENNAI-600020
7	018131	MR. VISWANATHAN SACA 94/25, HABIBULLAH ROAD TNAGAR CHENNAI-600017
8	019193	MR. KANNUSWAMY M FCA "RAMANIYAM KALYANI" B-2 SECOND FLOOR 44 FOURTH STREET ABHIRAMAPURAM CHENNAI-600018

S.No.	MRN	Member Name & Address
9	019761	MR. SESHADRI N FCA 32 DEIVASIGAMANI STREET (NEW NO. 4) ROYAPETTAH CHENNAI-600014
10	020047	MR. VAIDYANATHAN SACA NEW NO 12 (OLD NO 34/1) V KRISHNASWAMY AVENUE MYLAPORE CHENNAI-600004
11	020586	MR. PRANESH RAJ MATHUR ACA H NO 12-13-375 LANE NO 2 STREET NO 2 SECUNDERABAD-500017
12	020934	MR. ANBAZHAGAN R FCA 39 NATESAN STREET II FLOOR TNAGAR CHENNAI-600017
13	021375	MR. KRISHNAN R FCA NEW NO.16/3 (OLD NO.27/3) DEIVA SIGAMANI ROAD ROYAPETTAH CHENNAI-600014
14	021592	MR. RANGANATHAN GACA FLAT # 202 II FLOOR SURYA HEIGHTS 11-5-153 RED HILLS LAKADIKAPOL HYDERABAD-500004
15	022478	MR. JAYARAMAN G FCA PLOT NO 67 BHASKARA RAO NAGAR PHASE III SAINIKPURI SECUNDERABAD-500094
16	023416	MR. VENKATARAMAN NIVARTHI K FCA AQUARIUS # 4/1 VENKAT STREET VIVEKANANDA NAGAR RAMAPURAM CHENNAI-600078

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
17	023859	MR. RAMESH N FCA 16/18 ADITYA APARTMENTS 53 DR RANGA ROAD MYLAPORE CHENNAI-600004	28	027111	MR. MURALI KRISHNAN M S ACA 38, ROHINI APARTMENTS 7-1-32/A, LEELA NAGAR HYDERABAD-500016
18	024876	MR. UMAPATHI A FCA 41 THENNAMARAM STREET KOSAPALAYAM THIRUVANNAMALAI DT. ARNI-632301	29	027287	MR. GANESH S P FCA 549 III BLOCK 11TH CROSS BELLAYOUT VIDYARANYAPURA BANGALORE-560020
19	025030	MR. PRATAP SINGH T ACA FLAT NO 101 MANISADAN APTS VIDYANAGAR HYDERABAD	30	027375	MR. SURESH V ACA FIN.MANAGER CORP.FINANCE - ENGG GROUP PT TEXMACO PERKASA ENGINEERING SENTRA MULIA SUITE 1001 10TH FLOOR JI HR RASUNA SAID KAV X-6 NO.8 JAKARTA-12940 INDONESIA
20	025082	MR. DEVENDER RAO G ACA FLAT NO A-201 DATTASAI APARTMENTS BESIDES YASHODA HOSPITAL RAJBHAVAN ROAD SOMAJIGUDA HYDERABAD-500482	31	027599	MR. VARADARAJAN S ACA FLAT NO 201, SWATHI APARTMENTS 7-1-455/1 AMEERPET HYDERABAD-500016
21	025098	MR. RAMAKRISHNAN N ACA NO.17 'AKSHAY NIVAS' (NEAR AROGYA HOMEOPATHIC CLINIC) APPARAO LAYOUT RAMAMURTHY NAGAR BANGALORE-560016	32	027622	MR. THOMAS JOSEPH ACA PULIYAMKUNNEL, P.B.No. 12 IDUKKI DISTRICT KATTAPPANA
22	025236	MR. GUNASEKHARA REDDY G FCA C/O K VENKATRAMANA NAIDU NO.24/128 SAI NAGAR COLONY CHITTOOR-517001	33	027711	MR. PIUS GEORGE FCA LWF/DWS GITANGAR ROAD LAVINGTON POST BOX NO. 408 70 00100 NAIROBI GPO-0, KENYA
23	025389	MR. PISIPATI SIVARAMA SARMA FCA FINANCIAL CONTROLLER A P FOREST DEVELOPMENT - CORPORATION LTD 3RD FLOOR UNI BUILDING A C GUARDS HYDERABAD-500004	34	028025	MR. GANAPATHY SANKAR K ACA 232, 13TH STREET DEVASANDRA LAYOUT SRIVINAYAKA NAGAR KRISHNARAJAPURAM BANGALORE-560036
24	025489	MR. KAILASANATH K S ACA B-8 AASHIANA NO 9 VENUS CGLONY 2ND STREET ALWARPET CHENNAI-600018	35	028350	MR. SETHILKUMAR S ACA TREASURY RISK MGMT SAUDI AMERICAN BANK P O BOX 833 RIYADH 11421 SAUDI ARABIA-
25	025965	MR. SRIVATSAN SUBRAMANIAM ACA 25, DESIKA ROAD MYLAPORE CHENNAI-600004	36	028949	MR. BALAJI J FCA F-6, II FLOOR 204 RAMASWAMY SALAI K K NAGAR CHENNAI-600078
26	026140	MR. SESHADRI K R FCA 16 KRISHNAPURI 1ST STREET R.A PURAM CHENNAI-600028	37	029107	MS. VIJAYA BHARATHI SUDHAKAR ACA 399 ALAGESAN ROAD COIMBATORE-641011
27	026843	MS. SUDHA P ACA C/O MR P LAKSHMANA RAO D NO.38-2-2 PUNNAMMATHOTA (NEAR PWD GROUNDS) VIJAYAWADA-520010	38	029693	MR. SRIJAYA SANKAR K ACA C-497, 8TH STREET PERIYAR NAGAR JAWAHARNAGAR POST CHENNAI-600082

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
39	033364	MR. SURYANARAYANAN A FCA 971 14TH CROSS 16TH MAIN BSK II STAGE BANGALORE-560070	49	096044	MR. SACHIN KUMAR ACA FINANCE OFFICER M/S. ITI LTD BANGALORE COMPLEX DOORVANI NAGAR BANGALORE-560016
40	046552	MR. CHAVALI SATISH LAXMINARAYANA ACA FLAT NO.13 (1 FLOOR) SUVASINI APARTMENTS 7-1-27 AMEERPET HYDERABAD-500016	50	100042	MS. JANASWAMY VANI RAVI KUMAR ACA FLAT NO 508 VISHNU RESIDENCY BLOCK STREET NO 11 GANDHI NAGAR HYDERABAD-500080
41	046990	MR. HIRAN VINOD KUMAR ACA FINANCIAL CONTROLLER & COMPANY SECRETARY TAJGVK HOTELS & RESORTS LIMITED TAJ KRISHNA, ROAD NO. 1, BANJARA HILLS HYDERABAD-500034	51	100332	MR. SUBRAMANIAN VIVEK ACA 105 VINSPA 6 BOAT CLUB ROAD PUNE-411001
42	047863	MR. MANMADKAR JAYANT BHALCHANDRA ACA FLAT NO.209, SHANTI SOUDHA APARTMENT ERA MANZIL COLONY KHAIRATABAD HYDERABAD-500081	52	101569	MR. SHANKAR PURUSHOTHAMA ACA F-3 C BLOCK BRINDAVAN APTS CHIKOTI GARDENS BEGUMPET HYDERABAD-500016
43	051330	MR. MURARKA DEVENDRA KUMAR FCA 505 NANDANAM APARTMENTS 5-8-42, FATEH SULTAN LANE HYDERABAD-500001	53	103701	MR. NAVEEN KUMAR MAHESHWARI ACA DEPUTY GENERAL MANAGER (FINANCE & ACCOUNTS) M/S RAMA NEWSPRINT AND PAPERS LIMITED NARIMAN BHAVAN, 12TH FLOOR 227 VINAY K SHAH, NARIMAN POINT MUMBAI-400021
44	056615	MR. KARN MANOJ LAL FCA FLAT NO.G2 SRI SAI RAM APARTMENT 5/8 5TH CROSS I MAIN GOVINDRAJ NAGAR VIJAYNAGAR BANGALORE-560040	54	105080	MRS. SOHAYA SAMEER SHETTY ACA 26-B RMV IIND STAGE 1ST BLOCK 1ST MAIN, II CROSS BANGALORE-560094
45	056805	MR. DASH PRUTHIVIRAJ ACA ASSISTANT MANAGER FINANCE BHARAT DYNAMICS LIMITED MEDAK-502305	55	200364	MS. BHOOMA G ACA 51/26 FIRST MAIN ROAD VASANTH APARTMENTS R A PURAM CHENNAI-600028
46	057402	MR. KANODIA AJAY KUMAR FCA ESSAR APARTMENTS FLAT NO.G-2 2ND FLOOR 10-2-268-270 WEST MARREDPALLY SECUNDERABAD-500026	56	201043	MS. SARADA KALYANI B FCA 1-1-380/38 ASHOK NAGAR EXTENSION HYDERABAD-500020
47	094455	MS. MADHAVI P ACA 162 VAYUPURI SECUNDERABAD-500594	57	201111	MR. SABU K S ACA P O BOX 26359 DUBAI-U.A.E
48	094469	MR. DHINGRA SANDEEP FCA FLAT NO.11 2ND FLOOR SUBARAGH APARTMENTS 12 SHENOY ROAD NUNGAMBAKKAM CHENNAI-600034	58	201171	MR. BALACHANDRA CHADAGA P R ACA NO. 125 7TH MAIN BDA LAYOUT AVALAHALLI BSK III STAGE BANGALORE-560085
			59	201451	MR. RAVENDRUDU R FCA NO:9 (OLD NO:34) SASTRI 1ST CROSS STREET SALIGRAMAM CHENNAI-600093

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
60	201537	MR. MURALI S ACA FLAT NO.4 A SURAJ TOWERS 128 L B ROAD THIRUVANMIYUR CHENNAI-600041	71	203760	MS. LAVANYA S ACA 13 RANJITH ROAD KOTTURPURAM CHENNAI-600085
61	201636	MR. SANTHILNATHAN BALASUBRAMANIAM ACA C/O MR. CHANDRASEKAR NO.55, 10TH CROSS NEWTHELLAI NAGAR COIMBATORE-641041	72	204099	MR. RAVI KRISHNA P ACA H NO. 6-3-1186/A/6 BEGUMPET HYDERABAD-500016
62	201934	MR. ANANTHAKRISHNAN C S FCA FLAT NO 208, BLOCK - B BELVEDERE GARDENS - PHASE 2 PADMARAO NAGAR SECUNDERABAD-500025	73	204154	MR. SRIDHAR R J FCA C/O MR T G RAMALINGAM NEW NO 12 (OLD NO 34) AGRAHARAM ROAD SIVALINGA PURAM, 1 CROSS STREET KORATTUR RAILWAY STATION PO, KORATTUR CHENNAI-600076
63	201991	MS. REVATHI R ACA FLAT NO.403 IVTH FLOOR PLEASANT APARTMENTS 11-4-169/1-A SAIFABAD BAZAAR GHAT (RED HILLS) HYDERABAD-500004	74	204199	MS. VAIJAYANTHI G ACA NEW NO 8, (OLD NO 25) THANDAVARAYAN STREET TRIPPLICANE CHENNAI-600005
64	202340	MR. SAJU K PAULOSE ACA 70 BEAUMONT CIRCLE APT-2 YONKERS NEW YORK 10710 U.S.A	75	204297	MR. SRIRAM M R ACA 7-A, CHAAND TOWER 128 L B ROAD THIRUVANMIYUR CHENNAI-600041
65	202388	MR. RADHA SHYAM GOTETI FCA 1-1-782/B/5 GANDHI NAGAR HYDERABAD-500080	76	204406	MR. MATHIVANAN B ACA NO. 9 ALSA MAIL 1ST FLOOR 149 MONTHIETH ROAD CHENNAI-600008
66	202683	MR. SRIDHAR N ACA 19 ICRISAT COLONY AKBAR ROAD SECUNDERABAD-500009	77	204579	MR. SRINIVASAN D ACA NO.30 KO SU MANI STREET PADMANABHA NAGAR CHOLLAIMEDU CHENNAI-600094
67	202795	MR. MAHESH R ACA BI CEE DFE YES APARTMENTS 33 VOC I MAIN ROAD KODAMBAKKAM CHENNAI-600024	78	204660	MR. MADHAN N ACA WESCARE TOWERS CENOTAPH ROAD CHENNAI-600018
68	202867	MR. BHAVIKATTI ANAND MALLIKARJUN ACA C/O SHRI R MUDDAPPA 396, 7TH CROSS IBLOCK, JAYANAGAR BANGALORE-560011	79	204680	MR. SRIDHAR S ACA 13 SANTHANAKRISHNA STREET NEHRU NAGAR CHENNAI-600044
69	203460	MR. RAJESH SRIPADA ACA ASST. MANAGER - INTERNAL AUDIT NATIONAL BANK OF FUJAI RAH P O BOX 1416 SHARJAH-U.A.E	80	204694	MS. LAKSHMI KIRAN SWATHY D FCA A-19 B K GUDA SANJEEVA REDDY NAGAR COLONY HYDERABAD-500038
70	203627	MR. VENKATESH G ACA 27/1, I FLOOR BANK OF BARODA COLONY EXTENSION BEHIND BRIGADE MILLENNIUM J P NAGAR VII PHASE BANGALORE-560078	81	204700	MR. RAGHUNATH REDDY K ACA H NO 68 JYOTHI NAGAR NEAR LANGER HOUSE HYDERABAD-500008

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
82	204857	MS. GAYATHRI TACA FLAT 3A NO. 18 (NEW NO. 38) FOURTH MAIN ROAD KASTURBAI NAGAR ADYAR CHENNAI-600020	93	206766	MR. VASUDEVAN K ACA FINANCE CONTROLLER M/S DRHL INDIA SERVICES PVT LTD CONNECTION POINT, UNIT NO 311,314 & 411 #335 AIRPORT EXIST ROAD, KONENAAGRAHARA BANGALORE-560017
83	204883	MR. SUNIL KUMAR JAIN SACA 18 SWAMI SANNATHI LANE EAST MASI STREET MADURAI-625001	94	206967	MR. VIKASANANDACA 878 FF 6 BLOCK 6 CROSS 18 MN KORAMANGALA BANGALORE-560095
84	204889	MR. SUBHASCHANDRA PAI T ACA FN-5 MRPL HOUSING COLONY KUTHETHUR PO VIA KATIPALLA MANGALORE-575030	95	207003	MR. SRINIVASA RAO DOPPALA PUDI ACA PLOT NO 70 SWAGRUHA APTMENTS YOUSUFGUDA HYDERABAD-500045
85	205069	MR. SUBRAMANIAN P S ACA G-184 "VISAL" PANAMPILLY NAGAR KOCHI-682036	96	207238	MR. KANDURI SRINIVASA MURTHY ACA 49-14-16/1 LALITHANAGAR VISAKHAPATNAM-530016
86	205173	MR. ROY MATHEW FCA THE SWADESY BANKERS BUILDINGS PULIMOOD JUNCTION KOTTAYAM-686001	97	207321	MR. INDRAJIT KOWSIK PACA 102 HARSHA APTS VANI NAGAR MALKAJGIRI HYDERABAD-500047
87	205724	MR. SOMASKANDAN P S ACA FLAT 8 USHAS APTS 16TH MAIN IV BLOCK JAYANAGAR BANGALORE-560011	98	207345	MR. RAJENDRA K ACA 109 NHCS LAYOUT WCR 3RD STAGE 4TH BLOCK BASAVESWARANAGAR BANGALORE-560079
88	205881	MR. TOTLA PRADEEPKUMAR RAJENDRAPRA ACA SENIOR MANAGER-CORPORATE FINANCE & MIS MANDHANA BORNEMANN PVT. LTD 90/91 PEENYA INDL ESTATE III PHASE BANGALORE-560058	99	207389	MR. KANCHERLA BALAJI ACA #G003 UJWALA APTMENTS MG LAYOUT 33RD 'A' MAIN JP NAGAR 6TH PHASE BANGALORE-560078
89	206002	MS. MEENAKSHI C ACA F12 SHERA SQUARE 156 CHOOALAMEDU HIGH ROAD KODAMBAKKAM CHENNAI-600094	100	207424	MR. VINOD R ACA 19 & 20 KALINGARAYAN STREET RAM NAGAR COIMBATORE-641009
90	206164	MS. KALA P R ACA GITANJALI INDIRA NAGAR KADAVANTHRA KOCHI-682020	101	207485	MS. SUJATHA BALAJI ACA 13 II STREET SUBRAMANIYA NAGAR KODAMBAKKAM CHENNAI-600024
91	206658	MR. RAJESHBABU R ACA 50 ALWARTHIRUNAGAR ANNEXE CHENNAI-600087	102	207531	MR. MUKUNDA J NACA 113 LAKSHMAN RAO ROAD B V K IYENGAR ROAD CROSS BANGALORE-560053
92	206709	MR. SHAMERCE PHILIP ACA C-46, ERUPPAKKATTU ELANGATH NAGAR - B-31 VALIYEVILA THIRUMALA PO THIRUVANANTHAPURAM-695006	103	207583	MR. RAM MANOJ KUMAR S S FCA MANAGER-CREDIT & ADMN. IDBI LIMITED 3Y, P.M TOWERS GREAMS ROAD CHENNAI - 600 006.

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
104	207676	MS. GEETHA HANUMANTHARAO ACA NEW NO. 24 (OLD NO.56) MONTIETH ROAD EGMORE CHENNAI-600008	115	208328	MS. SHEBA SORUBA RANI ACA C/O GULF AGENCY COMPANY P O BOX 2404 BUR DUBAI DUBAI-U.A.E
105	207724	MR. CHANDRASEKARAN N M FCA 106/2862 RAMANATHAN COMPLEX MARIES CORNER THANJAVUR-613001	116	208378	MR. SAMUEL KUTTY V O ACA SHEBA RANI C/O GULF AGENCY COMPANY PO BOX 2404 BUR DUBAI DUBAI-U.A.E
106	207791	MS. RAJSHRI R ACA SENIOR SUPPORT ENGINEER ORACLE SOFTWARE ORACLE TECHNOLOGY PARK 3 BANNERGHATTA ROAD BANGALORE-560029	117	208476	MR. KALYANARAMAN V FCA NEW NO.44 (OLD NO.23) NATHAMUNI STREET II FLOOR T NAGAR CHENNAI-600017
107	207814	MS. LALITA MITHIPATI ACA 3-1-163B SUDARSANA NARAYANAPET ROAD AMALAPURAM-533201	118	208531	MR. MOHAMMED ALI ACA ACCOUNTANT-BRANCH SUPPORT AL FUTTAIM MOTORS FINANCE DEPARTMENT P O BOX 11052 DUBAI-U.A.E
108	207823	MR. DAMODAR S ACA #22 2ND MAIN 3RD CROSS AYYAPPA TEMPLE ROAD SUBBANNA GARDEN BEHIND BTS BUS GUARAGE VIJAYANAGAR BANGALORE-560040	119	208611	MR. DINESH P PAI ACA AATHIRA, TC NO.15/417 - (I) ALTHARA NAGAR VELLAYAMBALAM SASTHAMANGALAM PO THIRUVANANTHAPURAM-695010
109	207844	MS. SANGEETHA P DAS ACA H NO 37/3090 'SANGEETH' BANK ROAD KALOOR KOCHI-682017	120	208832	MS. ANURADHA V ACA P-I B-76 PRINCETON ESTATE (OPP: GOLF COURSE) DLF PHASE V GURGAON-
110	207897	MR. RAVI KIRAN KUMAR REDDY P ACA PLOT NO 66, BLOCK-A SECTOR II ALKAPOOR TOWNSHIP PUPPALAGUDA HYDERABAD-500075	121	208961	MR. ARMSTRONG S A ACA R S M & CO P O BOX 1171 POSTAL CODE 112 RUWI-SULTANATE OF OMAN
111	208031	MR. JIJIL KUMAR M J FCA MY-3 MUDAVANKATTIL HOUSE KOTTAPPURAM POOTHOLE (PO) THRISSUR-680004	122	209423	MS. SRIVIDYA S ACA NO 29, PERUMAL KOIL STREET ERODE DIST GOBICHETTIPALAYAM-638452
112	208086	MR. RADESH KRISHNA S ACA 32 FIRST CROSS STREET LIC COLONY THANJAVUR-613007	123	210182	MR. SHAJI C J ACA C/O ST ANTONY'S CHURCH NO 2 KOLANDAI STREET PARK TOWN CHENNAI-600003
113	208203	MR. SASI KUMAR P FCA NO.45/A I FLOOR NELSON MANICKAM ROAD CHOLLAIMEDU CHENNAI-600094	124	210485	MR. SWAMYA M ACA H NO.29-186/1 NEW VIDYA NAGAR COLONY R K PURAM NEREDMET SECUNDERABAD-500056
114	208286	MS. LAJU ELIZABETH CHERIAN ACA PALLARITHARA HOUSE ERICADU PUTHUPALLY PO KOTTAYAM-686011			

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
125	210491	MR. ASHOK K K ACA ASSOCIATE SCOPE INTERNATIONAL PVT. LTD. 1 HADDOWS ROAD CHENNAI-600006	136	211366	MR. SRIVATSAN NACA 33 EIGHTH MAIN ROAD KASTURIBA NAGAR ADYAR CHENNAI-600020
126	210503	MR. HARI PRASAD K ACA OLD NO.20 NEW NO.6 RUKMINI STREET WEST MAMBALAM CHENNAI-600033	137	211487	MR. PUTCHA VENKATESWARLU ACA 17-1-388/10/A LAXMINAGAR COLONY SAIDABAD HYDERABAD-500059
127	210514	MR. AVINASH PAJACA NO. 225/C 1ST C CROSS 18TH MAIN, HAL 2ND STAGE INDIRANAGAR BANGALORE-560008	138	211700	MR. NARASIMMA RAGHAVAN RACA NO 18 VEIVA NAGAR 2ND STREET WEST TAMBARAM CHENNAI-600045
128	210548	MR. VIJAY K VACA E-10 SANGATH M G R NAGAR 2ND STREET VELACHERY CHENNAI-600042	139	211904	MR. SREEJITH K ACA KUNIYIL HOUSE PANOOR VIA KANNUR DIST CHENDAYAD P O-670692
129	210716	MR. KALPESH R MAROO ACA 451, I BLOCK 3RD STAGE BASAVESHWAR NAGAR NEAR KADAMBI SCHOLL BANGALORE-560079	140	211937	MR. AJAKS C J ACA XXXIX/352, MANGALATH BUILDING MONASTERY ROAD KARAKKAMURI KOCHI-682011
130	210749	MR. VIMANENI SUDHEER ACA C/O KOGANTI GOWRIAH DOOR NO 11-3-23 CHENCHUPET TENALI-522202	141	212104	MR. NATARAJAN MACA 90 EAST LOKAMANYA STREET R S PURAM COIMBATORE-641002
131	210888	MS. VARSHA V KAKATI ACA SUPPORT ANALYST ORACLE INDIA SOFTWARE PRIVATE LTD HITEC CITY, MADHAPUR HYDERABAD-500081	142	212156	MS. DEEPA S ACA W/O MR S RAJESH PLOT NO.497 SECTOR 25 PCNDTA - PRADHI KARAN NIGDI PUNE-411044
132	210985	MR. RAVI TIBREWAL ACA 424 8TH MAIN 7TH CROSS BTM II STAGE MICO LAYOUT BANGALORE-560076	143	212163	MS. RAJA RAJESHWARI S ACA EE6 FERN LAND APARTMENTS 103 ERIKARI STREET PERUNGUDI CHENNAI-600096
133	211076	MS. PARVATHAVARDHINI NACA 24 NALLAPPAN STREET MYLAPORE CHENNAI-600004	144	212164	MR. VIVEK RAJAGOPALAN DACA NO.1 JUDGE COLONY SECOND STREET TAMBARAM SANATORIUM CHENNAI-600047
134	211162	MR. VIJAY KUMAR KONDRAGUNTA ACA S/O K V RAMANAIAH KAMEPALLI VIA PRAKASAM DIST UPPALADINNE P O-523271	145	212174	MR. VENKATABRAHMANANDARAOGUNDA ACA LAKSHMIPURAM 4TH LINE DOOR NO 5-91-12 GUNTUR-522007
135	211235	MR. MADHU GOGULA ACA D NO 11-7-1 MALLAVARAPUVARI STREET ANAKAPALLI-531001	146	212193	MR. RAJAGOPALAN K ACA 18 SRINAGAR COLONY KURUMBAPALAYAM VEDAPATTI POST COIMBATORE-641007

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
147	212207	MR. VIJAY KISHORE MISHRA ACA HOUSE NO 5-5-1019 GOSHAMAHAL HYDERABAD-500012	158	213028	MR. VENKATESWARLU BADVETI ACA MANAGER - ACCOUNTS WIPRO LTD - (LIGHTING DIVISION) NO.105 HOOTAGALLI INDUSTRIAL AREA MYSORE-570018
148	212369	MR. AKELLA SHREE RAM VAMSI ACA 50-50-38/13 T P T COLONY SEETHAMMADHARA VISAKHAPATNAM-530013	159	213059	MR. SUNIL KUMAR CHEBROLU ACA T F-4 RATNA TOWERS 18/1 ARUNDELPET GUNTUR-522002
149	212429	MS. SURYAPRABHA RENU S ACA H NO.29-186/1 NEW VIDYANAGAR COLONY R K PURAM NEREDMET SECUNDERABAD-500056	160	213153	MR. RAJU M PALLAN ACA CHIEF ACCOUNTANT MANNAI TRADING & CONTRACTING EST P O BOX 5664 MANAMA BAHRAIN-
150	212466	MR. PAI BETAL RAGHAVENDRA A ACA SHREE SHANTERI RAMANBAIL UTTARA KANNADA SIRSI-581401	161	213159	MS. SWAPNA NADELLA ACA BS-5, SAI MODEL VILLAGE RAMAVARAPPADU VIJAYAWADA-521108
151	212517	MR. SUNIL KUMAR SIYAL M ACA 18/8, INFANTRY ROAD CROSS BANGALORE-560001	162	213212	MS. JYOTI RATHI ACA 3-5-141/2/1 EDENGARDENS HYDERABAD-500001
152	212526	MR. MAHAVEER CHAND BAGRECHA ACA 610 AKASH GANGA APARTMENTS 24/10 FLOWERS ROAD CHENNAI-600010	163	213250	MR. GOPINATH MISHRA ACA INTERNAL AUDIT CORPORATE FINANCE DIVISION THERMAX HOUSE, THERMAX LTD., 4 PUNE-MUMBAI ROAD SHIVAJI NAGAR PUNE-
153	212558	MR. VENKATA SATYAPAVAN KUMARITHA ACA 4-4-214 INDERBAGH SULTAN BAZAR HYDERABAD-500095	164	213341	MR. GUDAPUREDDY SREEDAR REDDY ACA A-2 NEELAM APARTMENTS FEROJ GUDA SECUNDERABAD-500011
154	212583	MS. MAHALAKSHMI V S ACA T-1 THIRD FLOOR RAO'S BALAJI APTS BHARADWAJA STREET EAST TAMBARAM CHENNAI-600059	165	213422	MR. PHANI KUMAR GANAPAVARAPU ACA D NO.16-23-10/B NEAR OLD SIVALAYAM OLD GUNTUR GUNTUR-522001
155	212685	MR. RAGHAVENDRA RAO M ACA SENIOR EXECUTIVE - FINANCE- ABAN POWER COMPANY LIMITED NO.9 KARUPPUR VILLAGE PANDANALLUR (VIA) TIRUVIDAIMARUDUR-609807	166	213644	MR. GEORGE JACOB ACA FINANCIAL CONTROLLER CRESTWOOD INTERIORS LLC P O BOX 30393 DUBAI-U.A.E
156	212758	MR. VIJAY BACA NO.54 'N' BLOCK ADICHUNCHUNGIRI ROAD KUVEMPUNAGAR MYSORE-570023	167	213962	MR. KALA MURALI KRISHNA ACA S/O MR K PEDDI RAJU B C COLONY BALUSUMUDI WEST GODAVARI DISTRICT BHIMAVARAM-534202
157	212776	MS. MITA SHETTY ACA #002 'A' BLOCK STERLING PARK APARTMENTS SANJEEVINI NAGAR BANGALORE-560092	168	213979	MS. HARINI R ACA A-004 SPARTACUS APARTMENTS 30TH CROSS 4TH 'T' BLOCK JAYANAGAR BANGALORE-560041

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
169	214259	MR. KETAN SAVLA ACA FLAT NO 15 KALPATARU APARTMENTS EDEN BAGH HYDERABAD-500001	171	502045	MR. SARAFABHISHEK ACA 166, 6TH MAIN B T M STAGE K E B LAYOUT BANGALORE-560076
170	402038	MR. AGIWALJAI PRAKASH ACA HOUSE NO. 148/1, 11TH MAIN 9TH CROSS, HAL, II STAGE OLD THIPPASANDRA BANGALORE - 560 008			

(ASHOK HALDIA)
SECRETARY

New Delhi-110002, the 4th August 2006

No. 13-CA (EXAM)/ISA/S/2006: - In pursuance of Rule 7 of Schedule 'F' to Regulation 204 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 (as amended vide Notification No. 1-CA (7)/59/2001 dated 28th September, 2001), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Information Systems Audit (ISA) Course Assessment Test will be held on **23rd September, 2006 from 8.00 am to 12.00 noon** at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre as detailed below.

CATEGORY - I

(Centres at which ISA AT would be held)

1	Ahmedabad	16	Kanpur
2	Aurangabad	17	Kolkata
3	Bangalore	18	Lucknow
4	Bhubaneswar	19	Ludhiana
5	Chandigarh	20	Meerut
6	Chennai	21	Mumbai
7	Coimbatore	22	Nagpur
8	Delhi/New Delhi	23	Patna
9	Ernakulam	24	Pune
10	Gurgaon	25	Raipur
11	Guwahati	26	Rajkot
12	Hyderabad	27	Ranchi
13	Indore	28	Saharanpur
14	Jaipur	29	Surat
15	Jalgaon		

CATEGORY -II

(Centre at which ISA AT would be held subject to a minimum of 25 candidates opting to appear from this centre)

01. Satna

The candidates who opt for a centre mentioned under category - II would be required to give one or two alternate centres in order of preference from centres mentioned under Category I. In the event of a minimum of 25 candidates not opting for a centre mentioned under Category II, candidates who had opted for the said centre would be allotted to the centre of their choice in order of preference in Category I as mentioned in their application form. If any candidate who has opted for a centre in Category II has not given his option for any alternate centre in Category I, he will be allotted to any of the nearest centre in Category I as per the discretion of the Institute.

It has been decided that the members already registered for the ISA Course, prior to the introduction of the New Syllabus from January 2006, will have the option to appear in ISA AT to be held in September 2006 either in the syllabus effective from January 2006 i.e., "New Syllabus" or in the syllabus as existed until December, 2005 i.e., "Old Syllabus". The members, however, registered for ISA Course effective from January

2006 will be eligible to appear only in the New Syllabus. It is notified for general information of the members registered for ISA Course that September 2006 shall be the last ISA AT being held concurrently in old syllabus as well as in new syllabus and ISA AT shall be held in December 2006 and onwards only in the new syllabus.

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason. The above test is open only to eligible Members of the Institute who are already registered with the Institute for the said course. The fees payable for the above Assessment Test is Rs. 1000/-.

Payment of fees for the Assessment Test should be made only by Demand Draft. The Demand Draft may be of any Scheduled Bank and should be drawn in favour of the Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi only. Application together with the prescribed fee be sent so as to reach the Joint Secretary (Exams) at New Delhi on or before **1st September 2006**.

Applications for admission to the Assessment Test is required to be made in the prescribed form which may be obtained from the Joint Secretary (Exams), The Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002 on payment of Rs.25/- per application form. **The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained on cash payment on or from 11th August 2006. Alternatively, the format of application form can be downloaded from the website of the Institute viz. www.icai.org and the cost of the application form of Rs. 25/- can be added to the Assessment Test fee of Rs. 1000/- and the Demand Draft for Rs. 1025/- has to be sent. The last date for receipt of duly filled in application forms is 1st September 2006.** The application together with the prescribed fee should be sent by Speed Post/Registered Post to the Joint Secretary (Exams.), New Delhi. The applications received after 1st September 2006 will not be entertained under any circumstances.

(V. SAGAR)
DEPUTY SECRETARY (EXAMS.)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 31st July 2006

No. N-15/13/6/22/2006-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely

"MARAKKARA IN TIRUR TALUK IN MALAPPURAM DISTRICT."

(**M. SUNDARARAMAN**)
DIRECTOR (P&D)

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (MINIMUM QUALIFICATIONS
REQUIRED FOR THE APPOINTMENT AND CAREER ADVANCEMENT OF
TEACHERS IN UNIVERSITIES AND INSTITUTIONS AFFILIATED TO IT)
(SECOND AMENDMENT REGULATIONS, 2006).**

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

New Delhi-110 002, 14th June 2006

F.No.1-1/2002(PS) Exemp.

In exercise of the powers conferred by clause (e) & (g) of sub-section(I) of Section 26 read with Section 14 of University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the Regulations issued under University Grants Commission letter No.F.1-93/74(CPP) Part(v) dated 13th June, 1983, No.F.1-11/87(CPP-II) dated 19th September, 1991 and No.F.1-11/87(CPP) dated 21st June, 1995 and Notification No.F.1-93/74(CP) dated 19th February, 1985, 26th November, 1985 and No.F.3-1/94(PS) dated 24th December, 1998. UGC Regulations No.F.3-1/2000(PS) dated 4.4.2000 and No.F.1-1/2002(PS) Exemp. Dated 31st July, 2002, the UGC hereby makes the following Regulations to amend the UGC (Minimum Qualifications Required For The Appointment And Career Advancement Of Teachers in Universities and Institutions affiliated to it) Regulation, 2000, namely:-

1. Short Title, Application and Commencement:

- (i) These regulations may be called UGC (Minimum Qualifications Required For The Appointment And Career Advancement Of Teachers in Universities and Institutions affiliated to it) (Second Amendment) Regulations, 2006.
- (ii) They shall apply to every university established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or a State Act, every institution including a constituent or an affiliated college recognized by the Commission, in consultation with the university concerned under Clause (f) of Section-2 of the UGC Act, 1956, and every institution deemed to be a university under Section 3 of the said Act.
- (iii) They shall come into force with immediate effect.

In the University Grants Commission (Minimum Qualifications required for the appointment and Career Advancement of Teachers in Universities and Institutions affiliated to it) Regulation, 2000, wherever the following para occurs:-

"NET shall remain the compulsory requirement for appointment as Lecturer even for candidates having Ph.D. degree. However, the candidates who have completed M.Phil degree or have submitted Ph.D. thesis in the concerned subject upto 31st December, 1993 are exempted from appearing in the NET examination."

should be substituted with the following para:

Institutions affiliated to it) Regulation, 2000, wherever the following para occurs:-

"NET shall remain the compulsory requirement for appointment as Lecturer. However, the candidates having Ph.D. degree in the concerned subject are exempted from NET for PG level and UG level teaching. The candidates having M.Phil degree in the concerned subject are exempted from NET for UG level teaching only."

(Prof. Mool Chand Sharma)
Secretary

INDIAN NURSING COUNCIL

New Delhi-110 002, the 11th July 2006

No. 11-1/2006-INC In exercise of the powers conferred by Section 16 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (48 of 1947), the Indian Nursing Council hereby makes the following Regulations namely:

- i) **Short Title and Commencement:** - These Regulations may be called the "Syllabus and Regulations for the Diploma in General Nursing and Midwifery - Revised 2001"
- ii) These regulations have become effective w.e.f. 22.12.2001.

T. Dileep Kumar
President - INC

INDIAN NURSING COUNCIL
SYLLABUS AND REGULATIONS
FOR THE
DIPLOMA IN GENERAL NURSING
AND MIDWIFERY
REVISED—2001

**GUIDELINES AND
MINIMUM REQUIREMENTS FOR
SETTING UP OF A SCHOOL OF NURSING**

GUIDELINES

The following are the minimum pre-requisites for recognition of a School of Nursing offering a Diploma in General Nursing and Midwifery programme.

The authority which desires to open a School of Nursing has to furnish the following documentary proof to the Indian Nursing Council and comply with the following:

1. Any organization under the Central Government, State Government, Local body or a Private or Public Trust, Mission, Voluntary registered under Society Registration Act or a Company registered under company's act wishes to open a School/College of Nursing, should obtain the No Objection/Essentiality certificate from the State government.
2. The Indian Nursing council on receipt of the proposal from the Institution to start nursing program (School/College), will undertake the **first inspection** to assess suitability with regard to physical infrastructure, clinical facility and teaching faculty in order to give permission to start the programme.
3. After the receipt of the permission to start the nursing programme from Indian Nursing Council, the institution shall obtain the approval from the State Nursing Council and Examination Board/University.
4. Institution will admit the students only after taking approval of State Nursing Council and Examination Board/University.
5. The Indian Nursing Council will conduct inspection every year till the first batch completes the programme. Permission will be given year by year till the first batch completes.

Teaching faculty

The Principal should be the administrative head of the school, He/She should hold qualification as laid down by INC. The Principal should be the controlling authority for the budget of the school and also be the drawing and disbursing officer. The Principle and Vice-Principle should be gazetted officers in Government Schools and of equal status (though non - gazetted) in non- government Schools.

- A. For School of nursing with 150 students (i.e., an annual intake of 50students) the following faculty is required:

Teaching Faculty	No. Required
Principle	1
Vice Principle	1
Senior Tutor	3
Tutor	12
Additional Tutor for Interns	1
1:4 ratios is to be maintained for Senior Tutor.	

- B. For a School of Nursing with 60 students (i.e., an annual intake of 20 Students):

Teaching Faculty	No. Required
Principle	1
Vice Principle	1
Senior Tutor	1
Tutor	5
Additional Tutor for Interns	1

Note:

1. Teacher student ratio should be 1 : 10
2. School of Nursing cannot start this course with the annual intake less than 20 students.
3. One of the Tutors should stay at the community health field by rotation.
4. The salary structure of the teaching faculty in private Schools of Nursing should not be less than what is admissible in the schools of nursing under State/Central Government.
5. Nursing service personnel should actively participate in instruction, Supervision, guidance and evaluation of student in the

- clinical and field/community practice areas. The teaching faculty of the School of nursing should work in close coordination with nursing service personnel.
6. The teaching faculty of the school and the nursing service personnel should be deputed to attend short term educational courses/ workshops/ conferences etc. to update their knowledge. Each one of the teaching faculty
 7. It is mandatory for school authorities to treat teaching faculty of the school of nursing on duty when nominated/selected for the purpose of examination or inspection or inspection by the Council
 8. The Senior Tutor and Tutors should spend at least four hours each day in the clinical area for clinical teaching and / or supervision of care by the students.
 9. INC will not permit more than 60 students per batch.

Qualification of Teaching Staff

1. Principal : M.Sc. Nursing with 6 years of teaching experience or B.Sc. Nursing (Basic) /Post Basic with 8 years of teaching experience.
2. Vice-Principal : M.Sc Nursing with 4 years of teaching experience or B.Sc Nursing (Basic) Post Basic with 6 years of teaching experience.
3. Senior Tutor : M.Sc Nursing with 2 years of teaching experience or B.Sc with 4 years of teaching experience.
4. Tutor : M.Sc Nursing or B.Sc Nursing (Basic/Post Basic) or Diploma in Nursing Education and Administration or its equivalent with 2 years of professional experience after graduation

External Lecturers

Besides the regular teaching faculty in the school of Nursing, there should be provision for external lectures for teaching the students. They should possess the desired qualification in the respective subjects which are to be taught. Remuneration of these external lecturers is to be paid as per the Institute/ govt. policy. The external lecturers may comprise of Nursing experts Medical Faculty and scientists, General Educationists including teaching experts in English, computer Education. Physical Education/Yoga, Psychologists, Sociologists, Hospital Dieticians, Nursing Service personnel like Nursing Superintendent, Ward In charge or Ward sister, Health Economist/Statistician etc. working in or outside the institution.

Additional Staff for School of Nursing

1. Stenographer/Personal Assistant	One	} Should have knowledge of Computer
2. Senior Clerk cum Cashier/ Accountant	One	
3. Junior Clerk cum Typist	One	
4. Librarian	One	
5. Laboratory Attendant	One	
6. Chowkidar/Watchman	Two	
7. Driver	One for each vehicle	
8. Cleaner	One for each vehicle	
9. Peon	Three	
10. Sweeper/Safai Karmachari	Two	
11. Machine (Duplicating/Xerox) operator	One	

Note: Provision should be made to have relieving staff in addition to the regular staff according to rules.

School Management Committee

Following members should constitute the Board of Management of the school.

Principal	Chairperson
Vice-Principal	Member
Senior Tutor	Member
Chief Nursing Officer/ Nursing Superintendent	Member
Representative of Medical Superintendent	Member

Budget

In the overall budget of the Institution, there should be provision for school budget under a separate head. Principal of the school of Nursing should be the drawing and disbursing officer.

Physical Facilities**Building**

The School of Nursing should have a separate building. If the school is situated in hospital premises, the area marked for the building of the school should be at a suitable distance from hospital which enables a calm environment ideally required for a school. Minimum land area recommended by INC for a school of nursing is four acres of land with constructed area? Owned and possessed by the applicant to set up the proposed nursing school. For a school with an annual admission capacity of 20 students, the constructed area of the school should be 4000 square feet. For every additional 10 seats, an additional constructed area of 2000 square feet should be increased. Constructed area can be increased in a phased manner between first and second year.

The **minimum physical facilities** which are required in the school are listed below:

1. Class rooms: There should be at least four classrooms with the capacity of accommodating the number of students admitted in each class. The rooms should be well ventilated with proper lighting system. There should be built in Black/Green/White Boards. Also there should be space to accommodate a desk/ dais. A big table and a chair for the teacher and racks/cupboards for keeping teaching aids or any other equipment needed for the conduct of classes also should be there. There should be enough space for providing proper and adequate seating facilities for the students in the class.

2. Laboratories: There should be at least four laboratories as listed below:

(a) *Nursing Practice Laboratory*. There should be demonstration beds in proportion to the number of students practicing a nursing procedure at a given point of time (the desired ratio being 1 bed: 6 practicing students).

It should be fully equipped with built-in-cupboards and racks. Wash-basins with running water supply, adequate furniture like table, chairs, electric fittings, etc. Sufficient Necessary inventory articles should be there sufficient number i.e. at least 10-12 sets of all items needed for the practice of nursing procedure by the students.

(b) *Community Practice Laboratory*. It should have all articles needed for practicing nursing procedures in a community set-up.

(c) *Nutrition Laboratory*: It should have facilities for imparting basic knowledge about food and to practice the cooking for the healthy as well as for the sick. The furnishing and equipments should include work-tables, cooking stoves, gas connection/fittings, wash-basins with running water-supply, cutlery, trays, plates, dietetic scales, cooking utensils, racks/shelves, refrigerator, pressure cooker, mixie and cupboards for storage of food items. The food items shall be purchased for the conduct of practical classes as and when required. Sets of crockery and cutlery for preparation, serving and display of food also should be there.

(d) *Computer Laboratory*: It can be shared with other departments.

Auditorium: Auditorium should be spacious enough to accommodate at least double the sanctioned/actual strength of students, so that it can be utilised for hosting functions of the school, educational conferences/workshops, examinations etc. It should have proper stage

with green room facilities. It should be well-ventilated and have proper lighting system. There should be arrangements for the use of all kinds of basic and advanced audio-visual aids.

4. Multipurpose Hall: It should have multipurpose hall, if there is no auditorium in the school.

5. Library: There should be a separate library in the school. It should be easily accessible to the teaching faculty and the students. It should have comfortable seating arrangements for half of the total strength of the students and teachers in the school.

There should be separate budget for the library. The library committee should meet regularly for keeping the library updated with current books, journals and other literature.

The library should have proper lighting facilities and it should be well-ventilated. It should have a cabin for librarian with intercom phone facility.

There should be sufficient number of cupboards, book shelves and racks with glass doors for proper and safe storage of books, magazines, journals, newspapers and other literature. There should be provision for catalogue-cabinets, book display racks, bulletin boards and stationery items like index cards, borrowers cards, labels and registers. Current books, magazines, journals, newspaper and other literature should be available in the library.

A minimum of 500 nursing books (all new editions), 3 kinds of nursing journals, 3 kinds of magazines, 2 kinds of newspapers and other kinds of current health related literature should be available in the library.

6. Offices requirements

(a) *Principal's Office*: There should be a separate office for the Principal with attached toilet and provision for visitor's room. Independent telephone facility is a must for the Principal's office with intercom facility connected/linked to the hospital and hostel.

(b) *Office for Vice-Principal*. There should be a separate office for the Vice-Principal with attached toilet and provision for visitor's room. Independent telephone facility is a must for Vice-principal's office with intercom facility connected/linked to the hospital and hostel.

(c) *Office for Faculty Members*. There should be adequate number of office rooms in proportion to the number of teaching faculty. One office room should accommodate 2 teachers only. Separate toilet facility should be provided for the teaching faculty with hand washing facility. There should be a separate toilet for male teachers.

(d) One separate office room for the office staff should be provided with adequate toilet facility. This office should be spacious enough to accommodate the entire office staff with separate cabin for each official. Each office room should be adequately furnished with items like tables, chairs, cupboards, built-in racks and shelves, filing cabinets and book cases. Also there should be provision for typewriters, computers and telephone.

7. Common Rooms: A minimum of 3 common rooms should be provided. One for the teaching faculty, one for the student and one for the office staff. Sufficient space with adequate seating arrangements, cupboards, lockers, cabinets, built-in-shelves and racks should be provided in all the common rooms. Toilet and hand washing facilities should be made available in each room.

8. Record Room: There should be a separate record room with steel racks, built-in shelves and racks, cupboards and filing cabinets for proper

storage of records and other important papers/ documents belonging to the school.

9. Store room: A separate store room should be provided to accommodate the equipments and other inventory articles which are required in the laboratories of the school. This room should have the facilities for proper and safe storage of these articles and equipments like cupboards, built-in-shelves, racks, cabinets, furniture items like tables and chairs. This room should be properly lighted and well-ventilated.
10. Room for Audio-Visual Aids: This room should be provided for the proper and safe storage of all the Audio- Visual Aids. The School should possess all kind of basic as well as advanced training aids like chalk boards, overhead projectors, slide and film – strip projector, models specimen, charts and posters, T.V & V.C. R, Photostat machine, tape recorder and computers.
11. Other Facilities: safe drinking water and adequate sanitary/toilet facilities should be available for both men and women separately in the school. Toilet facility to the students should be in the ratio of 1 : 25 students is to be made available for students along with hand washing facility. There should be a separate toilet for men.
12. Garage: Garage should accommodate a 50 seater vehicle.
13. Fire Extinguisher: Adequate provision for extinguishing fire should be available as per the local bye-laws.
14. Playground: Playground should be spacious for outdoor sports like Volleyball, football, badminton and for Athletics.

Clinical Facilities

Hospital

School of nursing should have a 200 bedded Parent/Affiliated Hospital:

1. Distribution of beds in different areas

Medical	40
Surgical	40
Obst. & Gynaecology	40
Pediatrics	20
Ortho	20
Eye/ENT	20
ICU/ICCU	10
Burns and Plastic	10

2. Bed Occupancy of the Hospital should be minimum 75%.

3. The size of the Hospital/Nursing Home for affiliation should not be less than 50 beds.

4. Other Specialties/Facilities for clinical experience required are as follows:

Major OT

Minor OT

Dental

Neonatology with Nursery

Communicable disease

Community Health Nursing

Cardiology

Oncology

Neurology/Neuro-surgery

Nephrology etc.

5. Affiliation of psychiatric hospital should be of minimum 30-50 beds.

6. The Nursing Staffing norms in the affiliated Hospital should be as per the INC norms.

7. The affiliated Hospital should give student status to the candidates of the nursing programme.
8. Affiliated hospitals should be in the radius of 10-15 kms.
9. 1:5 student patient ratio to be maintained.

Distribution of Beds

At least one third of the total number of beds should be for medical patients and one third for surgical patients. The number of beds for male patients should not be less than $1/6^{\text{th}}$ of the total number of beds i.e. at least 40 beds. There should be minimum of 750 deliveries per year (for annual admission capacity of 20 students) Provision should be made for Maternity Clinics, Child Health and Family Welfare Services and for preventive social medicine.

Sl. No.	Designation	Number	Requisite	Qualification
1.	Chief Nursing Officer (CNO)	1	For 500 beds and above	As of Principal of School of Nursing
2.	Nursing Superintendent (NS)	1	For 500 beds and above	As of Principal of School of Nursing
3.	Deputy Nursing Superintendent (DNS)	1	For 500 beds and above	As of Vice Principal of School of Nursing
4.	Asstt. Nursing Superintendent (ANS)	2	For every additional 50 beds	As of Vice Principal of School of Nursing

NORMS RECOMMENDED BY EXPERTS COMMITTEE ON HEALTH MANPOWER PRODUCTION AND MANAGEMENT (RESOLUTION OF FOURTH CONFERENCE OF CENTRAL COUNCIL OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, ON NURSING, 1995).

CATEGORIES

1. Nursing Superintendent
2. Dy. Nursing Superintendent
3. Departmental Nursing supervisors / Sisters
4. Ward Nursing Supervisors/Sisters

REQUIREMENTS

- 1:200 beds
- 1:300 beds
- 7:1000 (Plus one for every additional 100 beds)
- 8:200+30% leave reserve

5. Staff nurse for wards	1:3 (or 1: 9 each shift) + 30% leave reserve
6. For OPD, Blood Bank, X-ray Diabetic clinic CSR etc.	1: 100 OPD Patients (1 bed:5 OPD Patients) + 30 % leave reserve
7. For Intensive Care Unit (8 beds ICU for 200 beds)	1: 1 (or 1:3) for each shift) + 30% leave reserve)
8. For specialized departments and clinic such as OT, Labour room.	8: 200 + 30% leave reserve

Justifications

1. Needs may vary from one hospital to another, Depending on its size and service rendered, more staff than anticipated will be required.
2. Special attention is needed for supervision of patient care in the evening and night shifts.
3. 30% leave reserve posts are mandatory.

Other point to be considered

- a. The staff of the parent hospital should be strictly as per the criteria laid down by INC in terms of doctors, nurses and paramedical staff.
- b. Wards/Areas/OPDs/OTs/Clinical departments etc. must have adequate coverage of the staff in all the shifts to ensure that students are only for attending clinical experience in these areas and not utilized for service purposes.
- c. Continuing /in-service education programme must be attended by all staff nurses to keep themselves abreast with latest technologies and sophistication used in day to day patient care in these areas.

Community Health Nursing Field Practice Area

The students should be sent for community health nursing experience in urban as well as rural field area. Institute can be attached to primary health centre. A well set-up field teaching centre should be provided with facilities for accommodation of at least 10-15 students and one staff member at a time. Peon, cook and chowkidar should be available at health centre. Each

school of Nursing should have its won transport facilities and it must be under direct control of the Principal. The security of staff and students should be ensured.

Hostel

Adequate hostel/residential accommodation for students and staff should be available in addition to the above mentioned built up area of the Nursing School respectively.

Hostel Facilities

There should be a separate hostel for the male and female students. It should have the following facilities.

1. Hostel Room: It should be ideal for 2 students with the minimum 150 sq. ft. carpet area. The furniture provided should include a cot, a table, a chair, a book rack, a cupboard and a cloth rack for each student.
2. Toilet and Bathroom: Toilet and bathroom facilities should be provided on each floor of the students hostel at the rate of one toilet and one bathroom for 2-6 students. Geysers in bathroom and wash basins should also be provided.
3. Recreation: There should be facilities for indoor and outdoor games. There should be provision for T.V., radio and video cassette player.
4. Visitor's Room: There should be a visitor room in the hostel with comfortable seating , lighting and toilet facilities.
5. Kitchen & Dinning Hall: There should be a hygienic kitchen and dinning hall to seat at least 80% of the total students strength at one time with adequate tables, chairs, water coolers, refrigerators and heating facilities. Hand washing facilities must be provided.

6. Pantry: One pantry on each floor should be provided. It should have water cooler and heating arrangements.
7. Washing & Ironing Room: Facility for drying and ironing clothes should be provided in each floor.
8. Sick Room: A sick room should have a comfortable bed, linen, furniture and attached toilet. Minimum of 5 beds should be provided.
9. Room for Night Duty Nurses: Should be in a quiet area.
10. Guest Room: A guest room should be made available.
11. Warden's Room: Warden should be provided with a separate office room besides her residential accommodation.
12. Canteen: There should be provision for a canteen for the students, their guests, and all other staff members.
13. Transport: School should have separate transport facility under the control of the Principal. 25 and 50 seats bus is preferable.

Residential Accommodation

Residential family accommodation for faculty, should be provided, according to their marital status. Telephone facility for the Principal at her residence must be provided. Residential accommodation with all facilities is to be provided to the Hostel Warden.

Creche

There should be a crèche in the school campus.

Staff for the Hostel

1. Warden (Female) -3 : Qualification- B.Sc. Home Science or Diploma in House keeping/ Catering. Minimum three wardens must be there in every hostel for morning, evening and night shifts. If number of students s more than 150, one more warden/ Asst. Warden/ House keeper for every additional 50 students.
2. Cook-1: For every 20 students for each shift.
3. Kitchen & Dining Room helper-1 : For every 20 students for each shift.
4. Sweeper-3
5. Gardener-2
6. Security Guard/ Chowkidar-3

ADMISSION TERMS AND CONDITIONS**Eligibility Criteria**

1. Minimum and Maximum age for admission will be 17 and 35 years respectively. For ANM/LHV, there is no age bar.
2. Minimum education:
 - a) 10+2 class passed or its equivalent preferably with Science (Physics, Chemistry and Biology) subjects with aggregate of 45% marks.
 - b) Those who have cleared 10+2 vocational ANM course (revised after 2001) from the school recognized by Indian Nursing Council.
 - c) ANM training i.e. 10+1 ½ years training should also have passed +2 or its equivalent examination.
3. Admission of students shall be once in a year.
4. Students shall be medically fit.
5. In addition to the above, admission procedure can be laid down by concerned State Nursing Council/Nursing Examination Boards (S.I.B.E., M.I.B.E., C.M.A.I.).

Admission / Selection Committee

This committee should comprise of:

- Principal ---- Chairperson
- Vice-Principal
- Senior Tutor
- Chief Nursing Officer or Nursing Superintendent

Admission Strength

GNM programme is a skill oriented programme. Therefore, INC will permit Maximum of 60 (Sixty) students per batch per year.

Annual admission strength for each school should have prior sanction/permission from the Indian Nursing Council on the basis of

student patient ratio, i.e. 1:10 and other teaching learning facilities should be made available for effective learning.

Admission strength is sanctioned as per table given below:

Number of admissions per year	Hospital bed strength
20	250
30	300
40	400
50	500

TRAINING PERIOD AND TIME DISTRIBUTION

Duration of the Course

The Diploma course in General Nursing and Midwifery shall be of three years and six months duration.

There should be a preliminary period of 12 weeks. During this time the student will attend the wards for observation and supervised practice not exceeding 16 hours per Exemption for ANMs/LHVs/Female Health Workers.

Six months exemption in training shall be given during the third year (in midwifery) to those:

- (a) Who have undergone ANM training of 18 months or 2 years recognized by INC.
- (b) LHV's with 2½ years of training recognized by INC.

Therefore duration of training shall be of 3 years.

Syllabus: Same as prescribed for GNM trainees in all three years and Internship period.

Year-wise distribution of weeks, days and hours of the course

Maximum hours per week per student shall be 36 to 40 including class room instructions and clinical field practice.

I st	Year	46	weeks	1656	Hours
II nd	Year	46	weeks	1656	Hours
III rd	Year	46	weeks	1656	Hours

Note: Out of 52 weeks in one academic year, total of 6 weeks are deducted. 4 weeks vacation, one week preparatory leave and one week for examinations. Sundays and gazetted holidays are to be considered as holidays.

Vacation and Holidays

Annual Vacation	:	30 days
Sick Leave	:	10 days per annum
Preparatory Leave	:	7 days per annum

Sick leave cannot be accumulated from year to year.

Courses of Instructions and Supervised practice**FIRST YEAR**

Subjects	Theoretical Hours & Supervised Practice
1. Biological Science	120
(i) Anatomy & Physiology	90
(ii) Microbiology	30
II. Behavioural Science	60
(i) Psychology	40
(ii) Sociology	20
III. Fundamentals of Nursing	215
(i) Fundamentals of Nursing	175
(ii) First Aid	20
(iii) Personal Hygiene	20
IV. Community Health Nursing	150
(i) Community Health Nursing I	80
(ii) Environmental Hygiene	20
(iii) Health Education & Communication skills	20
(iv) Nutrition	30
V. English	30
Total Hours of First year	575

SECOND YEAR

Subjects	Hours
I. Medical Surgical Nursing I (including Pharmacology)	140
II. Medical Surgical Nursing II (Specialities)	120

III.	Mental Health & Psychiatric Nursing	70
IV	Computer Education	30
	Total hours of Second Year	360

THIRD YEAR

	Subjects	Hours
I.	Midwifery and Gyneacology	120
II.	Community Health Nursing II	100
III.	Paediatric Nursing	70
	Total hours of Third Year	290

INTERNSHIP PERIOD

	Subjects	Hours
I	Educational Methods & Media for teaching in practice of Nursing	45
II.	Introduction to Research	40
III.	Professional Trends & Adjustment	40
IV	Administration and Ward Management	45
V	Health Economics	20
	Total hours of Internship	190

SUPERVISION OF STUDENTS IN THE CLINICAL AREAS

The students posted in the clinical areas should be accompanied by teaching faculty of the school.

The same practice must followed when students are posted for requisite clinical experience to affiliated Hospital/ Agency/Institution.

The Nursing Service Personnel must actively participate in supervising, guiding and evaluating students in the hospital wards, health centers and in the community.

Records

Following are the minimum records which needs to be / should be maintained in the school

a) For Students

1. Admission record
2. Health record.
3. Class Attendance record.
4. Clinical and Field Experience record
5. Internal assessment record for both theory and practical
6. Mark Lists (State Council/ Board Results).
7. Record of extra curricular activities of Student (both in the School as well as outside).
8. Leave record
9. Practical Record Books- Procedure Book and Midwifery Record book to be maintained as prescribed by INC.
10. Cumulative Record.

b) For each academic year, for each class/batch

1. Course contents record (for each subject).
2. The record of the academic performance.
3. Rotation plans for each academic year.
4. Record of committee meetings.
5. Record of the stock of the school.
6. Affiliation record.
7. Grant -in -aid record (if the school is receiving grant -n -aid from any source like state Govt.etc).

Record of educational programmes organized for teaching faculty and student, both in the school as well as outside.

Annual repots (Record of the achievement of the school prepared annually).

School of Nursing should possess detailed and up-to-date record of each activity carried out in the school.

Health Services

There should be provisions for the following health services for the students:-

- a) An annual medical examination.
- b) Vaccination against Tetanus, hepatitis B or any other communicable disease as considered necessary.
- c) Free medical care during illness.
- d) A complete health record should be kept in respect of each individual students. The question of continuing the training of a student, with long term chronic illness, will be decided by the individual school.

CLINICAL EXPERIENCE

Student should be assigned for observing and practicing what they are learning under supervision in the clinical area. Minimum Clinical field Experience required and its suggested placement is as follows:

DISTRIBUTION OF CLINICAL EXPERIENCES

Year	First Year		Second Year		Third Year		Internship		Total of 3 years 6 months	
	Hrs.	Wks.	Hrs.	Wks.	Hrs.	Wks.	Hrs.	Wks.	Hrs.	Wks.
CLINICAL AREA										
Nursing Science	612	17	-	-	-	-	-	-	612	17
Medical Health Nursing 1 & 11	-	-	828	23	-	-	252	6	1080	29
Community Health Nursing	288	8	2	2	216	6	168	4	744	20
Psychiatric Nursing	-	-	216	6	-	-	126	3	342	9
Paediatric Nursing	-	-	-	-	288	8	126	3	414	11
Medwifery & Gynaecological Nursing	-	-	-	-	756	21	168	4	924	25
Intern's Area of Interest	-	-	-	-	-	-	84	2	84	2
Night duty experience for interns	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
TOTAL	900	25	1116	31	1260	35	924	24	4200	115

NOTE:

1. Student of first year shall be posted in general Medical, Surgical ward for developing skills in basic nursing experience and it shall not be applicable for developing specialized skills in these areas.
2. Community Health experience in 2nd Year (2 Weeks). Community Health Nursing Experience.
3. No night duty experience in the first year. Only 8 weeks of night duty experience is to be given throughout the training period.
4. The extra hours which have not been accounted for in this syllabus can be planned and utilized by individual Schools as per their need.

EVALUATION

INTERNAL ASSESSMENT

1. There shall be 25% Internal assessment for all theory papers and 50% Internal assessment for all the practical.
2. A regular and periodic assessment for each subject and clinical/ field experience is to be carried out..
3. For the purpose of internal assessment there shall be written test in each subject taken by the respective teacher each month
The student shall be required to maintain the Practical record book and report of observation visits and diary for assessment must also be used. Marks shall be allotted for each of the following:
 - a) Case study
 - b) Case presentation
 - c) Nursing care plan
 - d) Maintenance of record books (Procedure Book and Midwifery Record book).
 - e) Daily diary.
 - f) Areawise clinical assessment it to be carried out. Minimum two assessments are required in each clinical area.
4. Regular record of theory and practical is to be maintained. Task oriented assessment is to be undertaken. Assessment shall be minted by teacher for each student each month. This can be checked by the Council/ Board. Principle sign all the records of examination. It should be displayed on the notice board for the information of the students.
5. A Candidate must secure 50% marks in internal assessment separately In each theory and practical. To be successful a student must get 50% marks in the internal as well as Council or Board Examination of each year
6. For a student who appears for any supplementary examination her/his fresh internal assessment in the failed subject (s)/ practical(s) is to be sent to the Council/Board.

7. State Nursing Council/Board should prepare a model perform for performance evaluation for each of the clinical area and circulate to all; Schools of Nursing for maintaining uniformity.

Each student is required to maintain the record of following assignment in clinical areas in each year:

First Year

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| (a) Nursing Care plan | - | 4 in medical/ surgical wards. |
| (b) Daily Diary | | |
| (c) Health – Talk | - | 1 each in urban and rural community field . |
| Family Study including | - | 1 each in urban and rural community field. |
| Health assessment of an | - | 1 each in urban and rural community field. |
| Individual in the family | | |
| Community profile' | - | 1 each in urban and rural Community field. |

Second Year

(a) Medical Ward

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Nursing Care Plan | - | 2 |
| Case Study | - | 1 |
| Case Presentation | - | 1 |
| Drug Study | - | 1 |

(b) Surgical Ward

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Nursing Care Plan | - | 2 |
| Case Study | - | 1 |
| Case Presentation | - | 1 |
| Drug Study | - | 1 |

(C) Psychiatry Ward

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Nursing Care Plan | - | 1 |
| Case Study | - | 1 |
| Case Presentation | - | 1 |
| Drug Study | - | 1 |
| Process Recording | - | 2 |
| Mental Status examination | - | 4 |

Third Year**(a) Pediatric Ward**

Nursing Care Plan	-	2
Case Study	-	1
Case Presentation	-	1
Drug Study	-	1
Observation Report (New born)	-	2

(b) Maternity and Gynaecology ward.

Nursing Care Plan	-	2 +1
Case Study	-	1+1
Case Presentation	-	1+1
Drug Study	-	1+1

(c) Daily diary

Urban & Rural Community field

Health Talk	-	2 each
Family Health Nursing care Plan	-	2each
Group Project	-	1each

In addition to above, each student shall maintain a procedure book and midwifery case book signed by con corned/ supervisor and Principle which is to be presented to examiner each year.

The above assignments are to be evaluated by concerned teachers for the purpose of internal assessment and shall be presented to the external examiner in a compiled form and it should be duly signed by her and should be stamped as cancelled after practical examination.

Scheme of Examination:**A Examination:****First Year**

Paper	Subject	Total Marks	Internal Assessment	Council Board Examination	Duration of examination (Hrs)
1.	BIO-SCIENCE Anatomy & Physiology Microbiology	100	25	75	3

II	BEHAVIOURAL SCIENCE Psychology Sociology	100	25	75	3
III	Fundamentals Of Nursing Fundamental of Nursing First Aid Personal Hygiene	100	25	75	3
IV.	Community health Nursing-I Community Health Nursing Environment Hygiene Health Education and Communication skills Nutrition	100	25	75	3
	PRACTICAL –I Fundamentals of Nursing	100	50	50	

Second Year

Paper	Subject	Total Marks	Internal Assessment	Council/ Board Examination	Duration of Examination (Hrs)
1.	Medical Surgical Nursing I (Pharmacology)	100	25	75	3
2.	Medical Surgical Nursing II (Specialties)	100	25	75	3
3.	Mental Health & Psychiatric Nursing	100	25	75	3
	PRACTICAL –I Medical Surgical Nursing	100	25	75	3
	PRACTICAL-II Psychiatric Nursing	100	(Only school examination, no Council exam)		

Practical Examination for Psychiatric Nursing is to be conducted at the place of clinical experience at the end of clinical instruction by school itself and shall be sent to the Council/ Board.

Third year

Paper	Subject	Total Marks	Internal Assessment	Council/ Board Examination	Duration of Examination (Hrs)
I.	Midwifery and Gynaecology	100	25	75	3
II.	Paediatric Nursing	100	25	75	3
III	Community Health Nursing-II	100	25	75	3
	PRACTICAL-I				
	Midwifery	100	50	50	
	PRACTICAL-II				
	Paediatric Nursing	100	50	50	
	PRACTICAL-III				
	Community Health Nursing II	100	50	50	

EXAMINATIONS FOR ANMs/ LHVs/ FHWs

These candidates will appear for all the examinations in theory and practical as per the scheme of examination for other candidates.

B. Eligibility for Admission to Examination

A candidates shall be eligible for the admission to the state Council/ Board examination if the Principle of the school certificate that:

- She / he has completed not less than eleven month of the course
- She / he have attended 75% of the formal instructions given on each subject and 75% of the clinical. field experience in each area/subject separately during the academic year, however, the total clinical/field experience prescribed must be completed before the final council / Board examinations and before the issue of diploma.

(The diploma shall not be awarded to the student till she/he has completed the clinical/ field requirements.

- The overall performance of the student and her/his conduct during the entire academic year has been satisfactory.

- (d) The student has passed in the internal assessment in each subject i.e., both in the teaching and practical (5) by securing 50% marks separating in each theory and practical(s)
- (e) The record of practical experience is complete.
(The principle shall send to the Council/ board the internal assessment for each subject, i.e. both theory and practical (S) before the start of the examination along with the examination form).
- (f) ANM/LHV/FHW who have been exempted for six months during third year will be eligible for third year examination after completion of six months training.

C. SUPPLEMENTARY EXAMINATION

The Council shall conduct supplementary examination with in six month of the annual examination;

- (a) If a student fails in one theory paper / practical, she /he may be allowed to proceed to the next year of study, She/he will sit for a supplementary examination held subsequently in the failed subject/practical. If she /he fails to clear supplementary examination she/he shall be allowed to sit again along with her next year annual examination.
- (b) If a student fails in two or more papers or practical she/he will not be allowed to proceed to the next year. She/He shall sit for supplementary examination in the failed subjects/ practicals only but shall be eligible for the next year's examination after one academic year from the date of passing the last examination.
- (c) No candidate of category (A) shall be allowed to proceed to third year (higher class), unless she/he has passed in the subjects of the previous year (backlog to the second year).
- (d) If a student fails in one theory paper/ practical examination of third year, she /he may be allowed to proceed for internship. She /he will sit for supplementary examination held subsequently in the field subject/ practical.

- (e) If a student fails in two or more paper/ practicals she /he will not be allowed to proceed for internship. She/he shall sit for supplementary examination in the failed subjects/ practicals only. A student shall not be allowed to proceed for internship till he /she clears third year examination.

D. GRADING OF EXAMINATION

Examination shall be graded on aggregate marks of the entire three and half years of the training programme, as follows:

Distinction	---	80% and above
First Division	---	70% to 79%
Second Division	---	60% to 69%
Pass	---	50% to 59%

E. THEORY EXAMINATION

1. Nursing teacher with minimum five years of teaching experience (recent) in a particular subject may be appointed as paper setters and examiners for that particular subject only.
2. Question paper should have a combination of essay, short answer and objective type question (Situation based Questions)
3. All units of a subject and sub-subject should be given due weight age in accordance with the instructional hours prescribed.

F. PRACTICAL EXAMINATION

1. Practical examination is to be conducted in the respective clinical area.
2. Nursing teacher with minimum of five years of teaching/ clinical teaching experience (Recent) in a particular subject/clinical area may be appointed as practical examiner.
3. Not more than 10 to 15 student are to be examined in a day.
4. Internal and external examiner shall jointly evaluate each candidate for practical examination.

INTERNSHIP PERIOD

GENERAL OBJECTIVES

Upon completion of the internship period the student shall be able to:

1. Demonstrate skills in the discharge of professional responsibilities independently and effectively.
2. Demonstrate beginning skills in teaching patients/ clients in health care setting and nursing student in clinical settings in an effective manner.
3. Demonstrate beginning skills in administration and management of nursing units, health clinics health centers.
4. Assist/participate in research activities of the institution /organization in various health care setting.
5. Identify and appreciate the needs for continuing and in-service education in practice of nursing.

Details of Internship period

Total Duration	-	26 week/6Month
Vacation	-	1 week
Examination	-	1 week

For the remaining 24 weeks students will be posted in different clinical areas and also undergo formal class room instruction.

Total working hours of each day	-	8
Hours per week	-	$8 \times 6 = 48$
Total hours of Internship period	-	$48 \times 24 = 1152$
Total hours of theory instruction	-	190
Total hours of clinical posting	-	$1152 - 190 = 962$

Student shall attend one hour class daily and 7 hours for clinical experience or one day for theory and five days for clinical experience shall be planned by institutes as per their suitability which shall come to 40 hours per week clinical and 8 hours for theory.

BREAK UP OF CLINICAL EXPERIENCE

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 1. | Medical Nursing | - | 3wks. |
| 2. | Surgical Nursing | - | 3wks. |
| 3. | Pediatric Nursing | - | 3wks. |
| 4. | Psychiatric Nursing | - | 3wks. |
| 5. | Community Health Nursing | - | 4wks. |
| 6. | Midwifery | - | 4wks. |
| 7. | Student's area of interest | - | 2wks. |
| 8. | 2 weeks of night clinical experience is to be given during this period with night supervisor. | | |

Total**24wks.****Scheme of Evaluation – Internship Period (School Exam.)****Theory Examination**

Subject	Assessment of six Month period	School examination	Total marks
1. Educational methods & Media for teaching in Practice of Nursing and Research in nursing	50	50	100
2. Professional Trends and adjustment & Administration and ward Management & Health Economics.	50	50	100
Total	100	100	200

Practical Evaluation : School Assessment

	Marks
Medical Surgical Nursing	20
Paediatric Nursing	20
Community Health Nursing	20
Midwifery	20
Total	100

Practical Examination at the end of the six month is to be conducted by the school at its own level to assess clinical skills ward management and professional trends. Marks are to be submitted to the council for addition in the overall result.

Diploma by the Council/board will be issued only after successful completion of the Internship period.

ANATOMY AND PHYSIOLOGY

Hrs.90

Course Description

This course is designed to help students gain knowledge of the structure and function of the human body and recognize any deviation from normal health in order to render effective nursing services.

General Objectives

Upon completion of this course, the student will be able to:

1. Describe in general the structure and functions of the human body
2. Describe in detail the structure and functions of the different organs and systems in the human body.
3. Apply the anatomical and physiological principles in the practice of nursing.

Course Content

Unit I Introduction to anatomical terms

***Unit II Organization of body cells, tissues, organs, systems.
Membranes and glands***

Unit III Skeletal System

- Bones: types, Structure, Function
- Axial Skeleton.
- Appendicular Skeleton
- Joints: classification, Structure and function.

Unit IV Muscular System

- Type , structure and functions.
- Position and action of chief muscles of the body.

Unit V Cardio -Vascular System

- Blood: Composition, clotting and blood group, cross matching. Blood products and their use.
- Heart: Position, Structure, conduction system, Function and cardiac cycle.
- Blood Vessels: Structural differences and position of chief vessels

- Circulation of Blood : Systemic, Pulmonary and portal Circulation
- Blood Pressure and pulse
- Lymphatic system: Lymph vessels, glands, ducts and lymph circulation, lymph tissues in the body, spleen.

Unit VI Respiratory System

- Structure and functions of respiratory organs
- Physiology of respiration.
- Characteristics of normal respiration and its deviations.

Unit VII Digestive System

- structure and function of organs of digestion and accessory organs
- Process of digestion and absorption.
- Metabolism: meaning and metabolism of food constituents.

Unit VIII Excretory System

- Structure and functions of organs of urinary system
- Structure and functions of the skin
- Regulation of body temperature.
- Fluid and electrolyte balance.

Unit IX Nervous System

- Type, structure and functions of neuron.
- Central Nervous System: Structure and functions.
- Autonomic Nervous System: Structure and functions.

Unit X Endocrine System

- Structure and functions of pituitary, pancreas, thyroid parathyroid, thymus and supra renal glands.

Unit XI Sense Organs

- Structure and functions of eye, ear, nose and tongue.
- Physiology of vision, hearing and equilibrium.

Unit XII Reproductive system

- Structure and functions of reproductive and accessory organs.
- Process of reproduction, menstrual cycle and menopause
- Reproductive health
- Structure and functions of male reproductive system.

Note: Whenever possible related clinical application should be included in each unit.

MICROBIOLOGY

Hrs.30

Course Description

This course is designed to help students gain knowledge and understanding of the characteristics and activities of micro- organisms, how they react under different conditions and how they cause different disorders and diseases. Knowledge of these principle will enable student to understand and adopt practices associated with preventive and promotive health care.

General Objectives

Upon completion of this course, the students will be able to:

1. Describe the classifications and characteristics
2. List the common disease producing micro - organisms and their Characteristics .
3. explain the activities of micro - organism in relation to the environment and the human body.
4. Enumerate the basic principle of control and destruction of micro-organisms.
5. Apply the principle of microbiology in nursing practice.

Course content

Unit I Introduction

- Brief historical review of bacteriology and microbiology.
- Scope and usefulness of knowledge of microbiology in nursing.

Unit II Micro - Organisms

- Classification, structure, size, method and rate of reproduction.
- Factors influencing growth.
- Pathogenic and non- pathogenic organisms.
- Normal flora of the body.
- Common diseases caused by different types of Microorganisms.

Unit III Infection and its transmission

- Sources of infection.
- Growth of microbes.

- Portals of entry and exit of microbes.
- Transmission of infection.
- Collection of specimens.

Unit IV Immunity

- Types of immunity.
- Hypersensitivity and autoimmunity.
- Collection of specimens.

Unit V The control and destruction of micro - organisms

- principle and methods of microbial control.
- Sterilization: Physical, natural, gases, chemicals used and preparation of lotions.
- Chemotherapy and antibiotics.
- Medical and surgical asepsis, cross-infection.
- Control of spread of infection.
- Pasteurization.
- Bio-safety and waste management.

Unit VI Introduction to Laboratory techniques

- Microscope: Parts and uses. Handling and care of microscope.
- Introduction of culture media.
- Staining and examination of slides.
- Preparation and examination of smears.

PSYCHOLOGY

Hrs 40

Course Description

This course is designed to help students understand the dynamics of human behaviour and concept of mental health. This will enable them to develop positive attitude and good inter- personal relationships in the practice of nursing in all health care settings.

General Objectives

Upon completion of this course, the students will be able to;

1. Describe the concept of mental health and psychology.
2. Explain the dynamics of human behavior, personality and learning.
3. Discuss the role of adjustment mechanisms and emotions in health and illness.
4. Demonstrate skills in the application of principle of psychology in nursing practice in all kind of health care settings.

Course Content

Unit I Introduction

- Definitions, scope of psychology and its importance in nursing profession.

Unit II Psychology of Human Behaviour

- Dynamics of behavior, motivation and behavioral process of adjustment, adjustments and maladjustments, unconscious behaviour.
- Frustration: sources and nature of frustration, measures to overcome frustration
- Conflicts; types, unconscious conflict, resolution, conflict and nursing.
- Adjustment Mechanism: meaning, types and importance
- Emotions: in health and disease, emotional situations, control of emotions, effect of emotional reactions on health.
- Attitudes: meaning, development, changes in attitude, attitude and nursing.

- Habits: formation, type, effective habit formation, advantages and disadvantage of habit formation.

Unit III Learning

- Nature of learning, laws and types of learning, factors promoting effective learning, memory and forgetfulness.
- Thinking and reasoning.
- Nature and type of thinking
- Problem solving and reasoning.

Unit IV Observation

- Attention and perception, factors affecting attention and observation and errors in perception.

Unit V Intelligence

- Definition, individual differences in intelligence.
- Mental ability and nature of intelligence.
- Measurement of intelligence.
- Development of intelligent behaviour.

Unit VI Personality

- Meaning, Types, factors affecting development of personality.
- Characteristics of various age group: child, adolescent, adult and aged.
- Will and character.

SOCIOLOGY

Hrs -20

Course Description

This course is designed to help student gain an understanding of sociology in the context of its relevance to nursing practice.

General objectives

Upon completion of this course, the students will be able to:

1. Describe the concept of the family as a social unit and the status of the individual in the family
2. Explain the dynamics of society and identify common social problems.
3. Demonstrate ability to understand the socio-cultural and economic aspects of the community in the light of their effects on health and illness.
4. Utilise the knowledge and understanding of sociology in nursing practice.

Course Content

Unit I Introduction

- Concept , scope nature and importance of sociology in nursing
- The socio-cultural and economic aspects of the community and their effects in health and illness.

Unit II The Individual

- Brief review of human growth and development.
- Effect of environment on childhood, adolescence, Adulthood and old age.
- The right and responsibilities of the individual in a democratic society.

Unit III The Family

- Family as a social institution and basic unit for health service.
- Basic needs of family, its structure and relationships.
- Family life education : pre – marriage, marriage and parenthood.

Unit IV The Society

- Concept
- Group: Types, Structure, ,inter-group relationship, group cycle, group behaviour and group morale.
- Social changes, social control, social stratification.
- Rural and urban society.
- Social problems: unmarried mothers, dowry system, prostitution , drug addiction, alcoholism, delinquency, handicapped, child abuse, women abuse.
- Social agencies and remedial measures.

Unit V The Community

- Definition, characteristics and culture.

Unit VI Economy

- Resources of the country: natural, occupational agricultural, industrial etc.
- Social Security
- Population explosion: Its effect on economy and the need for population control.
- Budgeting for a family, per capita income and its impact on health and illness.

FUNDAMENTALS OF NURSING

Hrs-174

Course Description

This course is designed to help students develop an ability to meet the basic health need of the patients with regard to nursing care and develop skill in the competencies required for rendering effective patient care.

General Objectives

Upon completion of this course, the student will be able to :

1. Describe the physical mental and social adjustment required of a sick individual and his family.
2. Carry out basic nursing techniques and care with the application of sound scientific principle.
3. Explain the concept of comprehensive nursing care
4. Develop skills in assessment, planning, implementation and evaluation of the nursing care rendered to the patients.
5. Communicate effectively and establish good interpersonal relationship with the patients, their relatives and other health team members.
6. demonstrate skills in observation, recording and reporting
7. Recognise and utilize opportunities for planning and implementing need based health teaching programme (s) for individuals, groups, families and communities.

Course Content

Unit I Introduction to nursing

- Nursing: definition, meaning, Nature, scope, principle sand history of nursing.
- Nurse: definition and meaning, preparation of a nurse qualities- personal, professional.
- Ethics in nursing, Role and responsibilities of a nurse.
- Health care agencies : Hospital and community, Types of Hospitals and their functions.
- Holistic approach to nursing
- Comprehensive nursing care.

Unit II Nursing care of the patient? Client

- Introduction to the sick and well.
- Determinants of health status.
- Patient/ Client: as an individual, member of the family, society, effects of illness and hospitalization on patient and his family.
- Admission procedure, reception of patient, care of patient's belongings.

Bed and Bed Making

- Principle of bed-making, factor to be considered in selecting and making bed, different types of beds and their uses.

Maintenance of therapeutic environment

- Temperature, light, noise and humidity.

Psycho Social Environment

- Meaning and its importance, aesthetic consideration in the environment, colour scheme, beauty and flower arrangements

Nursing Process and Nursing Care Plan

- Meaning, importance and steps in development.

Recording and Reporting

- Importance, types and nurses' responsibilities.

Discharging a patient

- Preparation of the patient physically and mentally, discharge procedure, hospital policies, preparation of the patient's relatives for discharge.
- Follow up and Rehabilitation revisit, treatment compliance and referral.

Unit III Basic Nursing Care and Needs of the Patient**Hygienic Needs and Physical needs**

- Importance of maintaining good personal and environmental hygiene in health and disease.
- Nurse's role in maintaining good personal and environmental hygiene.
- Care of Skin and Mucous Membrane
- Bed bath, care of hair, eyes, nose, ears, teeth, genitalis, hands and feet.

Nutritional needs

- Importance of diet in health and disease, factors affecting the normal nutrition in sickness, nurse's role in maintaining good nutrition, feeding helpless patients, maintenance of intake and output record.

Elimination needs

- Problem in sickness: constipation and diarrhoea, retention and incontinence of urine.
- Nurse's role in meeting elimination needs.

Safety needs

- Environmental hazards, role of nurses in prevention of health hazards.

Communication needs.

- Interpersonal relationship, cultural/spiritual/religious needs.

Activity and Exercise

- Importance of activity and exercise in health and sickness, active and passive exercise.

Physical comforts

- Comfort: meaning and its importance in health and disease, factors promoting and inhibiting physical comfort, comfort devices and their uses, body mechanics, positions.

Moving, shifting and Lifting of Patient.

- Care of pressure points, bed sores: causes, signs, symptoms, prevention and nursing care.
- Shifting of patient from one side to another, from bed to wheel chair and bed to stretcher.

Unit IV Assessment of Patient/ Client.

- Principles and importance of assessment, methods of assessment: observation, palpation, auscultation, percussion, developing skill in observation.

Physical Assessment

- Height, weight, posture, speech

Physiological Assessment

- Temperature, pulse, respiration and blood Pressure

- Characteristics of normal and abnormal (T.P.R and B.P.) and factors influencing the variations.
- Urine stool, vomit, sputum, normal and abnormal behaviour and its deviation.

Unit V Therapeutic Nursing Care and Procedures Asepsis:

- Hand washing, hand scrubbing, use of mask, gown, gloves.
- Disinfection techniques, sterilization techniques.
- Autoclaving, boiling, flaming, ultra violet rays.

Care and sterilization of :

- Lines, bed, mattress, floor, walls, cupboard and other articles.
- Rubber goods, dressings, instruments, needles, syringes enamel articles.
- Barrier Nursing and Isolation.

Care of Respiratory System

- Inhalation: dry inhalation, moist inhalation, . jug, Nelson's inhaler, steam tent, electric inhalers, suction oro-nasal
- Collection of specimen of sputum for examination.

Care of Gastro Intestinal Treact

- Preparation and giving of enema: Retention enema, evacuation enema, suppository, passing of flatus tube, evacuation enema, suppository, passing of flatus tube.

Care of Genito Urinary System

- Perineal care of terminally ill patient and patient with urinary catheter.
- Collection of specimens of urine and stool for routine and culture examination.

Care of Skin and Mucous Membranes.

- Cold application : ice cap, cold packs, use of evaporating lotion.
- Hot application: use of hot water bottle, dry fomentation, moist fomentation, medicated fomentation.

Unit VI Basic Needs and Care in Special Conditions

- Care of patient with fever, unconscious patient, patient with fluid imbalance, patient with dyspnoea.
- Care of terminally ill patient.

- Care of physically handicapped.

Dying patient

- Signs and symptoms of approaching death, needs of the dying patient and his relatives, care of the dying , last offices, packing of dead bodies in non-communicable and communicable diseases.

Unit VII Introduction to Pharmacology

- Concept of pharmacology
- Classification of drugs
- Administration of drugs.
- General action of drugs
- Nursing implications in administration of drugs.

FIRST AID

Hrs. 20

Course Description

This course is designed to help students develop and understanding of community emergencies and be able to render first aid services as and when need arises.

General Objectives

Upon completion of this course, the students will be able to :

1. Describe the rules of first aid.
2. Demonstrate skill in rendering first aid in case of emergencies.

Course Content

Unit I *Introduction*

- Importance of first aid and rules of first aid.
- Concept of emergency.

Unit II *First Aid in Emergency situations*

- Fire, burns, fractures, accidents, poisoning, drowning, haemorrhages, insect bites, foreign bodies.
- Transportation of the injured.
- Bandaging and splinting.

Unit III *Community Emergencies and Resources*

Community Emergencies

- Fire, explosions, floods, earthquakes, famines.
- Immediate and late role of nurses.
- Need for rehabilitation

Community Resources

- Police Assistance
- Voluntary agencies: Local, National and Inter-national agencies.
- Ambulance services: Their functions in relation to emergencies.

PERSONAL HYGIENE

Hrs.20

Course Description

This course is designed to help students acquire the concept of health, an understanding of the principles of personal health and its relation to nursing in health and disease.

General Objectives

Upon completion of this course, the students will be able to:

1. Explain the concept of health and hygiene.
2. Enumerate the principles of personal health.
3. Demonstrate skills to apply these principles in effective nursing care of the patients/clients as well as in her own healthy living.

Course Content

Unit I Introduction

- Concept of health and its relation to successful living.

Unit II Maintenance of Health

- Determinants of health, building of good health habits, immunization, correction of defects, maintenance of health records.

Unit III Physical Health

- Care of skin, hair, teeth, eyes, ears, hands and feet, Rest and sleep, exercise, activity, recreation, posture, nutrition, elimination, menstrual hygiene.

Unit IV Mental Health

- Characteristics of mentally healthy person.
- Mental hygiene in intrauterine, infancy, childhood, Adolescence, adulthood and old age.

COMMUNITY HEALTH NURSING-I

Hrs. 80

Course Description

This course is designed to help students gain an understanding of the concept of community health in order to introduce them to the wider horizons of rendering nursing services in a community set-up, both in urban and rural areas.

General objectives

Upon completion of this course, the students will be able to:

1. Describe the concept of health, community health and community health nursing.
2. State the principles of epidemiology and epidemiological methods of community health nursing practice.
3. Explain the various services provided to the community and the role of the nurse.
4. Demonstrate skills to practice effective nursing care of the individuals and families in the clinics as well as in their homes, using scientific principles.

Course Content

Unit I *Introduction to Community Health and Community Health Nursing*

- Health and disease.
- Community , community health, community health nursing.
- Dimensions of health.
- Health determinants.
- Indicators of health
- Levels of health care.
- Primary health care: Elements and principles, Nurse's role in primary health care.
- Health for all by 2000 A.D.

- Evolution and development of community health nursing in India and its present concept.
- Differences between institutional and community health nursing.
- Community health team functioning
- Philosophy, goals, objectives and principles of community health nursing practice.
- Qualities and functions of a community health nurse.

Unit II***Community Health Nursing Process***

- Concepts and definition
- Importance of the community health nursing process.
- Steps of the process : Community identification, population composition, health and allied resources, community assessment, planning and conducting community health nursing care services.

Unit III***Health Assessment***

- Characteristics of healthy individual.
- Identification of deviation from normal health.

Unit IV***Principles of Epidemiology and Epidemiological Methods.***

- Definition and aims of epidemiology.
- Basic tools of measurement in epidemiology.
- Uses of epidemiology.
- Disease cycle.
- Spectrum of disease.
- Levels of prevention of disease.
- Disease transmission-direct and indirect.
- Immunity
- Immunizing agents and immunization schedule.
- Control of infectious diseases.
- Disinfection.

Unit V***Family Health Nursing Care***

- Concept, goals, objectives, family as a unit of health, family health care services.
- Family health and nursing care process- Family health

assessment, family care plan.

- Family health services- Material, child care and family welfare services.
- Roles and function of a community health nurse in family health services.
- Family health records.

Unit VI. Family Health Care Settings

Home Visiting

- Purposes
- Principles
- Planning and evaluation.
- Bag technique

Clinic

- Purposes.
- Types of clinics and their functions.
- Setting up of various clinics.
- Functions of Health personnel in these clinics.

Unit VII Referral Systems

Unit VIII Records and Reports.

- Types of records.
- Uses of records.
- Essential requirements of records.
- Cumulative records.
- Design of cards/records.
-

Unit IX Minor Ailments

Classification

Early detection and management.

Standing instructions/orders.

ENVIRONMENTAL HYGIENE

Hrs. 20

Course Description

This course is designed to help students acquire the concept of health, understanding of the principles of environmental health and its relation to nursing in health and disease.

General Objectives

Upon completion of this course, the students will be to :

1. Describe the concept of environmental health.
2. Describe the principles of environmental health.
3. Demonstrate skills to apply these principles in the nursing care of the patients/clients as well as in their own healthy living.
4. Describe the environmental health hazards and health problems of the country and services available to meet these.

Course Content

Unit I Introduction

- Components of environment.
- Importance of environmental health.

Unit II Environmental Factors Contributing to Health Water

- Safe and wholesome water.
- Uses of water.
- Water pollution
- Water borne diseases.
- Water purification.

Air

- Air pollution
- Prevention and control of air pollution.

Waste

- Refuse.
- Excreta.

- Sewage.
- Health hazards of these wastes.
- Collection, removal and disposal of these wastes.

Housing

- Site.
- Basic amenities.
- Types and standard of ventilation.
- Requirements of good lighting.
- Natural and artificial lighting.

Noise

- Sources of noise.
- Community noise levels.
- Effects of noise.
- Noise control

Arthropods of Public Health Importance

- Mosquitoes, housefly, sand fly, human louse, ratfleas etc.
- Rodents.
- Control measures for these arthropods.

Unit II.***Community Organization to Promote environmental health***

- Levels and types of agencies: National, State, Local, Government, Voluntary and Social agencies.

HEALTH EDUCATION AND COMMUNICATION SKILLS

Hrs. 20

Course Description

This course is designed to help students acquire the concept of health education and understanding of the principles underlying health education in order to develop an ability to communicate effectively with the patients, community, health team members and others.

General Objectives

Upon completion of this course, the students will be able to:

1. Describe the concept of health education, communication skills, audio-visual aids and health education agencies.
2. Identify and utilize opportunities for health education planned and incidental.
3. Communicate effectively with others.

Course Content

Unit I Introduction

- Concept, definition, aims and objectives of health education.
- Process of change/modification of health behaviour.
- Opportunities for health education in hospital and community.
- Scope of health education.
- Levels and approaches of health education.
- Principles of health education.
- Nurse's role as health educator.

Unit II Communication Skills

- Definition of communication.
- Purposes of communication.
- Process of communication

- Barriers of communication and establishment of successful communication.
- Types of communication.
- Importance and art of observing and listening in communication.

Unit III *Methods and Media of Health Education*

- Methods of health education.
- Types of media (A.V.Aids).
- Advantages and limitations of each.
- Preparation and uses of simple aids.

Unit IV *Health Education Agencies*

- National
- State
- District
- Local.

NUTRITION

Hrs. 30

Course Description

This course is designed to help students understand that nutrition is an integral component of health since nutrients play a vital role in the growth, development and maintenance of the body.

General Objectives

Upon completion of this course, the students will be able to:

1. Describe the principles of nutrition and dietetics and its relationship to the human body in health and disease.
2. Describe the common foods in health and disease.
3. Apply this knowledge in the promotion of health and in the care of the sick.
4. Demonstrate skills in selection, preparation and preservation of food.

Course Content

Unit I Introduction

- Changing concepts –food habits and customs.
- Relationship of nutrition to health.

Unit II Classification of food

A. Classification by origin

- Food of animal origin.
- Food of vegetable origin.

B. Classification by chemical composition and Sources.

- Carbohydrates.
- Proteins
- Fats
- Minerals
- Vitamins.
- Water.

C. Classification by predominant functions.

- Body building food.
- Energy giving food
- Protective food.

D. Classification by nutritive value.

- Cereals and millets.
- Pulses (Legumes).
- Vegetables.
- Nuts and oil seeds
- Fruits
- Animal food.
- Fats and oils
- Sugar and Jaggery.
- Condiments and spices.
- Miscellaneous food

Unit III***Normal dietary requirements and deficiency diseases of each of the constituents of food.***

- The Calorie
- Nutritive value of food items and their measures used.
- Balanced diet.
- Method of calculating normal food requirements, influence of age, sex and activity.
- Factors affecting selection and planning of meals.
- Budgeting for food.
- Low cost menu.
- Diseases caused by deficiency of protein, fat, carbohydrates, minerals and vitamins.

Unit IV***Preparation, Preservation and Storage of Food***

- Principles of cooking.
- Methods of food preparation and their effects on food and food constituents, advantages and limitations of each.
- Household methods of preserving and storing food.
- Commercially prepared food and its adulteration.
- Precautions in selection, preparation and storage of food.

Unit V *Introduction to Diet Therapy.*

- Methods of modifying diet in relation to calorie value, by increasing or decreasing of constituents.
- Diet and the patient
- Environmental, psychological and cultural factors in acceptance of diet by the patient.
- Serving of food.
- Feeding of helpless patients.
- Opportunities for teaching.

Unit VI *Community Nutrition*

- Concept of community nutrition.
- Nutritional needs for special groups; infants, children, pregnant woman, lactating mothers, old people etc.
- Nutrition education: needs and methods.
- Substitutes for non-vegetarian food.
- Methods of improving an ill-balanced diet.
- Community nutrition programme.
- Food hygiene and laws related to food.

Unit VII *Common Preparations/ Practicals*

- Beverages: Tea, coffee, barely water, fruit juice, shakes, lassi.
- Egg preparations: Scrambled eggs, egg flip, omlette, poached egg.
- Soups: tomato, bone, vegetable(s)., liver etc.
- Light Diets: gruel, khichri, daliya, kanji, boiled vegetables, salads, custards etc. (As per the regional preferences)

ENGLISH**Hrs. 30****Course Description**

This course is designed to help students develop an ability to comprehend spoken and written English, so as to communicate effectively in his language.

General Objectives

Upon completion of this course, the students will be able to:

1. Read and write correct English.
2. Communicate effectively in English language.
3. Demonstrate skill in writing and speaking in English language.

Course Content**Unit I Grammar**

- The sentence
- Different parts of speech in brief.

Unit II Composition

- Analysis, transformation and syntheses of sentences.
- Correct usage of sentences.
- Reading comprehension-Exercise of prescribed short answers.

Unit III Written Composition

- Paragraph writing
- Story writing
- Comprehension
- Précis writing
- Essay writing

Unit IV Vocabulary

- Conversation
- Speaking skills

MEDICAL SURGICAL NURSING -I

Hrs. 140

Course Description

This course will help students understand the concept of disease and disease process. Students will be able to gain knowledge and develop understanding of various medical, surgical disorders and diseases. They will be able to give comprehensive nursing care to patients with these diseases.

General Objectives.

Upon completion of this course the students will be able to :

- 1 Describe the causes, symptoms, treatment and prevention of medical surgical diseases.
- 2 Demonstrate skill in carrying out nursing technique and procedures with the application of scientific principles.
- 3 Discuss nursing process and provide nursing care to patients with medical surgical; diseases.

Course Content

Unit I *Introduction*

- Brief history of evolution of modern medicine and surgery and theories of illness and its causation.
- Illness as human experience.
- Nursing process and nursing care plan.

Unit II *Nursing Assessment*

- Health Assessment
- Physical examination.
- General clinical investigation.

Unit III *Patho Physiological Mechanism of Disease*

- Inflammation]
- Stress adaptation.
- Defence against injury.
- Nutritional consideration.

Unit IV *Altered Immune Response*

- Review of Normal Immunity. (Review Unit IV of microbiology)

- Altered Immune response, hypersensitivity and allergy.
- Nursing management of Immuno therapy.
- Auto Immune disease.
- Graft versus host disease.

Unit V *Clinical Pharmacology*

- Terminology
- Drugs and laws.
- Basic clinical pharmacology.
- Sources of drugs, action, side effects, doses of drugs.
- Different pharmacological preparations.
- Administration of medicine to patient.
- Nursing implications of administration of drugs.

Unit VI *Nurse's role in Management of Fluid, Electrolyte and Acid Base Balance*

- Water content of body.
- Homeostasis.
- Review mechanism of controlling fluid and electrolyte movement.
- Review regulation of fluid and electrolyte.
- Fluid and electrolyte imbalance and their therapeutic management.

Unit VII *Management of Patients in Pain*

- Concept.
- Assessment
- Types, location.
- Nursing management.
- Analgesic drugs.
- Therapeutic approaches to pain.

Unit VIII *Operation Theatre Technique Physical Environment*

- Operation theatre: cleaning of rooms, tables, trolleys, lights and other equipments.
- Pre-operative holding area.

Theatre Technique

Scrubbing-hand washing

- Gowning.
- Gloving.
- Positioning of patient for various surgical procedures.

Preparation of Theater equipment & supplies

- Cleaning
- Packing
- Sterilization
- Needles, sutures-types and their uses.
- Role of a nurse in care of patient in the theatre.

Unit IX *Management of Patient Undergoing Surgery*

- Assessment of pre-operative patient: physical , psychosocial and physiological aspects.
- Nursing management of pre-operative patient.

Intra Operative Management

- Surgical Team.
- Nurse's functions in Operation Theatre.
- Anesthesia: classification, anesthetic agents and role of a nurse in anesthesia.

Post -operative management -Immediate and Routine

- Transferring patient from Operation Theatre.
- Patient in recovery room.
- Recovery from anesthesia.
- Post -operative nursing management.
- Administration of post-operative orders
- Post-operative complications: observation, prevention and management.

Unit X *Nursing Management of Patient with Impaired Respiratory Function and Gaseous Exchange.*

- Assessment of respiratory functions.
- Management of patient with impaired respiratory functions.
- Respiratory intensive care.
- Management of patients with disorders of upper respiratory

tract.

Management of patients with disorders of the chest and lower respiratory tract.

Unit XI *Nursing Management of Patients with Digestive and Gastro-Intestinal Disorders.*

- Assessment of hepatic and biliary function.
- Management in hepatic and biliary disorders.
- Assessment of endocrinal function.
- Management of endocrinal disorders.

Unit XIII *Nursing Management of Patients with Renal and Urinary Disorders*

- Assessment of renal and urinary functions.
- Managements of patients with urinary and renal disorders.
- Renal failure and dialysis.
- Renal transplant.

Unit XIV *Nursing Management of Patients with Neurological Disorders*

- Assessment of neurological function.
- Management of patient with neurological dysfunction.
- Management of patient with neurological disorders.

Unit XV *Nursing Management of Patients with Disorders of Connective Tissue and Collagen Disorders.*

- Assessment
- Management of patients with disorders of connective tissue and collagen.

Unit XVI *Nursing Management of the Elderly.*

- Assessment of elderly.
- Ageing process.
- Helping in promoting wellness and self care.
- Health problems in elderly.

Unit XVII *Emergency Management.*

- Medical surgical emergencies.
- Nurse's role in emergency conditions.

MEDICAL SURGICAL NURSING –II

Hrs. 120

Course Description

This course will help students understand the concept of diseases and disease process. Students will be able to gain knowledge and develop understanding of various medical surgical specialty disorders and diseases. They will be able to give comprehensive nursing care to patients with these diseases.

General Objectives

Upon completion of this course, the students will be able to;

1. Describe the causes, symptoms, signs, treatment and prevention of diseases classified under medical surgical specialties.
2. Demonstrate skill in carrying out nursing techniques and procedures with the application of scientific principles.
3. Prepare nursing care plan using nursing process and provide care to patients with these diseases.

Course Content

Unit I *Oncology Nursing*

- Nursing management of patient with abnormal cell growth.
- Assessment.
- Problems and management.
- Classification of Cancer.
- Detection, prevention.
- Treatment modalities.

Nursing management of patient receiving:

- Chemotherapy.
- Radiation.
- Late effects of chemotherapy and radiation.
- Nursing management of patient undergoing radical surgery.
- Bone marrow transplant and its management .

- Nursing management of terminally ill patient.
- Rehabilitation of cancer patients..

Unit II Nursing Management of Patients with Diseases of male Genito-Urinary Tract

- Assessment of genitor-urinary function
- Disorders of male genitor-urinary tract and its management.

Unit III Nursing Management of Patients with Disorders of Breast

- Assessment
- Disorders of breast and breast cancer.
- Management of patient undergoing surgery for cancer breast.

Unit IV Nursing Management of Patients with Diseases and Disorders of Integument System

- Assessment of skin and its functions.
- Inflammatory and non-inflammatory disorders and diseases and its management.
- Infestations, infectious and non-infectious diseases and their management
- Skin cancer
- Special dermatological therapy.
- Burn and its management.

Unit V Nursing Management of Patients with ophthalmic Disorders and Diseases

- Assessment of function of eyes.
- Diseases and disorders of eyes and their management.
- Review national programmes on blindness and trachoma.

Hospital Cornea Retrieval

- Grief counseling, eye collection in hospitals
- Motivation for eye donation.
- Obtaining consent for eye donation.
- Transplantation of human organs bill and eye collection.
- Eye banking in India

Unit VI *Nursing Management of Patients with Disorders and Disorders and diseases of ear, Nose and throat.*

- Assessment of the function of ear, nose and Throat.
- Disorders and diseases of the ear nose and throat.
- Management of disorders and diseases of ear, nose and throat.

Unit VII *Nursing Management of Patients with Cardio-Vascular, Circulatory and Hematological Disorders.*

- Assessment of cardio-vascular functions.
- Management of patients with cardio-vascular diseases.
- Management of patient in I.C.U. and C.C.U.
- Management of patient with cardio-vascular surgery.
- Assessment and management of circulatory, hematological disorders and problems of peripheral circulation.
- Phlebotomy Procedure in blood donors.
- Sample and request for blood transfusion.
- Safety checks and records for blood transfusion.
- Adverse transfusion reaction and their management.
- Blood bank functioning- Hospital transfusion committee.
- Blood donor care, post donation management, counseling of blood donors.
- Inventory of necessary requirement for the transfusions.

Unit VIII *Nursing Management of Patients with Communicable Diseases.*

- Assessment.
- Review of infection , how it spreads and its control.
- Preparation, care and administration of antisera and vaccines.
- Isolation – review of epidemiology and control measures.
- Management of various infectious diseases.

Diseases caused by:

Virus - Measles, Chicken pox, Influenza, Small pox, Mumps, Encephalitis, Infective Hepatitis, Poliomyelitis, Rabies, AIDS.

Bacteria - Diphtheria, Whooping Cough, Tetanus, Typhoid, Dysentery, Gastro-enteritis, Cholera, Meningococcal Meningitis, Tuberculosis.

Zoonosis - Kala-azar, Plague, Relapsing fever.

Mosquito - Malaria, Filaria, Yellow fever, Dengue fever.

Unit IX***Nursing Management of Patients with Sexually transmitted diseases***

- Assessment .
- Sex health and hygiene.
- Gonorrhoea, Syphilis, Granuloma venerium,. Chancroid, Granuloma inguinale and AIDS.

Unit X***Nursing Management of Patients with Musculo-skeletal Disorders and Diseases.***

- Assessment of musculo-skeletal functions.
- Disorders and diseases of bone, muscle, cartilage, ligaments and their management.
- Rehabilitation, physiotherapy and occupational therapy.

Unit XI***Emergency and Disaster Nursing.***

- Natural calamities.
- Manmade disaster.
- Community resources available to meet such calamities.
- Nurse's role in disaster management.

MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING

Hrs. 70

Course Description

This course is designed to help students develop the concept of mental health and mental illness, its causes, symptoms, prevention, treatment modalities and nursing management of mentally ill.

General Objectives

Upon completion of this course, the students will be able to:

1. Describe the concept of mental health and mental illness and the emerging trends in psychiatric nursing.
2. Explain the causes and factors of mental illness, its prevention and control.
3. Identify the symptoms and dynamics of abnormal human behaviour in comparison with normal human behaviour.
4. Demonstrate a desirable attitude and skills in rendering comprehensive nursing care to the mentally ill.

Course Content

Unit I *Introduction*

- Meaning of mental health and mental illness.
- Definition of terms used in psychiatry.
- Review of mental mechanisms (ego mechanisms).
- Review of personality and types of personality.

Unit II *History of Psychiatry*

- Contributors to psychiatry.
- History of psychiatric nursing.
- Trends in psychiatric nursing.

Unit III *Mental Health Assessment*

- Psychiatric history taking
- Interview technique and mental status examination.

Unit IV *Community Mental Health*

- Concept, importance and scope.

	Attitude and misconceptions towards mentally ill.
	Prevention of mental illness (Preventive Psychiatry) during childhood, adolescence, adulthood and old age.
	Community mental health services.
	Role of nurses in community mental health services.
Unit V	<i>Psychiatric Nursing Management</i>
	Definition of psychiatric nursing.
	Principles of psychiatric nursing.
	Nursing process.
	Role of nurses in providing psychiatric nursing care.
	Therapeutic nurse-patient relationship.
	Communication skills.
Unit VI	<i>Mental Disorders and Nursing Interventions.</i>
	Etiology- various etiological theories (genetics, biochemical, psychological, etc.)
	Classification of mental disorders.
	Organic mental disorder-Acute brain syndrome.
	Chronic brain syndrome.
	Functional Mental Disorders.
	- Prevalence, etiology, signs and symptoms, prognosis, medical and nursing management.
	- Schizophrenic disorders.
	- Mood (affective) disorders.
	- Manic Depressive Psychosis.
	- Anxiety states.
	Definition, etiology, signs, symptoms, medical and nursing management of:
	Phobic disorders, obsessive compulsive disorders, depressive neurosis, conversion disorders, dissociative reaction, hypochondriasis, Psychoactive disorders, alcohol, drugs and other psychoactive substance abuse.
Unit VII	<i>Bio-Psychosocial Therapies</i>
	Psychopharmacology
	Definition, classification of drugs, antipsychotic,

antidepressant, antimanic, antianxiety agents.

- Role of nurses in psychopharmacology.

Psychosocial therapies

- Definition of psychosocial therapies.
- Types of therapies: individual and group therapy, behaviour therapy, occupational therapy.
- Role of nurse in these therapies.

Somatic therapy

- History, technique of electro-convulsive therapy (ECT), indications, contraindications.
- Role of nurses before, during and after electroconvulsive therapy.

Unit VIII Forensic Psychiatry / Legal Aspects.

- Legal responsibilities in care of mentally sick patients
- Procedure for admission and discharge from mental hospital, leave of absence.
- Indian Lunatic Act 1912
- Mental Health Act 1987
- Narcotic Drugs and Psychotropic Act 1985.

Unit IX Psychiatric Emergencies and Crisis Intervention

- Over active patient
- Destructive patient
- Suicidal patient

COMPUTERS IN NURSING**Hrs. 30****Course Description**

This course is designed to help students gain a basic understanding of computers in order to utilize this in rendering effective nursing care in different settings.

General Objectives

Upon completion of this course, the students will be able to:

1. Describe the basic disk operating system.
2. Use computer for data processing.
3. Use computer for word processing and graphics.
4. Use computer in patient management system.
5. Use E-mail and internet.

Course Content

- | | |
|-----------------|--|
| Unit I | <i>Introduction to computers and disk –operating system.</i> |
| Unit II | <i>Introduction to word processing.</i> |
| Unit III | <i>Introduction to data base.</i> |
| Unit IV | <i>Lotus and graphics and use of statistical packages.</i> |
| Unit V | <i>Windows application, word, excel, power point, multimedia.</i> |
| Unit VI | <i>Introduction to Internet and use of electronic mail.</i> |
| Unit VII | <i>Computer aided teaching and testing.</i> |

MIDWIFERY AND GYNAECOLOGICAL NURSING**Midwifery : Hrs. 100****Gynaecology : Hrs. 20****Course Description**

This course is designed to help students acquire knowledge and gain skills to meet the health needs of women during the period of pregnancy, labor and puerperium. The students will be able to identify different gynaecological disorders and diseases and gain skills in providing nursing care to women suffering from these disorders and diseases.

General Objectives

Upon completion of this course the students will be able to :

1. Describe the health needs of women in pregnancy, labour and puerperium.
2. identify deviation(s) from normal pregnancy and take appropriate action.
3. Demonstrate skills in providing antepartum, intrapartum and postpartum care to the mother as well as care to the new born.
4. List different gynaecological problems and demonstrate skills in providing nursing care to women suffering from these disorders and diseases.

Course Content**Unit I Introduction**

- Definition: Midwifery, obstetrical nursing.
- Scope
- Historical review.
- Development of maternity services in India.

Unit II Reproductive system.

- Review of genitor-urinary system of male and female organs structure, physiology.
- Menstrual cycle
- Internal and external organs of reproduction.
- Female pelvis: structure, diameters and type.

Unit III Embryology and foetal development

- Ovum, sperm, maturation, fertilization and implantation.
- Development of fertilized ovum, morula, blastocyst, embryo.
- Development of placenta: structure of full term placenta, functions and abnormalities, anatomical variations
- Formation of foetal sac, membranes, amnion and chorion and their functions.
- Formation of liquor amni, its functions and abnormalities.

- Development of umbilical cord: structure, functions and abnormalities.
 - Foetal skull: diameters, fontanelles, sutures and their importance.
 - Foetal circulation.
- Unit IV Nursing Management of Pregnant Women.**
- Reproductive health.
 - Genetic counseling
 - Physiological changes in pregnancy.
 - Diagnosis of pregnancy: history, signs and symptoms and investigations.
 - Influence of hormones.
 - Prenatal care: objectives, history taking, calculation of expected date of delivery, routine examinations.
 - Health education: breast care, diet in pregnancy antenatal exercises.
 - Preparation for hospital /home delivery.
 - Immunisation.
 - Minor disorders of pregnancy and its management.
- Unit V Nursing Management of women in Labour**
- Definition, stage and duration.
 - Causes of onset of labour.
 - True and false labour.
- A. First stage of Labour**
- Signs of onset of labour
 - Physiological changes in first stage of labour.
 - Management –preparation of labour room.
 - Preparation of women in labour: Physical and psychological.
 - Equipments for normal delivery.
 - Care: physical, psychological, monitoring of maternal and foetal condition.
 - Vaginal examination; indications, articles, technique.
- B. Second stage of labour**
- Signs of second stage.
 - Mechanism of labour
 - Monitoring of maternal and foetal condition.
 - Physical and psychological care.
 - Procedure for conduct of normal delivery
 - Prevention of perineal tear.
 - Episiotomy, suturing and care.
- C. Third Stage of labour.**
- Signs, physiological changes.

Management : immediate baby care, technique of placental expulsion, monitoring maternal condition examination of

placenta and its membranes, blood loss.

- Immediate postnatal care/ fourth stage of labour.

D. Conduct of home delivery

Unit VI Nursing Management of Baby at birth

- Assessment
- Review of physiology of new born
- Apgar scoring, examination for defects (head to foot Examination)
- Infant feeding : breast feeding, artificial feeding.
- Care of skin, eyes, cord, buttocks.
- Psychology and perception of new born.
- Minor disorders of new born: birth marks, rashes, skin infections, sore buttocks, infections of eyes.
- Jaundice of new born.
- Major disorders: birth asphyxia, resuscitation measures, haemolytic disease (RH factor).
- Infections and birth injuries.

Unit VII Nursing management of Mother during puerperium

- Definition, objectives of care.
- Immediate postnatal care (care during 4th stage of labour)
- Physiological changes during puerperium
- Psychosocial aspects of care.
- Diet during puerperium
- Establishment of lactation and breast care.
- Perineal care.
- Postnatal exercises.
- Postnatal examination, followup, family welfare.
- Minor ailments and its management.

Unit VIII Complications of Pregnancy and its management

- Bleeding in early pregnancy.
- Bleeding in late pregnancy.
- Pregnancy induced hypertension, pre-eclampsia, eclampsia.
- Hydramnios, oligohydramnios.
- Hydatidiform mole.
- Pelvic inflammatory diseases.
- Intrauterine growth retardation, intrauterine death.
- Post maturity

Unit IX High Risk Pregnancy and its management

- Concept, factors.
- Anaemia, Jaundice, Viral infections.

- Urinary tract infections, Heart Diseases, Diabetes Mellitus, Osteomalacia, Sexually Transmitted Diseases, AIDS.
- Teenage pregnancy, Elderly primigravida, Multipara, Multiple pregnancy.

Unit X *High Risk Labour and its management*

- Malpositions, Malpresentations: occipitoposterior position face, brow, shoulder and breech presentation.
- Contracted pelvis: definition, causes, diagnosis, management and trial of labour.
- Abnormal uterine action: hypotonic and hypertonic action, bandl's ring, contraction ring, precipitate labour
- Cervical dystocia.
- Early rupture of membranes, prolonged labour, Induction of labour.
- Obstructed labour rupture of uterus.
- Obstetrical emergencies: cord presentation, cord prolapse, amniotic fluid embolism, obstetric shock.
- Complications of third stage: post partum haemorrhage, atonic uterus, retained placenta and membranes, inversion of uterus.

Unit XI *Complications of Puerperium and its management*

- Puerperal pyrexia, Puerperal sepsis, Thrombophlebitis, Embolism, Puerperal psychosis.
- Mastitis, Breast abscess

Unit XII *Obstetric operations*

- Manual removal of placenta.
- Version: internal, external.
- Forceps delivery
- Vacuum extraction.
- Caesarean section.
- Medical termination of pregnancy.
- Laproscopic sterilization.
- Embryotomy.

Unit XIII *Drugs used in obstetrics*

Unit XIV *Ethical and legal aspects related to Midwifery and Gynaecological Nursing.*

CLINICAL EXPERIENCE

1. During this period of training, each student shall:
2. Conduct thirty antenatal examinations.
3. Witness fifteen deliveries before conducting one herself.
4. Make five vaginal examinations.

5. Conduct twenty deliveries
6. Perform and suture five episiotomies, five first degree tears.
7. Give post natal care to thirty lying-in-mothers and to their new born babies.
8. Carry out ten health teachings for antenatal and lactating mothers.
9. Insert five intrauterine devices.

GYNAECOLOGICAL NURSING

Hrs-20

Course Content

Unit I Introduction

- definition related to gynecological nursing.
- Sexuality
- Gynecological history taking, examination and investigations

Unit II Puberty

- Definition development of sex organs in females.
- Menstrual cycle.
- Disorders of menstruation: amenorrhoea, dysmenorrhoea, cryptomenorrhoea
- Dysmenorrhoea, cryptomenorrhoea
- Dysfunctional uterine bleeding.

Unit III Fertility and Infertility

- Definition development of sex organs in females.
- Menstrual cycle.
- Disorders of menstruation: amenorrhoea, dysmenorrhoea, cryptomenorrhoea
- Dysfunctional uterine bleeding.

Unit IV Pelvic Infection

- Vulva: vulvitis, bartholinitis.
- Vagina: vaginitis, trichomonas vaginitis, moniliasis
- Metritis, Salpingitis, oophoritis, pelvic abscess.
- Chronic infections, cervical erosion.

Unit V Uterine Displacement and Descent

- Retroversion, retroflexion.
- Descent of the uterus: first degree, second degree, complete procidentia.

Unit VI Sexually transmitted diseases and their prevention

- Syphilis, gonorrhoea, warts.
- Acquired Immuno Deficiency syndrome (AIDS)/HIV

Unit VII Breast Disorders

- Mastitis
- Breast abscess.

- Tumours.
- Malignancy.

Unit VIII Benign and Malignant Neoplasms of Reproductive organs

- Uterine polyps, uterine fibroids.
- Cancer: cervix, uterus
- Ovarian cyst: benign, malignant.
- Cancer: chemotherapy, radiotherapy.
- Palliative care.

COMMUNITY HEALTH NURSING-II

Hrs. 100

Course Description

This course is designed to help the students gain indepth knowledge of community health and community health nursing services. On completion of this course, the students will be able to function at the first level in various community health settings both in urban and rural areas.

General Objectives

Upon completion of this course, the students will be able to:

1. Describe health system and health care services in India.
2. Identify major health problems, national health programmes and specialized community health services.
3. Explain the concept of health team and describe the nurse's role at various levels of health care settings.
4. Describe the demographic concept and family welfare programme.
5. Explain and motivate use of birth control methods to the community.
6. State the importance of health statistics.
7. Maintain records and reports required in community health nursing services.
8. Demonstrate skills in rendering effective nursing care in all community health settings.

Course Content

Unit I Health System in India (Organizational set-up)

- Central level.
- State level.
- District level
- Block and local level.

Unit II Health care services in India.

- Health care concept and trends.
- Health care delivery system.
- Public sector: Rural areas, urban areas, health insurance, scheme, other agencies (Defence, Railways etc.)

- Voluntary health agencies.
- Indigenous system of medicine.
- Nurse's role in health care services.
- Unit III *Health Planning in India.***
 - National Health Policy
 - National Health Planning
 - Five year plans.
 - Health committees and reports.
- Unit IV *Specialized community Health services and nurse's role***
 - M.C.H.(Reproductive health and child care)
 - School health services
 - Industrial nursing
 - Geriatric nursing
 - Care of the handicapped: physically and mentally challenged.
 - Rehabilitation nursing.
- Unit V *Nurse's Role in National Health Programmes***
 - Major health problems in India.
 - National control and development programmes.
 - National eradication programmes.
 - Nurse's role in national health programmes.
- Unit VI *Demography and Family Welfare Demography***
 - Concept
 - Trends in India and its implications.
 - Concept of fertility and infertility.
 - Small family norms.
 - Family Welfare**
 - Concept
 - Importance
 - Aims and objectives.
 - Family planning methods.
 - Family welfare policy.
 - National programme
 - Nurse's role in family welfare programme.
- Unit VII *Health Team***
 - Concept
 - Composition.
 - Functions.
 - Role of nursing personnel at various levels**
 - Multipurpose health worker: male and female
 - Lady health visitor/ Health supervisor
 - Public health nurse.
 - Public health nurse supervisor
 - District public health nursing officer.
- Unit VIII *Vital Health Statistics***
 - Concept

- Uses
- Sources
- Important rates and indices
- Vital health records and their utility.

PAEDIATRIC NURSING

Hrs. 70

Course Description

This course is designed to help the students develop and understanding of the concept of child health, the trends in child care and the health problems of children. This will enable the students to meet the needs of the children, in health and sickness.

General Objectives

Upon completion of this course, the students will be able to :

1. Explain the concept of child health, the principles underlying child care and trends in pediatric nursing.
2. Describe normal growth and development of children, so as to recognize deviation(s) from normal health.
3. Demonstrate skill in meeting the needs of the sick as well as healthy children.

Course Content

Unit I Introduction

- Concept in child health care.
- Trends in paediatric nursing
- Role of paediatric nurse in child care.
- Child care in India.
- Emerging challenges, nursing process related to paediatric nursing.
- Concept of preventive paediatrics.
- Vital statistics.

Unit II The Newborn

A. Characteristics of New Born and Physiological status of the new born.

- Assessment of the new born: head to toe assessment (physical assessment), neurological assessment.
- Nursing care of the normal/healthy new born including home care.
- Breast feeding-concept of Baby Friendly Hospital Initiative.

B. Common health problems- medical and nursing management of:

- Hyperbilirubinaemia, haemolytic disorder, neonatal hypoglycaemia, sepsis, oral thrush, impetigo, erythema toxicum, hypothermia, neonatal convulsions.

- Birth injuries of muscles and peripheral nerves , injuries of bones, soft tissue injury and injury of nervous system

C. High Risk New born

- Definition: small for dates, Low birth weight
- Common health problems of preterm, post term and low birth weight infants and their nursing management.
- High risk to new born of HIV +ve mother, diabetic mother, its medical and nursing care.

Unit III The Healthy Child

Growth and development: Definition, principles, factors affecting growth and development, techniques of assessment of growth and development, importance of learning about growth and development.

The Infant

- Growth and development during Infancy.

Health Promotion during infancy :

- Nutrition counseling and weaning, immunization.
- Safety and security including prevention of accidents, play and toys.

The Toddler

- Growth and development of Toddler.
- Health promotion during toddler hood, nutrition counseling , toilet training, immunization, safety and prevention of accidents, guidance to parent on toddler's care, play and toys.

The Pre-Schooler

Growth and development during pre-school years.

- Health promotion during pre-school years, nutritional guidance, safety and security, day care centres/nursery school, play, role of parents in sex education of child.

The School age

- Physical, psychological and moral development during school age years.
- Health promotion during school years, nutritional guidance, sleep and rest, physical exercise and activity, dental health, sex education, play, role of parents in reproductive child health.

The Adolescent

- Physical changes , physiological and reproductive changes, reaction of adolescents to puberty.
- Health promotion during adolescence.
- Nutritional guidance, personal care, reproductive health/sex education, Role of parents in health promotion of adolescents

Unit IV The Sick Child

- Child's reaction to hospitalization.
- Effects of hospitalization on the family of the child.
- Role of nurse in helping child and family in coping with stress of s hospitalization and illness.

Nursing interventions and adaptations in nursing care of sick child.

- Examination, principles of safety observed in paediatric techniques.
- Preparation of child for diagnostic tests, collection of specimens.
- Calculation and administration of oral and parenteral medications.
- Procedures related to feeding: formula preparation, gavage, gastrostomy feeding.
- Procedures related to elimination: enema, colostomy irrigation.
- Use of play as nursing intervention
- Care of child in incubator.
- Administration and analysis of Oxygen concentration.
- Surgical dressing
- Steam tent inhalation.
- Immobilised child
- Phototherapy.

Unit V Behavioural Disorders and common Health Problems during Childhood, their Prevention, Medical and Nursing Management.***Infancy***

Nutritional disturbances, allergies, dermatitis, vomiting, diarrhea, failure to thrive, resistance to feeding, colic, anxiety.

Early Childhood

Communicable diseases, poisoning, tonsillitis, otitis, media, urinary tract infections, diarrhea, child abuse, breath holding spells, bed wetting, thumb sucking, nail biting, temper tantrums, masturbation.

Middle Childhood

Helminthic infestations, common skin infections, animal and insect bites, stuttering, pica, tics, antisocial behaviour, enuresis.

Later Childhood

Problems of pubertal development: precocious puberty, tall stature, gynaecomastia, acne, amenorrhoea, dysmenorrhoea, sexually transmitted diseases, accidents, sports injuries, Juvenile delinquency, anorexia nervosa, obesity.

Unit VI Children with congenital Defects/Mal formations

- Etiology, signs, symptoms, complications, medical, surgical and nursing management of:
- Malformations, of the central nervous system-cranial deformities, defects of spinabifida, meningocoele, hydrocephalus, cerebral palsy, neural tube closure.
- Skeletal defects-cleft lip and palate.
- Defects of Gastro-intestinal tract- Oesophageal atresia and distula, anorectal malformations, hernia, congenital hypertrophied pyloric stenosis.
- Defects of Genitourinary tract- Hpospadiasis, epispadiasis, extrophy of bladder, phimosis, cryptorchidism, polycystic kidney.
- Sexual abnormalities - ambiguous genitalia, hermaphroditism.
- Defects of cardio-vascular system- Congenital heart diseases, major acyanotic and cyanotic defects.
- Orthopaedic Abnormalities - Club foot, developmental abnormalities of extremities.

Unit VII Children with various disorders and diseases.

- Etiology, signs, symptoms, complications, prevention, medical, surgical and nursing management of:
- Disturbances of fluid and electrolyte balance : imbalance, burns, disturbance of renal function, acute and chronic glomerulonephritis, acute and chronic renal failure.
- Disturbed respiratory functions: Acute infections of upper and lower respiratory tract, acute inflammation of lungs.
- Gastro-intestinal disorders: Malabsorption syndromes (celiac diseases) and obstructive disorders(Intestinal obstruction, Hirschsprugn's disease) inflammatory conditions (appendicitis, Meckel's diverticulum, ulcerative colitis), worm infestations.
- Problems related to production and circulation of blood: Acquired heart diseases, congestive cardiac failure, infective endocarditis, rheumatic fever.
- Problems related to the elements of blood: Anaemias, sickle cell anaemia, thalassaemia, defects of haemostasis, haemophilia, Immune deficiency diseases, HIV infection (AIDS), leukemias, thrombocytopaenia, purpura.

- Disturbances of regulatory mechanism: disturbances of cerebral functions- altered state of consciousness, craniocerebral trauma.
- Intracranial infections: Meningitis, encephalitis, convulsive disorders.
- Endocrine dysfunctions: Disorder of pituitary functions, disorders of thyroid and parathyroid function, disorders of adrenal cortex, disorders of pancreatic hormone secretion.
- Problems that interfere with locomotion: Poliomyelitis, osteomyelitis, kyphosis, lordosis and scoliosis, rheumatoid arthritis.
- Children with developmental problems: Handicapped children, multiple handicapped children, mental retardation.
- Communication disorders- hearing, vision, impairment, deaf and blind children.

Unit VIII Welfare of Children

- Child welfare services, agencies, balwarie, anganwarie, day care centres, midday meal programme.
- Welfare of delinquent and destitute children.
- Programme and policies for welfare of working children.
- National child labour policy
- Child Act, Juvenile Justice Act.
- Internationally accepted rights of the child.

**SUBJECT OUTLINE FOR
INTERNSHIP**

**EDUCATIONAL METHODS & MEDIA FOR
TEACHING IN PRACTICE OF NURSING**

Hrs. 45

Course Description

This course is designed to introduce the students to the concept of teaching as an integral part of nursing, its relationship to nursing process and also the importance of effective communication in nursing.

General Objectives

Upon completion of this course the students will be able to :

1. Explain the concept of teaching in changing the behaviour of the client.
2. Describe techniques used for teaching clients.
3. Describe the use of different media in teaching and effective communication.

Course Content**Unit I Introduction**

- Meaning, aims and purposes of education.
- Meaning of teaching and learning
- Principles of teaching and learning
- Teaching responsibilities of a nurse.
- Methods of teaching, methods of clinical teaching.
- Preparation of teaching plan.

Unit-II Media

- Definition, purposes and types of media.
- Preparation and use of audio-visual aids: graphic aids, printed aids, three dimensional aids, projected aids .
- Limitations, advantages and uses of different types of media.

Practical work

Students will organize teaching in the wards/clinics using nursing process approach and prepare variety of audio-visual aids to implement their teaching either individually or in groups. Students will also submit written teaching plan to the concerned teacher of selected clinical area.

INTRODUCTION TO RESEARCH**Hrs 40****Course Description**

This course is intended to develop fundamental abilities and attitude in the students towards scientific methods of investigation and utilization of research finding so as to improve practice of nursing .

General Objectives

Upon completion of the course the students will be able to :

1. Describe the need of research in the practice of nursing.
2. Describe scientific methods of investigation used in nursing.
3. participate in small and large research activities of the hospital/unit/ward/community.

Course content**Unit I Introduction**

- Definition/meaning of research.
- Steps in scientific methods.
- Need for nursing research.
- Characteristics of good research.

Unit II Introduction to research process

- Statement of research problem.
- Statement of purposes and objectives.
- Definition of research terms.
- Review of literature.

Unit III Introduction to research approaches.

Types, methods, advantages and disadvantages of each method.

Unit IV Introduction to data collection process

- Data collection
- Instruments of data collection.
- Characteristics of data collection.
- Techniques of data collection

Unit V Introduction to analysis of data

- Tabulation
- Classification and summarization.
- Presentation and interpretation of data using descriptive statistics.

Unit VI Writing of report**Unit VII Introduction to Statistics****Unit VIII Application and Utilization of Research in Nursing Practice****Practical work**

Students are to read research literature in the library of the school and participate in or assist in conducting scientific investigation in any health care setting with the help of the teacher and submit a written report of the investigation in group of five to six, to respective teacher of selected clinical area.

PROFESSIONAL TRENDS AND ADJUSTMENT

Hrs 40

Course description

This course is designed to help students develop an understanding of the career opportunities available, limitations of nursing profession professional development.

General Objectives

Upon Completion of this course the students will able to:

1. Describe nursing as a profession and the criteria of a profession.
2. Identify various professional responsibilities of a nurse.
3. Describe various professional organizations related to nursing and health.
4. Identify the need for in-service and continuing education in nursing.
5. Demonstrate skills in application of knowledge of professional etiquettes in the practice of nursing in any health care setting.

Course Content

Unit I Introduction to nursing as a profession

- Definition and criteria of nursing profession.
- Evolution of nursing profession in India.
- Educational preparation of a professional nurse.
- Qualities/characteristics and role of a professional nurse.

Unit II Professional ethics

- Meaning and relationship of professional ethics and etiquettes.
- Code of ethics for nurses, I.C.N code of ethics and Nightingale pledge.
- Procedure for employment: locating a position, applying and accepting a position, resignation from a position.

Unit III Personal and professional growth/ development.**(a) Continuing Education**

- Meaning and importance of continuing education.
- Scope of continuing education.
- Planning and financing for continuing education.
- In-service education: definition needs participation.

(b) Career in Nursing

- Opportunities available in hospital, community, teaching and other related special organization.
- International influence and aid.
- Nursing in the future.

Unit IV Legislation in Nursing

- Purpose and importance of laws in nursing, legal terms.
- Common legal hazards in nursing.
- Health laws and regulations affecting nurses in India at different levels: Center and State. Consumer protection bill and its impact in nursing practice.
- Fundamental conduct and service rules and institutional rules.
- Regulation and reciprocities.

Unit V Professional and related organizations

- Professional organization: Trained Nurses association of India, Student Nurses association, International Council of nurses (ICN) Indian Nursing Council (INC) , State Nursing Councils, Commonwealth Nurses federation, Nurses Lihue of Christian Medical Association.
- Related Organizations and their contribution to Nursing: World Health Organization, Red Cross, St. John's Ambulance, UNICEF, World Bank,

ADMINISTRATION AND WARD MANAGEMENT

Hrs-45

Course Description

This course aims at giving the student an elementary understanding of basic principle of administration and its application to the management of ward and health unit.

General Objectives

Upon completion of the course the students will be able to:

1. Describe the meaning and principle of administration.
2. Apply the principle of administration in practice of nursing in various health care settings.
3. Plan the nursing service in the ward and community health settings.
4. Describe the importance of good administration in the day to day nursing service in varied health care settings.

Course Content

Unit I Introduction

- Meaning and philosophy of administration and management and their significance.
- Elements and principles of administration.

Unit II Planning: Aims, Principle, methods and types

Unit III Organization: Command, Co-ordination and control, Delegation, Staffing and Budgeting

- Definition, aims principles and techniques
- Preparation of organizational chart of a hospital ward primary health center, sub center.
- Policies of the hospital and of the various department of the hospital.

Unit IV Administration of a hospital unit and ward

- Administration of ward / unit/health center, physical layout, safety measures, prevention of accident and infections, legal responsibilities of a nurse.

Personal Management

- Job description, job specification, Job analysis, and job sanctification.
- Staff development and staff welfare.
- Leadership styles, Democratic leadership.

Management of Equipment and supplies

- Maintenance of supplies and equipment.
- Handling over and taking over of inventory.
- Indent and ordering of supplies and equipment.
- Problem solving : Process and approach, step and methods of dealing of supplies and equipment.
- Problem solving: process and approach, step and method of dealing with complaints of patients and other health team members.
- Record and reports: meaning, type of records and reports maintained in the ward, importance and use of records and reports. Records and reports maintained in Primary Health Center and Sub-Center.

Practical work

Student will work in ward / health center with Ward Sister/Public Health Nurse assisting her in carrying out her duties, to get experience in maintain ward inventory supplies, preparation of duty roster and solving problems. Students will also get experience of working in the hostel kitchen, clinics and in camps organized by the hospital.

Group Project

Project are to be undertaken by individual or group of student in related fields on a selected topic or problem and solving the problem by using problem solving technique and submitting a written report of the same to the concerned teacher in the selected clinical area. This experience may be planned as part of the experience in various clinical areas and proper experience record should be maintained.

HEALTH ECONOMICS

Hrs-20

Course Description

This course will help student to understand the basic concept of economics, health economics, the relationship between health and economic development, demand and supply, concept of cost and financing system of health care services in India . This will enable them to appreciate financial aspects of health care services.

General Objectives

Upon completion of this course, the students will be able to:

1. Explain the meaning of economics and health economics.
2. Analyse the relationship between health and economic development ..
3. Explain the concept of demand and supply.
4. describe the structure of health care industry and characteristics of market for health care. service
5. Analyse the concept of cost in health care.
6. Discuss financing system of health care services in India.

Course Content

Unit I Introduction to Economics

- Definition and meaning, dimensions of economics, positive and normative economics.

Unit II Introduction to Health Economics

- Concept of Health Economics.
- Focus of health economics.
- Areas of health economics.
- The economics of health and health care service Health and economic development

Unit III Costs of Health Care

- Concept of cost, types of costs.
- Opportunity cost, total fixed and variable cost, average marginal and sunk costs, cost benefit, cost effectiveness.

Unit IV Demand and Supply in Health Care

- Concept of demand, need, supply, input, output, production function, industry and market.
- Structure of health care industry.
- Characteristics of health care services marked:
- Demand side and supply side.

Unit V Financing of Health Care in India

- Financing system and allocation
- Sources of financing of health care services.
- Health plans and outlays, the relative role of state and central government on financing of health care services.
- Factors influencing the state's ability to finance health care services.


T. Dileep Kumar
President